

DAMAGE BOOK

* अनुवादक । *

अथवा
वाग्व्यवहारादर्श



18.02

3 A

स्त्री एम. ए. एम. ओ. एल.

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_184409

UNIVERSAL
LIBRARY

Osmania University Library

121875
121875

Accession No

121875

is book should be returned on or before the date last
below.

1950

अनुवाद-कला

अथवा

वाग्व्यवहारादर्श

प्रणेता

श्रीचारुदेव शास्त्री, एम्. ए., एम्. ओ. एल्.,

अध्यक्ष संस्कृत विभाग

श्री दयानन्द कालेज, अम्बाला

प्रकाशक

मोतीलाल बनारसीदास

प्राच्य पुस्तक विक्रेता

पोस्ट बक्स ७५, चौक, बनारस ।

प्रकाशक :—

मोतीलाल बनारसीदास

मैनेजिंग प्रोप्राइटर,

सुन्दरलाल जैन

पोस्ट बक्स ७५, चौक, बनारस

(सर्व अधिकार सुरक्षित है)

मुद्रक :—

जानकी शरण त्रिपाठी

सूर्य प्रेस, बुलानाला,

काशी ।

सब प्रकार की पुस्तकें निम्नलिखित स्थानों से मिल सकती हैं :—

१. मोतीलाल बनारसीदास, चौक, पोस्ट बक्स ७५, बनारस
२. मोतीलाल बनारसीदास, किनारी बाजार, दिल्ली
३. मोतीलाल बनारसीदास, बांकीपुर, पटना

The Art of Sanskrit Translation
or
A Mirror to Sanskrit Usage

By

Prof. CHARU DEVA SHASTRI

M. A., M. O. L.,

Head of the Department of Sanskrit,

D. A. V. College, Ambala

Published by

MOTILAL BANARSI DASS,

Post Box 75, Chowk,

Banaras.

First Edition]

1950

[Price Rs. 2/8/-

Published by
MOTILAL BANARSI DASS
Mg. Proprietor
SUNDARLAL JAIN
POST BOX 75, CHOWK, BANARAS.

[All Rights Reserved]

Printed by
JANAKI SHARAN TRIPATHI
Surya Press, Bulanala
BANARAS

All kinds of Books are available from :—

- 1. Motilal Banarsi Dass, Post Box 75, Chowk, Banaras.**
- 2. Motilal Banarsi Dass, Kinari Bazar, Delhi.**
- 3. Motilal Banarsi Dass, Bankipore, Patna.**

PREFACE

The present work has been written in response to the persistent demand of our students. There is no suitable book on Sanskrit translation in the market. This is the general feeling amongst the teachers and the students.

In writing this book, our chief aim has been to instruct the student in the true idiom of Sanskrit. It is needless to emphasize that it is not so easy to preserve the idiom in translation. Mere grammatical correctness is not the same thing as idiom. A sentence grammatically faultless may be hopeless from the standpoint of idiom. We have constantly kept an eye on grammatical correctness too, which is admittedly, the minimum demand of a language. In order that the Sanskrit he offers in translation be a genuine coin, the student must critically study the established Sanskrit usage. To help him in this task, we have noticed in the Introduction the recognized forms of expression for various ideas and discussed at length a number of things in the light of recorded evidence. At places (in the Introduction and Foot-notes) we have tried to trace the origin and development of certain idiomatic terms. The student's attention is particularly invited to the section on *Kāraka* in the Introduction.

The book has been divided into four Sections (अंशः). The first Section deals with the Concord of the Substantive and the Adjective; Adverbs, Pronouns and Numerals. This would give the student a good grounding in the Declension of the various bases and a precise knowledge of the use of the Adverbs and the Numerals.

The second Section deals with the Verbs and explains and illustrates the various uses of the Tenses and the Moods and brings out some of the very peculiar and interesting usages. Since our object is to teach the language rather than its grammar, we could not restrict the student's choice of roots. Roots, therefore, have not been specified. The student is left free to make his own choice of roots which give easier and sweeter verbal forms. It also treats of some of the complex verbal formations such as the Desiderative and the

Causative. Besides it has a dozen Exercises on Prepositional Verbs whose value cannot be over-emphasized. Here we have selected twelve roots of every day use and have illustrated their uses with different prepositions. This will save the student from the bother of memorising the paradigms of many roots and at the same time make his expression elegant. Incidentally he would also know that roots take some prepositions and not others.

The third Section treats of the cases, the Indeclinables, the Compounds, the Taddhita and कृत्य suffixes. We have divided the Cases into कारक विभक्तis and उपपद विभक्तis—this is not done even in books on grammar. This will give the student a better grasp of the subject than the usual promiscuous treatment. There are few Exercises on the Compounds. These will give him sufficient practice in the formation of Compounds and enlighten him as to their proper sphere. He is also referred to the Section on Compounds in the Introduction. The Taddhita formations which are ordinarily neglected—and which give us so many of our Nouns and Adjectives—have been duly noticed.

The fourth Section embodies miscellaneous Exercises. First come miscellaneous sentences of all sorts. Then follow some Dialogue on current topics. These are, in turn, followed by passages and short stories. Some of them are couched in the highly idiomatic Hindi, which are a trial for the translator.

Choice of Sentences. The first ... Exercises are all our own Composition. They are carefully graded. In constructing sentences we have taken care to see that every sentence makes some sense, it has its own purpose and interest; it stirs a noble sentiment and provokes a new thought. When translated into chaste Sanskrit, it must either add materially to the knowledge of the student or make it precise where it is vague. This would be clear from the study of the very first few pages of the book. A very large number of these sentences are drawn from every day talk and touch on current topics. The same principle has dominated our Selection of pieces. A glance at the stories and passages in Section IV will give you an idea of their refreshing variety. The head-lines will give you a foretaste of the delectable humour, interest, wisdom and thought that they are replete with.

Hints. Each one of the Exercises in all the four Sections is followed by "Hints"—a novel feature. Here we have tried to help the student by rendering for him several difficult lines from the Exercises, into Sanskrit. Besides obviating his difficulties, this would set a standard for him which he can well hope to attain by constant endeavour. In our renderings we have observed Saṁdhi uniformly, for we could not do otherwise. (For our reasons, see the Section on Saṁdhi in the Introduction). Forms which are a bit difficult, have been explained within the brackets. We have taken particular care to point out the ungrammatical and unidiomatic constructions that the student is likely to offer. We have also indicated at places what makes for grace in a sentence. Some light on the peculiar uses of the tenses is also thrown for the first time.

Footnotes. Copious footnotes are another feature of this work. These give Sanskrit equivalents for Hindi words and phrases and sometimes renderings of parts of sentences. In the first Section we have given synonymous Nouns in their crude form with gender and verbs in their usable forms in the various tenses and moods. In the Second Section which treats of Verbs, we have noted synonymous roots with their conjugational groups. The student should himself look for the required verbal forms. All that he need know is given here and this obviates the necessity of a Glossary at the end.

Appendix. The book has a very important Appendix. It gives the Sanskrit original of all the sentences marked with an asterisk * in the Exercises. These sentences are culled from the writings of standard classical writers and rendered into Hindi for re-translation. It is vain to improve upon the Sanskrit original. The student should try to assimilate these choice expressions of the great classical writers. This is one of the best ways to learn a language and build up a style.

The book, if introduced in Arts Colleges and the Sanskrit Vidyalayas, is bound to give a fresh impetus to Sanskrit studies and raise the standard of efficiency of the student. It will not only serve as a guide to Sanskrit translation but also as a mirror to Sanskrit usage.

If the learned teachers of Sanskrit and other scholars of the language appreciate this work as a contribution, howsoever humble, to a critical study of Sanskrit, I shall consider my labours

amply repaid. If after a careful study of the book they find that certain statements made by me are open to question, they would kindly intimate me all such cases and I shall take the very first opportunity to elucidate my view point.

The book has been printed at Banaras, and I could not do proof-reading as desired. A number of misprints have crept in and they have been corrected in the Errata at the end. Readers are requested to refer to this Errata whenever they are in doubt about the correctness of a reading. In the abnormal days through which we are passing, printing could not be anything but abnormal. The type used is old and the syllabic instants (मात्राs) are in particular, worn out. These may be supplied by the reader, wherever they are lost.

D. A. V. College }
AMBALA. }
12th March, 1950

Charu Deva Shastri



किञ्चित् प्रास्ताविकम्

अथ कोऽयमनुवादो नाम । न तावत्पूर्वमुगात्तस्याभिधेयस्याभिधानस्य वा प्रयोजनवान्पुनरुपन्यासोऽत्र विवक्षितः । पश्चाद्वादानुवादे द्वैतीयिकः प्रयोग इति सत्यपि योगसम्बन्धेऽस्ति ह्यस्य शब्दस्यार्थान्तरे रुढिराधुनिकः संकेत इति वा । किमिदमर्थान्तरमित्याकाङ्क्षायाऽनुच्यते—ऋतिभूतस्य कस्यचिद् वाग्विन्यासस्य परत्र बोधसंक्रान्तये प्रवृत्ता भाषान्तरपदात्मिका बिम्बप्रतिबिम्बभावमजहती व्यवहारमनुपतन्ती तद्गतार्थं साकल्यं समर्पयन्प्रनुकृतिरनुवादः । तेन प्रकृतौ यावान् यादृशचार्योऽभिधेयादिर्यादृगिभरेः पदः सुसिद्धन्तैरसमस्तैः समस्तैस्तद्विधानैर्वा प्रत्याययतेऽनुकृतौ यदि तावांस्तादृशस्तादृगिभरेव पदैः प्रत्याययते तर्हि चारितार्थ्यमनुवादस्य नेतरथेति लक्ष्यगतेन विम्बप्रतिबिम्बस्याद्विविशेषणं द्योत्यते । तेनैव च सन्दर्भविशेषस्य यद् भाषान्तरव्याख्यानमात्रं तद् व्यवच्छिद्यते । अनुवादे शिष्टव्यवहारेऽपि सम्भवधेयम् । स च व्यवहारो भाषासु नैकविधो यथायथं वेदनीयः । व्यवहारातिक्रमो हि दूषयति वाचम् । अव्यवहृता च वाग् इदम्प्रथमतया प्रयुज्यमाना नाद्रियते लोके इत्यतोऽनीषत्करोऽनुवाद्दो विशेषज्ञैः किमुत यत्किञ्चनज्ञैः । गद्यं कवीनां निकषं वदन्तीति कविभ्यतिरवितथा स्यात् । प्रयोगचणानां भाषामर्मज्ञानामनुवाद एव परा परीक्षेत्यविसंवादी वादः । गुरवोऽप्यत्र साशङ्कं प्रवर्तन्ते कैव कथा शिष्याणाम् ।

मन्ये काचिदजिह्वा राजपद्मतिरत्र प्रस्तवनीया यथाऽनन्तरायं प्रवृत्ताश्छात्राश्चिरेणैवेत्पितृमातृपुत्रुवाद्दरहस्यं चारुजयेयुः । हममेवार्थमनुसन्धायाऽनुवादकलेयमस्माभिः प्राणायि । कया रीत्योपन्यस्तोर्थोऽप्राभ्यो भवति, कैः पदैरर्पितोऽयं मधुरतर आपवति मनसः श्रवणयोश्च, केन च क्रमविशेषेण सन्देहो मुदमावहति शिष्टस्य लोकस्य, कथं च भाषान्तरैरानुसन्धमान उक्तचरोर्धस्तन्मुद्रां नातिथातीति निदर्शयितुमेव प्रवृत्ता वयम् । आधुनिकाः शिष्टैरननुगृहीताः केचन वाचां मार्गा अनारथेया भवन्तीत्यपि निदर्शयिष्यामः । एतदर्थमिह विषयप्रवेशो नाम ग्रन्थैकदेशः प्रखीनः । तत्र च विनेतृणां विनोदाय विनेयानां च प्रबोधाय बहून्कारकं सुजातं च वेद्यज्ञातमुपन्यस्तम् । वदित् दिङ् मात्रमुदाहरामः । तीन दिन से मेह बरस रहा है—अस्य वाक्यस्येदमेव संस्कृतं शिष्टजुष्टम्—(अथ) त्रीणि वासराणि वर्षति देवः । अत्रार्थं रघुवंश गद्यम्—इयन्ति वर्षाणि तथा सहोममभ्यस्यतीव व्रतमासिधारम् इति वाक्यं प्रमाद्यम् । अथ कतिपयान्यहानि नैवागच्छति । अथ बहूनि दिनानि

नात्रर्तते इति शोभयाभिसारिकायां धूर्तविटसंवादे च । वासराणीत्यादिषु द्वितीयाऽत्यन्तसंयोगे । कालोह्यत्र वर्तमानकालिकया क्रियया साकल्येनाभिव्यास इति तदुपपत्तिः । केचिदुक्तार्थेऽद्य त्रीणि वासराणि वर्षतो देवस्येति संस्कृतं साधु पश्यन्ति । तन्न । अत्रानुकृतौ कालः प्रधानं त्रिया चोपसर्जनम् । वर्षखं हि कृत्प्रत्ययेन शता कालसम्बन्धितयोक्तमिति व्यक्तमप्रधानम् । मूलहिन्दीवाक्ये तु विपर्ययेयार्थोपन्यास इति बिम्बप्रतिबिम्बभावमजहतीति पूर्वोक्तं लक्षणं नान्वेति ।

इदं चापरमेतज्जातीयकं विमृश्यम् । 'छः महीने पूर्वं एक भीषण भूकम्प आया,' 'महमूद् ने भारत पर एक हजार वर्ष पूर्व आक्रमण किया' तथा 'पिछले पक्ष में मूसलाधार वृष्टि हुई' इत्यमीषां वाक्यानां किंरूपेणाञ्जसंन संस्कृतेन भवितव्यमिति । केचिदिमान्तीर्थं परिवर्तयन्ति संस्कृतेन—इतः षण्मासान्पूर्वं बलवद्भूरकम्पत, इतो वर्षसहस्रं पूर्वं महमूदो भरतभुवमाचक्राम । इतः सप्ताहद्वयं पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः । अपरे इतःष ड्भ्यो मासेभ्यः पूर्वं बलवद् भूरकम्पत । इतो वर्षसहस्रात्पूर्वं महमूदो भरतभुवमाचक्राम । इतः सप्ताहद्वयात्पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः । इतरे च—षण्मासा अतीता यदा बलवद् भूरकम्पत । वर्षसहस्रमतिक्रान्तं यदा महमूदो भरतभुवमाचक्राम । सप्ताहद्वयं गतं यदा धारासारैरवर्षद् देव इत्येवमुक्तमर्थमनुवदन्ति । सर्वोयं प्रकारो दुष्ट इति नाभिनन्दनीयो विदुषामिति संग्रहेणोपापादयामः—प्रकारत्रितये प्रथमः प्रकारस्त्वापाततोप्यरम्यः सुतरां च जघन्यः । इह षण्मासानित्यादिषु यथा प्रथमाऽनन्वयिनी तथा द्वितीयाऽपि । द्वितीया ह्यत्यन्तसंयोगे विहिता, स चात्र नेष्टः, तेन कुतोत्र द्वितीया सूपपादा स्यात् । सर्वथानन्वितं पदकदम्बकमिहोपन्यस्तमिति वाक्यमपि न भवति, मूलानुकारिता तु वृत्तापेता । द्वितीयस्मिन्प्रकारे इतः षड्भ्यो मासेभ्यः पूर्वमित्यादि यद्यपि सर्वथा संस्कारवद् व्याकरणानुगतं च तथापि विवक्षितार्थं नार्पयतीति नैषानुक्तिरनवद्या भवति । इदमत्रावद्यम्—मूले समबस्यैकोऽवधिरभिप्रेतः संस्कृतच्छायायां त्ववधिद्वयं व्यक्तमुदितम्भवति । यश्च क्रियाविशेषाभिव्यासः कालोऽत्यगान्नासौ परिच्छिन्नः । अत्र वाक्येषु त्विदमादिरर्थो विस्पष्टः—भूकम्पादिव्यतिकरो नामातीते मासषट्कादौ काले नाभूत्, ततः पूर्वं कदाऽभूदिति न सुज्ञानमस्ति । वक्तुश्च नैषा विवक्षेत्ययमपि प्रकारो हेयः । तृतीयस्मिन्प्रकारे पि दोषं विभावयन्ति विज्ञाः । अत्र पूर्वत्र वाक्ये कालात्ययो निर्दिष्टः स किमवधिकः किंक्रियापेक्ष

इति च नोक्तम् । उत्तरत्र च क्रियोक्ता स्वातन्त्र्येण न तु पूर्ववाक्यगतकालावधि-
त्वेन । तेनोभयोर्वाक्ययोरवश्यवधिमद्भावो नावगतो भवति । स च मूलवाक्ये
भिसन्धिस्सितो वक्त्रेति दूरं सान्तरे छाया च मूलं चेति न दुरवधारं सुधीभिः ।

तेनापहाय दुष्टमेतत्प्रकारत्रयं निदुष्टमिदं प्रकारत्रयं परिगृह्णन्तु सन्तः—

(१) अथ षणमासा भुवः कम्पितायाः । अथ वर्षसहस्रं महमूदस्य भरतभुव-
माक्रान्तवतः (अथवा महमूदेन भरतभुव आक्रान्तायाः) । अथ सप्ताहद्वयं
धारासारैर्वृष्टस्य देवस्य । (२)—अथ षष्ठे मासि बलवद् भरकम्पत । अथ
सहस्रतमे वर्षे महमूदो भरतभुवमाचक्राम । अथ चतुर्दशे दिवसे धारासारैर-
वर्षद् देवः । (३)—इतः षट्सु मासेषु बलवद् भरकम्पत । इतो वर्ष सहस्रे
महमूदो भरतभुवमाचक्राम । इतः सप्ताहद्वये धारासारैरवर्षद् देवः । इह प्रथमे
प्रकारे षणमासाः, वर्षसहस्रम्, सप्ताह द्वयमित्यतीतं कालं परिच्छिन्दन्ति । तत्र
च सर्वत्रातीताः सन्तीत्यादेः क्रियाया गम्यमानायाः कर्तृतया प्रथमान्तानीमानि
निर्दिष्टानि । भुव इत्यादौ षष्ठी शैषिकी । अद्येति त्वस्मादह्न इत्यर्थमाचष्टे
ऽधिकरणवृत्तिरपि । तथा च शिष्टप्रयोगः—अद्य प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दास
इति । द्वितीयस्मिन्प्रकारे न बहु वक्तव्यमस्ति । षष्ठे मासे इत्यादौ सप्तमी भाव-
लक्षणा शैया । अयं च विन्यासः कुन्दमालागतेन अथ सप्तमे दिवसे संपतित-
भिस्तपोवनवासिनीभिर्विज्ञापितो भगवान् वाल्मीकिः (चतुर्थाङ्कादौ) इति
ग्रन्थेन समर्थितो वति । तृतीये खलु प्रकारे इत इति पञ्चम्यर्थे तसि-
प्रत्ययान्तः । पञ्चमी च यतश्चाष्टकालनिर्माणं तत्र पञ्चमीति वार्तिकेन
कालमाने विहिता । षट्सु मासेष्वित्यादौ सप्तमी तु कालात्सप्तमीति वचना-
नुसारिणी । अत्रान्त्ये प्रकारे शाबरभाष्यमपि प्रमाणम्—प्रतीयते हि गाढ्यादिभ्यः
सास्नादिमानर्थः । तस्मादितो वर्षशतेष्वस्यार्थस्य सम्बन्ध आसीदेव, ततः परेण
ततश्च परतरेखेत्नानादितेति । प्रकार त्रितयमप्येतदेषषीयं प्रणयने परीवर्ते वा वाचाम् ।

इदं चेह विवेच्यं किमेते प्रकाराश्छन्दतो यत्र तत्र शक्या आस्थातुमुत
यथास्वं प्रतिनियतविषया अमी इति । अन्त्यं प्रकारद्वयं तु कामतो यत्र तत्र
शक्यं प्रयोक्तुम् । उभययोच्यमानैर्न दोषः कश्चित् प्रादुःभ्यात्, न वा
किञ्चिदाकुलं स्यात् । प्रथमः प्रकारस्तु क्वचिदेव संगतः स्यात् । तत्र हि काल-
विशेषायातिक्रान्तस्य विशेषणीभूता क्रिया कृतप्रत्ययान्तेन षष्ठ्यन्तेनोच्यत इति
कालापेक्षया तस्याः प्रत्यक्ता गौणता । तस्माद्यत्रैवविधः क्रियाकालयोर्गुण-
प्रधानभावोऽभिप्रेयते तत्रैवैष प्रकार औपधिको नेतरत्र । यत्र तु क्रिया

प्राधान्येन विवक्ष्यते तिहा षोच्यते तत्र कालनिर्देशः ससम्भैव युक्त इति प्रकारद्वयमन्त्यमेव तत्र साम्प्रतम् ।

इतो व्यतिरिक्तमपि प्रकारान्तरं सम्भवति । इतः षड्भिर्मासैः पूर्वं भूरकम्पत । इतो वर्षसहस्रेण पूर्वं महमूदो भतभुवमाचकाम । इतः सप्ताहद्वयेन पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः । अत्र वाक्येषु वर्ष-सहस्रेष्वेत्यादिषु या तृतीया साऽऽकमखादिक्रियायाः पौर्व्यावधिम-वच्छिनत्ति । मासपूर्वः, वर्षपूर्व इत्यादयः समासाः पूर्वसदृशसमोनार्थ-कलहनिपुणमिश्र शब्दैरिति शास्त्रेणाभ्यनुज्ञायन्ते । समासविधानाच्च जिह्वान्मासेन पूर्वं इति वाक्येषु पूर्वशब्दयोगे तृतीया साध्वीत्यास्थीयते । तेन मत्तो नवभिर्मासैः पूर्वो देवइत्त इति दोषलेशैरस्पृष्टं वचः । इदमत्र तत्त्वम् । पूर्वशब्देन योगेऽस्मिन् शब्दात्पञ्चमी तेनैव च योगे मासशब्दात्तृतीया । अवध्यर्थे पञ्चमी, अवच्छेदे तृतीयेति विभक्तिभेदः । यदि मासेन पूर्वं इति निरस्तसमस्त-दोषः प्रकारस्तर्हि षड्भिर्मासैः पूर्वं भूरकम्पतेत्यादि कथं दोषास्पदं स्यात् । अत्र पूर्वमिति कम्पन क्रियां विशिनष्टि मासैरिति च पूर्वतां क्रियाया अवच्छिनत्ति । नात्र दोषस्तोर्कं विभावयामः । अग्रहत एष वाचां पन्था इति न शिष्यान्परि-ग्राहयामः । सर्वथा निरवद्योप्ययं प्रकारो न तावत्प्रमाणकोटिं निविशते यावन्न शिष्टप्रयोगैः समर्थनां जमते ।

अत्र क्रियान्पथंशो विषयप्रवेशात्समुद्भूत्य संस्कृतेनोपनिबद्धः प्रोचये-
देष सद्सद्विवेचनचक्षानिति । हिन्दीवाचा तत्र बहवश्चिन्तित्वा अर्थाः,
हिन्द्यां चारुचि विदुषां प्रायेणेति ते समुपेक्षेरन्निति भीरेव नोऽनल्पा प्रयुक्ते ।
यदि चास्माभिश्चिन्तित व्यवसितेतस्मिंस्तस्मिन्नर्थे विद्वज्जनदृक्पातातानुग्रहोपि
न स्यात्, का नाम सार्थकताऽस्मत्प्रायासस्य स्यात् ।

इदं च तेऽभ्यर्था महाभागाः—यदि मयाऽभ्युपगते क्वचिदर्थे विसंवादः
स्यान्मदुक्तमप्रमाणमिति वाऽयथार्थमिति वाऽनुपपन्नमिति वा बुद्धिदिया-
त्तदावश्यं तत्तदावेद्य तत्र तत्र दोषमुद्गाभ्य भूयोनुप्राद्योयञ्जन इति ॥

यदि तनुरपि तोषो मस्कृतौ नूतनार्यास्त्वसति

इदि बुधानां वागुपासापराभ्याम् ।

यदि च भवति बोधः शैश्वलोकस्य कश्चिद्

नुषदनकलायाः स्यात्तदा धन्यता मे ॥

विदुषामाश्रवश्चारुदेवः शास्त्री ।

ओं नमः परमात्मने ।

नमो भगवते पाणिनेये । नमः पूर्वभ्यः पथिकृद्भ्यः । नमः शिष्टेभ्यः ।

विषय प्रवेश

संस्कृत वाक्य की रचना—प्रायः संस्कृत वाक्य में पदों का क्रम आधुनिक भारतीय भाषाओं के समान ही होता है। अर्थात्—सब से पहले कर्ता फिर कर्म और बाद में क्रिया। उदाहरणार्थ—रामः सीतां परिशिनाय (राम ने सीता से विवाह किया)। विशेषण उन संज्ञा शब्दों के पूर्व आते हैं, जिन के अर्थ को वे अवच्छिन्न करते हैं (सीमित करते हैं) और क्रिया विशेषण उन क्रिया पदों के पहले प्रयुक्त होते हैं जिन के अर्थ को वे विशिष्ट करते हैं (= जिन के अर्थ में वे प्रकारादि विशेष अर्थ जोड़ देते हैं)। उपर्युक्त वाक्य को विशेषणों के साथ मिला कर इस प्रकार पढ़ा जा सकता है—
नृणां श्रेष्ठो रामो धर्मज्ञां सर्वयोषिद्गुणालङ्कृतां सीतां परिशिनाय । क्रिया-विशेषण सहित यही वाक्य इस प्रकार बन जाता है—
नृणां श्रेष्ठो रामो धर्मज्ञां सर्वयोषिद्गुणालङ्कृतां सीतां विधिना * (विधानतः) परिशिनाय । संस्कृत भाषा के शब्द न केवल सामान्यतः परन्तु विशेषतः विकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ वाक्य रचना करते हुए पदों को किसी भी क्रम से रखा जा सकता है। वाक्यार्थ में कुछ भी भेद नहीं होता और न ही बोध में विलम्ब होता है।
आहर पात्रम्, पात्रमाहर । पात्र लाओ । दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है। एवं हम ऊपर वाले वाक्य को रामः सीतां परिशिनाय, सीतां रामः परिशिनाय, परिशिनाय सीतां रामः, परिशिनाय रामः सीताम्, सीतां परिशिनाय रामः—किसी भी ढंग से कह सकते हैं। इन सब वाक्यों में चाहे शब्दों का कोई भी क्रम क्यों न हो 'राम' कर्ता 'सीता' कर्म और 'परिशिनाय' क्रिया ही रहते हैं। ये शब्द सुप् विभक्ति व तिङ् विभक्ति के कारण भ्रष्ट पट पहचाने जा सकते हैं। यह क्रम अंग्रेजी आदि अविकारी भाषाओं में नहीं पाया जाता। इसी वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद में पदों का न्यास क्रम विशेष से करना होगा। प्रथम 'राम', पश्चात् क्रियापद, तत्पश्चात् 'रावण'। 'राम' और 'रावण' के स्थान का

* यह रूप में क्रिया विशेषण न होता हुआ भी अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण ही है।

विपर्यय हो जाय तो अर्थ का अनर्थ हो जाय । हिन्दी में भी अंग्रेजी के समान क्रिया का स्थान निश्चित है । जहाँ हिन्दी में क्रिया वाक्य के अन्त में प्रयुक्त होती है, वहाँ अंग्रेजी में यह 'कर्ता' और 'कर्म' के बीच में आती है । अंग्रेजी में कर्ता और कर्म कभी भी साथ २ नहीं आ सकते । हिन्दी में भी कर्ता और कर्म चाहे साथ २ आ जायें, पर क्रिया वाक्य के प्रारम्भ में बहुत कम आती है । परन्तु संस्कृत में जैसे हम ने अभी देखा है, यह सब कुछ सम्भव है ।

संस्कृत में 'विशेषण' तथा 'क्रिया विशेषण' भी उन संज्ञा शब्दों वा क्रिया पदों के पहले व पीछे तथा मध्य में प्रयुक्त हो सकते हैं जिन्हें वे विशिष्ट करते हैं । क्रिया पद को विशेषण और विशेष्य के बीच में रख कर हम उपर्युक्त वाक्य को इस प्रकार पढ़ सकते हैं—गृणां श्रेष्ठो रासो धर्मज्ञा सर्वयोषिद्गुणालङ्कृतां परिणिनाय सीताम् । इसी प्रकार क्रिया विशेषण का भी प्रयोग हो सकता है । जैसे—“अद्याहं गृह गमिष्यामि या अष्टगृहमद्य गमिष्यामि” । परन्तु यह नियम प्रायः सर्वगामी होता हुआ भी कुछ एक स्थलों में व्यभिचरित हो जाता है । वहाँ क्रमविशेष का ही व्यवहार देखा जाता है । कथा का प्रारम्भ 'अस्ति' या 'आसीत्' क्रिया से होता है । जैसे—अस्यथोध्यायां चूडामणिनाम क्षत्रियः । षष्ठ्यन्त विशेषण का प्रयोग संज्ञा शब्दों से ठीक पहले (अव्यवहितपूर्व) होना चाहिए । अन्य विशेषण समानाधिकरण अथवा व्यधिकरण उसके बाद में आ सकते हैं । उदाहरणार्थ—सर्वगुणसम्पन्नस्तस्य सुतः कस्य स्पृहां न जनयति । इस वाक्य में 'सर्व गुणसम्पन्नः' 'तस्य' का स्थान नहीं ले सकता । 'कस्या प्रकोष्ठे हर्म्यादिः काञ्चयां मध्येभवन्धने' (अमरकोषः) । यहाँ 'मध्येभवन्धने' समास इस क्रम का समर्थक है । पहले षष्ठ्यन्त 'इभ' का बन्धन के साथ समास होता है—इभस्य बन्धनम् इभवन्धनम्, फिर मध्ये (विशेषण) का 'इभवन्धनम्' के साथ समास होता है—'मध्ये इभ बन्धनम् = मध्येभवन्धनम् । समानाधिकरण विशेषण के लिये अमर के 'स्याद्गण्डमशवाभरखेऽमत्रे मूलवणिग्धने' इस वचन में 'मूलवणिग्धने' सुन्दर उदाहरण है । इसका विग्रह भी प्रकृत विषय की यथेष्ट समर्थना करता है—वाणिजो धनं वणिग्धनम्, मूलं च तद् वणिग्धनं चेति मूलवणिग्धनम्, तस्मिन् ।

इसी प्रकार मालविकाग्निमित्र का 'सर्वान्तःपुरवनिताव्यापारप्रतिनिवृत्तहृदयस्य—यह प्रयोग भी उक्त क्रम का समर्थक है । हिन्दी का क्रम 'अन्तः-पुर की सारी स्त्रियों में आसक्ति से हटे हुए चित्त वाले का'—संस्कृत से विपरीत

है। सार्वनामिक विशेषण और षष्ठ्यन्त विशेषणों में षष्ठ्यन्त विशेषणों का ही विशेष्य से अव्यवहित-पूर्व स्थान है—सर्वयोषितां गुणेरलङ्कृता। यही निर्दोष क्रम है, इस में समास रचना भी जापक है—सर्वयोषिद्गुणालङ्कृता। 'योषित्सर्वगुणालङ्कृता' नहीं कह सकते। अर्थात् षष्ठी समास पहले होता है और कर्मधारय पीछे। जब सार्वनामिक और गुणवाचक दो समानाधिकरण विशेषण हों तो सार्वनामिक का स्थान पहला होता है और बाद में दूसरे का—चारूणि सर्वाण्यङ्गानि रमण्याः। समास से यहाँ भी इष्ट क्रम का यथेष्ट समर्थन होता है—'चारुसर्वाङ्गी। सर्व चारुङ्गी' नहीं कह सकते। समानाधिकरण होने पर भी सार्वनामिक विशेषण ही विशेष्य से अव्यवहितपूर्व रखा जाता है। 'परमः स्वो धर्मोऽस्य' इस विग्रह में 'परमस्वधर्मः' ऐसा समास होता है। 'स्वपरम धर्मः'—नहीं कह सकते। 'परमस्वधर्मः त्रिपदबहुव्रीहि समास है।

कई वाक्यों में लौकिक वाक्य के अनुसार शब्दों का क्रम निश्चित सा प्रतीत होता है। जैसे—'अद्य सप्त वासरास्तस्येतो गतस्य'। यहाँ वाक्य का प्रारम्भ 'अद्य' शब्द से होता है। 'अद्य' के बाद व्यतीत हुए समय को सूचित करने वाले शब्द हैं, और इन शब्दों के बाद पुनः षष्ठ्यन्त विशेष्य, नियात, तथा षष्ठ्यन्त विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस प्रान्त की भावा में इस वाक्य से मिलते जुलते शब्दों का क्रम ठीक इसी प्रकार का ही है।

इसी प्रान्त में कई शताब्दियों तक संस्कृत बोल चाल की भाषा थी। यहीं से भारत के अन्य विभागों में संस्कृत का क्रमिक संचार हुआ। इसी लिये वाक्यों की समानता का एक विशेष महत्त्व है। यह समानता ऊपर निर्दिष्ट किये गये क्रम विशेष का समर्थन करती है। इसी प्रकार 'तस्य सहस्रं रजतमुद्राः सन्ति' इस वाक्य के स्थान में 'सहस्रं रजतमुद्रास्तस्य सन्ति' अथवा—'सहस्रं रजतमुद्राः सन्ति तस्य' इस प्रकार का न्यास व्यवहारानुकूल नहीं। 'एवाऽऽयाति ते माता शिशो' के स्थान पर—'शिशो माता त एवाऽऽयाति' ऐसा कहने का प्रकार नहीं है।

इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाक्य के और श्लोक-पाद के प्रारम्भ में प्रयुक्त नहीं किये जा सकते। इस प्रकार के कुछ एक निम्नस्थ अव्यय और अनव्यय शब्द उदाहरण रूप से दिये जाते हैं, जैसे—च, चेत्, तु, पुनर्, इति, खलु †, नाम तथा युष्मद् और अस्मद् के 'त्वा, मा' आदि रूप।

† काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति का "न पादादी खल्वाद्यः"—यह सूत्र भी हमारे कथन के अनुकूल है।

“च” संयोजक निपात है। इसका प्रयोग उन शब्दों के अनन्तर किया जाता है जिन्हें यह परस्पर मिलाता है। अथवा परस्पर जोड़े गये शब्दों में से केवल अन्तिम शब्द के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे—ॐ रामश्च-
लक्ष्मणश्च अथवा—ॐ रामो लक्ष्मणश्च ।

वाक्य में ‘वा’ की स्थिति भी “च” के समान ही है। जैसे—‘नरः कुञ्जरो वा’ अथवा ‘नरो वा कुञ्जरो वा’ व्यवहारानुसार है। हम ‘कृष्णं चेन्नस्यसि स्वर्गं यास्यसि’ के स्थान में ‘चेत् कृष्णं नस्यसि स्वर्गं यास्यसि’ ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ ‘नमस्ते’ शब्द का प्रयोग बिलकुल ठीक है, वहाँ ‘ते नमः’ अत्यन्त अशुद्ध है। युष्मद् और अस्मद् के वैकल्पिक प्रयोगों का ‘च, वा, ह, अह’ और ‘एव’ के साथ वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। एवं जहाँ ‘तव च मम च मध्ये’ व्यवहार के सर्वथा अनुकूल है वहाँ ‘ते च मे च मध्ये’ व्यवहार के ठीक प्रतिकूल है। इसी प्रकार हम ‘तवैव’ का प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु ‘त एव’ नहीं कह सकते। ‘किल’ और ‘जातु’^१ वाक्य के प्रारम्भ में कदाचित् ही आते हैं। एवं ‘अर्हति किल कितव उपद्रवम्’ तथा “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति” ये प्रयोग ठीक माने जाते हैं।

लिङ्ग और वचन—हिन्दी शब्दों के संस्कृत पर्यायों के लिङ्ग का अनुमान छात्रों को हिन्दी वाग्व्यवहार से नहीं करना चाहिए। संस्कृत में लिङ्ग केवल मात्र अभिधान-कोष तथा वृद्ध व्यवहार से जाना जाता है। व्याकरण के नियमों का लिङ्ग निर्धारण में कुछ बहुत उपयोग नहीं। अभिधेय वस्तु का स्त्रीत्व वा पुंस्त्व, तथा चेतनता वा जड़ता का शब्द के लिङ्ग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

ॐ वस्तुतः प्रत्येक समुच्चयमान पदार्थ के साथ “समुच्चय वाचक च का प्रयोग न्याय प्राप्त है, पर वक्ता आलस्यवश केवल अन्त में ही इसका प्रयोग करता है अन्यत्र प्रायः उपेक्षा करता है। पर निश्चित ही “च” की आवृत्ति का प्रकार बढ़िया है।

१ “जातु” कभी कभी वाक्य के आदि में भी आता है इसमें अष्टाध्यायी का ‘जात्वपूर्वम्’ (८।१।४७) सूत्र शापक है।

संस्कृत में एक ही व्यक्ति तथा वस्तु के वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंगों के हैं। जैसे—तटः, तटी, तटम्, (तीनों का अर्थ किनारा ही है), परिग्रहः, कलत्रम्, भार्या (तीनों का अर्थ पत्नी ही है), युद्धम्, आजिः, (स्त्री०) सङ्गरः (तीनों का अर्थ लड़ाई ही है)। कभी कभी एक ही शब्द कुछ थोड़े से अर्थ भेद से भिन्न भिन्न लिङ्गों में प्रयुक्त होता है। अरण्य 'नपु०' (जङ्गल), परन्तु अरण्यानी स्त्री० का अर्थ बड़ा जंगल है। सरस् नपुंसक० (तालाब या छोटी झील), पर सरसी स्त्री० (एक बड़ी झील †)। सरस्वत् पुं० (समुद्र), परन्तु सरस्वती स्त्री० (एक नदी)। गोष्ठ नपु० (गौश्यों का बाड़ा, गोशाला), परन्तु गोष्ठी स्त्री० (परिषद्)। गन्धवह पुं० का अर्थ "वायु" है, गन्धवहा स्त्री० नासिका का नाम है। दुरोदर नपु० का अर्थ जुआ है, दुरोदर पुं० जुआ खेलने वाले को कहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न लिङ्गों के हों। पहले बता चुके हैं, अथवा जैसे—तितउ पुं०, चालनी स्त्री० और परिपवन नपु० (चलनी के संस्कृत पर्यायवाची हैं)। रक्षस् नपु० राक्षस पुं० दोनों ही राक्षस के नाम हैं। किसी शब्द का लिङ्ग मालूम करने में कुछ एक कृत् प्रत्यय भी सहायता करते हैं। जिनका परिचय व्याकरण पढ़ने से ही हो सकता है। छात्रों को सूत्रात्मक पाणिनीय लिङ्गानुशासन अथवा श्लोकबद्ध हर्षवर्धन-कृत लिङ्गानुशासन पढ़ना चाहिये।

विशेषण विशेष्य के अधीन होता है। जो विभक्ति, लिंग व वचन विशेष्य के हों वे ही प्रायः विशेषण के होते हैं। कुछ एक अजहल्लिङ्ग शब्द हैं जो विशेष्य चाहे किसी लिङ्ग का हो, अपने लिंग को नहीं छोड़ते। उन्हें आगे अभ्यासों के संकेतों में निर्दिष्ट कर दिया गया है। यहाँ केवल एक दो

† महत्सरः सरसी गौरादिस्वान्डीष्—क्षीरस्वामी । दक्षिणापथे महान्ति सरांसि सरस्य उच्चन्ते—महाभाष्य ।

⊗ जैसा भाष्यकार ने कहा है लिङ्ग लोकाश्रित है। इसका विस्तृत तथा सम्यग्ज्ञान लोक से ही हो सकता है और अब जब कि संस्कृत व्यवहार की भाषा नहीं लिङ्ग-ज्ञान कोष से और साहित्य के पारायण से ही हो सकता है। स्थूणा स्त्रीलिङ्ग है पर गृहस्थूण नपु० है। ऊर्णा स्त्री० है पर शशोर्ण नपु० है। इस विषय में व्याकरण शास्त्र में कोई विधान नहीं ।

अनूटे प्रयोगों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। “दुहिताच कृपणं परम्” (मनु० ४ । १८५॥)। यहाँ विशेष्य दुहिता स्त्रीलिङ्ग है और विशेषण “कृपणं” नपुंसक है। अग्निः पवित्रं स मा पुनातु (काशिका), ‘आपः पवित्रं परमं पृथिव्याम्’ (वाक्यपदीय में उद्धृत किसी शाखा का वचन)। यहाँ पवित्र भिन्न लिङ्ग ही नहीं, भिन्न वचन भी है। प्राणापाशौ पवित्रे (तै० सं० ३. ३. ४. ४)। प्रतिहारी (प्रतीहारी) स्त्री० शब्द द्वारपाल पुरुष के लिए भी प्रयुक्त होता है (और स्त्री द्वारपालिका के लिए भी)। द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे (अमर)। इस वचन पर टीकाकार महेश्वर का कथन है—अयं पुंव्यक्तावपि स्त्रियाम्। इसी प्रकार बन्दी अथवा ‘बन्दि’ स्त्री० (स्त्री अथवा पुरुष के लिये समान शब्द है)। ये कैदी हैं—इमा बन्दयः, इमा वन्द्यः। जन पुं० का प्रयोग स्त्री भी अपने लिए कर सकती है और पुरुष भी। अयं जनः (= इयं व्यक्तिः)। परिजन और परिवार—दोनों पुँल्लिङ्ग हैं पर नौकर नौकरानियों के लिये एक समान प्रयुक्त होते हैं। ‘शिवा’ (स्त्री०) गीदड़ और गीदड़ी के लिये एक समान प्रयुक्त होता है। अयं शृगालेऽपि स्त्रीलिङ्गः—क्षीरस्वामी। ‘होत्रा’ ऋत्विक् का पर्याय है पर नित्य स्त्रीलिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है। ‘स्व’ आत्मा अर्थ में पुँल्लिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है—सा स्वस्य भाग्यं निन्दति।

कुछ एक प्राचीन भाषाओं के समान संस्कृत में तीन वचन हैं। हिन्दी के बहुवचन के लिये (जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं का निर्देश करना हो) हम संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग न कर द्विवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे—‘मेरा भाई और मैं आज घर जा रहे हैं’। हिन्दी के इस वाक्य में ‘जाना’ क्रिया के कर्ता दो व्यक्ति हैं तो भी क्रियापद बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। पर संस्कृत में द्विवचन ही होगा—मम आताऽहं चाद्य गुहं प्रति प्रयास्यावः। इसी प्रकार ‘मैं थका हुआ हूँ मेरे पाश्र्वों आगे नहीं बढ़ते’, ‘उसकी आँखें दुखती हैं’ इन वाक्यों के संस्कृतानुवाद में पाश्र्वों और आँखों के दो २ होने से द्विवचन ही प्रयुक्त होगा—श्रान्तस्य मे चरणौ न प्रसरतः। तस्याक्षिणी दुःख्यतः। इतना ही नहीं, किन्तु चक्षुस्, श्रोत्र, बाहु, कर, चरण, स्तन आदि अनेक जन सम्बन्धी होने पर भी प्रायः द्विवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस विषय में वामन का वचन है—स्तनादीनां द्वित्वाविष्टा जातिः प्रायेण। जैसे—इह स्थितानां नः श्रोत्रयोर्न मूर्च्छति तूर्यनादः। चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः’। एक व्यक्ति

चाहे वह राजा हो चाहे रङ्ग, अपने लिये 'अस्मद्' के बहुवचन का प्रयोग कर सकता है, और दो का भी अपने लिये बहुवचन का प्रयोग शास्त्र-संमत है। जैसे—वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः। (भर्तृहरि)। यह एक कवि का राजा के प्रति वचन है। संस्कृत में कुछ एक शब्दों के एकवचनान्त प्रयोग को अच्छा समझा जाता है। चाहे अर्थ-बहुत्व विवक्षित हो। जैसे—अज्ञा आत्मानं कृतिनं मन्यन्ते (मूर्ख अपने आप को विद्वान् समझते हैं)। यहाँ 'अज्ञा आत्मनः कृतिनो मन्यन्ते' लौकिक व्यवहार के प्रतिकूल है। मन्यन्ते सन्त-मात्मानमसन्तमपि विश्रुतम्—महाभारत प्रजागर पर्व (३४।४५॥)। इसी प्रकार हम कहते हैं—'एवं वदन्तस्ते स्वस्य X जाड्यमुदाहरन्ति' न कि 'एवं वदन्तस्ते स्वेषां जाड्यम्.....'।

कुछ एक शब्द ऐसे भी हैं, जिन का वचन व्यवहारानुसार निश्चित है। जैसे—दार पुँ० (पत्नी), अक्षत पुँ० (पूजा के काम में आने वाले बिना दूटे चावल), लाज पुँ० (खील, लावा) इत्यादि शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ स्त्रीलिङ्ग शब्दों अप् (जल), सुमनस् † (फूल), वर्षा (बरसात) का सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अप्सरस् स्त्री० (अप्सरा), मिकता स्त्री० (रेत) और समा स्त्री० (वर्ष) प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, और कभी २ एक वचन में भी व्यवहृत होते हैं। 'जलौका' (जोक) एक वचन और द्विवचन में भी प्रयुक्त होता है पर 'जलौकस्' (जोक) बहुवचन में ही ॐ । गृह केवल पुँ० में, †† पांसु (पुँ०)

X यहाँ 'स्व' 'आत्मा' अर्थ में है। अतः पष्ठ्येक वचन में प्रयोग उपपन्न है। आत्मीय अर्थ में समानाधिकरणतया प्रयुक्त होने पर यथापेक्ष द्विवचन और बहुवचन में भा व्यवहार निर्दोष होगा—'सा निन्दन्ती स्वानि भारयानि बाला (शकुन्तला)।

† सुमनस् (स्त्री०) मालती अर्थ में एक वचन में भी प्रयुक्त होता है (सुमना मालतो जातिः—अमर)। पुष्प अर्थ में भी इस का कहीं २ एक वचन और द्विवचन में प्रयोग मिलता है—वेश्या श्मशानसुमना इव वर्जनीया (मृच्छकटिक)। अघ्रासातां सुमनसौ (काशिका)। अमर तो पुष्प अर्थ में इसे नित्य बहुवचनान्त ही मानता है—आपः सुमनसो वर्षाः, स्त्रियः सुमनसः पुष्पम्। * स्त्रियां भूमि जलौकसः—अमर०।

†† 'पांसवः कस्मात् । पंसनीया भवन्ति' यास्क की यह निरुक्ति इस में

धाना (स्त्री०) (भुने जौ), वासोदशा (वस्त्राञ्जल), आवि (प्रसव वेदना), सन्तुष्टा, असु (प्राण), प्रजा, प्रकृति (मन्त्रिमण्डल या प्रजावर्ग), कश्मीर, तथा देशों के ऐसे नाम जो क्षत्रियों का निवास-स्थान होने से बने हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी का 'तुम' एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों का काम देता है। यदि विवक्षित वचन क्रिया से सूचित न हो, अथवा प्रकरण से वचन का निर्णय न हो सके तो छात्रों को अनुवाद करते समय एक वचन का ही प्रयोग करना चाहिए। एवं 'यह तुम्हारा कर्तव्य है' इस का संस्कृत अनुवाद—'इदं ते कर्तव्यम्' होगा। इसी प्रकार—अध्यापक ने कहा 'तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए' इसकी संस्कृत—'न त्वया शब्दः कार्य इति गुरुः स्माह' इस प्रकार होनी चाहिये। (एक वचनं त्वौत्सर्गिकं बहुवचनं चार्थं बहुत्वापेक्षम्)।

कारक—संस्कृत में छः कारक हैं। संज्ञा शब्द और क्रियापद के नाना सम्बन्धों को ही कारक कहते हैं। इस सम्बन्ध को सूचित करने के लिये छः विभक्तियाँ हैं। इन छः विभक्तियों के अतिरिक्त एक और विभक्ति है जिसे षष्ठी कहते हैं। इस से प्रायः एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से सम्बन्ध सूचित किया जाता है। इन विभक्तियों से सदा कारकों का ही निर्देश नहीं होता परन्तु ये विभक्तियाँ वाक्य में प्रति, सह, विना, अन्तरा, अन्तरेण, ऋते आदि निपातों के योग से भी 'नाम' से परे प्रयुक्त होती हैं। इनके अतिरिक्त ये विभक्तियाँ नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम् आदि अव्ययों के योग से भी व्यवहृत होती हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें 'उपपद विभक्तियाँ' कहते हैं। कारकों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करने का यह उचित स्थान नहीं। यहाँ हम संस्कृत वाग्व्यवहार की विशेषताओं का दिग्दर्शनमात्र ही कराते हुए हिन्दी वा संस्कृत भाषाओं के प्रचलित व्यवहारों में भेद दर्शाना चाहते हैं। किसी कारक विशेष के समझने के लिये अथवा विभक्तियों के शुद्ध प्रयोगके लिये छात्रों को हिन्दी या दूसरी बोल चाल की भाषाओं की वाक्य रचना की

शापक है। यहाँ निरुक्तकार वेद में आये 'पांसुरे' पद की व्याख्या करते हुए प्रसंग से मूलभूत पांसु शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं।

† इसमें अमर का 'करम्भो दक्षिसक्तवः' यह वचन प्रमाण है। तथा क्षीर का 'धानाचूर्णं सक्तवः स्युः' यह भी।

और नहीं देखना चाहिए। वास्तव में 'कारक' वही नहीं जिसे हम क्रिया के व्यापार को देख कर समझते हैं, परन्तु कहाँ कौन सा कारक है इस का ज्ञान शिष्टों अथवा प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के व्यवहार से ही होता है (विवक्षातः कारकाणि भवन्ति । लौकिकी चेह विवक्षा न प्रायोक्ती), इस लिये छात्रों का संस्कृत व्याकरण का ज्ञान, अथवा उनका अपनी बोल चाल की भाषा का व्यवहार उन्हें शुद्ध संस्कृत व्यवहार के ज्ञान के लिये इतना उपयोगी नहीं जितना कि संस्कृत साहित्य का बुद्धिपूर्वक परिशीलन ।

संस्कृत में सब प्रकार के यान वा सवारियाँ जिन में शरीर आदि के अंग, जिन्हें यान (सवारी) समझा जाता है—भी सम्मिलित हैं 'करण' माने जाते हैं । यद्यपि वे वस्तुगत्या निर्विवाद रूप से 'अधिकरण' हैं । ग्रन्थकारों की ऐसी ही विवक्षा है । जहाँ हिन्दी में हम कहते हैं—'वह रथ में आता है' वहाँ संस्कृत में—'स रथेनायाति' ऐसा ही कहने की शैली है । जहाँ हिन्दी में हम कहते हैं—'वह कन्धे पर भार उठाता है' वहाँ संस्कृत में हमें 'स स्कन्धेन भारं वहति' यही कहना चाहिए । रथादि की करणता (न कि अधिकरणता) ही भगवान् सूत्र-कार को अभिमत है इस में अष्टाध्यायी-गत अनेक सूत्र ही प्रमाण हैं—
 वहां करणम् । (३।१।१०२), दाम्नीशसयुजस्तुतुदसिसिचमिहपत-
 दशनहः करणे (३।२।१८२), चरति (४।४।८) । वहन्त्यनेनेति वहां शकटम् ।
 पतत्युड्यतेनेनेति पत्रं पक्षः । पतति गच्छत्यनेनेति पत्रं वाहनम् । ❀
 शकटेन चरतीति शाकटिकः । हस्तिना चरतीति हास्तिकः । इस विषय में कुमार-
 सम्भव तथा किरात में से नीचे दी हुई पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए—यश्चा-
 प्सरोविभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति.....(धातुमत्ताम्),

मध्येन सा वेदिविलग्नमध्या वलित्रयं चारु बभार बाला,
 गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् (किरात),
 गामधास्यत्कथं नागो मृणालमृदुभिः फणैः (कुमार),
 तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे (कुमार) ।

इन उदाहरणों से संस्कृत के व्यवहार की एकरूपता निश्चित होती है ।

कहीं २ वस्तुसिद्ध करणत्व की उपेक्षा की जाती है, और साथ ही कारकत्व की भी । केवल सम्बन्ध मात्र की ही विवक्षा होती है । अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय आ (ऋ० १।१७।३॥) ।

अहरहनयमानो गामश्वं पुरुषं पशुम् ।

यैवस्वतो न तृप्यति सुराया इव दुर्मदी ॥ (वसिष्ठ धर्मसूत्र) ।

अमृतस्येव नातृप्यन् प्रक्षमाणा जनार्दनम् (उद्योगपर्व ९४।५१॥) ।

“नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः ।

अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नैषध) (३।९३) ।

षष्ठी का ही व्यवहार शिष्ट सम्मत है । इसमें ‘पूर्णगुण सुहितार्थं सद्व्यय तव्यसमानाधिकरणेन—’ यह सूत्र ज्ञापक है । यहाँ ‘सुहितार्थं (= तृप्तार्थक) सुबन्त के साथ पठ्यन्त का समास नहीं होता ऐसा कहा है । सुरा, अमृत, काष्ठ, अप् (जल) आदि के करण—तृतीयान्त होते हुए शैषिकी षष्ठी का कोई अवकाश ही नहीं था तो निषेध व्यर्थ था । इससे ज्ञापित होता है कि सूत्रकार को यहाँ षष्ठी इष्ट है । ऐसा ही ‘पूर्ण’ शब्द के प्रयोग में देखा जाता है—‘ओदनस्य पूर्णादृक्षात्रा विकुर्वते (काशिका) । दासी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत् प्रेतवत्पदा (मनु० १।१।१८३ ॥) । ‘नवं शरावं सलिलस्य पूर्णम्’ (अर्थशास्त्र) () । ‘तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् (तै० उ० २।८ ॥) । अपामञ्जली पूरयित्वा (आश्वलायन गृह्य १।२० ॥) । स्निग्धद्रवपेशलानामन्नविशेषाणां भिक्षाभाजनं परिपूर्णं कृत्वा (तन्त्राख्यायिका, भिन्नसम्प्राप्ति कथा १) ।

प्र + ह (मारना या चोट लगाना) के ‘कर्म’ को कर्म नहीं समझा जाता, इसके विपरीत इसे अधिकरण माना जाता है । जैसे—ऋषिप्रभावान्मथि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्य हिंसाः । (रघुवंश) = ऋषियों की दैवी शक्ति के कारण यमराज भी मरु पर प्रहार नहीं कर सकता, अन्य हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या । (अर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागधि (शकुन्तला नाटकम्) = तुम्हारा हथियार पीड़ितों की रक्षा के लिये है, व कि निरपराधियों के मारने के लिये । परन्तु ऐसे सर्वदा नहीं होता । जब कभी किसी अंग विशेष जिसे चोट पहुँचाई जाय—का उल्लेख हो, तब वह व्यक्ति जिसका वह अंग हो ‘कर्म’ समझा जाता है । जैसे—उसने मेरी छाती पर डंडे से प्रहार किया = स मां लगुडेन वक्षसि प्राहरत् । जब प्र + ह का प्रयोग फेंकने अर्थ में होता है, तब जिसपर शस्त्र फेंका जाता है उसमें चतुर्थी आती है । जैसे—‘इन्द्राय वज्रं प्राहरत् (= प्राहिणोत्) (तै० ब्रा०)

हिन्दी में हम ‘गुणों में अपने समान कन्या से तू विवाह कर’ ऐसा कहते

हैं। परन्तु संस्कृत में 'गुणैरात्मसदृशीं कन्यामुद्रहेः' ऐसे। यहां गुण को हेतु-मानकर उसमें तृतीया हुई है। हिन्दी का अनुरोध कर के 'गुण' को अधिकरण मानकर 'गुणैवात्मसदृशीं कन्यामुद्रहेः' ऐसा नहीं कह सकते। परन्तु जब हम 'इव' का प्रयोग करते हैं, तब हम संस्कृत में भी 'गुण' को अधिकरण मानकर उसमें सप्तमी का प्रयोग करते हैं। जैसे—समुद्र इव गाम्भीर्ये स्थैर्ये च हिम-वानिव (रामायण)। यहाँ हमारा वाग्व्यवहार हिन्दी के साथ एक हो जाता है। हिन्दी में कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से किसी विषय में विशेषता रखता है, ऐसा कहने का ढंग है। परन्तु संस्कृत में 'किसी कारण से' विशेषता रखता है ऐसा कहते हैं। जैसे—स वीणा वादनेन मामतिशेते (वह वीणा के बजाने में मुझ से बढ़ गया है)। इसी प्रकार—सा श्रियमपि रूपेणातिक्रामति (वह सुन्दरता में लक्ष्मी से भी बढ़-चढ़ कर है)। ओ-जस्वितया न परिहीयते शच्याः (तेज में वह इन्द्राणी से कम नहीं)।

जहाँ हिन्दी में यह कहा जाता है कि महाराज दशरथ के कौसल्या से राम पैदा हुआ, वहाँ संस्कृत में इस भाव को प्रगट करने के लिये अपना ही ढंग है। जैसे—श्री दशरथात्कौसल्यायां रामो जातः (कौशल्या में तालव्य 'शू' का प्रयोग अशुद्ध है)।

अदृष्ट दुःखो धर्मात्मा सर्वभूतप्रियंवदः ।

मयि जातो दशरथात्कथमुल्लेन वर्तयेत् ॥ (रामायण) ।

स्मरण रहे कि पत्नी को सन्तानोत्पत्ति की क्रिया में सदा ही अधिकरण माना जाता है। इसी बात को कहने का एक और भी ढंग है—यथा—दशरथेन कौसल्यायां रामो जनितः। यहाँ जन् का खिचसहित प्रयोग है। अब धातु सकर्मक हो गई है। इस प्रयोग में भी पत्नी (कौसल्या) अधिकरण कारक ही है। (और 'दशरथ' अनुक्त कर्ता है। उसमें तृतीया हुई है।) जहाँ जनन क्रिया (उत्पन्न होता है, हुआ, होगा) शब्द से न भी कही गई हो पर गम्यमान हो वहाँ भी पत्नीकी अधिकरणता बनी रहती है। जैसे—सुदक्षिणायां तनयं ययाचे (रघुवंश)। यहाँ 'सुदक्षिणायां जनिष्यमाणम्, ऐसा अर्थ है।

हिन्दी में जहाँ २ 'के लिये' शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ २ सब जगह संस्कृत में चतुर्थी का प्रयोग नहीं हो सकता। अन्युपहासस्य समयोऽयम् (क्या यह समय उपहास करने के लिये है ?) पुनः "प्रागेभ्योऽपि प्रिया सीता

शमस्यासीत् महात्मनः” (सीता महात्मा राम के लिये प्राणों से भी अधिक प्रिय थी ।) नैष भारो मम = यह मेरे लिये बोझ (भारी) नहीं । तथा— किं दूरं व्यवसायिनाम् = व्यवसायिओं (उद्योगी पुरुषों) के लिये दूर क्या कुछ है । पुनः ‘नूतन एष पुरुषावतारो यस्य भगवान् भृ_नन्दनोऽपि न वीरः’ = यह कोई नया ही पुरुष का अवतार है जिसके लिये भगवान् परशुराम भी धीर नहीं है ।’ इन सब उदाहरणों में यद्यपि हिन्दी में ‘के लिये’ का प्रयोग किया गया है, फिर भी ‘तादर्थ्य’ (एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिये है) सम्बन्ध के न होने से संस्कृत में हिन्दी ‘के लिये’ के स्थान में चतुर्थी का प्रयोग नहीं हो सकता ।

‘से’ के स्थान में हम पञ्चमी का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते, जब तक ‘अपादान’ (पृथक् करण) का भाव न हो । उदाहरणार्थ—‘मैं तुम्हें कितने समय से डूँढ़ रहा हूँ । “कां वेलां त्वामन्वेषयामि ।” यहाँ वेला अवधि नहीं है, अन्वेषण-क्रिया से व्याप्त काल है, अतः अत्यन्त संयोग में द्वितीया हुई है । मुनियों के वस्त्र वृक्षों की शाखाओं से लटक रहे हैं । ‘वृक्षशाखास्वलम्बन्ते यतीनां वासांसि । यहाँ स्पष्ट ही पृथक् शाखा अपादान कारक नहीं, किन्तु अधिकरण कारक (वस्त्रों की अवलम्बन क्रिया का आधार होने से) ही हैं । अतः सप्तमी ही उचित है । मुझ से रामायण की कथा को समझो (जैसे) मैं (इसे) कहता हूँ । = निबोध मे कथयतः कथां रामायणीम् । यहाँ भी नियमपूर्वक (अध्ययन के न होने से, आख्याता (कहने वाला) ‘अपादान नहीं है, इसलिये पञ्चमी का प्रयोग नहीं किया गया । इसी प्रकार ‘इदानीमहमागन्तुकानां श्रुत्वा पुरुष-विशेषकौतूहलेनागतोस्मीमामुज्जयिनीम् (चारुदत्त अङ्क २) में ‘आगन्तुकानाम्’ में षष्ठी हुई । और इति शुश्रुम धीराणाम् (यजुः) में भी ।

कभी २ चाहे ‘अपादान’ का भाव स्पष्ट भी क्यों न हो फिर भी हम उसकी उपेक्षा कर दूसरे कारक (कर्ता, कर्म,) की कल्पना करते हैं । जैसे—स प्राणान् मुमोच = (उस ने प्राण छोड़ दिये) अथवा—तं प्राणाः मुमुचुः’ (उस को प्राणों ने छोड़ दिया) या स प्राणैर्मुमुचे (वह प्राणों से छोड़ा गया) । यहाँ भाव स्पष्ट है कि पुरुष का प्राणों से वियोग है । संयोग और वियोग उभयनिष्ठ होते हैं । यह विवक्षाधीन है कि किस एक को ध्रुव (अवधिभूत माना जाय) । यदि प्राणों को ध्रुव (अवधिभूत) मानें तो

अपादान अर्थ में प्राण शब्द से पञ्चमी होनी चाहिए पर मुच् का सकर्मक प्रयोग होने पर कर्म (जो पदार्थ छोड़ा गया) की भी आकाङ्क्षा होती है और कर्त्ता (छोड़ने वाले) की भी । “अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते” इस वचन के अनुसार प्राणों की अपादानता को बाधकर कर्मत्व की विवक्षा करने पर (पुरुष में अर्थापन्न कर्तृत्व आजाने पर) अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है और ‘स प्राणान् मुमोच’ यह वाक्य बनता है । यदि वियोग में पुरुष को अवधिभूत मानें तो सकर्मक मुच् के प्रयोग में अपादानता को बाधकर पुरुष में उक्तीति से कर्मता आ जायगी और प्राणों में कर्तृता । मुच् का अकर्मकतया ॐ प्रयोग होने पर अथवा कर्म कर्त्ता के होने पर प्राण आदि की अपादानता बनी रहती है—यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् (गीता) । मुच्यते सर्वं पापेभ्यः (पुराण) । मुच्यते = स्वयमेव मुक्तो भवति । कस्मात् । अशुभात् । हो सकता है कि ये दोनों प्रकार के प्रयोग (स प्राणान्मुमोच, तं प्राणा मुमुचुः) पहले कभी अभिप्राय भेद से प्रयुक्त होते हों, और बाद में समानार्थक होकर निर्विशेष रूपसे प्रयुक्त होने लगे हों ।

जो कुछ यहाँ मुच् के विषय में कहा गया है वह वि युज् (सकर्मक) के प्रयोग में अक्षरशः लागू है । न वियुङ्क्ते तं नियमेन मूढता । येन येन वियु-ज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । यहाँ पुरुष (तद्) और प्रजा की अपादानता को बाध कर इनकी कर्मता स्वीकार की गई है । कर्तृत्व की आकाङ्क्षा में ‘मूढता’ और ‘बन्धु’ को वियोग क्रिया का कर्त्ता माना गया है । पर हा-त्यागना के कर्मकर्तृ—प्रयोग में ‘सार्थाद् हीयते’ इस वाक्य में ‘सार्थ’ की अपादानता अक्षत बनी रहती है । शुद्ध—कर्तृप्रयोग में ‘सार्थ’ की कर्तृता होती ही है—सार्थ एतं जहाति ।

आज कल कई पण्डित निम्नस्थ वाक्यों का भाषान्तर भिन्न २ प्रकार से करते हैं । जैसे—‘छः महीने पूर्व एक भीषण भूकम्प आया’, ‘महामूद ने भारत पर एक हजार बरस पूर्व आक्रमण किया’, तथा—‘पिछले पक्ष में मूसलाधार वर्षा हुई ।’ वे या तो उपर्युक्त वाक्यों का क्रमशः इस प्रकार भाषान्तर करते हैं—‘इतः षण्मासान् पूर्व बलवद् भूकम्पत । इतो वर्षसहस्रं पूर्व महामूदो भरत-

* मुचो कर्मकस्य गुणो वा (७.४।५७) मुच् की अकर्मकता में लिङ्ग है ।

भुवमाचक्राम । इतः सप्ताहद्वयं पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः । याथवा—इतः षड्भ्यो मासेभ्यः पूर्वबलवद् भूरकम्पत । इतो वर्षसहस्रात् पूर्वं महमूदो भरतभुवमाचक्राम । इतः सप्ताहद्वयात् पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः । यहाँ पहले प्रकार के भाषान्तरों में—‘पणमासान् पूर्वं, वर्षं सहस्रं पूर्वं’ और सप्ताहद्वयं पूर्वम्, विना-सोचे समझे रखे गये हैं । ये सर्वथा अनन्वित हैं । यहाँ वह समय जो घटना के होने के बाद व्यतीत हो चुका है, उसे सूचित करने के लिये द्वितीया अथवा प्रथमा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है । हम यहाँ पर द्वितीया का तर्भा प्रयोग कर सकते हैं जब यहाँ अत्यन्त संयोग हो । यदि कम्प, आक्रमण, और वर्षण क्रियाओं से क्रम से छः मास, हजारवर्ष; तथा दो सप्ताह पूर्णरूप से व्याप्त हुए हों । अर्थात् यदि क्रिया दिग्गु समय तक होती रही हो । प्रथमा का तर्भा प्रयोग हो सकता है जब इस से समता रखती हुई क्रिया साथ में हो । तिङ्वाच्य कर्ता तो यहाँ क्रमसे भू, महमूद, और देव हैं । वस्तुतः हम यहाँ न तो द्वितीया का प्रयोग कर सकते हैं, और न प्रथमा का । दूसर प्रकार के भाषान्तरों में ‘इतः षड्भ्यो मासेभ्यः पूर्वम्’ इत्यादि यद्यपि व्याकरण की दृष्टिसे ठीक हैं तो भी वाञ्छित अर्थ को सूचित नहीं करते । इन में समय की विवक्षित एक अवधि की अपेक्षा दो अवधियाँ दी गई हैं, और उस काल का कोई पारच्छेद नहीं किया गया जो व्यतीत हो चुका है । इन वाक्यों का सरल असन्दिग्ध अर्थ तो यह है कि भूरकम्प आदि की घटना आज से पिछले छः मास आदि में नहीं हुई, पर उससे पहले कब हुई यह कुछ पता नहीं । निःसन्देह वक्ता का यह अभिप्राय नहीं । अतः ये दोनों प्रकार के प्रयोग दोषयुक्त होने के कारण त्याज्य हैं । उपर्युक्त दोनों प्रकार के दूषित वाक्यों के स्थान में शिष्टसम्मत प्रकार ये हैं— १) अथ पणमासा बलवद्भुवः कम्पितायाः । अथ वर्षसहस्रं महमूदस्य भरतभुवमाक्रान्तवतः (अथवा ‘‘महमूदेन भरतभुव आक्रान्तायाः) । अथ सप्ताहद्वयं धारासारैर्वृष्टस्य देवस्य ।

(२)—अथ षष्ठे मासे बलवद्भूरकम्पत । अथ सहस्रतमे वर्षे महमूदो भरतभुवमाचक्राम । अथ चतुर्दशे दिवसे धारासारैरवर्षद् देवः । (३) इतः षट्सुमासेषु बलवद् भूरकम्पत । इतो वर्षं सहस्रे महमूदो भरतभुवमाचक्राम । इतः सप्ताहद्वये धारासारैरवर्षद् देवः । प्रथम प्रकार में दिये गये वाक्यों में पणमासाः, वर्षसहस्रम् और सप्ताहद्वयम्—ये सब अतीत हुए काल की इयत्ता (मान) बतलाते हैं । ये ‘अतीताः सन्ति’ इत्यादि गभ्यमान क्रियाओं के कर्ता होने से

प्रथमान्त हैं। 'भुवः' इत्यादि में षष्ठी 'शैषिकी' है, और 'अद्य' (अस्मादहः) पञ्चमी के अर्थ को सूचित करता है। [देखिये कुमारसम्भव (अङ्क ५) अद्य प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः]। दूसरे प्रकार में दिये गये तीनों वाक्यों में बहुत थोड़ा ही वक्तव्य है। 'अद्य षष्ठे मासे' इत्यादि में सप्तमी भावलक्षणा है, जिसका अर्थ 'षष्ठे मासे गते सति' इस प्रकार से लिया जा सकता है। तीसरे प्रकार में इतः 'यह पञ्चम्यर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पञ्चमी का प्रयोग "यतश्चाध्वकालनिर्माणम्—इस वचन के अनुसार हुआ है। 'षट्सु मासेषु' इत्यादि में सप्तमी का प्रयोग "कालात्सप्तमी"—इस वचन के अनुसार हुआ है। इस प्रकार की रचना में शास्त्र भाष्य प्रमाण है—'प्रतीयते हि गाव्यादिभ्यः सास्नादिभानर्थः । तस्मादितो वर्षशतेऽप्यस्यार्थस्य सम्बन्ध आसीद्विद्य, ततः परंण ततश्च परतरंणेत्यनादिता'। उपर्युक्त तीनों प्रकार की रचनाएँ संस्कृत ग्रन्थद्वारा अनुकूल हैं। इन तीनों रचनाओं में से पहली रचना पञ्जानी मुहावरों के भी अनुकूल है।

इन त्रिगुण रचनाओं में से वह रचना जो पण्ड्यन्त कान्तवाली है, वह क्रिया को क्रिया से व्याप्त समय की अपेक्षा गुणाभूत कर देती है। हम यहाँ मुख्यतया किसी क्रिया के समय के विषय में कहते हैं न कि क्रिया के विषय में। इसलिये जब समय की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता दिखलानी हो, तो दूसरी या तीसरी रचना का आश्रय लेना चाहिये। क्यों कि 'वाक्यार्थः क्रिया' अर्थात् वाक्यमात्र का एक सामान्य अर्थ किया है। अतः पहले प्रकार के वाक्यों का यही अर्थ है कि अमरु घटना को हुए इतना समय व्यतीत हो चुका है इत्यादि, तथा दूसरे व तीसरे प्रकार के वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है कि कार्य इतने समय पूर्व हुआ।

उपर्युक्त तीनों वाक्यों के अर्थ को कहने का एक और प्रकार भी हो सकता है। इतः षड्भिर्मासैः पूर्वं भूरकम्पत, इतो वर्ष सहस्रेण पूर्वं महमूदो भरत-भुवमाचक्राम। इतः सप्तहद्वयेन पूर्वं धारासारैरवर्षद् देवः। इन वाक्यों में तृतीया का प्रयोग कार्य की पूर्णता की सीमा को सूचित करता है (अवच्छेदकत्वं तृतीयाया अर्थः)। संस्कृत व्याकरण में मासपूर्वः, वर्षपूर्वः, इत्यादि समासों की अनुमति दी गई है (अष्टाध्यायी २।१।३१ ॥)। इसके साथ ही मासेन पूर्वः (महीना भर पहले का) वर्षेण पूर्वः, आदि व्यस्त प्रयोगों को भी निर्दोष माना गया है। यदि हम 'मासेन पूर्वः' (एक महीना पूर्व का) कह

सकते हैं तो क्या कारण है कि हम षड्भिर्मासैः पूर्वं भूरकम्पत अर्थात् पृथ्वी छः महीने पूर्व काँप उठी (अक्षरार्थ = पृथिवी काँपी, ऐसे कि कम्प क्रिया छः महीनों की पूर्वता से विशिष्ट हुई)। यहाँ 'पूर्वम्' क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह रचना अभी शिष्ट व्यवहार से समर्थनापेक्ष है। यद्यपि इस की शुद्धता में हमें पूर्ण विश्वास है, फिर भी हम छात्रों को इस प्रकार की रचना के प्रयोग की अनुमति नहीं देते, क्योंकि हमें संस्कृत साहित्य में अभी-तक ऐसा प्रयोग नहीं मिला।

'से' के अर्थ को संस्कृत भाषान्तर में किस तरह से कहा जाता है इसके विषय में कुछ संकेत हम पहले दे चुके हैं। 'चार दिन से मेह बरस रहा है'—इस साधारण सरल हिन्दी वाक्य की संस्कृत बनाने में संस्कृत के मान्य गण्य विद्वान् उपर्युक्त शुद्ध शिष्ट-सम्मत प्रकारोंमें से प्रथम प्रकार का आश्रय लेते हैं। वे 'अद्य चत्वारो वासरा वर्षतो देवस्य'—इस प्रकार भाषान्तर बनाते हैं। इस भाषान्तर में काल की प्रधानता है और क्रिया की गौणता। इसके विपरीत मूल वाक्य में क्रिया की प्रधानता है और काल की अपेक्षाकृत गौणता। इस गुण-प्रधान-भाव को हम पहले प्रपञ्चपूर्वक दिखा चुके हैं। सो दिये हुए हिन्दी वाक्य का यह निर्दोष संस्कृतानुवाद नहीं कहा जा सकता।

क्रिया की प्रधानता रखते हुए अर्थात् समान वाक्य में क्रिया को कृदन्त से न कह कर तिङन्त से कहते हुए 'से' के अर्थ को किस विभक्ति से कहना चाहिये ? आज कल विद्वानों के लेखों में इस विषय में विभक्ति-साङ्कर्य पाया जाता है। कोई तृतीया का प्रयोग करते हैं तो कोई पञ्चमी का। हमारे मत में ये दोनों विभक्तियाँ यहाँ सर्वथा अनुपपन्न हैं। न यहाँ अपवर्ग है और न अपादान (विश्लेष में अवधि भाव)। 'यतश्चाध्वकालनिर्माणम्' इस वार्तिक का भी विषय नहीं है। क्योंकि वहाँ भी काल मापने की अवधि में ही पञ्चमी का विधान है। चार दिन अवधि नहीं किन्तु वर्षण-क्रिया से व्याप्त हुआ काल है। यदि सोमवार से मेह बरस रहा है अथवा बरसा ऐसा कहें तो सोमवार वर्षण क्रिया की अवधि अवश्य है। इससे हम माप सकते हैं कि कितने दिनों तक या कितने दिनों से वर्षा हुई या हो रही है। चार दिन से इत्यादि वाक्यों की संस्कृत बनाते हुए हमें काल में द्वितीया प्रयुक्त करनी चाहिये और यह द्वितीया 'अत्यन्त संयोग' में होगी। कुछ एक विद्वानों का यह कहना कि अत्यन्त संयोग के समान होनेपर भी जहाँ 'तक' अर्थ है वहाँ द्वितीया शिष्ट और इष्ट है

पर जहाँ हिन्दी में 'से' शब्द प्रयुक्त होता है। वहाँ द्वितीया शिष्ट होती हुई भी इष्ट नहीं है—कुछ सार नहीं रखता। द्वितीया का प्रयोग न केवल शास्त्र-संमत है, व्यवहारानुकूल भी है। इसलिये 'चार दिन से मेह बरस रहा है' इसका सर्वथा निर्दोष अनुवाद 'अद्य चतुरो वासरान्वर्षति देवः' ही है। ऐसे स्थलों में द्वितीया के व्यवहार के लिये कुछ एक उद्धरण दिये जाते हैं:—

१—अद्य कतिपयान्यहानि नैवागच्छति ।

२—ततोस्मिन्नेव नगर ऊर्जितमुषित्वा कथमिदानीं बहून्यहानि दीनवामं पश्यामि (उभयाभिसारिका पृ० ९, ११) ।

३—अद्य बहूनि दिनानि नावर्तते (धूर्तविटसंवादः पृ० १०) ।

कहीं कहीं इस रचना से भिन्न प्रकार भी देखा जाता है। एक वाक्य के स्थान में दो वाक्य प्रयुक्त किये जाते हैं। पहले वाक्य में काल का निर्देश किया जाता है और दूसरे में क्रिया का (जो उस काल को व्याप्त करती है) जैसे—कः कालस्त्वामन्विष्यामि (छाया)—स्वप्नवासवदत्ता अङ्क ३। कः कालो विरचितानि शयनासनानि—अविमारक अङ्क ३। ननु कतिपयाहमिवाद्य मद्धितीयः कर्णापुत्रो विपुलामनुनेतुमभिगतः—पद्मप्राभृतकम् पृ० ७ ।

इस प्रकार की रचना की समाधि यह है—यदा प्रभृति त्वामन्विष्यामि तदा प्रभृति कः कालोतिक्रान्तः—इतना लम्बा न कह कर वक्ता संक्षेपरुचि होने से 'कः कालस्त्वामन्विष्यामि' इतना ही कहता है। बोल चाल में यह प्रकार भी हृदयङ्गम है। पर अध्याहार की अपेक्षा होने से सर्वत्र प्रशस्त नहीं। वाकोवाक्य में शिथिल-बन्ध भी दूषण नहीं माना जाता।

उद्देश्य-विधेय-भाव—सिद्ध वस्तु (स्वरूपेण विदित, जिसके वि कुछ कहना है), जिसका प्रथम निर्देश किया जाता है और जिसका के साथ योग होता है उसे उद्देश्य कहते हैं और जो साध्य वस्तु के सम्बन्ध में कहा जाता है), जिसका पीछे निर्देश होता है शब्द के साथ सम्बन्ध होता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कहे बिना विधेय का उच्चारण दो

* यच्छब्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूद्यता ।

तच्छब्दयोग औत्तर्यं साध्यत्वं च विधेयता

अनुवाद्यमनुक्तैव न विधेयमुदीरयेत् !

न ह्यलम्बास्पदं किञ्चित्कुत्राचत्प्रति

यस्य
यद्
(जो उ
और जिसका
शब्द को अनुवाद्य
माना गया है ।

अब यह विचार करना है कि वाक्य में उद्देश्य की कर्तृता मानी जावे या विधेय की। इसी प्रकार विवक्षानुसार उद्देश्य को कर्म माना जाय या विधेय को। अर्थात् तिङन्त पद का पुरुष और वचन उद्देश्य के अनुसार होना चाहिये अथवा विधेय के अनुसार और क्तान्त पद प्रयोग होने पर उद्देश्य के लिङ्ग वचन होंगे या विधेय के। संस्कृत वाङ्मय को देखने से पता लगता है कि वैदिक लौकिक उभयविध साहित्य में प्रायः उद्देश्य का कर्तृत्व और कर्मत्व माना गया है।

समुद्रः स्थः कलशः सोमधानः (ऋग्वेद) ।

अप्यर्थकर्मा तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः (रघुवंश) ।

प्राची बालविडाललोचनरुचां जाता च पात्रं ककुप् (बालरामायण) ।

वालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिल्पण्डकः (हलायुध) ।

भारः स्याद् विशतिस्तुलाः (अमर) ।

इस विषय में उदाहरणों की कोई कमी नहीं।

विधेय के कर्तृत्व वा कर्मत्व में हमें यत्न करने पर भी इने गिने ही उदाहरण मिले हैं।

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकन्वमनुपश्यतः ॥ यजुः

ताः (नद्यः) समुद्रात्समुद्रमेषापियन्ति समुद्र एव भवति ताः (छान्दोग्य ६।६।१०॥) ।

सुवर्णं पिण्डः खदिराङ्गार—सवर्णे कुण्डले भवतः (भाष्य) । ❀

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः (मनु० ८।१३८॥) ।

सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते (मनु० ९।२९४॥) ।

एको भिक्षुर्यथोक्तस्तु द्वौ भिक्षू मिथुनं स्मृतम् ।

त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ (दक्षस्मृति ७।३४॥)

द्वौ द्वौ मासानृतुः स्मृतः (क्षीर से उद्भूत कात्य का वचन) ।

धाना चूण सक्तवः स्युः (क्षीर) ।

❀ इस पर नागेण का कहना है कि भाष्ये 'खदिराङ्गार' इति प्रयोगादव्यन्ते विकृतेः कर्तृत्वं बोध्यम् ।

आचितो दश भाराः स्युः (अमर) ।

पक्ष्मी तु स्मृतौ पक्षौ ('पचिवचिभ्यां सुट् च' इस उणादि सूत्र का व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित द्वारा उद्धृत कौष) यत्र द्वे ऋचौ प्रग्रथनेन तिस्रः क्रियन्ते (काशिका ४।२।५५) ।

यहाँ व्यवस्था करना अत्यन्त दुष्कर है । ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ विधेय की प्रधानता विवक्षित होती है अथवा जहाँ विधेय संज्ञा है वहाँ उसके अनुसार तिङन्त और कृदन्त पद प्रयुक्त होते हैं, वहाँ विधेय की कर्तृता वा कर्मता शिष्टजनों को दृष्ट है । अन्यत्र प्रायः उद्देश्य की ही कर्तृता वा कर्मता सर्व-संमत है । हाँ जहाँ उद्देश्य प्रकृति हो और विधेय विकृति, और 'चिव' प्रत्यय का प्रयोग न हो, वहाँ विकृति रूप विधेय की ही कर्तृता होती है । जैसा कि ऊपर दिये गये भाष्य के पाठ से स्पष्ट है ।

उद्देश्य की कर्तृता स्वीकृत होने पर विधेय में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी और विधेय की कर्तृता के स्वीकार होने पर उद्देश्य में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी । ऐसा ही कर्मत्व के विषय में जानो ।

विशेषण-विशेष्य-भाव—विशेषण और विशेष्य ये अन्वर्थ नाम हैं । जिसका दूसरे पदार्थ से भेद करना है वह भेद्य = विशेष्य है और जो भिन्नता करने वाला है वह भेदक = विशेषण है । क्रिया-सम्बन्धितया प्रयोग में लाया हुआ विशेष्य (द्रव्य) अपने सामान्य रूप में ज्ञात होता है भी तो अपने अन्तर्गत विशेष के रूप में अज्ञात होता है । अतः उस विशेष का निश्चय कराने के लिये ज्ञापक होने से स्वयम् निश्चित-रूप-गुण आदि व्यवहृत हुए विशेषण होते हैं । जो ज्ञाप्य है वह प्रधान है, वह विशेष्य है और जो ज्ञापक है वह अप्रधान, विशेषण है । ❀ नीलमुत्पलम्—यहाँ नील (गुण-वचन) विशेषण है और उत्पल (जाति वचन) विशेष्य है । यद्यपि यह कहा जा सकता है कि जैसे नीलपद उत्पल को अनील (जो नीला न हो) से जुदा करता है अतः विशेषण है इसी प्रकार उत्पल पद नील पद को अनुत्पल

* विशेष्यं स्यादनिर्ज्ञातं निर्ज्ञातोर्थो विशेषणम् ।

परार्थत्वेन शेषत्वं सर्वेषामुपकारिणाम् ॥ (वाक्यपदीय, वृत्ति समुद्देश कारिका ७) ।

(जो उत्पल न हो) के विषय से हटाता है सो यह भी विशेषण हुआ । इस तरह यहाँ अव्यवस्था—प्रसङ्ग प्राप्त होता है । इसका परिहार यह है कि जाति-विशिष्ट द्रव्य का क्रिया में सीधा अन्वय होने से 'उत्पल' ही विशेष्य (प्रधान) है । हाँ गुण शब्दों, क्रिया शब्दों और गुण क्रिया शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में विशेषण-विशेष्य-भाव के विषय में कामचार है । समान रूप से गौण अथवा प्रधान शब्दों का आपस में सम्बन्ध होता ही नहीं, इसलिये किसी एक की गौणता विवक्षित होती है और दूसरे की प्रधानता । जो विशेषण माना जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होने से उसका समास में पूर्वनिपात होता है । इस प्रकार हम खञ्जकुब्जः, कुब्जखञ्जः पाचकपाठकः, पाठकपाचकः, खञ्जपाचकः, पाचकखञ्जः इत्यादि उपसर्जन भेद से प्रयोग कर सकते हैं ।

विशेष्य-विशेषण-भाव का दिङ्मात्र निरूपण कर हम यह कहना चाहते हैं कि वाक्य में एक द्रव्य रूप विशेष्य के विशेषण परस्पर सम्बन्ध नहीं होते । यदि उनमें भी गुणप्रधान-भाव हो तो उनका विशेषणत्व ही नष्ट हो जाये । इसी बात को भाष्यकार ने उन शब्दों में कहा है—न ह्युपाधेरुपाधिर्भवति न वा विशेषणस्य विशेषणम् (पा० भा० १।३।२॥) । इसलिये 'हमारे गुरु जी बड़े विद्वान् हैं' इसके संस्कृतानुवाद में 'अस्मद्गुरुचरणा महान्तो विद्वांसः सन्ति' ऐसा नहीं कह सकते । 'ये इतने सज्जन हैं कि अपने शत्रु पर भी दया करते हैं'—इस वाक्य की संस्कृत 'एत एतावन्तः साधवो यदिदृष्टपत्यपि दयां कुर्वन्ति' नहीं हो सकती । महान्तो विद्वांसः के स्थान में 'महाविद्वांसः' यह वृत्ति भी अशुद्ध है क्योंकि शत्रन्त के साथ विशेषण समास नहीं होता । और विद्वस् शत्रन्त है । यहाँ पर अतिशयेन विद्वांसः वा विद्वत्तमाः कह सकते हैं । दूसरे वाक्य की रचना 'एते तथा साधवो यथा.....' इस प्रकार होनी चाहिये ।

क्रिया :—संस्कृत में क्रियापद रचना में सांयोगिक होता है । क्यों कि यह धातु, प्रत्यय और विकरण से मिल कर बनता है । इसके अवयव वाक्य में स्वतन्त्रतया प्रयुक्त नहीं हो सकते । संस्कृत में क्रिया पद के साथ कोई सहायक क्रियापद नहीं होता । इसमें तीन वाच्य हैं—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और भाववाच्य । भाववाच्य तभी होता है जब क्रिया अकर्मक हो, इस वाच्य में कर्त्ता तृतीयान्त होता है, और क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है । उदाहरणार्थ—ईश्वरेण भूयेत, मनुष्यैः क्रियते, तैस्तत्र संनिधीयते ।

प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती है (एकतिङ् वाक्यम्), परन्तु संस्कृत में क्रिया को छोड़ देना केवल सम्भव ही नहीं, प्रत्युत वाग्व्यवहार के अनुकूल भी है। जहाँ क्रिया अति प्रसिद्ध हो वहाँ उसका प्रयोग न भी किया जाए तो कोई दोष नहीं। प्रविश पिण्डीम्। यहाँ भुङ्क्ष्व् अति प्रसिद्ध होने से छोड़ दिया गया है। हम कहते हैं—इति शङ्करभगवत्पादाः (श्री शङ्कराचार्य यह कहते हैं)। अथवा—‘इति शङ्करभगवत्पादा आहुः पश्यन्ति मन्यन्ते वा।’ पहला प्रकार बढ़िया है। इसी प्रकार हम ‘शब्दं नित्यं संगिरन्ते वैयाकरणाः’ के साथ २ ‘नित्यः शब्द इति वैयाकरणाः’ ऐसा भी कहते हैं। यह दूसरा प्रकार चारुतर है। यदि वाक्य क्रिया के बिना ही पढ़ने में अच्छा मालूम होता हो तो अम् (होना) के लट्लकार को छोड़ देना ही अच्छा है। उदाहरणार्थः—अहो ! मधुरमासादर्शनम्, अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः कस्त्वम्, कोऽसौ, का प्रवृत्तिः इत्यादि। क्लान्त, क्लवत्त्वन्त, तथा कृत्यप्रत्ययान्त के बाद अस् के वर्तमान कालिक प्रयोग को प्रायः छोड़ देने की रीति है।

यह तो स्पष्ट ही है कि क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं हो सकता। मया गमनीयम् (अस्ति)। मया ग्रामो गमनीयोऽस्ति। मया ग्रामटिका गमनीया (अस्ति)। गतोऽस्तमर्कः। उपशान्त उपद्रवः। गतास्ते दिवसाः—यहाँ भी ‘अस्ति’ या ‘सन्ति’ गम्यमान है।

संस्कृत के छात्रों की यह प्रायः प्रवृत्ति है कि प्रधान तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदन्त प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्रियाओं के प्रयोगों की कुछ क्लिष्टता है। निःसन्देह कृदन्त प्रयोग आसान होते हैं परन्तु वे तिङन्त क्रिया के स्थानापन्न नहीं हो सकते। ‘स ग्रामं गतः’ (गतवान् वा) जिसका समानार्थक सम्पूर्ण वाक्य ‘स ग्रामं गतोऽस्ति’ (गतवानस्ति) है का अर्थ ‘वह ग्राम को गया हुआ, या ग्राम को जा चुका है’—ऐसा है। एवं ‘वह ग्राम को गया’ इस वाक्य का यह विशुद्ध संस्कृत अनुवाद नहीं कहा जा सकता। इस वाक्य के अनुवाद करने के लिये हमें तिङन्त क्रिया पद का प्रयोग करना चाहिए—‘स ग्राममगच्छत्’। कृदन्तों का अपना पृथक् क्षेत्र है। ‘वह सोया हुआ है’, ‘मैं भूखा हूँ’, ‘तुम थके हुए हो’, इन वाक्यों के अनुवाद करने में कृदन्तों का प्रयोग करना ही पड़ता है। एवं हमें ‘स सुप्तः’, ‘अहं क्षुधितः’, ‘त्वं श्रान्तः’ ऐसा कहना चाहिए। किन्तु ‘वह सो रहा है’, ‘मुझे भूख सता रही है’, और ‘तुम थक रहे हो’—इन वाक्यों के अनुवाद करने में हमें तिङन्त क्रिया

का ही प्रयोग करना चाहिए। स स्वपिति। अहं क्षुध्यामि। त्वं श्राग्यसि।

छात्रों में एक और प्रवृत्ति प्रायः देखी जाती है। वे मुख्य क्रिया को कहने वाली धातु से व्युत्पन्न (कृदन्त) द्वितीयान्त शब्द के साथ तिङन्त कृ का प्रयोग करते हैं। और व्युत्पन्न शब्द और कृ के स्थान में सीधा उसी धातु का ही योग नहीं करते। ऐसा करने का एक कारण तो यह है कि छात्र क्लिष्टतर क्रिया के रूपों से बचना चाहते हैं और साथ ही उन पर अपनी प्रान्तीय भाषा का प्रभाव भी है, जिसके रंग में वे रंगे हुए हों। इस प्रकार कोई २ छात्र 'अहमद्य महात्मानं द्रक्ष्यामि' के स्थान में 'अहमद्य सायं महात्मनो दर्शनं करिष्यामि', 'लज्जते' के स्थान में 'लज्जां करोति', 'स्नाति' के स्थान में 'स्नानं करोति', 'भुङ्क्ते' के स्थान में 'भोजनं कुरुते', 'सेवते' के स्थान पर 'सेवा करोति' विद्यामर्जयति' के स्थान में 'विद्यार्जनं करोति', 'विभेति' के स्थान में 'भयं करोति' इत्यादि का प्रयोग करते हैं। (यहाँ 'लज्जां करोति, और 'भयं करोति, जिन का 'लज्जते' और 'विभेति' के स्थान में प्रयोग किया गया है—अशुद्ध हैं, क्योंकि उनका ठीक अर्थ लज्जा अनुभव कराना, और भय पैदा करना ही है। (भयं करोतीति भयङ्करम् भीषणम्)। इनके स्थान में 'लज्जामनुभवति', 'भयमनुभवति' शुद्ध प्रयोग हैं। 'कृ' धातु का ऐसा प्रयोग जौकिक संस्कृत साहित्य में बहुत कम है। अतः इस प्रकार से इस धातु का बार-बार प्रयोग प्रशस्त नहीं।

कुछ एक धातुओं के बारे में थोड़ा सा भ्रम फैला हुआ है। गम् और पत् = गलती से अकर्मक समझे जाते हैं, परन्तु वास्तव में वे सकर्मक हैं। वस्तुतः इन दोनों धातुओं का अर्थ 'जाना' है। जैसे—“प्राप्तं गच्छति, नरकं प्रतति X। क्योंकि धातुओं के कई अर्थ होते हैं (अनेकार्था हि धातवः) इसलिये, अथवा प्रकरण के अनुसार पत् का प्रयोग 'उड़ने या गिरने' के अर्थ में भी होता है। साथ में उपसर्ग हो चाहे न हो। इन अर्थों में यह धातु प्रायः अकर्मक है। जैसे—पक्षिणः खे पतन्ति, (पक्षी आकाश में उड़ते हैं),

* पर महाभारत (आश्वमेधिक पर्व ७७ अध्याय) में 'न भयं चक्रिरे पार्थात्' ऐसा प्रयोग है।

X दिशः पपात पत्रेण वेग निष्कम्प केतुना (रघु० १५।८४।)। आश्वी-
नानि शतं पतित्वा (काशिका)।

‘अपि शक्या गतिर्जातुं पततां खे पतस्त्रिणाम्’ (कौटिल्य अर्थ शास्त्र) ।
 ‘क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणम् । कहीं कहीं उड़ने अर्थ में । पत् का सकर्मक-
 तथा प्रयोग देखा जाता है । जैसे—‘उत्पतोदङ्मुखः खम् (मेघदूत) । ‘हन्तुं
 कलहकारोऽसौ शब्दकारः पपातखम् (भट्टि ५।१००॥) ।

निरूपसर्ग पत् का उड़ने अर्थ में बहुत प्रयोग मिलता है । यहाँ तक कि—
 ‘पतत्’ पुं० (उड़ता हुआ) का अर्थ पक्षी है । (देखिए) परमः पुमानिव
 पति पतताम् (किरात ६।१॥) । इसी प्रकार वृष् (सींचना बरसाना)
 वस्तुतः सकर्मक है । यह अकर्मक रूप में तभी प्रयुक्त होता है जब कर्म की
 बहुत प्रसिद्धि के कारण उपेक्षा की जाती है । जैसे—‘देवो वर्षति । ‘बादल जल
 ही तो बरसाता है’ अतः ‘जल’ कर्म को छोड़ दिया जाता है । जब इसके
 प्रयोग में ‘जल’ के अतिरिक्त कोई और कर्म विवक्षित हो, तो उसका प्रयोग
 करना ही होता है । जैसे—‘पार्थः शरान् वर्षति’ ।

दिवादिगण की कुछ एक धातुओं को छोड़ कर शेष सभी धातुएँ
 अकर्मक हैं । उन कुछ एक में पुप् भी है । इसका सकर्मकतया
 प्रयोग यत्र तत्र मिलता है :—सूर्यापाये न खलु कमलं पुप्यति
 स्वामभिख्याम् । पर यह धातु भी कभी अकर्मक थी, इसमें “पुप्यसिद्धयो
 नक्षत्रे” सूत्र प्रमाण है । पुप्य अधिकरण-वृत्ति है । पुप्यन्त्यर्था
 अस्मिन्निति पुप्यः । प्री जिसे मट्टोजिदीक्षित ने सकर्मक कहा है—‘प्रयेण
 अकर्मक है । ‘प्रीङ् प्रीतौ’ ऐसा धातु पाठ है । प्रीति हर्ष का पर्याय है—
 मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः—अमर । इसीलिए वृत्तिकार ने ‘प्रिय’ (जो प्रसन्न
 करता है) की व्युत्पत्ति क्रैयादिक प्री से की है । ‘प्रीणाति इति प्रियः’
 माधवीय धातुवृत्ति में भी देवादिक प्री को अकर्मक माना है ।
 सूत्रकार का अपना प्रयोग—‘रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ इसमें लिङ्ग है । रुच्
 चमकना और अभिप्रीति (रुचना)—दोनों अर्थों में अकर्मक है यह निर्विवाद
 है । इसके अर्थ को देता हुआ प्री भी अकर्मक ही होना चाहिये । कर्म में
 शानच् मानना क्लिष्ट कल्पना है । कविकुलपति कालिदास भी प्री को अकर्मतया
 प्रयोग करते हैं :—

“तत्रसौधगतः पश्यन् यमुनां चक्रवाकिनीम् ।

हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥”

जो धातु दिवादि गण में पढ़ी है और साथ ही किसी दूसरे गण में भी,

वाँ दिवादि धातु अकर्मक होती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। रुष्, रिष् दिवादि (हिंसा, हानि, क्रोध) अर्थ में अकर्मक हैं, और रुष्, रिष् भ्वा० (हिंसा अर्थ में) सकर्मक हैं। 'मा वो रिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः' (ऋग् १०।९।२०) यहाँ 'रिषत्' दिवादि रिष् का लुङ् है। पुषादि होने से यहाँ अङ् प्रत्यय हुआ है। मा रिषत् = हिंसां मा प्रापत् = हानि को मत प्राप्त होवे। 'ततोऽरुष्यदनर्दच्च (भट्टि १।७।४०॥)। मा मुहो मा रुषोऽधुना (भट्टि १।५।१६॥)। मी दिवादि आत्मनेपदी हिंसा अर्थ में पढ़ी है, यह अकर्मक है। 'न तस्य लोमापि मीयते। स्थाणुं वर्च्छति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा (= अथवा वेदोक्त आयु भोगने से पहले ही मर जाता है)। मी क्र्यादि सकर्मक है। न मामिमेथ न जिहीउ एषा (ऋक्० १०।३।४।२॥)। क्षुम् दिवा० संचलन अर्थ में पढ़ी है। यह अकर्मक है। मन्थादिव क्षुभ्यति गाङ्गमम्भः (उत्तरराम चरित्र) इसी अर्थ में क्र्यादि गण में पढ़ी हुई यही धातु सकर्मक है। 'लीङ् श्लेषणे' दिवादि अकर्मक है और क्र्यादि सकर्मक। क्र्यादि गण की प्रायः सभी धातुएँ सकर्मक हैं।

गृध् और लुभ् (लालच करना) ये दोनों दिवादि धातुएँ अकर्मक हैं। गृध् का तिङन्त प्रयोग लौकिक साहित्य (काव्य नाटकादि) में बहुत कम मिलता है। हां, महाभारत में 'परवित्तं पु गृध्यतः' (उद्योग ७२।१८॥) यह प्रयोग मिलता है। वेद में इसका प्रचुर व्यवहार है, और वहाँ सर्वत्र यह अकर्मक ही है—'यस्यागृधद्रेदने वाज्यक्षः (ऋ० १०।३।४।१॥)। 'लुभ्' की अकर्मता में तनिक भी सन्देह नहीं हो सकता। 'लुब्ध' में कर्ता अर्थ में 'क्त' ही इस बात का सुलभ तथा दृढ़ प्रमाण है। 'तथापि रामो लुलुभे मृगाय'। यहाँ आत्मनेपद व्याकरण विरुद्ध है। चतुर्थी की अपेक्षा सप्तमी (मृगे) का प्रयोग अधिक अच्छा है।

कुछ धातुएँ धातु पाठ में तो स्पष्ट ही अकर्मक पढ़ी हैं (उनका अर्थ-निर्देश ही ऐसा हुआ है), पर साहित्य में सकर्मक रूपमें भी प्रयुक्त हुआ है। जैसे—श्च्युत्, स्नु, क्षर, स्यन्द्। श्च्युत् (अकर्मक)—एतास्ता मधुनो धाराः श्च्यो-तन्ति सविषास्त्वथि (उ० चरित)। सकर्मक-लोचनेनामृताश्च्युता (कथा-सरित्सागर १०।१।३०।४॥)। यहाँ श्च्युत् अन्तर्भूतण्यर्थ समझना चाहिए। स्नु (अकर्मक)—'अवस्त्रवेदघशंसोऽवतरम् (ऋ० १।१२।९।६॥)। स्ववन्त्य-नोङ्कृतं पूर्वं पश्चाच्च विशीर्यते (मनु० २।७४)। धनाद्धि धर्मः स्ववति

शैलादधिनदी यथा । 'न हि निम्नात्स्ववेत्क्षौद्रम् ।' सकर्मक—स्वरे न तस्याम-
मृत सुतंव प्रजल्पितायांमभिजातवाचि (कुमार) । कुञ्जरेण स्ववता मदम्
(कथासरित् सागर) । 'न हि मलयचन्दनतरुः परशुप्रहतः स्ववेत्पूयम् । क्षर्
(अकर्मक)—तपः क्षरति विस्मयात् । तेनास्य क्षरति प्रजा (मनु)

सकर्मक—'आपश्चिदस्मै घृतमित्क्षरन्ति (अर्थव० ७।१८।२॥) । तस्य नित्यं
क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु (मनु० २।१०७॥) । यो येनार्थां तस्य तत्प्रक्ष-
रन्ती वाङ्मूर्त्तिर्मे देवता सन्निधत्ताम् (बालरामायण) । स्यन्द्, अकर्मक—स्यन्द-
न्ते सरितः सागराय । तीव्रं स्यन्दिष्यते मेघैः (जोर की वृष्टि होगी) ।
मत्स्या उदकं स्यन्दन्ते । 'शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तम् (जीमूतवाहन) ।
सकर्मक—पस्यन्देत शोणितं व्योम (भट्टि १४।९८) ।

लकार—लकारों का प्रयोग यथास्थान संकेतों में दिखाया गया है ।
और उनकी मोटाहरण व्याख्या भी की गई है । यहाँ हम कुछ एक ऐसी विशेष-
ताओं को दर्शाते हैं जिनका परिचय वहाँ नहीं दिया गया है ।

लट् लकार कभी २ लोट् के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । जैसे—'कामत्र-
मवतीमयगच्छामि । (शब्दार्थः = श्रीमती को मैं कौन जानूँ = आप कौन
हैं) । प्रश्न अर्थ होने से लोट् का विषय है । किं करोमि । क गच्छामि (मैं
क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ) । अनुज्ञा मांगने में धातु मात्रसे लट् भी आ सकता
है (लोट् वा लिङ् भी)—ननु करोमि भोः = क्या मैं करूँ । यहाँ प्रार्थना
अर्थ में लोट् प्राप्त था । 'अनुज्ञा' प्रार्थना का विषय है । लोट् लकार भी कभी
२ लट् के स्थान में प्रयुक्त होता है । जैसे—तद्ब्रूतवत्साः किमितः
प्रार्थयध्वं समागताः (कुमार २।२८॥) । ब्रह्मणोवा एतद्विजये महीय-
ध्वम् इति (केनोपनिषद्) । अङ्ग कूज वृषल, इदानीं जास्यसि जाल्म (हे
शूद्र तू कूँ कूँ करता है तुझे अभी पता लग जायगा) । लट् लकार भी कभी
२ लट् के अर्थ में प्रयुक्त होता है । जैसे—तमस्तपति घर्माशौ कथमाविर्भ-
विष्यति । यहाँ भविष्य का कोई भाव नहीं अन्यथा 'दृष्टान्त' और 'दाष्टान्तिक'
दोनों की क्रियाओं की एककालिकता नष्ट हो जायगी ।

दाष्टान्तिक पूर्वावाक्य 'कुतो धर्मक्रियाविध्नः सतां रक्षितरिक्त्वथि' में
'अस्ति' क्रियापद का अध्याहार होता है (अस्तिर्भवन्ती परः प्रथमपुरुषोऽप्रयु-
ज्यमानोऽप्यस्ति) । सो यहाँ क्रिया वर्तमान काल में है । दृष्टान्त रूप उत्तर

वाक्य में भविष्यत् काल में कैसे हो सकती है। अतः 'भविष्यति' = भवति । इसी प्रकार 'प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो (कुमार० २।३१॥)' उपरले वाक्य में यहाँ 'ज्ञास्यसि' का अर्थ 'जानासि' है। 'यदि विप्रस्य भगिनो व्यक्तमन्या भविष्यति (स्वप्न० ६।१४॥)' । यहाँ 'भविष्यति' 'भवति' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिन्दी में ऐसा कहने की शैली है। वक्ता का वर्तमान काल की क्रिया से ही अभिप्राय है। कहीं कहीं सन्दिग्ध भूत काल के विषय में भी लट् का प्रयोग होता है—'तद्यमपि हि त्वपदुः कुन्दे भविष्यति चन्द्रमाः (अनर्घराघव २।८०॥)' तो यह चाँद भी विश्वकर्मा की खराद पर रहा होगा) । न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः (रघु० ८।४४) ।

विध्यादि अर्थों के होने पर धातुमात्र से लिङ् होता है, धातुवाच्य क्रिया का काल चाहें कोई हो। हाँ लिङ् का विषय केवल भविष्यत् होता है। जब दो वाक्यवण्ड हेतुहेतुमद्भावविशिष्ट हों (अर्थान् जिनमें क्रियाएँ सोपाधिक हों) । विधि-आदि अर्थों के अतिरिक्त क्रिया करने में कर्ता की योग्यता, शक्तता (सामर्थ्य) पूर्ण-संभावना आदि अर्थों में भी धातु मात्र से तीनों कालों में लिङ्लकार होता है। अतः प्रायः लिङ् किसी भी काल विशेष का बोधक नहीं। प्रकरण के अनुसार किसी एक काल का परिचायक भी हो जाता है। इस प्रकार विधि लिङ् अथवा लिङ् कभी २ वर्तमान काल का द्योतक है। जैसे—'कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणे धैर्यच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये (कुमार०)' । यहाँ 'कुर्याम्' कर्तुं शक्नुयाम् । कभी २ यह भूत काल को दर्शाता है। जैसे—अपि नाम कुलपतेरियमसवर्ण-क्षेत्रसंभवा स्यात् (शकुन्तला नाटक) । यहाँ लिङ् संभावना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और कार्य (जन्म) का काल भूत है। इस पर टीकाकार राघव भट्ट कहते हैं—भूत प्राण्यताऽत्र लिङ् इति ।

'मैं आशा करता हूँ कि वह इस समय तक घर पहुँच गया होगा।' इस वाक्य के अनुवाद करने में हम लिङ् का प्रयोग कर सकते हैं, एवं हम कह सकते हैं—आशंसे कालेनानेन स गृहं गतः स्यात् । इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल में लिङ् का प्रयोग हो सकता है (और लट् का भी)—यो नेच्छेद्भोक्तुं न स बलाद् भोजनीयः । यहाँ हिन्दी वाग्व्यवहार के साथ सम्पूर्ण संवाद है। जो न खाना चाहे = जो नहीं खाना चाहता। 'यह स्पष्ट है कि तुम काले और श्वेत वर्णों में भेद नहीं कर सकते अन्यथा 'तुम ने जली हुई रोटी न खाई होती'—इस वाक्य में हम लट् का प्रयोग नहीं

कर सकते। जब हम लृट् का प्रयोग करते हैं तो वाक्य को बनाने वाले दोनों वाक्यांशों में करते हैं। परन्तु उपर्युक्त वाक्य का पहला वाक्यांश सोपाधिक (संकेतार्थक) नहीं है। यहाँ पूर्व वाक्य हेतुरूप नहीं है। अतएव इसमें कार्य के मिथ्यापन (= असत्त्व) अथवा असिद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। एवं इम वाक्य का हमें इस प्रकार अनुवाद करना चाहिए—‘अश्रमोऽसि स्मितामिन् विवेकमिति व्यक्तम्, नो चेद् दग्धं रोटिकाशकलनास्यसि’। यहाँ हमने लृट् का प्रयोग किया है। इसके लिये हमारे पास लौकिक संस्कृत के कवियों का प्रमाण है—देविए, ‘त्वन्नियोगाद्रामदर्शनार्थं जनस्थानं प्रस्थितः कथमहमन्तरा प्रतिनिवर्तिष्ये (प्रतिमा ६) (बीच में ही कैसे लौट आता है)। अन्यथा कथं त्वामर्चनीयं नार्चयिष्यामः (मालविका) नहीं तो पूजा के योग्य आप की पूजा हम क्यों न करते)। ‘अन्यथा कथं देवी स्वयं धारितं नृपुण्युगलं परिजनस्यानुज्ञास्यति (मालविका०)। और देविए—‘यद्यहं गात्र-संस्पर्शं रात्रणस्य गताबलाद्।

अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशासती ॥ (रामायण)

शत्रन्त वा शानजन्त—लृट् के स्थान में शन् व शानच् प्रत्यय होते हैं। शन् और शानच् प्रत्ययों से बने हुए कृदन्त (प्रातिपदिक) विशेषण वा विधेय रूप से प्रयुक्त होते हैं। इनके विधेय रूप से प्रयोग का विषय बहुत सीमित है। आचार्य पाणिनि के अनुसार शत्रन्त व शानजन्त शब्दों का प्रयोग उस समय होना चाहिए जब ये अप्रथमान्त कर्त्ता वा अप्रथमान्त कर्म के साथ समानाधिकरण (एक विभक्तिक) हों। पचन्तं चैत्रं पश्य (पकाते हुए चैत्र को देख)। पच्यमानमोदनं पश्य (पकाये जाते हुए चावलों को देख)। परन्तु चैत्रः पचन् (अस्ति) = चैत्र पका रहा है—ऐसा नहीं कह सकते हैं। ‘चैत्रः पचति’ ऐसा ही कह सकते हैं। एवं ‘कटं कुर्वाणोऽस्ति’ नहीं कह सकते ‘कटं कुरुते (= चटाई बना रहा है)—ऐसा ही कह सकते हैं। ‘रावणो हन्यमानोऽस्ति’ (= रावण मारा जा रहा है) नहीं कह सकते, ‘रावणो हन्यते’—ऐसा ही कह सकते हैं। अतः ‘वह जा रहा है’, ‘वे खा रहे हैं’, ‘मेह बरस रहा है’, ‘हम विचार कर रहे हैं’ इत्यादि के ‘स गच्छन्नस्ति, ते भुञ्जानाः सन्ति, देवो वर्षन्नस्ति, वयं विचारयन्तः स्मः—इत्यादि आधुनिक संस्कृत अनुवाद सर्वथा हेय हैं। कृदन्त प्रातिपदिक होते हुए पचत् आदि शब्द तिङन्त क्रिया पदों के पूर्ण रूप से स्थानापन्न कैसे हो सकते हैं ? क्रिया को

प्रधान रूप से (विधेय रूप से) तिङन्त पद ही कह सकते हैं, शत्रन्त या शानजन्त तो क्रिया—विशिष्ट कर्ता या कर्म को ही कहते हैं। इने गिने स्थलों में ही विधेय रूप से शत्रन्तों व शानजन्तों का प्रथमा समानाधिकरणता में प्रयोग मिलता है—मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरऽहमस्मा-स्थानादस्मि । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः (मनु०) ।

शत्रन्त व शानजन्त जत्र विशेषण रूप से प्रयुक्त होते हैं तो प्रथमान्त के साथ समानाधिकरण भी हो सकते हैं। जैसे—उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचम् (ऋ०) । कुर्वन्नेहवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः) ।

जीवन्नरो भद्रशतानि भुङ्क्ते । संकटेन मार्गेण यान्ति यानानि संघट्टन्ते (सँकरे मार्ग से चलती हुई गाड़ियाँ टकरा जाती हैं) । पुरुषात्पुरुषान्तरं संक्रामन्तो रोगा बहुली भवन्ति । जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणै ऋणवा (ज्) जायते । इति चिन्तयन्नेव स गृहान्निर्ययौ । विद्यमानाऽऽर्याणामवस्था नितान्तं शोच्या इत्यादि ।

शतृ व शानच् प्रत्यय लट् का आदेश होने से वर्तमान काल में तो प्रयुक्त होते ही हैं, पर धात्वर्थ के हेतुरूप व लक्षण रूप होने पर भी। जैसे—देवदत्तो विद्यामुपाददानः काश्यां वसति (विद्यामुपाददानः = विद्योपादानाय) । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन (तै० उ० २।९) । आनन्दं विद्वान् = आनन्दज्ञानेन हेतुना । शयाना भुञ्जते यवनाः (यवन लोग लेटकर खाते हैं) । लेटकर खाना यवनों का लक्षण परिचायक चिह्न है। इसी प्रकार—

‘फलन्ती वर्धते द्राक्षा पुष्प्यन्ती वर्धते ऽब्जिनी ।

शयाना वर्धते दूर्वा आर्मानं वर्धते विसम् ॥

शयानो वर्धते शिशुः—यह हेत्वर्थ में उदाहरण हैं ।

तुमुञ्चन्त—संस्कृत में हम तब तक तुमुञ्चन्त का प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक ‘तुमुन्नन्त’ का कर्ता और तिङन्त क्रिया का कर्ता एक न हो ।*

* कुछ एक स्थलों में भिन्नकर्तृकता में भी तुमुन् देखा गया है—
षाष्पश्च न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि (शकुन्तला ६।२२॥), स्मर्तुं दिश-
न्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः (किरात ५।२८॥) । प्रथम वचन दुष्पन्त का है ।

“मुझे जाने की आज्ञा दो” इस वाक्य का अनुवाद—‘अनुजानीहि मां गमनाय’ होना चाहिए, न कि ‘अनुजानीहि मां गन्तुम्’। यहाँ तिङन्त क्रिया का कर्त्ता ‘युष्मद्’ है, और तुमुन्नन्त का ‘अस्मद्’। ‘उसने अपने नौकर को कुएँ से जल लाने के लिये कहा’। इस वाक्य का ‘स भृत्यं कृपाज्जलमाहर्तुमादिशत्’ इस प्रकार का संस्कृत अनुवाद व्याकरण के विरुद्ध है। इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए—स भृत्यं कृपाज्जलमाहरत्यादिशत्। ‘गुरु ने शिष्य को उपद्रव से रोका’ इसका यह संस्कृत अनुवाद है—गुरुः शिष्यं चापलेनालमित्युपादिशत्। अथवा (मा स्म चापलं करोरित्युपादिशत्)। ‘गुरुः शिष्यं चापलं कर्त्तुं न्यपेधत्’—ऐसा नहीं कह सकते। ‘उसने स्वामी की हत्या के लिये नौकरों को प्रेरित किया’ इसका अनुवाद—‘स स्वामिनं हन्तुं भृत्यान्चोदयत्’ यह अनुवाद न होकर ‘स स्वामि-हत्यायै भृत्यानचोदयत्’, इस प्रकार से होना चाहिए।

यह स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत में ‘तुमुन्नन्त’ किसी क्रिया का कर्त्ता और कर्म बन कर प्रयुक्त नहीं हो सकता। ‘प्रातः काल भ्रमण करना आरोग्य कारक है’ इसका अनुवाद ‘प्रातर्विहर्तुमारोग्यकरम्’ न होकर ‘प्रातर्विहार आरोग्यकरः’ (प्रातर्विहरणमारोग्यकरम्) इस प्रकार होना चाहिए। यद्यपि तुमुन् ‘भाव’ में होता है जैसा कि ‘ल्युट् व घञ् हांतं हैं’। इसी प्रकार ‘मैं गाना सीखता हूँ’ इसका अनुवाद—‘अहं गातुं शिक्षे’ की अपेक्षा ‘अहं गानं शिक्षे’ इस प्रकार होना चाहिए।

समास—छात्रों को जब तक समास विषयक अभ्यास न दिया जाय, तब तक साधारणतया समास का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका यह कारण नहीं कि उनका समास सम्बन्धि ज्ञान बहुत संकुचित है (जैसा कि प्रायः देखा गया है) प्रत्युत यह भी कि उन्हें मालूम नहीं होता कि समास का कब प्रयोग करना चाहिए, और कब नहीं। प्रायः देखा गया है कि छात्र समास का प्रयोग करते २ शब्दों का बेढब सा शब्द जोड़ कर बैठते हैं, जिससे

‘ददाति’ का कर्त्ता ‘बाष्प’ है और ‘प्रष्टुम्’ का ‘दुष्यन्त’ है। पर ‘दुष्यन्त’ की सम्प्रदानता विवक्षित है, अतः भिन्नकर्त्तृकता रूपी दोष नहीं है। द्वितीय वचन में सुरसुन्दरियों की सम्प्रदानता शब्दोक्त है। अतः ‘स्मर्तुम्’ की कर्त्तृता विवक्षित नहीं। एक काल में एक कारक की ही विवक्षा हो सकती है।

वाक्य का प्रसाद गुण नष्ट हो जाता है, और पदों के गुण प्रधान-भाव में उलट पुलट हो जाता है। 'जन्म यस्य पुरोर्वशे युक्तरूपमिदं तव। इस वाक्य में 'पुरोर्वशे' के 'पुरु' शब्द की जो प्रधानता है, वह पुरुशब्द का वंश शब्द के साथ समास किये जाने में नहीं रहती। वाक्य में प्रयुक्त हुआ २ पुरुशब्द 'पुरु' का वंश के साथ सम्बन्ध ही नहीं बताता, किन्तु उसके अतिरिक्त पर्याप्त भाव की और भी संकेत करता है। पुरुशब्द साभिप्रायविशेषण है। इससे यह भी व्य-
 ङ्यार्थ मिलता है कि इस वंश का प्रवर्तक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह उस महामहिम पुरु का वंश था, जिसने अपने पिता यथाति के आदेश से उसके बुढ़ापे को स्वीकार किया और उसे अपना जीवन प्रदान किया। पुरु का यह उत्कर्ष 'व्यास' द्वारा प्रकट किया जा सकता है न कि समास द्वारा। भाषामर्मज्ञों का कहना है—'सम्बन्धमात्रमर्थानां समासो ह्यवबोधयेत्।

नोत्कर्षमपकर्षं वा वाक्यात्तुभयमप्यदः ॥

कुछ एक भाव समास से ही प्रकट किये जा सकते हैं। जैसे—कृष्णसर्पः (काला विपैला साँप), त्रिफला (= हरीतकी, आमलकम्, विभीतकम्), त्रिकटु (= शुण्ठी, पिप्पली, और मरिचम्), अमृतसरम् (एक नगर का नाम), चतुष्पथम् (= चौराहा), चतुःशालम् (= चौक)। उपर्युक्त शब्द केवल समास के द्वारा ही किसी वस्तु विशेष को सूचित करते हैं। यदि हम 'कृष्णः सर्पः' कहें, तो इससे किसी विशेष जाति के साँप का बोध नहीं होता। इसी प्रकार 'अमृतस्य सरः' का अर्थ अमृत का तालाव है। यदि हम उस स्थान के लिये जहाँ चार सड़कें परस्पर मिलती हैं, कोई एक शब्द चाहें तो हमें 'चतुष्पथम्' का ही प्रयोग करना होगा। हम कहीं भी 'चतुर्णां पथां समाहारः' प्रयोग नहीं करते, यह तो केवल व्याकरण की दृष्टि से की गई 'चतुष्पथम्' की निरुक्ति मात्र है। ये सब संज्ञाएँ हैं। संज्ञा का बोध वाक्य से हो नहीं सकता। अतः समास का आश्रय अवश्य लेना पड़ता है।

कुछ एक शब्द ऐसे हैं, जो समास में उत्तर पद होकर ही प्रयुक्त हो सकते हैं, समास से बाहर नहीं। 'निभ, संनिभ, संकाश, नीकाश, प्रतिकाश, उपम आदि शब्दों के विषय में ऐसा देखा जाता है। अमर कोष का 'स्युत्तरपदे-

* यहाँ अनोऽश्मायस्तरसां जाति संज्ञयोः—इससे अच् समासान्त हुआ है।

‘वमी । निभसंकाशनीकाशप्रतिकाशोपमादयः’ यह वचन इसका ज्ञापक है । ‘उत्तर पद’ शब्द समास के चरमावयव (अन्त्यपद) में रूढ़ है । अतः ‘ताराधिपनि-भाननम्’ के स्थान में ताराधिपेन निभम् ‘आकाश-नीकाशम्’ के स्थान में ‘आकाशेन नीकाशम्’ इत्यादि नहीं कह सकते । कहीं २ हम समास से विवक्षित अर्थ को नहीं कह सकते । हम ‘रामो जामदग्न्यः’ तो कह सकते हैं, पर ‘जामदग्न्यरामः’ नहीं । इसी प्रकार हमें—‘सर्वनिजघनम्’* न कहकर ‘सर्वं निजं घनम्’ ‘बालोत्तमः’ न कहकर ‘बालानामुत्तमः’ । ‘पूर्वच्छात्रः’ न कहकर पूर्वश्च्छात्राणाम् । ‘मध्यमपाण्डवः’ न कहकर, मध्यमः पाण्डवः । ‘अद्य पक्षमदिवसे’ न कहकर, ‘अद्य सप्तमे दिवसे । ‘लोकधाता’ न कहकर, ‘लोकस्य धाता’ ‘सर्वविदितम्’ (सब को विदित) न कहकर ‘सर्वस्य विदितम्’ । पाणिनि सूत्रकारस्य । सूत्रकारपाणिनेः न कहकर ‘पाणिनेः सूत्रकारस्य’ ही कहना चाहिये ।

संख्यावचनों का दूसरे सुबन्तों के साथ यत्र तत्र समास नहीं हो सकता । जहाँ हम विशतिगावः, शतं स्त्रियः, सप्तसप्ततिश्छात्राः, पञ्चाशतं पुस्तकानि क्रीणाति, त्रिंशता कर्मकरैः परिखां खानयति, द्व्यशीतये विद्यार्थिभ्यः पारितोषिकाणि दीयन्ताम्, शतस्याम्नाणां कियन्मूल्यम्, चतुःषष्टौ कलासु नदीप्यः इत्यादि (समास न करते हुए) कह सकते हैं, वहाँ विशतिगावः, शतस्त्रियः, सप्तसप्त-तिच्छात्राः, पञ्चाशत्पुस्तकानि क्रीणाति, त्रिंशत्कर्मकरैः परिखां खानयति, द्व्यशीतिविद्यार्थिभ्यः पारितोषिकाणि दीयताम्, शताम्नाणां कियन्मूल्यम् चतुःषष्टि कलासु नदीप्यः इत्यादि समास करके नहीं कह सकते । हाँ जहाँ समास से संज्ञा का बोध हो वहाँ समास निर्दोष है । जैसे—सप्तर्षयः, पञ्चात्राः ।

समासों के परस्पर पौर्वापर्य के विषय में वाक्यरचनाप्रकरण में प्रसङ्गवश कुछ कह आये हैं । इस विषय में कुछ अधिक वक्तव्य है । वाक्य के स्थान पर समास बनाते हुए जहाँ नञ्-समास भी करना है और दूसरे समास भी, वहाँ पहले दूसरे समास किये जायेंगे, पीछे नञ्-समास होगा । ‘बलि (= कर) से जो पीडित नहीं’, जो स्नेह से नहीं जीता जा सकता’, सूर्य से छिन्न भिन्न

* सर्वनिजघनम्—त्रिपद तत्पुरुष है और तत्पुरुष प्रायः द्विपद ही होता है । अतः यह दुष्ट प्रयोग है । देवदत्तस्य गुरोः कुलम्—यहाँ देवदत्तगुरु कुलम्, ऐसा समास नहीं हो सकता । इसी प्रकार ‘पावनं स्वं जन्म’ के स्थान में ‘पावनस्वजन्म-ऐसा समास नहीं हो सकता ।

नहीं किया जा सकता', 'रत्नों की प्रभा से नष्ट नहीं किया जा सकता', 'शीतल उपचारों से दूर नहीं किया जा सकता', 'रात के अन्त में जिस में जागना नहीं होता', 'जड़ी बूटी और मन्त्रों से जिसकी चिकित्सा नहीं हो सकती', 'उससे न बनाया हुआ' इत्यादि वाक्यों के स्थान में संस्कृतसमास रचना क्रम से इस प्रकार होगी—अबलिपीडिताः, अस्नेहजेयम्, अभानुभेद्यम्, अरत्नालोकोच्छेद्यम् (तमः), अशिशिरोपचारहार्यम्, अक्षपावसानप्रबोधा (निद्रा), अमूलमन्त्रगम्यः (दर्पाज्वरः) । अतत्प्रणीतम् । पहले नञ्समास करके बल्य-पीडिताः, स्नेहाजेयम्, भान्वभेद्यम् इत्यादि नहीं कह सकते ।

संस्कृतानुसार परिवर्तन—कई बार हमें हिन्दी के वाक्यों को पहले संस्कृत साँचे में ढालना होता है, और पीछे उन का संस्कृत में अनुवाद करना होता है । जैसे—'उसे ज्वर आ गया'—इस वाक्य को हिन्दी में 'ज्वर ने उसे पकड़ लिया' ऐसा परिवर्तन कर इस की इस प्रकार संस्कृत बनाएँगे—तं ह ज्वरो जग्राह । यहाँ कुछ एक साधारण, पर रोचक हिन्दी के वाक्य संगृहीत किये जाते हैं । उनके साथ ही उनके यथेष्ट परिवर्तित हिन्दी स्वरूप, तथा उनके संस्कृत अनुवाद भी दिये जाते हैं । उसे कह दो ठहरो, उसका भाई अभी आता है (उसे कह दो तुम ठहरो, तुम्हारा भाई.....) = तं बृहि, तिष्ठ, श्रमित आयाति ते आतेति । आप का यहाँ कितने दिन ठहरने का विचार है (आप यहाँ कितने दिन तक ठहरना चाहते हैं) = कियतो वासगानिह स्थातु-मिच्छसि । वह उसके सींगों की सुन्दरता से आश्चर्य पूर्ण हो गया (उसके सींगों की सुन्दरता को देखकर वह विस्मय को प्राप्त हुआ) । तस्य शृङ्गाणां शोभामालोक्य स विस्मयं जगाम । वह मुझे सज्जन दिखाई दिया (मुझे वह सज्जन है, ऐसा मालूम हुआ) = स सज्जन इति मां प्रत्यभात् । सौभाग्य से उसके मन में एक निपुण उपाय पैदा हुआ (उसने एक निपुण उपाय सोचा) = स देवात्—पटुमेकमुपायमुपालब्ध । विद्वान् निर्धन होता हुआ भी सब जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है (= पूजा जाता है) = विद्वान् दुर्गतोपि सन् सर्वत्रोपचर्यते । जो आज धनी हैं सम्भव है वे कल धनवान् न रहे

* इसमें हेतु यह है कि 'नञ्' का समास पयुदास अर्थ में होता है प्रसज्य प्रतिषेध में नहीं । पयुदास के द्रव्य प्रधान होने से कर्ता व करण अर्थ में तृतीयान्त पदों का नञ्समास के साथ कोई अन्वय नहीं बनता ।

(= निर्धन हो जाँ) = येऽद्य सधनास्ते इवो निर्धनाः स्युः । मैं तुम्हें ठोक-पीट कर अच्छा लड़का बना दूँगा (मैं तुम्हें बार २ ताड़ना करके योग्य बना दूँ) = ताडयित्वा ताडयित्वा त्वामहं विद्वांसं करिष्यामि । परीक्षा की असफलता से छात्र को निराश नहीं होना चाहिए (यह विचार कर कि मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हूँ छात्र निराश न हो) = नोत्तीर्णोऽस्मि परीक्षामिति हताशो मा भूच्छात्रः । मुझे तुम्हारे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं मैं तुम्हारे प्रस्ताव का विरोध नहीं करूँगा) = नाऽहं ते प्रस्तावं विरोत्स्यामि । दीवार फाँदने का मेरा यत्न यूँही गया, (दीवार को लॉधने का मेरा प्रयत्न निष्फल हुआ) = कुड्यलङ्घने मे प्रयत्नो विफलोऽभूत् । उसने अपनी टाँग तोड़ ली (उसकी टाँग टूट गई) = भग्नस्तस्य पादः । वह रस्सी में अपना पैर फँसा बैठा (उसका पैर रस्सी में फँस गया) = पाशे बद्धोऽभूत्तस्य पादः । ऋषि के आने पर वह फूला न समाया (ऋषि के आने की प्रसन्नता उसमें नहीं समाई) = तस्मिन् (कृष्णे) तपोधनाभ्यागमजन्यः प्रमोदो नाऽमात् । ‘आओ, खुली हवा में चलें (खुले मैदान में चलें) = प्रकाशमवकाशं गच्छामः ।

‘उन्होंने ने घर को आग लगा दी (घर में आग दे दी) = ते गृहेऽग्नि-मददुः । ‘यह चोट पर चोट लगी है (यह धावों पर नमक छिड़कना है) = अयं क्षते क्षारप्रक्षेपः । क्या चीज अच्छा कवि बनाती है = सत्कवित्वे किंकारणम् । उसका यह गुण उस के अन्य दोषों को धो देता है (पोंछ देता है) = अयं तस्य गुणोऽन्यान्दोषान्प्रमाष्टि । वे घोर कर्म करने पर उतारु हैं (उन्होंने निर्घृण कार्य करने की ठानी है) = तेऽद्यप्राचरितुं व्यवसिताः । ऊपर के सब वाक्य उदाहरण के तौर पर दिए गये हैं, इन के अतिरिक्त ऐसे ही कई एक अन्य वाक्य भी हैं ।

जाने को तो मैं वहाँ जा सकता हूँ (= यदि मुझे वहाँ अवश्य जाना है) = यदि मे तत्रावश्यं गन्तव्यं ननु क्षमोऽस्मि गन्तुम् । कश्मीर घाटी की सुन्दरता कहते नहीं बनती (= कही नहीं जा सकती) = काश्मीरद्रोण्या रामणीयकं वाचामगोचरः, वक्तुं न लभ्यते । दूत महाराज जनक की सेवा में भेजा गया (दूत...के पास, चरणों में) = महाराजाय जनकाय विसृष्टो दूतः, महाराजस्य जनकस्य पादमूलमनुप्रेषितो दूतः । कोई कितना ही दुष्ट क्यों न हो (= यद्यपि कोई अतिदुष्ट हो) = यद्यपि कश्चिदतिदुर्जनः स्यात् ।

सन्धि—‘आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार की सन्धि संस्कृत भाषा का

प्रधान अंग है। वास्तव में प्राचीन वैदिक व लौकिक साहित्य में न केवल एक ही पद के अन्तर्गत परन्तु किसी के भिन्न-भिन्न पदों के मध्य में सन्धि का अभाव ढूँढे से भी नहीं मिलता है। हाँ, इने-गिने स्थल हैं जहाँ सन्धि नहीं होती, जहाँ व्याकरण की परिभाषा में प्रकृति भाव होता है पर इस प्रकृति भाव के नियमों के अनुसार भी वाक्य में वार २ सन्धि न करना उन की दृष्टि में दोष है। एक पद के अनन्तर जो दूसरा पद आता है उन दोनों के अन्त्य और आदि स्वरों या व्यञ्जनों में अवश्य सन्धि होती है। चाहे उन दो पदों के अर्थों का परस्पर सम्बन्ध हो चाहे न हो। एवं प्राचीन लोग दो वाक्यों के बीच में भी विराम करना नहीं चाहते थे। वे तो तिष्ठतु दधि अशान त्वं शाकेन—इन दो वाक्यों को दधि और अशान पदों में सन्धि किये बिना नहीं पढ़ सकते थे। ई के स्थान में य् कर के वे इन्हें “तिष्ठतु दध्यशान त्वं शाकेन” (दही रहने दो और साग से खाना खाओ) इस प्रकार पढ़ते थे। यहाँ यह अत्यन्त स्पष्ट है कि ‘दधि’ और ‘अशान’ का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं। दधि का अन्वय ‘तिष्ठतु’ के साथ है, और ‘अशान’ का अगले वाक्य के गम्यमान कर्ता ‘त्व’ के साथ। संस्कृत के कुछ एक अध्यापकों की ऐसी शोचनीय प्रवृत्ति है कि वे छात्रों में यह संस्कार डालते हैं कि वाक्यगत सन्धि इतनी आवश्यक नहीं है। वे इस प्रकार की सन्धि को प्रधान अङ्ग न समझ कर केवल-मात्र विवक्षा के अर्थान मानते हैं। इस विचार की पुष्टि में नीचे दी हुई प्रसिद्ध कारिका आश्रय लेते हैं—

‘संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः।

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥

माना कि यह कारिका वाक्य के अन्तर्गत पदों के बीच सन्धि करना वैकल्पिक कहती है; परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह विकल्प सीमित है या नहीं (यह व्यवस्थित विभाषा है वा नहीं) ? हमारा उत्तर है कि यह विकल्प अत्यन्त सीमित है। संहिता का अर्थ है—स्वरों वा व्यञ्जनों का एक दूसरे के अनन्तर आना, और सन्धि के नियम तभी लागू होते हैं, जब वाक्य के शब्दों में संहिता हो, अथवा विराम न हो। साधारण तौर पर किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के अन्त में विराम होता है, और विराम होने पर एक वाक्य की दूसरे वाक्य के साथ, अथवा एक वाक्यांश की दूसरे वाक्यांश के साथ सन्धि नहीं होती। उदाहरणार्थ—‘सखे, एहि, अनुगृहाणे मं जनम् यहाँ

सबसे और एहि के पीछे विराम स्पष्ट ही अपेक्षित है ? परन्तु 'अनुगृहाण' के पीछे विराम का कोई स्थान नहीं। अत एव 'अनुगृहाण' के अन्तिम स्वर के पीछे आने वाले 'इमम्' शब्द के प्रथम स्वर 'इ' के साथ अवश्य सन्धि होती है। श्लोक के प्रथम और तृतीय चरणों के पीछे शिष्टों ने विराम नहीं माना, सो वहाँ सन्धि अवश्य होती है। बाण और सुबन्धु के गद्य से हमें पता चलता है कि वे किसी वाक्य के अन्तर्गत पदों में सदा ही सन्धि करते थे, चाहे वाक्य कितना भी लम्बा क्यों न हो। जब ये ग्रन्थकार विशेषणों की एक विस्तृत शृङ्खला बना देते हैं, और एक २ विशेषण कई एक पदों अथवा उपमानपदों का समास होता है, तब इन विशेषणों के अन्य या प्रारम्भिक चरणों में सन्धि नहीं करते। वास्तव में इतने विस्तृत विशेषणों के बाद विराम का होना स्वाभाविक है। जब कभी इस प्रकार विशेषण प्रयुक्त किये जाते हैं, चाहे वे विस्तृत न भी हों फिर भी प्रत्येक विशेषण का प्राधान्य देने के लिए विराम की अपेक्षा होती ही है। इस के अतिरिक्ति जब कभी इन ग्रन्थकर्त्ताओं ने कुछ एक वस्तुओं की गणना की है, वे नियमित रूप से प्रत्येक वस्तु के नाम के बाद भी इस विचार से विराम करते हैं कि इन वस्तुओं के नाम अविकृत रूप में रहें, और संहिता से उच्चारण के द्वारा व्यतिकीर्ण न हो जाएँ। उदाहरणार्थ—'कादम्बरी' का वह सन्दर्भ पढ़ना चाहिए, जिस में चन्द्रार्पीड द्वारा सीखी गई भिन्न २ विद्याओं का वर्णन है। सारांश यह है कि रामो ग्रामं गच्छति, हरिर्मादते मोदकेन, स्वभाव एवैप परोपकारिणाम्। तच्छ्रुत्वापि सा धैर्यं न सुमांच। अस्मिस्तडागे प्रचुराण्यभिनवानि नलिनानि दृश्यन्ते इत्यादि वाक्यों में विराम का कोई अवसर न होने से एक पद की दूसरे पद के साथ सन्धि न करना अक्षम्य है। उपर्युक्त वाक्य सन्धि के बिना इस प्रकार रह जाते हैं—रामः। ग्रामम्। गच्छति। हरिः। मोदते मोदकेन। स्वभावः। एव। एपः। परोपकारिणाम्। तद्। श्रुत्वा। अपि

* इसी भाव से प्रेरित होकर प्राचीन आर्य, अवर्णान्त पद से परे 'ओम्' शब्द के आने पर सन्धि (औकार) नहीं करते थे जिसके लिये भगवान् सूत्रकारने 'ओमाञ्जेश्च' सूत्र का निर्माण किया। ब्रह्म निर्विकार है, ओम् (प्रणव) उसका वाचक है। आर्यों की यह इच्छा रही कि जिस प्रकार वाच्य ब्रह्म अविकारी है उसी प्रकार उस का वाचक भी अविकृत रहे।

सा धैर्यम् । न मुमोक्ष । अस्मिन् । तडागे प्रचुराणि । अभिनवानि नलिनानि
दृश्यन्ते । इन वाक्यों को पढ़ते हुए बार २ रुकना पड़ता है । ध्यान से देखा
जाए तो यह मालूम होगा कि उपर्युक्त वाक्यों में सन्धि न होने से लगभग
प्रत्येक पद के बाद विराम है । ऐसा प्रतीत होता है कि हम पृथक् २ पदों को
कह रहे हैं न कि योग्यता, आकाङ्क्षा, और आसक्ति के कारण जुड़े हुए एक
वाक्य बनाते हुए पदों को ।

(विश्लिष्टानि पदानि पठाम इति प्रतीतिर्जायते न तु संसृष्टार्थपदमेकं
वाक्यम्) । निश्चय ही हमारे प्राचीन कवियों या ग्रन्थकारों की भाषा इस
प्रकार की नहीं थी । और इस के विपरीत हमें नई परिपाटी घड़नी
भी नहीं ॥ इति ॥

संस्कृतेन परीवर्ते विशेषज्ञोपि मुह्यति ।
विनेयास्तत्र मुह्येयुरिति नो विस्मयाय नः ॥१॥
तेनात्र पद्धती काचित्करणीया प्रबोधिनी ।
सरला सरसा चैव शिष्टलोकानुमोदिता ॥२॥
इति च्छात्रप्रबोधाय कोविदप्रमदाय च ।
प्रयोगशुद्धये साध्वीं प्रकुर्मः सरणिं नवाम् ॥३॥
शिष्टजुष्टा सृतिर्वाचां न्यक्षेणेह प्रदर्शिता ।
तदत्ययाश्च संभाव्या भूयो भूयो विगर्हिताः ॥४॥
ये ये च प्रायिका वाचि विनेयानां मतिभ्रमाः ।
सर्वे ते समनुक्रम्य सोपस्कारं निदर्शिताः ॥५॥
यद्येषा कामितां कुर्याच्छात्राणां वाचि संस्कृतिम् ।
नूनं फलेग्रहिर्यत्नस्तदास्माकं भवेदयम् ॥६॥

अनुवाद-कला

प्रथम अंश

अभ्यास—१

१—हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं और पाठकों^१ का मङ्गल चाहते हैं ।
२—राजा दुष्टों को दण्ड देता है और मर्यादाओं की रक्षा करता है ।
३—विनय विद्या को सुशोभित करता है और क्षमा बल को । ४—इन विद्यार्थियों की संस्कृत में रुचि ही नहीं, अपितु लगन^२ भी है । ५—वे शास्त्रों का चाब से परिशीलन करते हैं और सन्मार्ग^३ में रहते हैं^३ । ६—यति परमेश्वर का ध्यान करता है और तपस्या^४ से पाप का क्षय करता है^४ । ७—राम ने शङ्कर के धनुष् को तोड़कर सीता से विवाह किया । ८—धारा दुध मुँह बच्चे के वस्त्रों को धोती है । ९—छात्रों ने उपाध्याय को देखा और झुककर^५ चरणों में नमस्कार किया^५ । १०—मनोरमा ने गीत गाया और सारे हाज में सन्नाटा छा गया । ११—तुम दोनों ने अवश्य ही अपराध किया है । तुम्हारा इनकार^६ कुछ अर्थ नहीं रखता । १२—विश्वामित्र ने चिरकाल तक तपस्या की और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया । १३—वह मालती के पुष्पों को सूँघता है और ताजा हो जाता है । १४—मैं गौ को ढूँढ^७ रहा हूँ,^७ नहीं मालूम किस ओर निकल गई है । १५—वह घोड़े से गिर गया, इससे उसके सिर पर चोट आई । १६—मेरे पास पुस्तक नहीं, मैं पाठ कैसे याद करूँ । १७—तू नरक को जायगा, तू गुरुओं का तिरस्कार करता है । १८—वे माता पिता की सेवा करते हैं, अतः सुख पाते हैं । १९—ब्रह्मचारी गुरु से आज्ञा पा जंगल से

१—पठकानाम् । संस्कृत में 'पाठक' का प्रयोग अध्यापक के अर्थ में होता है । देखो पठकाः पाठकाश्चैव—महाभारत) । २—अभिनिवेशः, प्रसङ्गः । ३—३ सन्मार्गं चाभिनिविशन्ते । ४—४ तपसा किल्बिषं हन्ति । ५—५ चरणयोश्च प्रणम्यतन् । ६—अपलापः, निहवः, प्रत्याख्यानम् । ७—७ अन्विच्छामि, अन्विष्यामि ।

समिधा^१ लाते हैं । २०—बच्चा^२ अग्नि में हाथ डाल देता है और माता उसकी ओर दौड़ती है ॥

संकेत—यहां छोटे छोटे सरल वाक्य दिये गये हैं जिन में क्रियापद कर्तृ-वाचक हैं । इनके अनुवाद में कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है । कर्ता के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन होते हैं । ७—रामः शाङ्करं धनुरानम्य सीतां पर्यणयत् । यहाँ 'आनम्य' (= आ-नम्-णिच्-ल्यप्) ही निर्दोष रूप है । 'आनाम्य' सदोष होगा । ८—धात्री स्तनन्धयस्य पोत्राणि धावति । 'पोत्रं वस्त्रे मुखाम्ने च शूकरस्य हलस्य च' इति विश्वः । १०—मनोरमा च प्रागायत्, सभा च प्राशाम्यत् । यहाँ प्रागायत् में 'प्र' आदिकर्म (प्रारम्भ अर्थ) में है । यहाँ 'गीतं प्रागायत्' कहना ठीक न होगा । इसमें केवल पुनरुक्ति-रूप दोष होगा, लाभ कुछ भी नहीं । इसी प्रकार वाचमवोचत्, शपथं शपते-दानं ददाति, भोजनं भुङ्क्ते इत्यादि प्रयोगों का परिहार करना चाहिये । हाँ विशेषण-युक्त कर्म का प्रयोग सर्वथा निर्दोष होगा । १२—विश्वामित्रश्चिरं तपश्चचार ब्राह्मण्यं च जगाम । यहाँ चर^३ का ही प्रयोग व्यवहारानुकूल है, कृ का नहीं । तप का प्रयोग भी कर्मकर्ता अर्थ में आता है, शुद्ध कर्ता अर्थ में नहीं । देवदत्तस्तपस्तप्यते । देवदत्तस्तपस्तपति । ऐसा नहीं कह सकते । १६—मम पुस्तकं (पुस्तकं मे) नास्ति । यहाँ मम पार्श्वे, ममान्तिके इत्यादि कहना व्यर्थ है । १७—नरकं पतिष्यसि, यद्गुरूनवजानासि । कर्ता अर्थ में युष्मद्, अस्मद् का प्रयोग न करने में ही वाक्य की शोभा है । पत् के गत्यर्थ में सकर्मक व अकर्मक प्रयोगों के लिये "विषय-प्रवेश" देखो ।

अभ्यास—२

१—देवापि, शन्तनु और बाल्हीक ये प्रतीप^४ के पुत्र^५ थे । २—कर्ण और अश्वत्थामा^६ पाण्डवों के जानी^६ दुश्मन^६ थे । ३—अच्छा यही ठहरा कि राम, श्याम और मैं अपना भगड़ा गुरुजी के सामने रख देंगे । ४—तुम ने और तुम्हारे भाई ने परिश्रम से धन कमाया और योग्य व्यक्तियों को दे दिया । ५—तू और मैं इस कार्य को मिल^७ कर^७ कर सकते हैं, विष्णुमित्र और यज्ञ-

१—समिध्-स्त्री०, इध्म, इन्धन, एधस्-नपुं० । एध—पुं० । २ अनल, स्वलन, हव्यवाहन, आश्रयाश—पुं० । ३ इसमें अष्टाध्यायी का रोमन्थतपोभ्यां वर्ति चगेः (३।१।१५) सूत्र शपक है । ४-४ प्रातिपेयाः । ५—अश्वत्थामन् नकारान्त है । ६-६ प्राणद्रुहौ दुर्हदौ । ७—७ संभूय ।

दत्त नहीं । ६—न तुभे और नहीं मुझे भविष्यत् का ज्ञान है, क्योंकि हमें आर्षदर्शन प्राप्त नहीं । ७—न तुम और न ही तुम्हारा भाई जानता है कि स्वाध्याय में प्रमाद हानि^१ करता है^१ । ८—इस समय न राजा और न ही प्रजा प्रसन्न दीखते हैं, कारण कि सभी कर्तव्य से विचलित हो रहे हैं । ९—इस दुश्चेष्टित का तुम्हें और उन्हें उच्चार देना होगा । १०—बहू^२ और सास^३ की खटपटी^४ रहती है, ^५ इसलिये घर^५ में शान्ति नहीं । ११—यह बल का काम या तो भीम कर सकता है या अर्जुन । कोई और नहीं । १२—कहा नहीं जाता कि मैं उन्हें जीतूँ अथवा वे मुझे जीतें । १३—मैं जानता हूँ या ईश्वर जानता है कि मैं ने तुम्हें धोखा^६ देने^६ की चेष्टा नहीं की । १४—देवदत्ता ने या उसके साथियों ने कल यह ऊधम मचाया था । १५—भूमि पर पड़े हुए उम महानुभाव के शरीर को न कान्ति छोड़ती है, न प्राण, न तेज और न पराक्रम ।

संकेत—यहाँ ऐसे वाक्य दिये गये हैं जिनमें एक ही क्रिया के अनेक कर्ता हैं—युष्मद्, अस्मद् और इनसे भिन्न राम, श्याम, यद् तद् आदि । कर्ताओं के अनेक होने से क्रियापद से बहुवचन तो सिद्ध ही है । पुरुष की व्यवस्था करनी है । कर्ताओं में से यदि एक अस्मद् हां तो क्रिया से उत्तम पुरुष होगा, यदि अस्मद् न हो और युष्मद् हो तो मध्यमपुरुष होगा, राम, श्याम, यद्, तद् के अनुसार प्रथम पुरुष नहीं । जैसे—इदं तावद् व्यवस्थितं रामः श्यामोहं च विवादपदं निर्णयाय गुरवे निवेदयिष्यामः । इस (अभ्यास के सातवें) वाक्य में अस्मद् के अनुसार ही क्रिया से उत्तम पुरुष हुआ । इसी प्रकार चोत्रे वाक्य में युष्मद् के अनुसार क्रिया से मध्यम पुरुष होगा—त्वं च ते भ्राताच परिश्रमेणार्थमार्जयत् पात्रेषु च प्रत्यपादयत् । ६—न त्वमायति प्रजानासि न चाहम्, न ह्यावयोराषं दर्शनं समस्ति (सम्—अस्ति) । ऐसे वाक्यों में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं । यहाँ दोनों वाक्य नञर्थक (निषेधार्थक) हैं । पहले में कर्ता के अनुसार क्रियापद दे दिया जाता है और दूसरे में नहीं । वह गम्यमान होता है । वक्ता संक्षेप-रुचि होने से उसे नहीं कहता । विवक्षितार्थ का स्पष्ट

१-१ हिनस्ति, रेपति । २-बधू, स्तुषा । ३-श्वश्रू । ४-४ निस्यं कल-
हायेते । ५-निवेतन, निवेशन, शरण, सदन, गृह, गेह—नपुं० । ६-६
वञ्चयितुम्, प्रतारयितुम्, अतिसन्धातुम् ।

बोध होने से वह अधिक पद सा प्रतीत होता है। इसलिये भी उसे छोड़ देने की ही शैली है। ९—त्वं वा तं वा दुश्चेष्टितमिदमनुयोज्याः सन्ति। इसको यूँ भी कह सकते हैं—त्वं वा दुश्चेष्टितमिदमनुयोज्योसि ते वा। निष्कर्ष यह है कि विकल्पार्थक वाक्यों में चाहे पूर्व वाक्य में क्रियापद रखें चाहे उत्तर वाक्य में वाग्व्यवहार में किञ्चित् भी क्षति नहीं होती। जहाँ क्रियापद होगा वहीं के कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन होंगें। १४—देवदत्तो वा तत्सहाया (सहचराः) बाह्य इममुद्धममाचरन्।

अभ्यास—३

(विशेषण-विशेष्य की समानाधिकरणता)

१—विधाता^१ की यह सुन्दर सृष्टि उसकी महत्ता को प्रकट करती है पर वह इससे बहुत बड़ा है। २—इस लड़की की बाणी मीठी और सच्ची है। यह कुलीन होगी। ३—ये अपने^२ हैं, अतः विश्वास के योग्य हैं। ४—वह अनाड़ी^३ कारीगर^३ है, जिस काम को हाथ लगाता है, बिगाड़ देता है। ५—में इस समय ग्वाली^४ नहीं हूँ, मुझे अभी बड़ा^५ आवश्यक^५ कार्य करना है। ६—मेरा नौकर^६ पुराना होते हुए भी विनीत तथा उत्साही है और तुम्हारा नया होते हुए भी उद्धत और आलसी^७। ७—भारतवर्ष के लोग आवभगत के लिये प्रसिद्ध हैं, विदेश से आये हुए यहाँ घर का सा सुख पाते हैं। ८—हिन्दू-जाति न्यायप्रिय एवं धर्मभीरु है। ९—ये ऊँचे^८ कद के^८ सिपाही पंजाब के सिक्ख हैं और ये छोटे^९ कद के^९ नेपाल के गोरखा। १०—ग्राज पिता जी अस्वस्थ हैं, अतः उन्होंने कालेज से दो दिन की छुट्टी ले ली है। ११—यह लुमाने^{१०} वाली भेंट^{११} है, इसे अस्वीकार करना कठिन है। १२—तू बड़ा अनजान है, ऐसे बातें करता है मानो रामायण पढ़ी ही नहीं। १३—देवदत्त

१ त्रिषि, विरञ्चि, शतधृति—पुं०। २-२ इमे स्वाः (सगन्धाः, आसाः)। ३-३ कुकारुक—पुं०। ४ निर्व्यापार, सन्नण—वि०। ५-५ आस्थायिक—वि०। ६ भृत्य, प्रैष्य, किकर, अनुचर, परिचारक, भुजिष्य—पुं०। ७ अलस, शीतक, मन्द, तुन्दपरिमृज—वि०। ८-८ प्रालम्ब, प्रांशु—वि०। ९-९ अल्पतनु, पृश्नि—वि०। १० लोमनीय—वि०। ११ उषहार—पुं०। उपदा—स्त्री०। उपायन, प्रदेशन, उपग्राह्य—नपुं०।

बड़ा बातूनी और झूठा है, समाज में इसका आदर घट रहा है। १४—रमा की साड़ी काली और श्यामा की सफेद है। १५—यह बेग से बहने वाली नदी है, अतः इसे तैर कर पार करना आसान नहीं। १६—यह थोड़ा बड़ा तेज दौड़ता है, होशियार सवार^१ ही इसकी सवारी कर सकता है। १७—क्या यह महाराज दशरथ की प्यारी धर्मपत्नी कौसल्या है? सीता के निर्वासन से इस के आकार में बहुत बड़ा विकार^२ हो गया है।

संकेत—इस अभ्यास में विशेषण और विशेष्य की समानाधिकरण्याता दिखानी दृष्ट है। विशेषण वाक्य में गौण होता है और विशेष्य प्रधान। जिस का क्रिया में सीधा अन्वय हो वह प्रधान होता है। विशेषण का स्वतन्त्रतया क्रिया में अन्वय न होने से यह अप्रधान है। अतः यह कारक नहीं। तो भी विशेषण के वे ही विभक्ति, लिङ्ग और वचन होते हैं जो विशेष्य के। जैसे—
 (१) सुन्दरीयं सृष्टिर्विधेर्विभुत्वं प्रख्यापयति, इतो ज्यायांस्तु सः। २—
 सूनुताऽस्याः कन्यकाया वाक्, इयमभिजाता स्यात्। ७—भरतवर्षस्था आति-
 थ्येन विश्रुताः। वैदेशिका इह गृहलभ्यं सुखं लभन्ते। यहाँ 'आतिथ्याय' कहना ठीक न होगा, क्योंकि यहाँ 'तादर्थ्य' नहीं, हेतु है। १२—अनभिज्ञोसि नित-
 राम्, अनधीत रामायणद्वेषं ब्रवीषि। १३—वाचालो देवदत्तो नृत्तिकश्च, हीयतेऽ
 स्य लोके समादरः। यहाँ 'समाज' के स्थान में लोक शब्द का प्रयोग ही व्य-
 वहाराणुगत है। १४—रमायाः कालिकाः शटी, श्यामायाश्च श्येनी 'श्येत'
 (= श्वेत) के स्त्री लिंग में श्येता और श्येनी दो रूप होते हैं। १५—वेग-
 वाहिनीयं वाहिनी, नेयं सुप्रतरा। १६—आशुरयमश्वः (शीघ्रोयं तुरङ्गः)।
 १७—कथं महाराज-दशरथस्य प्रिया धर्म दारा इयं कौसल्या। यहाँ 'महा-
 राजदशरथस्य' व्यधिकरण विशेषण है। 'इयम्' भी सार्वनामिक विशेषण है।
 अतः विभक्ति, लिङ्ग, वचन में कौसल्या विशेष्य के अधीन है।

१ अश्ववार, अश्वारोह, सादिन्—पुं०। २ विकार, विपरिणाम, परिवर्त, अन्यथाभाव—पुं०।

* यहाँ साड़ी स्वतः काली नहीं, किन्तु रंग देने से काली है, अतः यहाँ 'कालाञ्च' इस सूत्र से कन् प्रत्यय होगा। हाँ काली गौः ऐसा कह सकते हैं।

अभ्यास—४

(विशेषण-विशेष्य की समानाधिकरणता)

१—देवदत्त खिलाड़ी है, सारा दिन खेलता ही रहता है, पढ़ने का तो नाम नहीं लेता। २—विष्णु मित्र का पढ़ने^१ में नियम नहीं^१, यह रसिक श्रवण है। ३—जो भी उत्पन्न हुआ है वह विनाश शील है, यह नियम है। ४—देवदत्ता चौदह वर्ष की लड़की है, इस छोटी अवस्था में इसने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ५—यह स्कूल चौदह वर्ष पुराना है। इस^२ लम्बे समय में इस^२ ने विशेष उन्नति नहीं की। ६—वह सामने कोमल बेल वायु से हिलाई हुई नयी कोंपल-रूपी उंगलियों से हमें अपनी ओर बुला रही है। ७—यह छिछले^३ जल वाला^३ तालाब है, गरमी की रत में यह सूख जाता है। ८—यह पुराना^४ मकान गिरने^४ को है^४, नगर रक्षिणी सभा को चाहिये कि इसे गिरादे। ९—यह क्रोध से लाल पीला हो रहा है, इससे परे रहे। १०—इस की आँखें आई हुई हैं, अतः इसे दीये की ज्योति बुरी लगती है। ११—उस की आँखों के धाव अच्छे हो गये हैं, बेचारं ने बहुत कष्ट उठाया। १२—निश्चय ही पत्नी घर की स्वामिनी है, घर का प्रबन्ध इसी के अधीन है। १३—विद्वान्^५ परस्पर डाह किया करते हैं^५। यह शोच्य है, क्योंकि इसमें हेतु नहीं दीक्षता। १४—मिथ्या गर्वित अयोग्य अध्यापक अमित हानि करता है। १५—धर्मंड में आये हुए कार्य और अकार्य को न जानते हुए, कुमार्ग का आश्रय किये हुए गुरु को भी दण्ड देना उचित है। १६—रजस्वला कन्या पापिन (पापा) होता है, अपढ़ राजा पापी (पापः) होता है, हिंसक शिकारियों का कुल पापी (पापम्) होता है और ब्राह्मण सेवक भी पापी (पापः) होता है। १७—थोड़े समय में सीखी हुई (शीघ्र कला) मनुष्यों के बुढ़ापे का कारण बनती है, जल्दी से जो मृत्यु हो जाय (शीघ्रो मृत्युः) वह ऐसे दुस्तर है जैसे बरसात में पहाड़ी नदी का तेज बहाव (शीघ्रं स्रोतः)। १८—व्याकरण कठिन है, सामन्त्र इससे अधिक कठिन हैं। मीमांसा कठिन है, वेद इससे अधिक कठिन हैं।

१-१ अनियमः पाटे, (विष्णुमित्रः) पाटेऽनित्यः (अनियतः)। २-२ एतावता दीर्घेण कालेन। ३-३ गाघ। ४ पुराण, जीर्ण—वि०। ५-५ पत्नो-न्मुखम्। ६-६ बुधाः समसराः, मत्सरिणां विद्वांसः।

संकेत—आक्रीडी देवदत्तः सर्वाह्लामाक्रीडते, पठन् त्विच्छत्येव न । देवदत्त आक्रीडी (अस्ति) । ऐसा कहें तो देवदत्त उद्देश्य होता है और आक्रीडी विधेय । विशेषण-विशेष्य की तरह उद्देश्य-विधेय की भी समानाधिकरणता होती है, पर उद्देश्य और विधेय में कहीं २ लिङ्ग व वचन का भेद होता है । यहाँ 'आक्रीडते' में आत्मनेपद पर ध्यान देना चाहिये । ४—देवदत्ता चतुर्दशवर्षा कन्यका । यहाँ चतुर्दशवार्षिकी † कहना ठीक न होगा । ५—शतुर्दशवार्षिकीयं पाठशाला । यहाँ चतुर्दशवर्षा कहना अशुद्ध होगा । ६—असौ सुकुमारी वल्ली वातेरितनवपल्लवाङ्गलिभिर्नस्स्वरयतीव । यहाँ 'अदम्' का प्रयोग व्यवहार के अनुकूल है, तद् का नहीं । सुकुमार का स्त्रीलिंग रूप 'सुकुमारी' है, सुकुमारा नहीं । + ९—अयं लोहितकः कोपेन, एनं परिहर । यहाँ 'लोहितः कोपेन' नहीं कह सकते । 'एनम्' के स्थान में इमम् नहीं कह सकते । १०—दुःखिते अस्याक्षिणी, तस्मादयं दीप शिखामग्रतो न सहते । ११—संरूढास्तस्य नयन व्रणाः (संरूढानि तस्य नयन व्रणानि) । 'व्रण' पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग है, पर 'नाडीव्रण' केवल पुँल्लिङ्ग है १२—पत्नी नाम गृहपत्नी (गृहपतिः), एतत्तन्त्रं हि गृहतन्त्रम् । 'प्रबन्ध' शब्द का जो हिन्दी में अर्थ है वह संस्कृत में नहीं । संस्कृत में इसके अर्थ को 'संविधा' 'संविधान' शब्दों से कहा जाता है । तन्त्र धन्धे को कहते हैं और अधीन को भी । १८—कष्टं व्याकरणं, कष्टतराणि सामानि । कष्टा मीमांसा, कष्टतर आग्नायः । संस्कृत में इय अर्थ में कठिन शब्द का प्रयोग नहीं होता ।

अभ्यास—५

१—ऋषि और मुनि सब की पूजा के योग्य हैं, क्यों कि वे 'पापरूपी दलदल में फँसे हुए लोगों का उद्धार करते हैं' । २—राम और सीता प्राणियों

† यदि चेतन पदार्थ अभिधेय हो तो तमधीष्ठो भूतो भूतो भावी इस अर्थ में आया हुआ तद्धित प्रत्यय लुप्त हो जाता है । यह नियम वर्षान्त द्विगु समास (द्विवर्ष, पञ्चवर्ष, विंशतिवर्ष अशीतिवर्ष, इत्यादि) में ही लगता है ।

+ कुमार शब्द से 'वयसि प्रथमे' इस सूत्र से डीप् प्रत्यय होता है । सुकुमार शब्द से भी इसी सूत्र से डीप् होगा, क्यों कि स्त्री प्रत्यय अधिकार में तदन्त-विधो होती है और सुकुमार में कुमार शब्द उपसर्जन नहीं, सुकुमार प्रादित्पुरुष है । अतः 'अनुपसर्जनात्' यह निषेध यहाँ लागू नहीं । सुकुमार का 'कोमल' अर्थ उपचार से है । १—१ पापपङ्कनिमग्नानुद्धरन्ति ।

में सब से अधिक पवित्र थे, इन के जन्म से दशरथ और जनक के वंश ही कृतार्थ नहीं हुए, तीनों लोक भी । ३—दिलीप और उसकी रानी सुदक्षिणा नन्दिनी गौ के बड़े भक्त थे । 'चाहें दिन हो या रात' ये इस की सेवा में लगे रहते थे । ४—काम और क्रोध मनुष्य के २ आन्तरिक महाशत्रु हैं, ३ कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान् को इन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । ५—देवदत्त और उसकी बहिन पढ़ाई से ऊब गये हैं, लाख यत्न करने से भी इन का मन पढ़ाई में नहीं लगाया जा सकता । ६—प्रमाद और आलस्य विनाशकारी हैं । 'दोनों ही लोकयात्रा के विरोधी हैं' । ७—दानशीलता, दया और क्षमा मनुष्य को सब का प्यारा बना देते हैं । इन गुणों को दैवी सम्पत्ति कहते हैं । ८—निद्रा और भय प्राणियों का समान धर्म है । अभ्यास और वैराग्य से इन्हें कम किया जा सकता है ९—* बड़े हर्ष की बात है कि यह वही दीर्घ बाहु अञ्जना का पुत्र है जिसके पराक्रम से हम और सभी लोक कृतार्थ हुए । १०—मुझे व्याकरण और मांमांसा दोनों रुचिकर हैं, अर्थ शास्त्र में मुझे थोड़ी ही रुचि है ।

संकेत—यहाँ ऐसे वाक्य दिये गए हैं जिन में उद्देश्य तो अनेक हैं पर विधेय एक है । उद्देश्य जब भिन्न २ लिङ्गों के हों तो विधेय का क्या लिङ्ग होना चाहिये, यह व्यवस्था करनी है । दूसरे वाक्य में राम और सीता दो उद्देश्य हैं, एक पुल्लिङ्ग और दूसरा स्त्रीलिङ्ग । इस अवस्था में विधेय पुल्लिङ्ग होगा । वचन के विषय में कोई सन्देह नहीं । रामः सीता च प्राणिनां पवित्रतमौ । एतयोर्जन्मना न केवलं जनकदशरथयोः* कुले कृतिनी संजाते, त्रीणि भुवनान्यपि (कृतीनि संजातानि) । ५ - देवदत्तस्तस्य भगिनी च पर्यध्ययनौ (अध्ययनाय परिग्लानौ), यत्नशतेनापि न शक्यमनयोर्मनः पठने प्रसङ्गयितुम् । 'लाख यत्न करने से' इत्यादि स्थलों में संस्कृत में 'शत' का प्रयोग शिष्ट संमत है । शत यहाँ अनन्त का अर्थ देता है । ८—निद्रा

१—१ दिवा वा नक्तं वा । २ आन्तर, अन्तस्थ—वि । संस्कृत में आन्तरिक आभ्यन्तरिक शब्द नहीं मिलते । ३ शिव, कल्याण, भव्य, भावुक, भविक—नपुं० ।

४—४ उभे लोकयात्राया विरोधिनी । यहाँ नपुंसक उद्देश्य के अनुसार विधेय का लिङ्ग होता है । 'उभे' सर्व नाम भी नपुं० द्विवचन है । ५—'जनक' अल्पात्तर है अतः समास में इस का पूर्व निपात हुआ ।

मयं च प्राणिनां साधारणे । एते अभ्यासवैराग्याभ्यां शक्ये व्यपकर्तुम् । यहाँ दो उद्देश्यों में से 'निद्रा' स्त्रीलिङ्ग है और 'मय' नपुंसक लिङ्ग है । इन का एक विधेय 'साधारण' नपुं० द्विवचन में रखा गया । इन्हीं दो उद्देश्यों के लिये एक सर्व नाम एतद् भी नपुं० द्विवचन में प्रयुक्त हुआ ।

अभ्यास—६

(अजहल्लिङ्ग विधेय)

१—गुरु जी कहते हैं दूसरे की निन्दा मतकरो, निन्दा पाप है । २—राम अपनी श्रेणि का रत्न है और अपने कुल का भूषण है । ३—वे सब मङ्गल पदार्थों के निवास स्थान (निकेतन) और जगत् की प्रतिष्ठा हैं । ४—पाण्डव छोटी अवस्था में ही कौरवों की शङ्का का स्थान बन गये । ५—वह राजा की कृपा का पात्र (पात्र, माजन) हो गया और लोगों के सत्कार का भी । ६—अविवेक आपदाओं का सब से बड़ा कारण (परम् पदम्) है, अतः अच्छे बुरे में विवेक करके कार्य करे । ७—माधव कष्ट में (हमारा) रक्षक (पद) है, ऐसा हमारा दृढ निश्चय है । ८—गुणियों के गुण ही पूजा का स्थान हैं, न लिङ्ग और नहीं वय । ९—अच्छा राजा प्रजाओं के अनुराग का पात्र (आस्पद, भालन) हो जाता है, और राष्ट्र को सुख का धाम बना देता है । १०—जो शासक पिता की तरह प्रजाओं का रक्षण, पोषण तथा शिक्षण करता है और उनसे करके रूप में जो लेता है उसे कई गुणा करके उन्हीं को दे देता है वह आदर्श शासक है । ११—सांख्य के अनुसार प्रकृति (प्रधान) जगत् का आदि कारण (निदान) है, पुरुष असंग, साक्षी और निर्गुण है । १२—विद्वानों का कथन है कि मृत्यु शरीरधारी जीवों का स्वभाव (प्रकृति) है और जीवन विकार है । १३—इन्द्र ने असुरों को तेरा लक्ष्य (शरभ्य) बना दिया है, यह धनुष् उन की ओर खींचिये । १४—सत्पुरुषों के लिये सन्देह के स्थलों में अपने अन्तःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं । १५—इक्ष्वाकुकुल में गुणों से प्रसिद्ध ककुत्स्थ नाम का राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ (ककुद् नपुं०) हुआ ।

संकेत—इस अभ्यास में ऐसे विधेय पद दिये गये हैं जो अपने लिङ्ग को नहीं छोड़ते, चाहे उद्देश्य का उनसे भिन्न लिङ्ग हो । ऐसे शब्दों को 'अजह-

ल्लिङ्ग' कहते हैं। ये प्रायः एक वचन^१ में प्रयुक्त होते हैं। १—पर निन्दां मा स्म कुरुत, निन्दा हि पापं भवतीति गुरु चरणाः। यहाँ 'पूज्या गुरुवः' के स्थान में 'गुरु चरणाः' कहना व्यवहार के अधिक अनुकूल है। इसके पीछे क्रियापद को छोड़ना ही शोभादायक है। २—रामः श्रेण्या रत्नं कुलस्य चावतंसः। रत्न नित्य (नपुं०) है और अवतंस नित्यं पुं० है। यहाँ स्वस्याः श्रेण्याः, स्वस्य कुलस्य कहना व्यर्थ है। प्रायः अपने अर्थ में 'स्व' का परिहार करना चाहिये विशेष कर सम्बन्धि शब्दों के साथ। ३—ते सर्वेषां मङ्गलानां निकेतनं सन्ति, जगतश्च प्रतिष्ठा। ऐसे स्थलों में क्रियापद उद्देश्य के अनुसार होता है। ४—पाण्डवाः प्रथमं (पूर्व) वयस्येव कुरूणां शङ्का स्थानं बभूवुः। यहाँ भी उद्देश्य की कर्तृता मानकर उसके अनुसार ही क्रियापद बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। 'कुरूणाम्' के स्थान में 'कौरवाणाम्' कहना अशुद्ध होगा, ऐसे ही 'कौरव्याणाम्' भी। १०—वह आदर्श शासक हैं = स आदर्शः शासकानाम् (शासितृणाम्)। 'आदर्शशासकः' नहीं कह सकते। ११—ऐश्वराक आहत लक्षणः ककुत्स्थो नाम नृपतिर्नृपतीनां ककुदं बभूव।

अभ्यास—७

(अजहल्लिङ्ग विधेय)

१—मिथिलानरेश^१ की बेटी^२, कन्याओं^३ में रत्न,^४ रूपवती सीता के स्वयंवर में नाना दिशाओं और देशों से राजा आये। २—रानी धारिणी को उसके भाई सीमा-रक्षक वीरसेन ने मालविका भेंट रूप में (सपायनम्) भेज दी। ३—यह अंगूठी^३ राजा की ओर से भेंट (प्रतिग्रहः) है, इसे उचित आदर से ग्रहण कीजिये। ४—कौन सी कला या विज्ञान बुद्धिमान् उपयोगी पुरुष की पहुंच से परे (अविषयः) है। ऋषियों की प्रतिभा-दृष्टि से कौन सा पदार्थ परे है। वे तो दूर, परे के पीछे छिपे हुए पदार्थों को भी हस्तामलकवत् देख लेते हैं। ६—उनका तो क्या ही कहना, वे तो विद्या के निधि (निधानम्) और गुणों की खान (आकरः) हैं। ७—राम मेरा प्यारा पुत्र (पुत्र-

^१ भाजन, पात्र, पद आदि शब्द कभी २ बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं—
भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम् (कादम्बरी)।

१-१ मैथिलस्य। २-२ कन्यारत्नस्य, कन्याललाप्तः। ३ अङ्गुलीयक—
नपुं०। ऊर्मिका—स्त्री०।

माण्डम्) है, अतः सीतानिर्वासन-रूप महापराध करने पर भी मैं उसे दण्ड देना नहीं चाहता । ८—ॐ राम मानो क्षात्र धर्म है जिसने वेद-निधि की रक्षा के लिये आकार धारण किया है । ९—ॐ कोरी नीति कायरता है और कोरी वीरता जंगली जानवरों की चेष्टा से बढ़कर नहीं । १०—सच पूछो तो वह शरीर धारी अनुग्रह का भाव है । जो भी उसके द्वार पर गया, खाली हाथ नहीं लौटा ।

संकेत—२—अन्तपालेन भ्रात्रा वीरसेनेन देव्यै धारिण्यै मालविकोपायनं प्रेषिता । यहाँ भी उद्देश्य मालविका (उक्तकर्म) के अनुसार ही कान्त प्रेषिता में स्त्री लिङ्ग हुआ है । 'तस्या भ्रात्रा' कहना व्यर्थ है । ऐसा कहने की शैली नहीं । ४—का कला विज्ञानं वा मतिमतो व्यवसायिनोऽविषयः । 'अविषयः' तत्पुरुष है । ५—किंनम सत्त्वम् ऋषीणां प्रातिभस्य चक्षुषोऽगोचरः, ते हि भगवन्तो व्यवहितविक्रममपि हस्तामलकवत्पश्यन्ति । 'अगोचरः' भी अविषयः की तरह यहाँ तत्पुरुष है । सो ये दोनों पुं० एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं । बहुव्रीहि का यहाँ अवकाश नहीं ।

अभ्यास—८

(अजहल्लिङ्ग विधेय)

१—ॐ उर्वशी इन्द्र का कोमल शस्त्र, स्वर्ग का अलंकार, तथा रूप पर इतराने चाली लक्ष्मी का प्रत्याख्यान—रूप थी । २—वेद पढ़ी हुई वह राज-कन्या अपने आप को बड़भागिन समझती है । उसका अपने प्रति यह आदर ठीक ही है । ३—परमात्मा की महिमा अनन्त है अतः यह वाणी और मन का विषय नहीं । ४—विपत्ति मित्रता की कल्याणी^१ है, सत्पति में तो रचना-घटी मित्र बहुत मिलते हैं, ^३ इन्हें मित्राभास कहते हैं^३ । ५—^४व्यभिचारिणी स्त्री 'घर का रोग' है । विधिपूर्वक व्याही हुई भी ऐसी स्त्री को छोड़ दे । ६—आप हम सब का आम्नरा^६ हैं, आप को छोड़कर हम कहाँ जायें । ७—हम देवताओं की शरण में जाते हैं और नित्य उनका ध्यान करते हैं । ८—ॐ निराश न होना प्रेम्बर्ध का मूल है, निराश न होना परम सुख है क्योंकि जो विघ्नों से ठुकराये हुए निराश^७ हो जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं । ९—गोविन्द

१ निकष, कष निकषोपल—पुं० । २ कृत्रिम, कृतक—वि० । ३—३ मित्राभासानि तान्युच्यन्ते । ४—४ कुलया इत्वरौ, धर्षणी, असती, पुं० चली । ५ आधि—पुं० । ६ गति—स्त्री० । ७—७ निर्विघ्नते ।

मेरा शरीर धारी चलता फिरता जीवन है और सर्वस्व है । १०—ॐ एक गुणी पुत्र अच्छा (वरम् है,) सैकड़ों मूर्ख नहीं, अकेला चाँद अंधेरे को दूर कर देता है, हजारों तारे नहीं । ११—वह गुणों का घर (अगारम्) होता हुआ भी नम्र है । १२—दो महीनों की एक ऋतु होती है और छः ऋतुओं का एक वर्ष । १३—जिस समाज में मूर्ख प्रधान होते हैं और पण्डित गौण, वह चिर तक नहीं रह सकता । १४—* सोना खदिर के धधकते हुए कोयलों के सदृश दो कुण्डल बन जाता है । १५—यह होनहार ब्राह्मणी है इस ने छः मास के भीतर सारा अमर कोष कण्ठस्थ कर लिया है ।

संकेत—२—आत्मनाये ऽ धीतिनी (अधीतवेदा) सा राजकुमार्यात्मानं कृतिनी मन्यते । युक्ता खल्वस्या आत्मनि संभावना । यहाँ 'आत्मन्' शब्द के नित्यपुँल्लिङ्ग होने पर भी 'कृतिन्' विधेय स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है । इस ने उद्देश्य 'सा' के लिङ्ग को लिया है † । ३—परिच्छेदातीतः परमेश्वरस्य महिमा, अतो वाङ्मनसयोगोचरः । यहाँ वाक् च मनश्चेति 'वाङ्मनसे' ऐसा द्वन्द्व होता है । ७—वयं दैवतानि शरणं यामो नित्यं च तानि ध्यायामः । 'शरण' रक्षिता अर्थ में नपुं० एक वचन में ही प्रयुक्त होता है । ९—गोविन्दो मम मूर्त्तिसंचराः प्राणाः सर्वस्वं च । जीवन अर्थ में 'प्राण' नित्य बहुवचनान्त है । १२—द्वौ द्वौ मासावृतुर्भवति, पङ्क्तवश्च वर्षम्भवति । यहाँ विधेय के अनुसार क्रियापद का वचन हुआ है । इसके लिये विषय-प्रवेश देखो । १३—यत्र समाजे मूर्खाः प्रधानमुपसर्जनं च पण्डिताः स चिरं नावतिष्ठते । १५ द्रव्यमियं ब्राह्मणी । एनया.....कण्ठे कृतः ।

अभ्यास—६

(क्रिया विशेषण)

१—आप आराम से (सुखम्, साधु) बैठें, तपोवन तो अतिथियों का का अपना घर होता है । २—बुद्धिया धीरे २ (मन्दम्, मन्दमन्दम्, मन्थरम्) चलती है, बेचारी दुःखों से सूखकर पिंजर हो गई है । ३—बुद्धिमान् पदार्थों को ध्यान से (निपुणम्) देखते हैं । और अच्छे बुरे में विवेक करके कार्य में

† क्यङ्मानि नोश्च' इस सूत्र की व्याख्या में काशिका का 'या त्वात्मानं दर्शनीयां मन्यते तत्र पूर्वैशैव सिद्धम्' यह वचन प्रमाण है ।

प्रवृत्त होते हैं । ४—वह मधुर (मधुरम्) गाता है । जी चाहता है उसे बार २ मुँहों । ५—वह कठोर (परुषम्, कर्कशम्) बोलता है, पर हृदय से सभी का शुभ ही चाहता है । ६—वह आज लगातार (निरन्तरम्, सन्ततम्, अविरतम्, अनारतम्) पढ़ता रहा, अतः खूब (बाढम्, दढम्) थक गया है । ७—ॐ जो पापी होता हुआ भी मुझे अनन्य भक्त होकर भजने लगता है वह शीघ्र (क्षिप्रम्) धर्मात्मा बन जाता है । ८—आप विश्वास कीजिये, मैंने यह अपराध जानबूझ कर (बुद्धिपूर्वम्) नहीं किया । ९—गरमी की ऋतु है, मध्याह्न समय है, सूर्य बहुत तेज (तीक्ष्णम्) चमक रहा है । १०—बिना इच्छा (अनभिसन्धि) किये हुए पाप के लिये शास्त्र बड़ा दण्ड विधान नहीं करते, क्योंकि संकल्प ही कार्य को अर्धछा या बुरा बनाता है । ११—धीर पुरुषों का चरित्र बहुत ही (अतिमात्रम्, अभ्यधिकम्) प्रशंसनीय है । वे प्राणों^१ का संकट होने पर भी^२ न्याय^३ के मार्ग से^४ एक पग भी^३ नहीं डिगते^३ । १२—आज सभा में वसुमित्र देशभक्ति के विषय पर विस्तार और स्पष्टता से बोला । सभी ने इसके व्याख्यान को पसन्द^४ किया^४ । १३—वह छिपी हुई मुस्कराहट से बोला, क्या बात है आज तो आप बड़ी बुद्धिमत्ता की बातें करते हैं ।

संकेत—इस अभ्यास में क्रिया-विशेषणों के प्रयोग का यथार्थ बोध कराना इष्ट है । क्रिया-विशेषण मपुंसक लिङ्ग की द्वितीया विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होते हैं । जैसे—(१) सुखमास्ताम्, तपोवनं ह्यतिथिजनस्य स्वं गेहम् । २—मन्थरं याति जरती । तपस्विनीयं कृच्छ्रक्षामाऽस्थिपञ्जरः संवृत्ता । ३—अथ वसुमित्रः सभायां देशभक्तिविषयं सविरतरं विशदं च व्याख्यात् । यहाँ 'सविस्तारम्' नहीं कह सकते । विस्तार (पुँ०) चीजों की चौड़ाई को कहते हैं । ३—सोन्तर्लानमवहस्याब्रवीत्—अथ तु प्रज्ञावादान्भाषसे, किमेतत् ।

अभ्यास — १०

(क्रिया विशेषण)

१—यह नदी^५ बिना शब्द किये (अशब्दम्) बहती है । यह गहरी है

१—१ प्राणात्पयेऽपि । २—२ न्याय्यात् पथः । ३ न व्यतियन्ति, न विचलन्ति । ४—४ अभ्यनन्दन् । ५ नदी, तटिनी, तरङ्गिणी, वाहिनी—स्त्री० ।

और इसमें^१ पत्थर नहीं हैं^१ । २—गुरु की ओर मुँह करके (अभिमुखम्) बैठ, विमुख होकर बैठना अन्याय समझा जाता है । ३—वह अटक २ कर (मगद्गद्गम्, स्वकित्ताक्षरम्) बोलता है, उस की वाणी में यह स्वामाविक दोष है । ४—तू ने ठीक (युक्तम्, साधु) व्यवहार^२ नहीं किया^२, इस लिये तुम्हारी लोक में निन्दा हो रही है । ५—तुम व्याकरण पर्याप्त रूप से (पर्याप्तम्, प्रकामम्) नहीं जानते, अतः ग्रन्थकार का आशय समझने में कभी २ भूल कर^३ जाते हो^३ । ६—नारद अपनी इच्छा से (स्वैरम्) त्रिलोकी में घूमता था और सभी वृत्तान्त जानता था । ७—मैं बड़ी चाह से (सोत्कण्ठम्, सोत्कलिकम्) अपने भाई के घर लौटने की प्रतीक्षा^४ कर रहा हूँ^४ । ८—मैं आप से बलपूर्वक (साग्रहम्) और नम्रता से (नम्रम्, सप्रश्रयम्) प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संकट में मेरी सहायता करें । ९—पहले (पूर्वम्) हम दोनों एक दूसरे से बराबर होते हुए मिलते थे, अब आप अफसर हैं और मैं आप के नीचे नियुक्त हूँ । १०—कृपया आप मुझे शान्ति से (समाहितम्) सुनें । मुझे आप के हित की कई एक बातें कहनी हैं । ११—बच्चा बहुत ही (बलवत्) डर गया है, अभी तक होश में नहीं आता है । १२—आप स्पष्टतर (निर्भिन्नार्थ-तरकम्) कहिये । मुझे आप का कथन पूरी तरह (निरवशेषम्) समझ नहीं आता । १३—शाबाश शाबाश (साधु, साधु) देवदत्त, तुमने अपने कुल को बट्टा नहीं लगने दिया ।

संकेत—६—त्रिलोकीं स्वैरं समचरन्नारदः, सर्वं च लोकवृत्तमबोधत् ।
८—साग्रहं सप्रश्रयं चात्रभवन्तं प्रार्थयेऽत्रभवानत्ययेस्मिन्ममाभ्युपपत्तिं सम्पादयतु । (अत्रभवता संकटेस्मिन्साहायकं मे सम्पाद्यमिति) । ९—अब आप अफसर..... = त्वमीश्वरोऽसि, अहं च त्वदधिष्ठितो नियोज्यः । १०—समाहितं मां शृणुत । यहाँ कृपया, सकृपम् इत्यादि कहना व्यर्थ है क्योंकि यह अर्थ प्रार्थना में आये हुए जोट् लकार से ही कह दिया गया है । १३—साधु देवदत्त साधु, रक्षितं त्वया कालुष्यात्कुलयशः । यहाँ साधु कृतम् यह सम्पूर्ण वाक्य होता है ।

१—१ इयमश्मवती न । २—२ नाचरः, न व्यवहारः । ३—३ भ्रमसि । आशय समझने में..... कदाचिदाशयमन्यथा गृह्णासि । ४—४ गृहं प्रति भ्रातुः प्रत्यावृत्तिं (भ्रातरमावर्तिष्यमाणम्) सोत्कण्ठं प्रतीक्षे ।

अभ्यास—११

(क्रिया विशेषण)

१—यह स्पष्ट रूप से (व्यक्तम्) प्रमाद है, आपसे^१ यह कैसे हो गया ?
 २—उसने सुरापान की आदत^२ अभी पूरी तरह से (निरवशेषम्) नहीं छोड़ी, यदि कुछ देर और पीता रहा, तो निःसन्देह (असन्देहम्, निर्विचिकित्सम्, मुक्त-संशयम्) इसके फेफड़े^३ खराब हो जायेंगे । ३—वह दर्द भरे स्वर से (करुणम्, आर्तम्) चिल्लाया, जिससे आस पास बैठे हुए सभी लोगों के हृदय में दया भर आई । ४—उसने यह पाप इच्छा से (कामेन, कामतः) किया था, यूँही नहीं, अतः गुरुजी ने उसे त्याग दिया । ५—भवादि, दिवादि, तुदादि और खुरादि—ये क्रम से पहला, चौथा, छठा तथा दसवां गण हैं । ६—अभि-ज्ञानशाकुन्तल विशेष कर (विशेषेण, विशिष्य) कोमल बुद्धिवाले बालकों के लिये कठिन है । वे इसका रसास्वादन नहीं कर सकते । ७—ॐ हे मित्र ! यह बात ईमी से कहा गई है, इसे सच करके न जानिये । ८—उसने खुल्लमखुल्ला (प्रकाशम्) अधिकारियों के दोषों को कहा और परिणामस्वरूप अनेक कष्टों को सहा । ९—आप यहाँ से सीधे दाहिने हाथ जायें, आप थोड़ी देर में विश्व-विद्यालय पहुँच जायेंगे । १०—वह दयान्तदारी से (ऋजु) जीविका कमाता है और थोड़े से (स्तोकेन) ही सन्तुष्ट होकर सुख से रहता है । ११—ॐ तपो-वन में स्थान विशेष के कारण विश्वास में आये हुए हिरन निर्भय होकर (विस्रब्धम्) घूमते फिरते हैं । १२—साँव टेड़ा (कुटिलम्, जिह्वम्) चबता है, पर शेर महानद को भा छार्ता के बल से सीधा तैर कर पार करता है । १३—शिव यथार्थ में (अन्वर्थम्) ईश्वर हैं, वस्तुतः ईश, ईश्वर, ईशान, महेश्वर मुख्यतया इसी के नाम हैं और गौणतया दूसरे देवताओं के । १४—ॐ दूर तक देखो, निकट में ही दृष्टि मत रखो, परलोक को (भी) देखो, (केवल) इस लोक को ही नहीं । १५—उसने मुझे जबरदस्ती (हठात्, बलात्, प्रसभेन) खेंचा और पीछे^४ धकेल दिया^५ ।

संकेत—३—स करुणमाक्रन्दत्, येनापःपविष्टानां हृदयान्याविशत्कारुण्यम् ।

४—स कामेन (कामतः) इममपराधमचरन्नाकामतः (न तु यहञ्जया),

१—१ कथमयं चरितस्त्वया । २ प्रसङ्ग—पु० । प्रवक्ति—स्त्री० ।

३—पुष्पुष—नपुं० । ४—४ पृष्ठतः प्राणुदत् ।

तेन तं निराकुर्वन् गुरुचरणाः । यहाँ 'कामेन' यह तृतीया सहार्थ में हैं, 'कामेन सह' यह अर्थ है । इसी लिये यहाँ द्वितीया नहीं हुई । ५—भ्वादिः, दिवादिः, तुदादिः, चुरादिः—इमे क्रमात् प्रथमचतुर्थषष्ठदशमा गणा भवन्ति । यहाँ क्रमात् = क्रममाश्रित्य । ९—इतो हस्तदक्षिणोऽवक्रं याहि, क्षिप्रं विश्वविद्या-लयमासादयिष्यसि ।

अभ्यास—१२

(क्रिया विशेषण का काम करने वाले कुछ प्रत्यय आदि)

१—वह कुछ अच्छा ही पकाती है (पचितकल्पम्), थोड़ा ही समय हुआ वह इस कला में प्रवृत्त हुई । २—यज्ञदत्त की बहिन उससे अधिक अच्छा गाती है (गायतितराम्) यद्यपि दोनों ने एक साथ (समम्) गाना सीखना आरम्भ किया । ३—कहने को तो वह गाता है, पर वस्तुतः चिल्लाता है । ४—वह खाक पकाती है (पचितिपूति) । सब रोटियाँ अधजली और सूखी हुई हैं । ५—वह गज़ब का पढ़ाने वाला है, एक बार सुनी हुई व्याख्या सदा के लिये मन में घर कर लेती है । ६—पकाती क्या है घर वालों का सिर । इसे तो रसोई में बैठने का भी अधिकार नहीं । ७—ये परले दर्जे के अध्यापक ही नहीं (न केवलं काष्ठाध्यापकाः), सब शास्त्रों और कलाओं में निपुण भी हैं । ८—यह बालक बहुत अच्छा पढ़ता है (पठतिरूपम्), न बहुत जल्दी पढ़ता है और न ही कोई अक्षर छोड़ता है । मधुर और स्पष्ट उच्चारण करता है ।

संकेत—३—गायति ब्रुवन् क्रोशति चाञ्जसा । यहाँ 'ब्रुव' अच्-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक है, प्रत्यय नहीं । यह कुत्सा अर्थ में प्रयुक्त होता है । ४—पचिति-पूति । सर्वा रोटिका अवदग्धाः कर्कशाश्च संवृत्ताः । ५—स दारुणमध्यापयति, सकृच्छ्रुताऽपि व्याख्याऽव्यन्ताय हृदि पदं करोति । ६—पचिति गोत्रम् । अनर्हेषं रसवतीप्रवेशस्य । ८—अयं माणवकः पठतिरूपम् । न निरस्तं पठति न च प्रस्तम् । मधुरमग्लिष्टं चोच्चारयति ।

† 'ब्रुव' आदि के इन अर्थों में प्रयोग में 'तिङो गोत्रादीनि कुत्सनामी-क्षययोः (८।१।२७), पूजनात्पूजितमनुदात्तम् (८।१।६७), कुत्सने च मुप्यगोत्रादौ (८।१।६६)—ये पाणिनीय सूत्र शपक हैं ।

अभ्यास—१३

(अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्द)

१—* यह काया क्षणभङ्गर है । सभी आने वालों ने जाना है । २—यह सब है कि हम मर्त्य हैं पर अपने पुरुषार्थ (उद्योग, उद्यम, अभियोग) से अमर हो सकते हैं । ३—प्रातः काल के सूर्य (अरुण) की अमृत मरी किरणें (किरण, कर, मयूख) आँखों को तरावट देती हैं और शरीर में नई स्फूर्ति (परिस्पन्द) का संचार करती हैं । ४—आज एक पुण्य दिन है कि आप जैसे शास्त्र-वेत्ता के दर्शन हुए । ५—* सभी संग्रह समाप्त होने वाले हैं, सारी उन्नति का अन्त अवनति है और सभी संयोगों का अन्त वियोग है । ६—किया हुआ यत्न सफल होता है और समृद्धि (अभ्युदय) का कारण होता है । ७—आकाश में पक्षी (पतंग, पत्त्ररथ, शकुन्त) स्वेच्छा से विहार करते हैं और परमेश्वर की सुन्दर सृष्टि (सर्ग) का जी भर कर (मनोहृत्य, निकामम्, या नृसेः) दर्शन करते हैं । ८—वसन्त में कोयल (पिक) जब पञ्चम स्वर से गाती है तो वीणा के स्वर भी फीके पड़ जाते हैं । ९—सिंह (मृगेन्द्र, मृगाधिप) ने हाथी (गज, मतङ्गज, दन्तावल) पर धावा किया, पर पीछे से एक शिकारी ने विपैले बाण से सिंह को मार दिया । १०—प्रकाश (आलोक) किसे नहीं भाता, अँधेरा किसे पसन्द आता है । ११—यज्ञदत्त की डरावनी आँखें हैं और देवदत्त की शान्त, दोनों सगे भाई हैं । १२—कृपा करके मेरी प्रार्थना (प्रणय) को न दुकराइये । मैं इसके लिये आप का जीवन मर आभारी रहूँगा । १३—* जो लोग अनन्यभक्त होकर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, (मुझ में) नित्य लगे हुए बन लोगों के योगक्षेम का मैं प्रबन्ध करता हूँ । १४—* वेद का ज्ञान (वेदाधिगम) कामना के योग्य है, जैसे ही वैदिक कर्मयोग भी । १५—आप जरा घोड़े की बागों को पकड़ें, ताकि मैं उतर जाऊँ । १६—शिव इस लोक में हमारा कल्याण करे, वह हमारा सहारा (आलम्ब) है । १७—इतने विस्तार से कथन करना लिखी पढ़ी नागरिक जनता की बुद्धि का तिरस्कार है ।

संकेत—इस अभ्यास में और इससे अगले अभ्यासों में सुबन्त रूपावलि का अभ्यास कराने के लिये वाक्य संगृहीत किये गये हैं । इस (१३ वें) अभ्यास में अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, उन्हीं के

पर्याय इकारान्त आदि का नहीं। इन अभ्यासों का दूसरा प्रयोजन है विद्यार्थी के शब्द कोष को बढ़ाना और लिङ्ग का विस्तृत बोध कराना। २—सत्यं मर्त्या वयम्, अभियोगेन तु शक्ताः स्मोऽमरभावमुपगन्तुम्। 'पुरुषार्थ' संस्कृत में 'उद्यम' अर्थ में नहीं आता। हाँ 'पौरुष' इस के लिये उचित शब्द है, पर वह नपुं० है। अद्य पुण्यो वासरो यद् भवादृशः शास्त्रज्ञो दृष्टः। दिवस और वासर दोनों पुं० और नपुं० हैं। ८—वसन्ते यदा पिकः पञ्चमेन स्वरेणापिकायति तदा विपञ्चीवरा अपि (वीणानिक्रमणा अपि) विरसी भवन्ति। ११—यज्ञदत्त उग्रदर्शनी देवदत्तश्च सौम्यदर्शनः। उभावपि सोदरौ। १५—धियन्तां तावत्प्रमहाः, यावदवरोहामि। १७—एतावान् वाक्-प्रपञ्चः साक्षरस्य नागरिकस्य जन-निबहस्य प्रज्ञाधिक्येन इव।

अभ्यास—१४

(अकारान्त नपुं० शब्द)

१—❀ कणाद-शास्त्र तथा पाणिनि व्याकरण सब शास्त्रों के लिये उपयोगी हैं। २—मनु-प्रणीत मार्ग से घर के धन्धे को चलाती^१ हुई पत्नी (कलत्र) घर को स्वर्ग^२ बना सकती है^२। ३—बहुत थोड़े कालेज वास्तव में विद्या-मन्दिर अथवा सरस्वती-सदन कहे जा सकते हैं क्योंकि इन में ज्यों त्यों परीक्षा पास कराना ही लक्ष्य है। ४—❀ महाराज ! इसी ने पहले मेरी निन्दा की यह कहते हुए कि आप में और मुझ में जौहड़ और समुद्र का सा भेद है। ५—किसान दाँतियाँ लेकर खेती काटने के लिये खेत को जा रहे हैं। ६—तुम सर्वथा निर्दोष चित्र (आलेख्य) बनाते हो। यह तुम्हें किसने सिखाया। ७—इस कुएँ (उदपान) का जल (पानीय, सलिल, उदक) स्वादु (सुरस) है। जी चाहता है पीते ही जायें। ८—उनका सबका बर्ताव (वृत्त) घटिया (जघन्य) है। उसमें मिठास (दाक्षिण्य) कुछ भी नहीं, गँवारपन (ग्राम्यत्व) अक्खड़पन (औद्धत्य) ज्यादा है। ९—तुम्हें अपनी जिह्वा पर कुछ भी बश नहीं। हर समय अनापशानाप (असमञ्जस) बकते रहते हो। इस का परिणाम अच्छा नहीं होगा। १०—मैं उनका कुशल (सुख) पूछने जा रहा हूँ। कई दिन से उनके दर्शन नहीं हुए, अतः चित्त (चित्त, स्वान्त, मानस) अशान्त है।

^१ वहत् । २—२ (गृहं) स्वर्गीकृतुमलम् ।

११—वह पिता^१ की मृत्यु (मरण, निधन) सुनकर^१ बड़ा दुःखा हुआ । कुछ समय तक बेहोश रहा, फिर शीतलोपचार से धीरे २ होश^२ में आया^२ ।
 १२—इन दोनों की आकृति (संस्थान) ऐसी मिलती^३ हैं^३ मानो ये दोनों सगे भाई हैं । १३—काफिले^४ का नेता^४ जहाज के डूबने से (नौव्यसने) मर गया । बहुत से समुद्री व्यापारी (सांघात्रिक पुं०) भाग्यवश^५ बच गये ।
 १४—नाविक (कैवर्त, कर्णधार पुं०) चप्पुओं (अरित्र) से नौका (उडुप पुं०) को चलाना है और यात्रियों (यात्रिक पुं०) को सुख से पार^६ पहुँचाता है^६ । १५—उम्बेकाचार्य ने सच कहा है कि ॐ कल्याण एक दूसरे के पीछे चले आते हैं । १६—घोड़े पर काठी डाल, मुँह में लगाम दे, रिकारों में पैर धर और बागं हाथ में ले वह हवा हो गया । १७—लक्ष्मण ने कहा—ॐ मैं कुण्डलों को नहीं जानता, बाहुबन्धों को नहीं जानता, पर नूपुरों को पहचानता हूँ क्योंकि मैं नित्य (सीता के) चरणों में नमस्कार किया करता था ।

संकेत—४—यहाँ मूल में 'समुद्रपल्लवयोः' ऐसा समास है । यद्यपि क्रम के अनुसार पल्लव (नपुं०) पहले आना चाहिये था, पर 'समुद्र' अभ्यर्हित होने के कारण समास में पहले रखा गया है । ५—सस्यलावाः^७ कृपीबला दात्राणि सहादाय क्षेत्रं यान्ति । ६—त्वं सर्वथा निर्दुष्टमालेख्यमालिखसि । अत्र केनाभिविर्नातोसि । ७—अनियन्त्रितं ते तुण्डम् । सर्वकालसमभङ्गसं वक्षि । १६—अश्वे पर्याणमारोप्य, मुखे खलीनं दत्त्वा, पादधान्योः पादौ न्यस्य प्रग्रहांश्च (वल्गाश्च) हस्तेनादाय स वातरंहसा निरयात् । पादधानी स्त्री० है ।

अभ्यास—१५

(अकारान्त स्त्रीलिङ्ग)

१—विद्वत्ता और प्रतिभा से काव्य निर्माण में सामर्थ्य उत्पन्न होता है ।
 २—असूज और कार्तिक में चाँदनी (चन्द्रप्रभा) बहुत आनन्ददायक होती है, विशेष कर तालाबों^८ और बगीचों में । ३—बच्चों को खेल प्यारी होती है और

१—१ यहाँ 'पितरमुपरतं श्रुत्वा' ऐसा भी कह सकते हैं । २—२ प्रत्यागता । ३—३ (संस्थाने) संबदतः । ४—४ सार्थवाह—पुं० । ५—५ दैवात् । ६—६ पारं नयति । ७—७ अण् कर्मणि चेत्यनेन क्रियायां क्रियार्थायामण् । ८—८ तदाक—पुं०, नपुं० । कासार—पुं० ।

यह उनके शरीर के विकास के लिये आवश्यक भी है । ४—लज्जा स्त्रियों (योषा) का भूषण (भूषा) है और प्रौढ़ता पुरुषों का । कहा भी है—ॐ लज्जावती (सलज्जा) गणिकायें नष्ट हो जाती हैं और निर्लज्ज कुलाङ्गनाएँ । ५—व्याजल्दी (त्वरा) है, अमी गाड़ी (रेलयान नपुं०) चलने में बहुत देर है । घबराइये नहीं । ६--सन्त परमात्मा की सच्चि^१ मूर्त्ति^१ (प्रतिमा) हैं । इन में सत्त्व का प्रकाश बहुत बढ़ा चढ़ा होता है । ७—परीक्षा^२ निकट आ रही है^२, अतः छात्र अध्ययन में ही रातें (निशा, क्षपा, क्षणदा, त्रियामा) बिताते^३ हैं । ८—रमा लक्ष्मी (पद्मा, पद्मालया, हरिप्रिया) का नाम है । इस लिये विष्णु को रमा का ईश होने से रमेश कहते हैं । ९—जनता^४ का विचार है^४ कि शिल्प और कला की शिक्षा से देश की आर्थिक दशा सुधरेंगी^५ । १०—बुद्धि (प्रज्ञा) और स्मरण शक्ति (मेधा) दोनों ही मनुष्य की सफलता (कृताश्रिता, सिद्धार्थता) में सहायक हैं । ११—पृथिवी (धरा) हम सब को धारण करती है, इसलिये इसे 'विश्वम्भरा' कहते हैं । १२—ॐ दुर्जनों के फन्दों में आया हुआ कौन बचकर निकला । १३—क्षुद्र लोग जब थोड़े^६ में ही^६ सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें अपने लिये गौरव का भाव (आहो-पुरुषिका) उत्पन्न हो जाता है । १४—आज पवित्र^६ दिन^६ है । आज देवदत्त की पुत्री (सुता आत्मजा, तन्जा) का विवाह होगा । वरात (जन्या) की प्रतीक्षा हो रही है । १५—हरिमित्र अपने देश में ही काते और बुने हुए गाढ़े और सादे वस्त्र को पहनता है, अतः बन्धुओं (बन्धुता^७) में इसका बहुत मान है ।

संकेत—१—विद्वत्ता च प्रतिमा व काव्येऽलंकर्माणितां कुरुतः । ३—खेला (क्रीडा) हि बालानां प्रिया भवति । एषा चामीषां कायविकासायाऽपेक्षिता च । यहाँ 'आवश्यक' का प्रयोग ठीक नहीं होगा । आवश्यक = जो अवश्य होना है । ५—का त्वरा । चिरात्प्रयास्यति रेलयानम् । मा स्म व्याकुर्ताभूः । १५—हरिमित्रः स्वदेशे कृत्तोरं स्थूलमनुस्वर्णं च वसनं वस्ते, महच्च मान्यते बन्धुतया ।

१—१ परमार्थ प्रतिमा । २—२ अदूरे परीक्षा । ३— नयन्ति, गमयन्ति, यापयन्ति, क्षपयन्ति । ४—४ जनता पश्यति । ५ साधू भविष्यति । ६—६ पुण्याह—नपुं० । ७ बन्धूनां समूहो बन्धुता बन्धुवर्गः ।

अभ्यास—१६

(इकारान्त पुं०)

१—सुप^१ मुनि का लक्षण है। जो जितना अधिक सोचता है उतना थोड़ा बोलता है। २—ॐ काव्य-रूपी अपार संसार में कवि ही प्रजापति है। यह विश्व जैसे उसे भाता है वैसे बढ़ता जाता है। ३—दो सिक्क आपस में छोटी-सी बात पर झगड़ पड़े। एक ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे ने तलवार (अरि) खींच कर उसका हाथ (पाणि) काट दिया। ४—कहते हैं पुरा कल्प में पहाड़ (गिरि) पक्षियों की तरह पंखवाले थे और उड़^२ करते थे।^२ इन्द्र (हरि) ने अपने वज्र (पवि) से इनके पंखों को काट^३ दिया।^३ ५—यह बढ़ई (वर्धकि, स्थपति) लकड़ी के सुन्दर खिजाँने बनाता है। वे सब हाथोंहाथ बिक जाते हैं। ६—कल खेलते २ वह गिर पड़ा और उसकी कुहनी (कफोणि) टूट गई और बेचारा दर्द के मारे रातभर^४ नहीं सोया।^४ ७—यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि ॐ कलियुग में शक्ति संघ में है। ८—मौरों (अलि) फूलों पर मँडराते हैं, अनेक प्रकार का रस पान करते हैं और मानो गद्गद् प्रमन्न हो भिनभिनाते हैं। ९—ॐ व्यायाम से थके हुए शरीरवाले, पैदल चलनेवाले (पुरुष) के निकट बीमारियाँ नहीं आतीं, जैसे गरुड़ के निकट साँप। १०—मैंने अपना काम कर लिया है, अतः मुझे कुछ भी दुःख (आधि) नहीं। ११—कायर अपमान सहित सन्धि को अच्छा समझता है, युद्ध को नहीं। १२—आप जैसे जिन्होंने अपने शरीर को दूसरों का साधन बना दिया है बहुत थोड़े ही संसार में उत्पन्न होते हैं। अपना पेट भरनेवाले तो बहुत हैं। १३—वसन्त (सुरभि) में सभी कुछ सुहावना बन जाता है, कारण कि वसन्त वर्ष का यौवन काल है। १४—कौन-सा रत्न (मणि) सूर्य (शुमणि) से अधिक^५ चमकीला^५ है। सूर्य तो भगवान् का इसलोक में प्रतीक^६ है। १५—दैव (विधि) की गति (विलसित, चेष्टित—नपुं०) विचित्र है। आप जैसे शास्त्र जाननेवाले (अन्तर्वाणि) भी इस प्रकार दुःख पाने हैं। १६—ॐ विद्वानों (कवि) का कहना है कि धर्म का मार्ग उस्तरे की

१ मौन—नपुं० । तूष्णीम्भाव—पुं० । २—२ उदपतन् । उत्पतिष्णव आसन् । ३—३ अलुनात् । ४—४ नास्वपत्, नास्वपीत्, निद्रो नालभत । ५—५ भास्वरतर—वि० । ६ प्रतीक पुं० है ।

तेज धार है जिस पर चलना मुश्किल है। १७—* अञ्जलि से पानी न पीये, ऐसा सूत्रकार कहते हैं^१। इस प्रकार पानी अधिक पीया जाता है जो स्वास्थ्य^२ को विगाड़ देता है।^२ १८—कृष्ण की बाल्यकाल की लीलायें (केलि) अत्यन्त रसभरी हैं। १९—मित्र (सखि) से दिये हुए नन्हें से उपहार को भी मैं आदर से स्वीकार^३ करता हूँ^३। २०—यह कोरा कपड़ा (निष्प्रवाणिः पटः) है। धुलने पर यह गाढ़ा हो जायगा और चिर तक चलेगा।

संकेत—३—द्वौ शिष्यौ कुशं काशं बालभ्याकलहायेताम्। एकोऽपरम-शपत्। ततोऽपरोसिं निष्कृष्य पूर्वस्य पाणिमकृन्तत्। गाली देने अर्थ में शप् का अथवा आ-कुश् का ही प्रयोग शिष्ट संमत है। शप् उभयपदी है। ५—अयं स्थपतिः सुजातानि दारुमयानि क्रीडनकानि करोति, यान्यहम्पूर्विकया क्रीणाति लोकः। यहाँ 'दारुमयाणि' भी कह सकते हैं। ८—कुसुमेपूद्भ्रमन्त्यलयः (कुसुमानि परिसरन्त्यलयः, कुसुमानि परिपतन्त्यलयः) ११—मीरुकः सनिकारं सन्धिमभिरोचयते न संगरम्। १२—परोपकरणीकृतकायास्त्वादृशा विरला एव जगति जायन्ते। उदरम्भरयस्तु भुरयः।

अभ्यास—१७

(इकारान्त स्त्री०)

१—अहो इसकी कैसी शुभ प्रकृति है। नित्य ही सब का मङ्गल चाहता है। २—विद्या से भोग (भुक्ति) और मोक्ष (मुक्ति) दोनों ही मिलते हैं। चित्त की शान्ति और कीर्ति तो साथ में ही आ जाती हैं। ३—मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम इधर उधर चक्कर काटा करते हो। अपना पेट कैसे पालते हो। ४—तेरी बुद्धि भूतमात्र के कल्याण (भूति) के लिये हो। तू कभी बुराई का चिन्तन मत कर। ५—अजी देवदत्त का तो क्या ही कहना, वह तो गुणों की खान (खनि) है। ६—सीप (शुक्ति) में चाँदी की तरह यह नामरूपात्मक संसार मिथ्या है। ७—यह ओषधि तैया^४ ज्वर में बड़ा प्रभाव रखती है। पुराने^५ ज्वरों में भी इसके लगातार प्रयोग से लाभ होता है। ८—मोर की गर्दन (शिरोधि) पहले ही सुन्दर^६ (रम्य, कमनीय) है, पर केका करने के

१ आमनन्ति। २-२ शरीरे विकारं जनयति। ३-३ प्रतीच्छामि। ४ तृतीयको ज्वरः। ५ कालिक—वि०। ६ सुन्दर का स्त्रीलिङ्ग सुन्दरी होता है, पर अधिक सुन्दर के लिये 'सुन्दरितगा' ऐसा स्त्रीलिङ्ग में रूप होगा।

लिये उठाई हुई अधिक सुन्दर हो जाती है । ९—बानर से डराई हुई वह बच्ची अभी तक होश में नहीं आती । मगवान् भला करें । कमी २ अचानक मय (भीति) से भी मृत्यु हो जाती है । १०—परीक्षा (परीष्टि) में अपनी सफलता का समाचार (प्रवृत्ति) पाकर उसे अपूर्व सन्तोष (तुष्टि) हुआ । ११—ॐ महात्माओं के वचन (व्याहृति) लोक में कमी मिथ्या नहीं होते । १२—ॐ बड़ों की भी परम उन्नति का अन्त अवनति है । १३—वह बन्दर है और यह बन्दरी (कपि) है । यह अपने बच्चों को छाती से लगाये हुए डरी हुई सी मागती जा रही है । १४—आज हम ने तीन कोड़ियाँ बर्तन कलई करवाये हैं और नौ रुपये मेहनत (भृति) दी ।

संकेत—२—विद्या भुक्ति मुक्ति च ददाति । चेतोनिवृत्तिः कीर्तिश्चानु-
षङ्गात् । ३—सर्वकालमितस्ततः परिक्रामन्तमेव त्वां पश्यामि । वृत्तिं केन
कल्पयसि । ५—किं नु खलु कीर्त्यैत देवदत्तस्य । स हि गुणानां खनिः । १४—
अद्य तिस्रः कोटयः पात्राणां त्रपुल्लेपं लम्बिताः । नव रूप्यकाणि च भृतिर्दत्तानि ।

अभ्यास—१८

(ईकारान्त स्त्री)

१—आर्य लोग नदियों और तालाबों (सरसी) में नहाना पसन्द करते हैं । बन्द कमरों में नहाने की प्रथा^१ थोड़े समय से चली है^२ । २—यह बनस्थली कितनी रमणीय है । आँवों को लुभाने^३ के लिये और मन को^३ रिक्ताने के लिये इस से बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है । ३—पाणिनीय पद्धति (पद्धती)^४ सर्वश्रेष्ठ है यह निर्विवाद है । इस शास्त्र पर काशिका नाम की बड़ी (वृहती) टीका है । ४—यह सीता की सोने की मूर्ति है । इसे राम ने अश्वमेध में अपनी सहधर्मचारिणी बनाया ५—विस्तीर्ण आकाश में विद्युत्-रेखा से घिरी हुई मेघमाला (कादम्बिनी) अपूर्व शोभा को धारण किये हुए है । ६—इस समय राजा सेनाओं (वाहिनी, अनीकिनी) का अधिकाधिक संग्रह कर रहे हैं और इसे ही शान्ति स्थापन का साधन समझते हैं । ७—संस्कृत (सुरभारती, सुरसरस्वती, सुरगवी, गीर्वाणवाणी) में अनुरक्ति से जहाँ ज्ञान में वृद्धि होती है वहाँ चित्त को शान्ति भी मिलती है । ८—गाड़ी

१—१ अर्वाचीना । २—लोभयितुम् । ३ रञ्जयितुम् । ४ सर्वासां श्रेष्ठा (सत्तमा) । यहाँ समास नहीं हो सकता ।

(गन्त्री) के एकाएक उलट जाने से सवारियों की हड्डी पसली टूट गई । ९—
 ✽ उदारता से उन्नतमन वालों के लिये पाँच हजार क्या चीज है, लाख क्या
 चीज है, करोड़ भी क्या चीज है, (नहीं नहीं) रत्नों से मरी हुई पृथ्वी भी
 क्या चीज है । १०—यह तीक्ष्ण सींगों वाली, दूध मरे स्तनों वाली, सुन्दर
 कानों वाली गौ (पयस्विनी, अनड्वाही, सौरभेयी) किस की है । ११—
 देवता और असुर दोनों (उमयी) ही प्रजापति की प्रजा हैं ।

संकेत—४—इषं हिरण्यमयी सीतायाः प्रतिकृतिः । यहाँ 'हिरण्यमयी, कहना
 अशुद्ध होगा । ५—गगनाभोगे विद्युद्रेखावलयिता कादम्बिनी कामष्यपूर्वा
 सुषमां पुष्यति । ८—गन्त्याः सहसा पर्याभवनेन तदारूढानां कीकसानि पशु-
 काश्च भग्नानि । १०—कस्येयं तीक्ष्णशृङ्गी घटोष्नी चारुकर्यां पयस्विनी ।
 ११—इभयः प्रजापतेः प्रजा देवाश्चासुराश्च ।

अभ्यास—१६

(उकारान्त पुं०)

१—क्या तुमने कभी ईख (इक्षु) का रस पीया है । नियम से पीया
 हुआ यह रस शरीर में तेज (दीप्ति) भर देता है । २—मैं परदेसी (आगन्तु)
 हूँ । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि यह बच्चा (शिशु) कौन है । ३—
 आज चाहे वह मुझे न जाने, बच्चपन में हम दोनों धूल में (पांसु) खेलते
 रहे । ४—रात का समय है, बस्ती दूर है और चारों ओर गीदड़ों (फेरु) की
 हू हू (फेत्कार) ही सुनाई देती है । ५—श्री राम ने समुद्र पर पुल (सेतु)
 बाँधा और सेना पार उतार कर रावण का संहार किया । ६—✽ थोड़े के बच्चे
 बहुत देना चाहता हुआ तू मुझे विचारहीन मालूम होता है । ७—वसन्त
 (मधु) में सृष्टि उज्ज्वल वेषवाली नई दुलहिन (वधू) की तरह प्रतीत
 होती है । ८—श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ (ऋतु) प्रारम्भ किया है और एक
 वर्ष में लौटने के लिये घोड़ा खुला छोड़ दिया है^१ । ९—✽ (बच्चा)
 स्नेह-रूपी तन्तु है जो हृदय के मर्मों को सी देता है । १०—चाहे कुछ भी हो,
 जान (असु) बचानी चाहिये । आप मरे जग परलड । ११—अनार्य लोग घुटने
 (जानु) टेक^२ कर^२ और भूमि पर मस्तक झुका कर ईश्वर से प्रार्थना करते
 हैं । १२—यति पहाड़ों की समतल भूमि (सातु) पर निवास करते हैं और

प्रभु की विभूतियों का साक्षात् दर्शन करते हैं । १३—यह इतना तीव्र विष है कि इसकी एक ही बिन्दु (विन्दु) ही प्राणों को हर लेती है । १४—ॐ आग में तपाईं हुए धातुओं के मल जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणों के निग्रह से उनके दोष दूर हो जाते हैं । १५—देवदत्त स्वयं तो लम्बा (प्रांशु) है पर उसका भाई नाटा (पृश्नि) है । १६—विद्या-विख्यात (विद्यासुन्धु) इस महात्मा का लोक में बड़ा आदर क्यों न हो । १७—साहू (साधु) लक्ष्मी-नारायण अधिक सूद^३ नहीं ढेता और असमर्थ ऋणियों के साथ नरमी का व्यवहार करता है ।

संकेत—३—अद्य स मां प्रत्यभिजानातु मा वा, बाल्ये तु पांसुषु समम-
क्रीडाव । 'पांसु' का प्रायः बहुवचन में प्रयोग देखा जाता है । ४—रात्रिरेषा,
दूरे च वसतिः, अभितश्च फेरुणां फेत्कारः श्रूयते । १०—यद्भवतु तद्भवतु,
असवो रक्षणीयाः । स्वयंगते जगज्जालं गतमेव न संशयः । १६—विद्या-
चुञ्चोरस्य साधोर्लोके बहुमानः कथं न स्यात् ।

अभ्यास—२०

(उकारान्त स्त्री०)

१—गाय (धेनु) का दर्शन मङ्गल माना जाता है और यह बिना कारण नहीं । २—यदि आर्य गोपूजा करते हैं तो ठीक ही करते हैं । इस देश के लोगों का गौएँ धन हैं । ३—चिड़िया चोंच (चञ्चु) से दाने चुग रही है (उच्चिनोति) और चुग २ कर बच्चों के मुँह में डालती जाती है (आवपति) । ४—यह पतला दुबला शरार (तनु) इस योग्य नहीं कि धूप सह सके । ५—उसके दाँतों में पीप पड़ गई है, जिससे उसके सारे जबड़े (हनु) में दर्द है । ६—चिरतक रुग्ण रहने से यह ब्राह्मणी ऐसी पीली (पाण्डु) हो गई है मानो रक्त की एक बूँद भी नहीं रही । ७—यह चूहिया (आखु) बहुत तंग करती है बिल्ली (श्रोतु) से भी पकड़ी नहीं जाती, जो चीज मिळे कुतर^१ डालती है^१ । ८—तनूर (कन्दु) में पकाई हुई चपातियाँ सुपच होती हैं । पञ्जाब^२ के पश्चाद् में इसका बहुत प्रचार है^२ । ९—यह कितना सुडौल शरीर है । कैसे सुन्दर

पट्टे (स्नायु) हैं । १०—यहाँ स्वर बदल कर पढ़ने से (काकु) प्रश्न अभिप्रेत है । ऐसा मानने से ही ग्रन्थ की सुन्दर संगति लगती है^१ ।

संकेत—३—चटका चञ्च्वा सस्यकणानुच्चिनोति । ४—तनुरियं तनुरसहा सूर्यातपस्य (तन्वीयं तनुरसद्विष्णुः सूर्यातपम्) । ९—अहो सुश्लिष्टं शरीरम् । अहो सुन्दर्यः स्नायवः ।

अभ्यास—२१

(उकारान्त नपुं०)

१—शहद (मधु) श्लेष्मा को दूर करता है और घी पित्त को । २—माँ मुझे जल (अम्बु) दो । मेरा गला प्यास से सूखा जाता है । ३—देवदत्त का पिता बड़ा क्रोधी^२ है, वह मामूली^३ सी भूलों^४ को क्षमा नहीं करता । ३—मारं गरमी के मेरी जीभ तालु (तालु) से चिपटी^५ जा रही है । मुझे जल्दी से पानी दो । ४—ये खिलौने लकड़ी (दारु) के नहीं, ये तो अग्निदाह्य लाव (जतु) के हैं । ५—वह धन (वसु) का स्वामी होता हुआ भी निर्धन की तरह कठिनता से निर्वाह करता है । ६—हम लोगों को नये घर बनाने हैं अतः खुली, ऊँची, समतल भूमि (वास्तु) चाहिये । ७—बहुत लोग भोजन आच्छादन (कशिपु) का प्रबन्ध भी नहीं कर पाते, दूसरी साधन-सामग्री का तो क्या कहना । ८—कच्चे (शलाटु) फल खाये हुए कई बार पेट में शूल उत्पन्न कर देते हैं पर सुखाये हुए (वान) फल हानि नहीं करते । ९—कोई झोग खुशामद (चाटु) पसन्द करते हैं, दूसरे नहीं । रुचियाँ भिन्न २ होती हैं । १०—यह कुछ चीज (वस्तु) है और यह कुछ भी नहीं (अवस्तु), इस बात का परिचय तुम्हें इसका प्रयोग करने पर होगा ।

संकेत—१—श्लेष्मघ्नं मधु । पित्तघ्नं घृतम् । २—अम्ब ! देहि मेऽम्बु । नृषया परिशुष्यति मे कण्ठः । ५—नेमे दारुणो विकारा अजङ्काराः, वह्निभोज्यस्य जतुन इमे भवन्ति । ८—कशिपुनोप्यनीशा बहवः किमुतान्यस्योपकरण-जातस्य ।

१-१ ग्रन्थार्थः साधोयः संगतो भवति । २ —क्रोधन, अमपण —वि० ।
३ तनु, अणु —वि० । ४ स्वलित—नपुं० । ५—सजति ।

अभ्यास—२२

(ऊकारान्त स्त्री०)

१—ॐ गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चम्पू कहते हैं। संस्कृत में 'इने गिने' ही चम्पू हैं। २—देश की रक्षा बहुत^२ दर्जे तक^२ उस की सुशिक्षित^३ सेनाओं (चम्पू) के अधीन है और कुछ नागरिक जनता के भी। ३—यह 'टूटी फूटी काया (तनू) कब तक निभेगी। निश्चय ही 'इस का विनाश आज हुआ वा कल'^४। ४—बहू (वधू) सास (श्वश्रू) को बहुत प्यारी है, कारण कि वह सुशील और 'आज्ञाकारिणी' है। ५—इस पृथिवी (भू) पर कुछ भी स्थायी नहीं, जो भी उत्पन्न हुआ है उस का विनाश निश्चित है। ६—जो का दलिया (यवागू) हल्का भोजन है। यह 'बीमारी से निर्मुक्त हुए'^६ पुरुष को जल्दी ही चलने फिरने के योग्य बना देता है। ७—वह दाद (दद्र) से पीड़ित है। और इस बेचारे को गीली खुजली (कच्छू) ने भी 'तंग कर रखा है'^७। ८—जो विधवा दुवारा पति को प्राप्त करती है उसे 'पुनर्भू'^८ कहते हैं। ९—जब आप बाजार जायें तो मेरे लिये कुछ रसीले जामुन (जम्बू) लेते आवें। १०—माता (प्रसू) का अति स्नेह ही अनिष्ट की शङ्का करता है। बच्चा चाहें कितना ही सुरक्षित क्यों न हो ११—यह जूती (पादू) ठीक तुम्हारे पाओं के माप की है (अनुपदीना, पदायता), इसे कारीगर ने बनाया है न। १२—इस कुप्पे (कुतू) में कितना घी है और इस कुप्पी (कुतुप पुँ०) में कितना। १३—हे लड़की (वासू) तू कौन है। हिंस्र पशुओं से भरे हुए मानुष-संचार-रहित इस बन में तू किस लिये घूमती है। १४—यह लड़का लुंजा (कुण्णि) है, इस की छोटी बहिन (अनुजा) लंगड़ी (पङ्गू) और बड़ी बौनी (वामन) है।

संकेत—२—राष्ट्ररक्षा भूमना (भूयसा) चम्पूवायतते (चम्पून्वायतते)। 'अधीन' का संस्कृत में प्रायः स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता, समास के उत्तर-पद के रूप में होता है। मेरे अधीन = मदधीनम्। राजा के अधीन=राजाधीनम्। इस अर्थ में 'निर्भर' का प्रयोग कभी नहीं होता। ९—यदा भवान् विपणिं गच्छेत्

१-१ परिगणित—वि०। २-२ भूमना। ३-कृतहस्त, कृतपुङ्क—वि०। ४-भङ्गु—वि०। ५-५ अद्यश्विनोऽस्याः पातः। ५-वश्य, वशंवद, आश्रव-वि०। ६-६ ?—वि०। ७-७ कदर्थित स्तपस्वी। ८-८ तां पुनर्भ्यामाहुः।

तदा मदर्थं कतिपयी रसवतीर्जम्बूराहरेत् । (रसवन्ति कतिपयानि जम्बूनि, कतिपयानि जाम्बवानि) । १०—प्रस्वा अतिस्नेह एव पापशक्ती । १३—इमां कुतू कियद् घृतं समाविशति । १३—वासु ! घोरप्रचारे निर्जनसंचारेस्मिन् कान्तारे किमर्थं पर्यटसि ।

अभ्यास—२३

(संकीर्ण स्वरान्त शब्द)

१—ॐ लक्ष्मी (श्री स्त्री०) को चाहने वाला उसे प्राप्त करे वा न करे । पर लक्ष्मी जिसे चाहे वह उस के लिये कैसे दुर्लभ हो । २—^१स्त्रियों (स्त्री) का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है^१ । इन से सदा मधुर व्यवहार करे । ३—विरक्त तपस्वी (तापस) अपनी पवित्र बुद्धि (धी) से भविष्यत् का दर्शन करते हैं । ४—यह^२ हमारे लिये लज्जा (ही स्त्री०) की बात है^२ कि हम हिन्दू होते हुए संस्कृत न पढ़ें । ५—विद्या भवसागर के तरने के लिये नौका (तरी स्त्री०) है और सब साधन इस से उतर कर हैं ६—वीणा (वल्लकी स्त्री०) सब वाद्यों में मुख्य है । इसकी मधुरता (माधुरी स्त्री०) सुर असुर सभी को ^३एक समान वश में कर लेती है^३ । ७—लक्ष्मी के प्रति लोगों की ऐसी आसक्ति है कि इस की चाह मिटती ही नहीं । ८—भीष्म कौरवों के सेनापति (सेनानी) थे और भीम पाण्डवों के । ९—यह विश्व ब्रह्मा (स्वयम्भू) की सृष्टि है, जिस के विधि, विधाता आदि अनेक नाम^४ हैं । १०—दूसरे लोगों के गुणों को पहचानने वाले (विज्ञातृ) बुद्धिमान् (सुधी) होते हैं और द्वेष करने वाले (द्वेष्टृ) मूर्ख (जडधी) । ११—भंगी (खलपू) का ^५काम समाज के लिये उतना ही उपयोगी और संमानित है जितना कि वेदपाठी (श्रोत्रिय) का । १२—कृपा करो हे विधाता, हमारे पाप ^६क्षमा करो^६ । ^७हमारे हृदय पश्चात्ताप से दग्ध हैं^७ । १३—मैं माता (मातृ) को बार २ नमस्कार करता हूँ जिसने आप भूखी ^८नंगी रहकर मुझे पाला पोसा और मेरे सुख के लिये अगणित कष्ट उठाये । १४—गौ (गो स्त्री०) का दूध बच्चों के

१—१ सुलभकोपाः क्षियः । २—२ इदं हि नो हियः पदम् । ३—३ समं वशे करोति (आवर्जयति) । ४ समाख्या, अभिधा, आह्ला—स्त्री० । ५—वृत्ति स्त्री० । ६—६ मर्षय, क्षमस्व । ७—७ अनुशयसन्ततानि हृदयानि नः । ८—अनावृत--वि० ।

लिये अस्यन्त हित कारक है। यह हल्का और बुद्धि-वर्धक होता है। १५—गौड लोग दही (दधि) के साथ भात खाते हैं। पंजाब में तो दूध चावल अथवा दही चावल बीमार ही खाते हैं। १६—रुद्र की तीसरी आँख (अक्षि नपुं०) से निकली हुई अग्नि (कृशानु पुं०) से क्षण भर में कामदेव राख का ढेर (राशि पुं०) हो गया। १७—मुझे अपनी मौसी (मातृष्वस्) को देखे हुए ढेर हो गई है, फूफी (पितृष्वस्) को तो पिछले ही सप्ताह मिला था। १८—अब हमें बिलुडना होगा यह जानकर सीता की आँखें (अक्षि) डबडबा गईं। १९—मेरी मामी (प्रजावती, भ्रातृजाया) की अपनी ननद (ननान्द) से नहीं बनती, अपनी देवरानी (यातृ) से तो खूब घुटती है। २०—रक्त^१ पीने वाली^१ इस भयंकर राक्षसी ने कई यज्ञों का विध्वंस किया और लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट दिया। २१—पिता पुत्र के कर्मों का उत्तरदायी है ऐसा कोई मानते हैं, नहीं है—ऐसा कोई दूसरे कहते हैं।

संकेत—६—बल्लकी वाद्यानामुत्तमा मता। अस्या माधुरी सुरासुराणां समं संवननम्। १५—गौडा दध्नोपसिक्तमोदनं भुञ्जते, पञ्चनदीयास्तु रुजाता एव पयसोपसिक्तं दध्ना वोपसिक्तं भक्तम्। १७—अथ चिरं मातृष्वसारं इष्टवतो मम (मातुः स्वसारम्, मातृष्वसारम्)। १८—उपस्थितो नौ वियोग इति सीताया अक्षिणी उदध्रुणी अभूताम्। १९—मम भ्रातृजाया ननान्द्रा न संजानीते, यातरि तु भृशं प्रीयते। २१—पिता पुत्रस्य कर्मणां प्रतिभूरिति केचित्, नेत्यपरे। एते वाक्यों में क्रियापदों को छोड़ने में ही शोभा है।

अभ्यास—२४

(तवर्गान्त, चवर्गान्त हलान्त शब्द)

१—हमारे इतिहास में ऐसी वीर स्त्रियाँ (योषित्) हो चुकी हैं जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। २—हिमालय (हिमवत्) जो पृथिवी पर सब से ऊँचा पहाड़ (सानुमत्, भूभृत्) है, जिसकी चोटियों पर नित्य ही धूप रहती है इस देश (नीवृत् पुं०) के उत्तर में विराजमान है। ३—नदियों (सरित् स्त्री०) का जल बरसात में मलिन हो जाता है, पर मानस का नहीं, और शरद् ऋतु में निर्मल हो जाता है। ४—हिरनों^२ के बच्चे^३ इन शिलाओं (इषद् स्त्री०) पर इस लिये^३ बैठते हैं कि यहाँ सीता अपने हाथों से इन्हें

१—रक्तपाः (प्रथमा एक०)। २—२ हरिणक—पुं०। ३—निषीदन्ति।

नया^१ २ घास^१ दिया करती थी। ५—उसका जिगर (यकृत नपुं०) बिगड़ा हुआ है, अतः उसे ज्वर रहता है और कफ का भी प्रकोप है। ६—भद्रे प्राणियों (प्राणाभृत) की ऐसी ही लोक यात्रा है, तेरा भाई जिसने स्वामी के ऋण को अपने प्राणों से चुका दिया शोक के योग्य नहीं। ७—मोर^२ अपने पंखों^३ और कलगी^४ से कितना सुन्दर है। पर इस के पैर कितने भद्दे हैं। “जहाँ फूल है वहाँ काँटा भी है”। ८—प्रजाओं के कल्याण के लिये ही वह उन से कर लेता था, क्यों कि सत्पुरुष देने के लिये ही लेते हैं, जैसे बादल। ९—युद्ध (युध् स्त्री०) के परिणाम भयंकर हैं ऐसा जानते हुए भी लगभग समस्त संसार युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। १०—जो नित्य जप करते हैं और अग्निहोत्र करते हैं वे पतित नहीं होते। ११—इस सँकरे मार्ग पर चलती हुई गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, अतः पगडंडी के साथ २ चलो। १२—आकाश में उड़ते हुए पक्षियों (पतत्) की गति भी जानी जा सकती है पर रक्षाधिकृत राजभृत्यों की नहीं। १३—गाँव जब बछड़े को दूध पिला रही हो तो उसे हटायें नहीं। १४—जब मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ तो विघ्न मत करो। १५—जीविका की तालाश करते २ (अन्विष्यत्, अन्वेषयत्) लोगों का सारा जीवन लग जाता है, चतुर्वर्ग की सिद्धि अछूती रह जाती है। १६—जो चलता है उसे प्रमाद वश ठोकर लग ही जाती है। दुर्जन उस समय हँसते हैं और सज्जन समाधान कर देते हैं। १७—मैं देखता हूँ कि एक महान् संकट आ रहा है। इस लिये तुम सजग हो जाओ। १८—गाली देते हुए (आक्रु-शत्) को भी गाली मत दो। अपकार करते हुए (अपकुर्वत्) का भी उपकार करो। यह सज्जन का मार्ग है। १९—हमारे पूवज (प्राञ्च्) हम से कुछ कम सभ्य न थे, कई अंशों में तो हम से सभ्यता में बढ़े हुए थे। २०—नगर का पश्चिम (प्रत्यञ्च्) द्वार^१ बन्द^२ है। तुम पूर्व (प्राञ्च्) द्वार से प्रवेश कर सकते हो। २१—निचली भूमि (अवाञ्च् प्रदेश) में पानी खड़ा रहता है और वहाँ मलेरिया^४ ज्वर बढ़े जोर से होता है। २२—सीता के निर्वासन में वन के पशुओं ने दुःख मनाया। देखो हिरनियों ने आधे चबाये

१—१ शष्प—नपुं० । २—मयूर, बर्हिण, भुजङ्गभुज्—पुं० । ३—पिच्छ, बर्ह—नपुं । कलाप—पुं । ४—शिखा । ५—५ न हि कुसुमं कण्टकं व्यभिचरति । ६—६ युद्धाय सज्जते । ७—गोपुर—नपुं । ८—संवृत, पिहित ।

हुए दाभ के प्रासों को मुख से गिरा दिया है और मानों आंसू बहा रही हैं । २३—ॐ मूर्ख लोग बाहिर के काम्य पदार्थों के पीछे जाते हैं । २४—इस समय पौ फटने को है । मोतियों की छवि वाले तारों से मण्डित आकाश (विषय नपुं०) धीरे २ निःप्रम हो रहा है ।

संकेत—१—अस्मदीये इतिहास एवंविक्रान्ता योषित उपवर्णिता (कीर्तिताः) या अद्यापि स्मरति लोकः । ३—वर्षासु सरितां सलिलमाविलं भवत्यन्यत्र मानसात् । शरदि तु प्रसीदति । ५—विकृतिमत्तस्य यकृत् । अतः स ज्वरति, प्रकुप्यति चास्य कफः । ११—संकटेनानेन संचरेण यान्ति (संचर-माणांनि) यानानि संघटन्ते । तस्माद्द्वर्तनिमनुवर्तस्व (पदवीमनुयाहि) १७—महान्तमनर्थमुपनमन्तमुत्प्रेक्षे । तेन प्रतिजागृहि । २४—प्रभातकल्पा शर्बरी । मौक्तिकसच्छायैरुडुभिर्मण्डितं वियच्छनैः शनैर्हृतप्रभं भवति । २२—सीतानिर्वासने वनसत्त्वा अपि समदुःखा (दुःखसब्रह्मचारिणः) । तथाहि निर्गलितार्धावलीढदर्भकवला मृगा अश्रूणि विमुञ्चन्तीव (विहरन्तीव) ।

अभ्यास—२५

(इन्, विन्, मतुप्, क्तवतु-प्रत्ययान्त)

१—ॐ चाँद के साथ ही चाँदनी चली जाती हैं और मेघ के साथ ही बिजली (तडित् स्त्री०) । २—यद्यपि पानी के बिना भी जीना मुश्किल है, अतएव उसे 'जीवन' वा 'जीवनीय' कहते हैं, तो भी वायु से ही प्राणी प्राण-वाले (प्राणवत्) हैं । ३—ॐ सात पैर साथ चलने से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है ऐसा बुद्धिमानों (मनीषिन्) का कथन है । ४—जिस प्रकार सुन्दर पक्षों से पक्षी (पतत्रिन्) सुन्दर होते हैं उसी प्रकार सुन्दर बेष^२ से ही मनुष्य सुन्दर नहीं बनते । ५—महात्मा गान्धी ने ससार (जगत्) की नीति का रूप^२ बदल दिया । उन का यह उपदेश था कि छली लोगों के साथ भी छल का व्यवहार नहीं करना चाहिये । ६—पे बेचारा (तपस्विन्) ब्राह्मण-

१ सुन्दर, सुजात, सुहृत्, अभिरुत्, मनाह, पेशल—वि० । २—बेष, आकलन—पुं० । नेपथ्य—नपुं० । ३ पर्यवर्तयत्, पर्यणमयत् ।

कुमार अभी दो^१ वर्ष का ही^१ था कि इस के^३ माता पिता स्वर्ग सिंघार गये^२ । ^३आप इस की सहायता करें^३ । ७—जिसके पैर फटें न बिवाई वह क्या जाने पीर पराई । ८—अर्जुन (किरीटिन्) धनुर्धारियों (धन्विन्, धनुष्मत्) में उत्तम था, ^४शक्ति चलाने वालों में नकुल बढ़िया था । ९—उत्तम रूप और शरीर वाला, बुद्धिमान् (मेधाविन्) यह नौजवान (वयस्विन्) देखने वालों के चित्त को ऐसे खींचता है जैसे चुम्बक लोहे को । १०—माला पहने हुए (स्रग्विन्), रेशमी वस्त्र धारण किये हुए (दुकूलनिवासिन्), बिस्तर^५ पर बैठे^५ हुए, अपने आप को पण्डित मानने वाले (पण्डितमानिन्) ये कौन हैं । ये सन्त जी हैं जो प्रायः स्त्रियों को धर्मोपदेश करते हैं ।

संकेत—५—महानुभावः श्री गान्धी जगति वर्तमानं नयं पथवर्तयत् । स इत्थमम्बुशात्—मायिष्वपि (मायाविष्वपि) न मायया वर्तनीयम् । ७—दुःखमननुभूतवतो जनस्य परदुःखमविदितम् । ९—सिंहसंहननो मेधावी चायं वयस्वी दृष्ट्यां चित्तमयस्कान्तो लोहमिव हरति ।

अभ्यास—२६

(अन्, इन्, मन्, वन्—प्रत्ययान्त)

१—सरलता से जीविका कमाना चाहिये, लालच से आत्मा को गिराना नहीं चाहिये । यही अच्छा मार्ग (पथिन्) है, इसके विपरीत कुमार्ग है । २—प्रजाओं को प्रसन्न करने से भूपाल को आर्य लोग राजा (राजन्) कहते थे । राजा अपने आप को प्रजाओं का सेवक मानता था और ^६उपज का छटा अंश लेकर निर्वाह करता था^६ । ३—राजाओं का प्रिय कौन है और अप्रिय कौन । ये लोग अपने प्रयोजन को देखते हैं और हृदय से किसी का आदर नहीं करते । ४—*प्रेम (प्रेमन्, पु०, नपु०) बिना कारण और अनिर्वाच्य होता है ऐसा *शास्त्रकार कहते हैं । उन का कहना है कि *स्नेह हो और निमित्त की अपेक्षा रखता हो यह परस्पर विरुद्ध है । ५—मैं श्वेत कमलों की इस माला (दामन् नपु०) को पसन्द करता हूँ । नील कमलों की इस माला (माल्य नपु०) को नहीं । ६—*अच्छे बुरे में भेद करने वाले विद्वान्

१—१ द्विवर्ष, द्विद्वयन—वि० । २—२ पितृगै निघनं गतौ, दिष्टान्तमासौ, कालधर्मं गतौ, देवभूयं गतौ । स्वर्यातौ । ३—३ अभ्युपपत्तरस्य कार्या । ४ शक्तीरु—वि० । ५—५ तल्प आसीनाः । ६—६ सस्यफलस्य षष्ठांशभुक् । ७ तन्त्रकार—पुं० । ८—८ पौण्डरीकं दाम ।

(सत्) कृपया इसे सुनें, क्यों कि सोने (हेमन् नपुं०) का खरापन या खोटापन अग्नि में ही दीख पड़ता है । ७--वह ब्रह्मचारी (वर्णिन्) तेज (धामन् नपुं०) में सूर्य (सहस्रधामन् पुं०) के समान है, गम्भीरता में समुद्र की तरह है और स्थिरता में हिमालय की तरह है । ८--ॐ ब्रह्म उसे परे हटा देता है जो आत्मा से पृथक् ब्रह्म को जानता है । ९--ज्ञान की अग्नि से पाप (पाप्मन् पुं०) ऐसे जल जाते हैं जैसे काश (हृषीका) का तूल । १०--इस चारपाई की दौन (दामन् नपुं०) ढीली हो गई है । इसपर आराम से सोया नहीं जाता । ११--यह लम्बा रास्ता (अध्वन् पुं०) है । इसे हम कई दिन पड़ाव करते हुए चल कर तय कर सकेंगे । १२--ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों (ब्रह्मन् नपुं० क्षत्र नपुं०) में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो कुछ भी विरोध नहीं, प्रत्युत एक दूसरे की उपकारक ही नहीं, अलङ्कार भी हैं । १३--बिना क्षत्रिय जाति के ब्राह्मण जाति फलती फूलती नहीं । क्षत्रिय आततायियों के वध के लिये सदा सशस्त्र रहते हैं । १४--भारत से योरूप जाने के पहले दो मार्ग (वर्त्मन् नपुं०) थे--स्थल मार्ग और जलमार्ग । अब तीसरा आकाश मार्ग भी है । १५--कोई परिहास (नर्मन् नपुं०) में प्रसन्न होते हैं, कोई चक्रांक्त में, कोई लक्ष्यार्थ में और कोई सीधे वाच्यार्थ में ही रस लेते हैं । यह स्वभाव-भेद के कारण है । १६ - ॐ अभिमानरूपी जलन से होने वाले ज्वर की गरमी (ऊष्मन् पुं०) ठंडी चीजों के लगाने से दूर नहीं की जा सकती ।

संकेत—१-आर्जवेनाजीवः सम्पादनीयः, गर्धेन तु नात्मा पातनीयः । अयमेव सुपन्थाः, इतो विपरीतस्त्वपन्थाः । ११--दीर्घोयमध्वा । एनं कैरपि प्रयागकैरतिक्रमिष्यामः । १२--सूक्ष्मेक्षिकयालोच्यमाने ब्रह्मणः क्षत्रस्य च न विरोधः कश्चिद्विभाव्यते । अपि त्वन्योन्यस्योपकार्योपकारकभावो भूषण-भूष्यभावश्च प्रतीयते । १३--नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते । आततायिवधे सततमुदायुधा राजन्याः ।

१--१ सुखं शयितुं न लभ्यते ।

२--२ इदं प्रकृतिभेदनिबन्धनम् । इदं स्वभाववैचित्र्यप्रतिबद्धम् ।

अभ्यास—२७

(अस्, इस, उस्-प्रत्ययान्त)

१—पौ फटते ही (उषस् नपुं०) ब्रह्मचारी को ग्राम से बाहिर निकल जाना चाहिये । ग्राम में ही इसे कभी सूर्य न निकल आये, नहीं तो इसे प्रायश्चित्त लगेगा । २—दुर्वासा (दुर्वासस्) एक ऐसे क्रोधशील मुनि हुए हैं कि जहाँ भी शाप आदि देने का प्रसंग हुआ, कवि लोगों ने उसे उपस्थित कर दिया । ३—चन्द्रमा (चन्द्रमस् पुं०) की शोभा भी एक अनोखी शोभा है, विशेष कर पूर्णिमा के चाँद और उसकी भी समुद्र तट पर जब कि समुद्र की तरङ्गे^२ मानो उसे छूना चाहती हुई उछलती हैं । ४—यह लड़का कुछ उदास (विमनस्) प्रतीत होता है । यह घर जाने को उत्सुक (उन्मनस्) हैं क्योंकि इसे माता पिता से मिले हुए छः मास हो गये हैं । ५—जब उसने बड़े^३ भाई^३ के विवाह^४ का शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न (प्रमनस्) हुआ और तत्काल घर को लौटा । ६—कहते हैं विश्वामित्र ने बहुत बरस तपस्या (तपस् नपुं०) करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया । ७—कमल की जल (पयस् नपुं०) से शोभा है, जल की कमल से, और तालाब (सरस् नपुं०) की जल और कमल दोनों से । ८—उस पुरुष से जो अपमान होने पर भी क्षोभ-रहित रहता है, धूल (रजस् नपुं०) अच्छी है । जो पाशों तक रेंदी जानेपर मस्तक (मूर्धन् पुं०) पर जा चढ़ती है । ९—भारत के किसानों के तन पर फटे पुराने कपड़े (वासस्) प्रकार २ कर कह रहे हैं कि वे लोग दारुण दरिद्रता के शिकार बने हुए हैं । १०—मन (मनस् नपुं०), बाणो (वचस् नपुं०) और शरीर में पवित्र, अमृत से भरे हुए ये लोग संसार का भूषण (कलामन् नपुं०) हैं । ११—यह सारी त्रिलोकी अंधकारमय हो जाय यदि शब्द नाम की ज्योति (ज्योतिस् नपुं०) संसार भर में न चमके । १२—किसी-के किसी से पूछा इस बच्चे की क्या आयु (आयुस् नपुं०) है । वह कहता है मैं इसकी आयु नहीं जानता, हाँ इस की अवस्था (वयस् नपुं०) जानता हूँ । १३—इस लड़के ने कोई अपराध नहीं किया । इसे आप ने क्यों दण्ड दिया ।

१—अभिख्या । अनोखी शोभा=काव्यभिख्या । २ तरङ्ग, भङ्ग--पुं० । ऊर्मि--पुं०, स्त्री० । वीचि--स्त्री० । ३ अग्रज--पुं० । ४ विवाह, उद्वाह परिणय, उपयाम--पुं० ।

अपराध (आगस् नपु०) तो इन्होंने ने किया था । इन को आप ने दण्ड नहीं दिया । १४—हे प्रभो मैं ने बहुत उग्र पाप (एनस् नपु०) किये हैं, अब ऐसी कृपा कीजिये कि निष्पाप हो जाऊँ ।

संकेत—१-उषस्येव ब्रह्मचारी ग्रामाश्लिष्कामेत् । ग्रामेन्तर्नमभ्युदियास्सूर्यः । अन्यथा प्रायश्चित्तीयः स्यात् । ९—भरतवर्षकृषाणानां श्रमक्षुण्णेषु कायेषु जीर्णानि शीर्णानि च वासांस्युच्चैर्घोषयन्ति दारुणदारिद्र्योपहता अर्मा इति । १२—कश्चित्कंचित्पृच्छति किमस्य शिशोरायुरिति । स आह माहमायुर्वेद, वयस्तु वेदि । १३—अयमनागाः, किमित्येनं निगृहीतवानसि । एते ज्ञागः कृतवन्तः, नैनान् दण्डितवानसि (नैनानशाः) ।

अभ्यास—२८

(अस्, इस्, उस्-प्रत्ययान्त)

१—ॐ युवावस्था (अभिनवं वयः) शरीर का स्वाभाविक^२ भूषण है । चाहे कोई कितना ही विरूप क्यों न हो जवानी आते ही सुरूप प्रतीत होने लगता है । २—इन जल रहित (निरम्भस्) रेतले^३ स्थानों में खेती^४ बाड़ी नहीं हो सकती^५ । हाँ कहीं २ खजूर आदि अपने आप उग पड़ते हैं । ३—ॐ ढरे हुए राक्षस (राक्षस् नपु०) दिशाओं को दौड़ रहे हैं । क्योंकि ये भगवान् के तेज को नहीं सह सकते । ४—अग्नि देवताओं का मुख है, क्योंकि यह उन के लिये हवियों, (हविस् नपु०) को ले जाता है । ५—भारत में पञ्च-रचना में इतनी अधिक रुचि हुई कि यहाँ अभिधान कोष और स्मृतियाँ तक भोजनों^६ में रची गईं । ६—प्रज्वलित अग्नि की दक्षिण की ओर उठती हुई ज्वाला (अर्धिस् स्त्री०, नपु०) शुभ होती है ऐसा निमित्त जानने वाले कहते हैं । ७—ऋषि छिपे हुए तथा दूर देश में पड़े पदार्थों को भी एकाम्र^८ चित्त (चेतस् नपु०) से देख लेते हैं । इसी^९ लिए उनका वचन (वचस् नपु०) कभी मिथ्या नहीं होता । ८—ॐ कब मैं भगवती भागीरथी के तट (रोधस्

१—१ इदानीमनेना यथा स्यां तथा दयस्व । २ असंभृत, अनाहार्य, अविहितसिद्ध—वि० । ३ सिकतिल—वि० । ४-४ कृषिर्न संभवात् । ५-५ कन्दसा बद्धाः । ६-६ प्रयिहितेन चेतसा । ७-७ अतएव न विप्लवते तद्वचः ।

नपुं०) पर रहता हुआ, कौपीन मात्र धारण करता हुआ, मस्तक पर हाथ जोड़े हुए, हे गौरीनाथ, हे त्रिपुरहर, हे शम्भो, हे त्रिनयन ! इस तरह चिह्नाता हुआ अपने दिनों को आँख की झपक की तरह बिताऊँगा । ९—जब स्कन्द ने इन्द्र की सेनाओं का सेनापति बनकर युद्ध में तारक को मार दिया तो दोनों लोक (रोदस् नपुं०) सुखी हो गये । १०—वृद्धों की आसीस आशिस् स्त्री०) से मनुष्य बढ़ता है । इस लिये आसीस प्राप्ति के लिये वृद्धों की सेवा करनी चाहिये । ११—इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इस जगत् को स्नर्ग तक एक धनुष् (नपुं०) से ही जीता । १२—अग्नि ताप और दाह से रहित है यह वचन परस्पर विरुद्ध है । १३—चरित्र की रक्षा करने वाले इस ब्रह्मचारी का तेज (वर्चस् नपुं०) सहा नहीं जाता । यह तो साक्षान् अग्नि है ।

संकेत—४— अग्निर्वै देवानां मुखम् । (अग्निमुखा वै देवाः) । एष हि तेषां हविषां वोढा । ६—उदर्चिषोऽग्नेः (समिद्धस्य हिरण्यरेतसः) प्रदक्षिणमर्चिः शुभायेति निमित्तज्ञाः । ९—यदा स्कन्दो वासवीयानां चमूनां सेनापत्येऽभिषिक्त आहवे तारकमनीनशक्तदा रोदसी सुखभाजी अभूताम् । यहाँ 'वासवीनाम्' कहना प्रामादिक होगा । कवियों से प्रयुक्त हुआ २ भी यह शब्द अपशब्द ही है । १२ अग्निर्नाम तापदाहाभ्यां विरहित इति संकुलं (क्लिष्टं) वचः ।

अभ्यास—२६

(संकीर्ण हलन्त शब्द)

१—योरुप के नीतिज्ञ यह जानते हुए (विद्वस्) भी कि युद्ध का परिणाम कितना भयानक होता है, तीसरे विश्वव्यापी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 'संसार पागल हो गया है । २--नगर' के समीप' ठहरे हुए (तस्थिवस्) उसी मुनीन्द्र^२ के दर्शन के लिये दूर २ से लोग आये । ३--सब मङ्गलों (श्रेयस् नपुं०) को प्राप्त हुए २ आप के लिये क्या आसीस हो सकती है । हाँ इतना चाहते हैं कि चिरकाल तक धर्म से प्रजा का पालन करते रहो । ४--⊗ वह अकेला सज्जनों में उत्तम है जिस के लिये दूसरों का प्रयोजन ही अपना प्रयोजन है । ५--देवदत्त का छोटा भाई (कनीयस् भ्रातृ) उससे अधिक चतुर (पटीयस्, मेधीयस्) है, और इसी

लिये अधिक धनवान् (वसीयस्) है । ६-—ऋ पाप (एनस्) स्वीकार कर लिया जाय तो यह हल्का (कनीयस् : हो जाता है ऐसी श्रुति है । पाप^१ छिपाया जाय तो बढ़ता है ऐसा दूसरे शास्त्रकार कहते हैं । ७-—ऋ हे प्रभो ! तेरी महिमा (महिमन् पुं०) को गाकर जो हम ठहर जाते हैं वह इस लिये नहीं; कि तेरे गुण इतने ही हैं, किन्तु हम अशक्त हैं अथवा हम थक जाते हैं । ८-—बहुत बार (भूयसा) देखा गया है कि सम्पत्ति से दर्प आ ही जाता है । विनीत पुरुष की अविनीत हो जाते हैं । ९-—शत्रुओं (द्विष्) के वचनों में विश्वास न करे । वे अवसर पाकर अवश्य धोखा देंगे । १०-—यह बैल (अनडुह्) के लिये कुछ भार नहीं, यह तो लादे हुए (आहित) बड़े गड्डे को आसानी से खींच सकता है । ११-—पुराने आर्य मूँज की जूती (उपानह् स्त्री०) पहनते थे क्योंकि वे चाम को अपवित्र मानते थे । काश्मीर के श्रमी लोग आज भी इस का उपयोग करते हैं । १२-—इस बरस बरसात (प्रावृष् स्त्री०) में नदियों में बाढ़ आ जाने से सैकड़ों गाँव बह गये और लाखों मनुष्य बे घर हो गये । १३-—आज^२ आकाश में मामूली से बादल हैं^२ इस लिये हल्की सी धूप है । १४-—यह बड़ा भवन ग्राम के मुखिया (स्थायुक) का है । इसके आने जाने के लिये तीन दरवाजे (द्वार स्त्री०) हैं । १५-—मनुष्य मरण शील (मरणधमेन्) हैं । ऋषि मुनि, यति तपस्वी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ सभी ने काल के गाल में जाना है । १६-—हम प्रायः बाहिर की ओर देखते हैं अपने भीतर नहीं । ऋ ब्रह्मा ने इन्द्रियों के गोलक बाहर की ओर खुलने वाले ही तों काटे है । १७-—बरसात में सिन्ध नदी का पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि यह समुद्र सी प्रतीत होती है ।

संकेत—१-हरिवर्षीया नीतिविदः संगरस्य प्रतिभयाः परिणतीर्विद्वांसोपि (भीतिदाननुबन्धान् विजानन्तोपि) तृतीयस्मै विश्वव्यापिनेऽयुद्धाय संभारान्कुर्वन्ति । उन्मत्तभूतं जगदिति प्रतिभाति ३-—सर्वाणि श्रेयांस्यधिजग्मुषस्ते का नामाशीः प्रयोज्या । तथापीदमाशास्महे चिरं धर्मेण प्रजाः पालयन्भूयाः । ९-—न द्विषः प्रत्ययं गच्छेत् । १२-—अस्मिन्नब्दे प्रावृषि नदीनामाल्पावेन शतशो ग्रामा परिवाहिताः, लक्षशश्च जना अनिकेतनाः संवृत्ताः १६-—परागृशो वयं न प्रत्यगृशः १७-—वर्षासु सिन्धोर्नद्याः पात्रं तथा वरीयो भवति यथैषा जलधिमनुहरति ।

१--ॐ जो टंडक है वह जल का स्वभाव है, गरमी तो आग और भूप के मेल से होती है। २--ॐ यम वह नित्य कर्म है जो शरीर-साध्य है और नियम वह अनित्य कर्म है जो बाह्य साधनों पर निर्भर है। ३--ॐ नौकर जब बड़े २ कार्यों में सिद्धि को प्राप्त करते हैं उसे तू प्रभु लोगों के आदर का ही फल जान। ४--ॐ निश्चय ही वह बाणी का फोक है जो अशुद्ध शब्द है। ५--ॐ ऋषि लोग घमंडी और पागल की बाणी को 'राक्षसी' कहते हैं^२। वह सब वैरों का कारण और लोक के विनाश की देती है। ६--ॐ क्या तुम सामने उस देवदारु को देखते हो। इसे शिव ने अपना पुत्र बनाया था। ७--देवता और असुर दोनों ही प्रजापति की सन्तान हैं। इन का आपस में झड़वाई भगड़ा होता आया है। ८--कोई जन्म से देवता होते हैं और कोई कर्म से। दोनों का दुःख रा जन्म नहीं होता। ९--ॐ हृदय वह है जो पहचान करता है, और चञ्चल मांसमात्र है। नहीं तो क्या कारण है कि सौ में कोई एक 'सहृदय' माना जाता है। १०--जनक ने कहा--ॐ वह मेरा योग्य सम्बन्धी था, वह प्यारा मित्र था, वह मेरा हृदय था। महाराज श्री दशरथ मेरे लिये क्या न था। ११ ॐ यद्यपि रघुनन्दन ने मेरी पुत्री के साथ ऐसा अन्याय्य कर्कश व्यवहार किया तो भी मैं उसे चाप वा शाप से दण्ड देना नहीं चाहता, क्योंकि वह मेरा प्यारा पुत्र है। १२--ॐ जो सूत्र का उल्लङ्घन करके कहा जाय, उसका स्वीकार न होगा। १३--ॐ सत्य से बड़ा धर्म नहीं और अनृत से बढ़कर पाप नहीं, ऐसा पूर्व (प्रथम, पूर्व) मुनि कहते हैं। १४--थोड़े ही (अल्प मनुष्य यह विश्वास करते हैं, कि अहिंसा का प्रभाव जीता नहीं जा सकता। १५--इन (अदस्) प्राणियों के लिये मनुष्य'क्या २ पाप नहीं करता। क्षीण हुए २ लोग निर्दय होते हैं। १६--ॐ जो जिसको प्यारा है वह उसके लिये कोई अपूर्व वस्तु है। क्यों कि वह कुछ भी न करता हुआ सुख देकर दुःख दूर कर देता है। १७--जो ये लोग घर आये हुए शत्रुओं का भी आतिथ्य करते हैं यह इन का कुलधर्म है।

संकेत—इस अभ्यास में सर्वनामों के प्रयोग के विषय में कुछ विशेष

१--१ संभावनागुण पुं०। २--२ स यां वै दप्तो वदति यामुन्मत्तः सा वै राक्षसी वाक् (ऐ० २।७।)।

वक्तव्य है। सामान्यतया 'सर्वनाम' का प्रयोग नाम के स्थान पर किया जाता है जब कि नाम को एक से अधिक बार प्रयोग करने की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति अस्वरती है। इस प्रकार प्रयुक्त किये हुए 'सर्वनाम' 'नाम' के ही लिङ्ग, विभक्ति और वचन को ले लेते हैं और यह स्वाभाविक है। (यो यस्स्थानापन्नः स तद्धर्माह्लभते ।) रामो राजां सत्तमोऽभूत् । स पितुर्वचनमनुरुध्य वनं प्राव्रजदित्यनपायिनीं कीर्तिमाप्नोत् । वृत्तेन वर्णनीया यज्ञदत्तसुता देवदत्ता नाम । तां परोक्षमपि प्रशंसति लोकः । ग्रामोपकण्ठे विमलापं सरोऽस्ति । तस्मिन्सुखं स्नान्ति ग्रामोद्याः । इन वक्तव्यों में जहाँ नाम और सर्वनाम की विभक्ति में भेद दीखता है, वह ऊपरी दृष्टि से है। दुबारा प्रयुक्त होने पर 'नाम' की जो जो विभक्ति होती, वह २ यहाँ सर्वनामों से हुई है। सो विभक्ति के विषय में भी सर्वनाम नाम के अधीन है यह निर्विवाद है। कई बार हम सर्वनाम को नाम के साथ ही प्रयुक्त करते हैं। वहाँ इस का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। और दूसरे विशेषणों की तरह यह भी विशेष्य के अधीन होता है। कस्यैष आत्मनीनो हताशः कितवः । कल्याणाचार्यं कन्या कमन्ववायमलङ्करोति जनुषा ।

पर जहाँ वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की एकता (अभेद) को बताने वाले दो सर्वनामों (यद्, तद् इत्यादि) का प्रयोग होता है वहाँ लिङ्ग की व्यवस्था कैसी है यह कहना है। भाषामर्मज्ञ शिष्ट लोगों ने इस विषय में कामचार बताया है। यदि 'यद्' + उद्देश्य के लिङ्ग को ले, तो तद् चाहे उद्देश्य के ही लिङ्ग को ले ले चाहे विधेय के। इस में नियम नहीं। तो भी 'तद्' का लिङ्ग प्रायः विधेयानुसारी देखा जाता है। जैसे (१ — शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिर्जलस्थ । १६—यो हि यस्य प्रियो जनस्तत्तस्य किमपि द्रव्यम् । पर कहीं २ 'तद्' उद्देश्य के लिङ्ग को भी लेलेता है—(२)—शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म

† उद्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकस्वमापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिङ्गमुपाददते इति कामचारः (कैयट) ; सर्वनाम्नामुद्दिश्यमानविधीयमानयोर्लिङ्गग्रहणे कामचारः (क्षीरस्वामी) ।

+ यद् शब्द कभी २ विधेय के लिङ्ग को भी ले लेता है—श्लेषम वा एतदयज्ञस्य यद् दक्षिणा (ताण्ड्य ब्रा० १६।१।१३) । सुखं वा एतत्संवत्सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी (शाङ्खायन ब्रा० ५।१) ।

तद्यमः (अमर) । सा वीराशंसनं युद्धभूमिर्यातिभयप्रदा (अमर) । यद्धम-
र्णोत्तमर्णाय मूलधनातिरिक्तं देयं तद् वृद्धिः—काशिका) । ७—देवाश्चासुरा-
श्चोभये (द्वये) प्राजापत्याः । एते मिथः संसक्तवैराः । ८—केचिदाजानदेवाः
केचिक्र्मदेवाः । उभयेषामपि (द्वयानामपि) पुनर्भवो न । १०—वह मेरा हृदय
था = तच्च हृदयम् । यहाँ 'यद्' का प्रयोग नहीं है, केवल 'तद्' का है ।
'हृदय' विधेय है, विधेय को प्रधान मान कर तदनुसार 'तद्' का नपुंसक
लिङ्ग में प्रयोग हुआ । इसी प्रकार ११ वें वाक्य में 'वह मेरा प्यारा पुत्र है'
इसके अनुवाद 'तत्पुत्रभाण्डं हि मे' में भी जानो । १७—यदेते गृहागतेषु शत्रु-
ष्वप्यातिथेया भवन्ति स एषां कुल-धर्मः । वाक्यार्थ का परामर्श करने के
लिये सर्वनाम का नपुं० में प्रयोग होता है । क्योंकि वाक्यार्थ (=क्रिया)
का किसी दूसरे लिङ्ग से परामर्श हो भी नहीं सकता । अतः यहाँ पूर्व वाक्य
में 'यद्' नपुं० में प्रयुक्त हुआ है ।

अभ्यास—३१

(संख्या-वचन)

१—इस कक्षा में इक सठ लड़के हैं, जिन में उन्नीस उत्तम कोटि के हैं,
पन्द्रह मध्यम कोटि के और सत्ताईस अधम कोटि के हैं । २—अड़तालीस में
बत्तीस जोड़ने से अस्सी होते हैं और एक सौ दस में से पचास निकालने से
बोष साठ रहते हैं । ३—दस हजार पाँच सौ बासठ को आठ सौ चाँबन से
गुणा करो और एक अरब पन्चीस करोड़ वाईस लाख वयासी हजार नौ सौ
बरीस को तैंतीस लाख पचासी हजार सात सौ छप्पन से बाँटो । ४—ऋग्वेद
की इक्कीस शाखायें हैं, यजुर्वेद की 'एक सौ एक,' सामवेद की एक हजार और
अथर्ववेद की नौ । कुल मिलकर ग्यारह सौ इकतीस होती हैं । ५—विक्रम
संवत् २००४ में भारतवर्ष की सदियों की खोई हुई स्वतन्त्रता फिर प्राप्त हुई ।
'यह दिन इस देश के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जायगा' । ६—
कल हमारे विद्यालय का पारितोषिक वितरण उत्सव था । भिन्न २ श्रेणियों के
कुल ३पचहत्तर छात्रों को ३पारितोषिक बाँटे गये । ७—विभाजन के पश्चात्
इस देश की आबादी पैंतीस करोड़ के लगभग है । सन् १९४९ में नई जन

१—१ एकशतम् २—अयं सुदिवस एतद्देशेतिहासपत्रेषु कार्तस्वररसेन
न्यस्ताक्षरो भविष्यति । ३—३ पञ्चसप्ततये छात्रेभ्यः ।

गणना होगी । ८—'हजारों कुलनारियाँ' भारत की स्वतन्त्रता के लिये हँसती २ जेल में गई । ९—मेरे पास चार हजार पन्द्रह स्वर्ण मुद्रायें हैं और मेरे भाई के पास एक हजार पन्द्रह । १०—दो कोड़ी बर्तन कलई करायें गये और इसपर साढ़े पाँच रुपये खर्च आये ।

संकेत — १—अस्यां श्रेण यामेकषष्टिश्चैत्राः । विशति से नवनति तक के संख्यावचन स्त्री लिङ्ग हैं और एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, संख्येय का लिङ्ग और वचन चाहे कुछ भी हो । २—अष्टाचत्वारिंशता सम्पिण्डिता (संहिता, युता, संकलिता) द्वात्रिंशदशीतिर्भवति । दशशताद् व्यकलितायां (वियुतायां, शोभितायाम्) पञ्चाशति षष्टिरवशिष्यते (षष्टिरुर्वरिता भवति) । दशशतम् = दशाधिकं शतम् = एक सौ दस । न कि दस सौ । यदि दस सौ कहना हो तो समास के रूप में 'दशशती' कहना पड़ेगा और समास न करते हुए 'दश शतानि' । इसी प्रकार पञ्चदशसहस्रम् = एक हजार पन्द्रह । ३—दशसहस्राणि पञ्चशतानि द्विषष्टिं चाष्टाभिः शतैश्चतुःपञ्चाशता च जहि (अभ्यस्य, गुणय) । ९—मम चत्वारि सहस्राणि पञ्चदश च स्वर्णमुद्राः सन्ति (मम पञ्चदशाधिकानि चत्वारि स्वर्णमुद्रासहस्राणि सन्ति) । ५ विक्रमवत्सराणां चतुरस्ररे सहस्रद्वये (गते) (विक्रमतश्चतुरस्ररयोर्द्वयोर्बर्षसहस्रयोरगतयोः) शताब्दीर्विलुप्तं भरतवर्षस्वातन्त्र्यं प्रतिलब्धम् । यहाँ समास करके चतुरस्ररद्विसहस्रतमे (विक्रमवत्सरे) नहीं कह सकते । ७ विभक्तेरूर्ध्वमत्र देशे पञ्चत्रिंशत् कोटयो जनाः । पञ्चत्रिंशत् कोटयो वा जनानाम् । एकोनपञ्चाशदुत्तरनवशत्युत्तरसहस्रतमे ख्रिस्ताब्दे (०उत्तरे ख्रिस्ताब्दसहस्रे गते) भूयो जनसंख्यानं भविता । यहाँ प्रायः ०नवशतोत्तर० ऐसा प्रयोग करते हैं, सो निश्चय ही प्रमाद है । १०—द्वे विशती पात्रायां त्रपुलेपं लम्बिते । यहाँ 'विशति' 'संख्या मात्र' में व्यवहृत हुआ है, संख्येय में नहीं । अतः अर्थ के अनुसार द्विवचन में भी प्रयुक्त हुआ । इसी प्रकार बहु० में भी प्रयोग होगा—तिन्नो विशतयः पात्रायाम् इत्यादि ।

१-१ सहस्राणि कुलाङ्गनाः, कुलाङ्गनासहस्राणि, सहस्रशः कुलाङ्गनाः । 'परः सहस्राः' का यहाँ प्रयोग उचित न होगा क्योंकि इस का अर्थ 'एक हजार से ऊपर' है, 'हजारों' नहीं ।

(७८)

द्वितीय अंश

अभ्यास—१

(लट् लकार)

१ सद्बृच छात्र जब भी अपने गुरु^१ से मिलता है^१, हाथ जोड़कर अर्द्धा से नमस्कार करता है और आसीस प्राप्त करता है। २—आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। ३—ऋ दण्ड ही प्रजाओं पर शासन करता है। दण्ड के भय से ही ये सुमार्ग पर चलती हैं, नहीं तो विमार्ग का आश्रयण^२ करती हैं। ४—ब्रूचा माता के दर्शन के लिये उत्कण्ठित है, इस कारण इसका मन न खेल में लग रहा है न खाने में। ५—उसे सुरा पीने की लत पड़ गई है। इसके साथ ही वह आचार से गिर गया है। ६—ऋ कुम्हारिन अपने बर्तन को सराहती है। इसमें पक्षपात ही कारण है, क्योंकि वह गुण दोष की^३ विवेचना नहीं करती^३। ७—आप देखते नहीं कि अपने वचन का आप ही विरोध कर रहे हो। वचन विरोध उन्मत्त-प्रलाप सा हो जाता है। यह आप जैसों को शोभा नहीं देता। ८—आश्चर्य है सुशिक्षित-मन वाले ब्राह्मण भी ऐसा व्यवहार करते हैं। उनसे इसकी संभावना नहीं होनी चाहिये। ९—आप को पुत्र जन्म पर बधाई हो। १०—* तू दूसरों की आँख के तिनके को तो देखता है पर अपनी आँख के शहतीर को नहीं। ११—* अनाड़ी फारीगर जब एक अंग को जोड़ने लगता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। १२—* अन्न से भरपेट विद्यार्थी ऊधम मचाते हैं। १३—ऋ सूर्य के चक्के जाने पर निश्चय ही कमल अपनी शोभा धारण नहीं करता। १४—प्रातः से लेकर मेंह बरस रहा है और थमने^४ में नहीं आता। इससे घर से बाहिर निकलना भी कठिन हो गया है। १५—माता अपने बच्चे के लिये जब चपती बनाती^५ है तो उसके बनाने में उसे वह आनन्द आता है जो बच्चे को उसके खाने में नहीं। १६—पक्षी आकाश में ऐसे निःशंक होकर उड़ रहे हैं मानो वे इस अनन्त अन्तरिक्ष के स्वामी हैं। १७—ऋ मूर्ख बरुवास कर

१ १ गुरुणा समापद्यते (संगच्छते) । २ आ श्रि भ्या० उ० आस्था भ्या० प० । ३ ३ न विविङ्क्ते । विच् रुधा० उ० । ४ वि रम् भ्य० प० । ५ रन्धयति । रध् षिच् । रध् दिवादि परस्मैपदी है ।

रहा है। यह ऐसी बेतुकी बातें किया करता है कि जिन्हें ' सुनते ही हँसी आती है' । १८ मैं तुम्हें इतने समय से ढूँढ रहा हूँ। तुम कहाँ गुम हो जाते हो।

संकेत—इस अभ्यास का और इस अंश में दिये गये दूसरे अभ्यासों का लक्ष्य यह है कि विद्यार्थी को धातुरूपावलि का यथेष्ट परिशीलन हो जाय। सभी धातुओं के भिन्न २ लकारों के रूप एक समान मधुर और मञ्जुल नहीं होते, इसलिये यहाँ यह नियम नहीं किया गया है कि किसी एक धातु का ही प्रयोग किया जाय और उसी अर्थवाली दूसरी धातु का नहीं। हमारा प्रयोजन सुन्दर भाषा-रचना में कुशलता उत्पन्न करना है, व्याकरण के विविध रूपों को सिखाना ही नहीं। अतः प्रथम वाक्य में अनुवाद में विद्यार्थी नमस्कार क्रिया को कहने के लिये नम्, प्र नम्, वन्द, अभिवादि, नमस्य धातुओं में से जौन सी चाहे प्रयोग कर सकता है। २ त्वरिततरां प्रभाषसे, नाहं किमपि त्वदुक्तमवबुध्ये। बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सुन रहा है, उड़ रहा है इन सब के अनुवाद में लट् का ही प्रयोग होता है प्रभाषते, खादति, पिबति, शृणोति, उत्पतति। आज कल कई लोग इस के स्थान पर शत्, शानच् प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं और साथ में अस् का लट्लकारान्त रूप—प्रभाषामाणोऽस्ति, खादन्नस्ति, पिबन्नस्ति, शृण्वन्नस्ति, उत्पन्नस्ति। यह व्याकरण के अत्यन्त विरुद्ध है। वर्तमान काल की सन्तत क्रिया को भी लट् लकार से ही कहना चाहिये क्योंकि वर्तमान काल का लक्षण प्रारब्धोऽपरिसमाप्तश्च कालो वर्तमानः कालः ऐसा किया गया है। ४ मातृदर्शनस्योत्कण्ठते बालः (मातुराध्यायति डिम्भः, सोत्कण्ठं स्मरति मातुः शिशुकः)। ५ शीघुनि^२ (मधुनि) प्रसजति सः, अश्यति (अंशते) चाचारात्। ७ किं न पश्यसि स्वोक्तिं विप्रतिषेधसीति (स्वोक्तं विरुणत्सीति, स्वं यचो व्याहंसीति। वदतो व्याघातो ह्युन्मत्तप्रलाप इव भवति (विप्रलापो ह्युन्मत्तप्रलापितमनुकरोति)। न चैष भवादृशेषुष-पद्यते। ८—आश्चर्यं यत्संस्कृतमतयो द्विजातयोप्येवं व्यवहरन्ति। नैतत्तेषु संभाव्यते। ९—दिष्ट्या पुत्रलाभेन वर्धते भवान्। इस बात को कहने का यही शिष्टसंमत प्रकार है। १४—प्रातः प्रभृति वर्षति देवः, न चैष बिरमति। 'वर्षा' भवति आदि प्रयोग व्याकरण-संमत होते हुए भी व्यवहार के प्रतिकूल हैं। संस्कृत में 'वर्षा' नित्य बहुवचनान्त है और इसका अर्थ 'बरसात' है।

सो 'वर्षा भवन्ति' शुद्ध संस्कृत होगी पर अर्थ होगा—'बरसात है।' देव = इन्द्र, पर्जन्य, मेघ। इन्द्रवाची या मेघवाची कोई न कोई शब्द 'वर्षति' का कर्ता होना चाहिये। १८—इमां वेलां त्वामन्विष्यामि (संघीक्षे)। क निजीयसे (कान्तधत्से)। यहाँ 'इमां वेलाम्' में अत्यन्त संयोग में द्वितीया हुई है। इसके स्पष्टतर बोध के लिये विषय प्रवेश में कारक प्रकरण देखो।

अभ्यास—२

(लट्)

१—ॐ आज भी शिव हालाहल विष को नहीं छोड़ता, (आज भी) कछुआ पीठ पर पृथिवी को उठाये हुए हैं, (आज भी) समुद्र दुस्तर बड़बाबल को धारण किये हुए है। पुण्यात्मा जिसे अङ्गीकार कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं। २—मैं बरसने वाला हूँ, अतः स्कूल बन्द हो गया है और विद्यार्थी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ३—जो जुआ खेलता है वह पछुताता है। शिष्ट समाज^१ जुए को निन्दा की दृष्टि से देखता है। ४—निःसन्देह वह सच्चा नेता है जो ईश्वर से बताये हुए अपने कर्तव्य की पूर्ति में प्राणों की बाजी लगा देता है^२। ५—गौएँ पानी पीती जाती हैं और मँडक दर दर कस्ते जाते हैं। ६—मैं तुम्हें युद्ध के लिये^३ ललकारता हूँ। अभी बल और अउल का निर्णय होता है। ७—कई लोग वैराग्य के प्रभाव में आकर^४ छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लेते हैं। ८—ॐ जो पुरुष अपने आप से लज्जित होता है वह सब का गुरु बन जाता है। ९—मुनि हथेली में लिये हुए अभिमन्त्रित जल से आचमय करता है। १०—ॐ नाच न जाने अँमन देवा। ११—देवनस तो यज्ञदत्त का पासंग भी नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ कुबड़ा तेली। १२—ॐ ये भाव जितेन्द्रिय पुरुष पर भी प्रभाव डालते हैं, इसलिये नाच रंग और एकान्त में स्त्री संग आदि से परे रहना चाहिये। १३—नुक़र पर व्यभिचार का दोष लगाने से मेरे मर्मों पर चीट लगती है। और कोई मिथ्या अभियोग इतना दुःख नहीं देता। १४—ॐ मेरी दाईं बाँह फड़कती है, इसका यहाँ कैसे फल हो सकता है। १५—जिसने ज्ञाना-

१—घृत, देवन, दुगोदर—नपुं०। २ २ नियोगानुष्ठाने प्राणानामपि पण्यते। ३—आह्वये। ४—४ वैराग्यावेशेन।

ग्नि से सब कर्मों को जला दिया है 'उस पण्डित को पाप छूटा नहीं' ।
१६—ॐ एक बड़ा दोष है, मुझे भोजन नहीं पचता है, सुन्दर बिस्तर पर
भी निद्रा नहीं आती ।

संकेत—२—पुरा वर्षति देवः, संवृतो विद्यालयः, विद्यार्थिनश्च यथासं
गृहाणि यान्ति (यथायथं गृहानभिवर्तन्ते) । यहाँ 'पुरा' के योग में निकट
भविष्यत् के अर्थ में लट् का प्रयोग हुआ है । ३ यो दीव्यति स परिदे-
वयते । द्यूनं च (देवनं च) गर्हन्ते शिष्टाः—यहाँ 'शिष्ट समाजः' कहने
की रीति नहीं । हाँ 'शिष्टलोकः', 'शिष्टजनः' कह सकते हैं । ११—देवदत्तो
यज्ञदत्तस्य षोडशीमपि कलां न स्पृशति । क्व भोजराजः क्व च कुब्जस्तैली ।
१२ अग्नी भावा यतात्मानमपि स्पृशन्ति । १३—आक्षारणा मे मर्माणि
स्पृशति, अन्यद् मिथ्याभिर्शंसनं न तथा तुदति ।

अभ्यास—३

१—ॐ तारों को देखकर वह मौन व्रत तोड़ता है । २—शेरों
की गरज और हाथियों की चिंवाड़ से विन्ध्य का महान् जंगल गूँज
रहा है^३ । ३—अधर के मूल पुरुष के निःसन्तान मर जाने पर उसकी सत्पति
राजा को प्राप्त होती है । ४—भारत में जो दिन रात परिश्रम करते हैं उनकी
भी दिन में दो बार पेट भर खाने को नहीं मिलता है । ५—बेसमक लोग
जहाँ तहाँ थूक देते हैं । दुर्भाग्य से ऐसे लोग भारत में बहुत हैं । ६—जो
व्यायाम करते हैं वे मोटे नहीं होते, और न ही बीमार होते हैं । ७—उसे
बहुत सबेरे उठने की आदत है । उठते ही वह शौच जाता है । तदनन्तर
दानुन कर सैर के लिए निकल जाता है । और लौटने पर कुछ विश्राम कर
स्नान करता है । ८—ॐ लक्ष्मण देखो चम्पा में परम धार्मिक बगुला धीरे
धीरे पग धरता है इस डर से कि कहीं जीवहत्या न हो जाय । ९—शरद्
ऋतु में धाम पक जाता है, काश फूलती है और कमल खिलते हैं और चन्द्रमा
भी अनठी शोभा को धारण करता है । १०—अग्नि कमी इन्धन से तृप्त
नहीं होती और समुद्र नदियों से । ११—जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है

१—१ न पण्डितं तं पाप्मा स्पृशति । २ परि नम्, जू दिवा० प० । ३—३
कण्ठीरवरवैः, मृगेन्द्रगर्जितैः । ४—४ करिवृंहितैः । ५—५ प्रतिध्वनति ।

वहाँ देवता रमण करते हैं। जिन घरों को तिरस्कृत कुलाङ्गनायें शाप दे देती हैं वे ऐसे नष्ट हो जाते हैं मानो मारी से। १२—विदेश को जाते हुए पुत्र के सिर को माता चूमती है और स्नेह भरी आँखों से उसकी ओर एक टक देखती है। १३—महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भगवान् श्री कृष्ण अतिथियों के चरब १ धोते हैं और खाना २ परोसते हैं। १४—गरमी की ऋतु में पहर भर का पका हुआ शाक पानी छोड़ देता है और खटा हो जाता है, कुछ दुर्गन्ध भी देने लगता है। १५—कुएँ का खोदने वाला कुएँ की मिट्टी से पहले लिप्त हो जाता है, पीछे वहीं से निकाले हुए जल से शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अथ शब्द का प्रयोग करने वाला मनुष्य ३ दोष का भागी बनता है ३। पर अनेक साधु शब्दों के प्रयोग से ४ पवित्र हो जाता है ४। १६—बूढ़ा गाड़ीवान कमजोर बैलों को पैनी से मार मार कर हाँक रहा है। बेचार को अधिक काम के कारण परसना आ रहा है।

संकेत—४—येपि नाम भारते वर्षे नक्तन्दिवं श्राम्यन्ति तेऽपि दिनस्य द्विरुदरप्रं (उदरपूर) भोक्तुं न लभन्ते। ६—ये व्यायच्छन्ते ते न मंदन्ते, न च रुज्यन्ते। रुज् सकर्मक (तुदादि) धातु है, अतः यहाँ कर्म कर्ता अर्थ में प्रयोग किया गया है। ७—स नित्यं प्रातस्तारां जागर्ति (महति प्रत्यूषे बुध्यते)। यहाँ लट् ही 'शील' को भी कह देता है अतः 'तदस्य शीलम्' ऐसा कहने में कुछ प्रयोजन नहीं। उठते ही..... = संजिहान एवावश्यं करोति, ततो दन्तान् धावित्वा स्वैर विहारं निर्याति। यहाँ 'स्वैर-बिहारम्' द्वितीया भी व्यवहार के अनुकूल है। ९—शरदि शालयः पच्यन्ते, काशः पुट्यति, पङ्कजानि च विकसन्ति। सुधासूतिरापि किमपि कामनीयकं धत्ते। १२—विदेशं प्रति प्रस्थितमात्मजं शिरस्युपजिघ्रत्यम्बा। यहाँ आत्मज में द्वितीया और शिरस् में सप्तमी ही शिष्ट व्यवहार के अनुगुण है। १४—शुचौ यातयामः श्राणः शाकः शुच्यति पूयते च कलया। १६—प्रवयाः प्राजिता प्राजनेनामिधातमभिधातं मन्दानृषभान् (ऋषभतरान्) प्राजति। (ऋषभतराः = मारवहने मन्दशक्तयोऽनड्वाहः)।

१—निर्णनेक्ति (निष् जुहो० उ०), प्रक्षालयति, शुन्धति। २—परिवे-
विष्टे (विष् जुहो० उभय०)। ३—३ दुष्यति। ४—४ पूयते (पू ऋच्यादि
उभय०)।

१—ॐशब्द नित्य है ऐसा वैयाकरण मानते^१ हैं, पर नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हैं। नित्य शब्द को वैयाकरण स्फोट कहते हैं। २—^२वह दिन प्रति दिन शिथिल होती जा रही है^२। न जाने इसे क्या रोग खाये^३ जा रहा है। ३—तुम्हारा यह कहना^४ 'संगत नहीं'^४ कि बढ़िया बल संसार में शान्ति का साधन है। बढ़िया बल तो श्मशान की ही शान्ति स्थापना कर सकता है। ४—जब पर और अवर ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, हृदय की गाँठ खुल जाती है, सारे संशय कट जाते हैं और इस (द्रष्टा) के सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। ५—ॐधेरा मानो शरीर से झिपट रहा है और आकाश मानो अञ्जन की वर्षा कर रहा है। ६—यह समझ में नहीं आता है कि मनुष्य अपने भाई बन्धुओं के प्रति पाप करने का कैसे साहस करता है। सत्र हम मनुष्य के अत्याचारों^५ को देखते हैं तो^६ कहना पड़ता है^६ कि मनुष्य अत्यन्त^७ क्रूर^७ है। ७—ॐ जायदाद का विभाग एक बार ही होता है, कन्या (विवाह में) एक बार ही दी जाती है। ८—ॐ मूर्ख द्वारा भी अच्छी भूमि पर बोया हुआ बीज फलता फूलता है। धान का समृद्धि शाली होना बोने वाले के गुणों पर निर्भर नहीं है। ९—रात को चमकता हुआ चाँद किते प्यारा नहीं, सिवाय कार्मी और चोर के। १०—यदि छात्र को सीखने की इच्छा न हो तो गुरु उसे कुछ भी नहीं सिखा सकता। तुम घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हो, पर इसे पानी नहीं पिला सकते यदि इसे प्यास^८ न हो। ११—उसकी बुद्धि ऋचाओं में खूब चलती है पर नव्य-न्याय में अटकती है। १२—वेदान्ती लोग कहते हैं कि माया असंभव को सम्भव करने में समर्थ है। प्रातिभासिक जगत् का यही कारण है। १३—वे लोग जो जितना कमाते हैं इतना ही खा लेते हैं, अन्त में कष्ट पाते हैं। १४—जब मैं देखता हूँ कि

१—प्रतिज्ञा आदि आ०, सम्—गृ तुदा० आ०, आ-स्था भ्या०
 आ०। २—२ साऽनुदिनमङ्गैर्मुच्यते (अङ्गैर्दीयते)। ३—प्रस् भ्वा० आ०
 ४—४ न संगच्छते। ५—५ मानवीयानि नृशंसानि वर्तमान (दास्यन्ति)
 कर्माणि) समीक्षामहे। ६—६ क्रूरतमः। ७ तृष् दिवः० प०।

संसार भर में हिंसा उषरोचर बढ़ रही है, तो^१ मुझे संसार की शान्ति की कुछ भी आशा नहीं दीखती^१ । १५—ॐ ऐसा नहीं होता कि भिखारी हैं इस लिये हाँडी नहीं चढ़ाते, हिरन हैं, इसलिये जौ नहीं बोये जाते ।

संकेत—६—इदं हि बुद्धिं नोपारोहति मानवो भ्रातृपु बन्धुपु चैनः समा-
चरितुं कथं क्रमते । ९ रात्रौ रोचमान इन्दुः कस्य न प्रियोऽन्यत्र कामुकात्
कुम्भीलकाच्च । ११—क्रमते तस्य बुद्धिर्ऋक्षु, नव्य-न्याये तु प्रतिहन्यते
(स्वलति) । १३—य उत्पन्नभक्षिणस्तेन्तेऽवसीदन्ति ।

अभ्यास—५

(लट्)

१—जिसे तू मोमबत्ती समझता है वह चर्बी की बत्ती होती है । २—
नगर दे बाहिर मैदान में लोग इकट्ठे^२ हो रहे हैं कारण कि आज महात्मा
गान्धी का जन्म दिन है । अभी थोड़ी देर में पं० जवाहर लाल नेहरू महात्मा
जी के चरित पर व्याख्यान देंगे । ३—जो दुष्टों के साथ मेल^३ करता है, वह
गिर जाता है । इसकी बुद्धि उलट^४ जाती है और लोक में उसकी निन्दा होती
है । ४—वह प्रायः मूर्ख निकलने से पीछे उठता है इस लिये सुस्त और बीमार
रहता है । और यह बात भी है कि वह अँधेरी तंग गली में रहता है । ५—
वह किसी का भी विश्वास नहीं करता, सदा शङ्कित रहता है । चित्त की
शान्ति इसके भाग्य में नहीं । ६—हठी^५ आदमी निन्दा^६ की^७ पर्वान नहीं
करता, जिस बात को पसन्द^८ कर लेता है, जहाँ अपना चित्त जमा देता है
उससे कभी नहीं टलता । ७—जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उससे परे
भागती है और जो विरक्त महानुभाव इसकी उपेक्षा करता है यह उसके चरण
चुम्बन करती है, पर तिरस्कार को प्राप्त होती है । ८—अराजक जनपद में जल

१—१ तदा नाशंसे लौकिकाय शमाय । यहाँ चतुर्थों के प्रयोग पर ध्यान
देना चाहिये । २—सम् अच् इ, सम् अच् भ्वा० प० । सम् वृत् भ्वा० आ० ।
एकी भू । एकत्रीभू अत्यन्त अष्ट है । यहाँ चि्व हो नहीं सकता । ३ सम् सूच्
दिवा० आ०, सम् प्र युच् दिवा० आ०, सम् गम् भ्वा० आ०, सम् पृच्
(कर्म कर्ता अर्थ में) । ४—विपरि वृत् भ्वा० आ०, विपरि अस् दिवा० प०,
वि-परि इ अदा० प० । ५ कामवृत्ति—वि० । ६ वचनीय—नपुं० । ७ ईच्,
गण् । ८ अभि नन्द् भ्वा० प० । ९—६ यत्रैवाभिनविशते ।

में मच्छियों की तरह दुर्बलों को अधिक बलवाले खा जाते हैं और समस्त राष्ट्र कर्णधार-रहित नौका की तरह नष्ट^१ भ्रष्ट हो जाता है^१ । ९—यद्यपि वह बीमारी से क्षीण हो गया है तो भी अब धीरे २ ताकत पकड़ रहा है । १०—अधिक वर्षा के कारण इस मकान की छत टपकती रहती है जिस से हम बहुत तंग आ गये हैं, सब सामान भीग गया है । ११—मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहीं हैं । कुछ दर्द भी रहती है । कुछ वात का जोर है । १२—यह लड़का बागों से निकले हुए घोड़े की तरह जहाँ चाहता है चला जाता है । १३—ॐ वह (सच्चा) विजयी है जिस के वश में शत्रु आसानी से आ जाता है । जो दो में से एक के बचने पर विजयी होता है वह वस्तुतः हार गया है । १४—मनुष्य अभिन्न हृदय^२ मित्र में जैसे विश्वास^३ करता है वैसे बन्धु अथवा भाई में भी नहीं । १५—ॐ इस स्त्री के रोग की कोई चिकित्सा नहीं । अब यह नष्ट हुई समझिये । इसका बचाव नहीं हो सकता । १६—यदि तू मांस खाता है, तुझे इससे कुछ लाभ नहीं, हाँ शास्त्र का विरोध अवश्य होता है ।

संकेत—१—यां सिक्थकवर्तिरिति वेथ सा वसादशा भवति । ४—और यह भी बात है..... = अन्यच्च । स तमोवगुण्ठितायां संकटायां च प्रतोलिकायां वसति । ५—स न कस्यापि प्रत्ययं याति (न कमपि प्रत्येति), शश्वच्च शङ्कते । तेन चेतः स्वास्थ्येऽस्य भागो न (चेतोनिर्वृता नासौ भागी) । ९—ग्लानोप्यसौ सम्प्रति मन्दमन्दमुल्लाघते । १०—अतिवृष्टेश्छदिरस्य सदनस्य (शरणस्य) प्रश्च्योतति, येनातङ्कामः । अभिषिक्तश्च सर्वः परिवर्हः । छुदिस् पाणिनीय लिङ्गानुशासन के अनुसार स्त्रीलिङ्ग है । अमर के अनुसार नपुं० है । ११—कर्दति मं कुक्षिः किञ्चिद् व्यथते च । वातोपि प्रकुप्यति मात्रया । १६—यदि मांसमश्नासि, नेदं तवोपकरोति, केवलं शास्त्रमतिचर्यते ।

अभ्यास—६

(लट्)

१—ॐ माँगना तो मरने का दूसरा नाम है । तो क्या मैं अब दूसरे के अन्न से निर्वाह करूँ । भाग्य के बदल जाने पर मनुष्यों का बार २ तिरस्कार होता है । २—इस संसार से चलते हुए जीव के अपने कर्मों के फल ही^४

१—१ विप्लवते । २—निरन्तर चित्त—वि० । ३—वि० सम्म् भ्वा० आ० । ४—पाथेय, पथ्यदन—नपुं० ।

पायेय होते हैं । ३—जब वृक्ष की जड़ें नंगी हो जाती हैं 'बह हिल' जाता है और कुछ काल के पीछे उखड़^३ जाता है । ४—जो यह विचार कर खाता है कि यह मेरे अनुकूल है और यह अनुकूल नहीं है, वह बीमार नहीं होता । ५—जब कोई यह सुनता है कि मेरा मित्र मेरी लुगली करता है तो उसे अपार पीड़ा होती है । ६—अनार और आँवले की खटास को छोड़कर सभी खटास गरमी करती है । ७—~~मैं~~ मैं राज्य नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता । मैं तो दुःख से पीड़ित प्राणियों की पीडा का शमन चाहता हूँ । ८—जो क्षत्रिय देश के हित से प्रेरित होकर विना स्वार्थ के युद्ध करते हैं और शत्रुओं को मार भगाते हैं वे निश्चय ही स्वर्ग को जाते हैं । ९—ये खिलाड़ी लड़के अभी तक खेल रहे हैं । इन्हें 'अपनी पढ़ाई की कुछ भी परवाह नहीं' । १०—यज्ञ में जो पशु का वध है वह कल्याण के लिये पाप का आरम्भ है, ऐसा हमारा विचार है । दूसरों का इस से भिन्न विचार है । ११—जब राजा अपनी प्रजाओं को कर आदि से अत्यन्त पीड़ित करता है तब वे 'उस से बिगड़ जाती हैं' और उसके विरुद्ध उठ खड़ी होती हैं । १२—जो दूसरों के धन का लालच करता है वह पतित हो जाता है । १३—यह बढ़ई लकड़ी काट रहा है, वह आरे से चीर रहा है और फिर यह तीसरा झीलता जाता है । और चौकोन बनाता जाता है । १४—वह बीमार नहीं है, बीमार होने का बहाना करता है । १५—अब एकान्त बना दिया गया है । अब मैं आप से अपनी बीती कहता हूँ । १६—कई एक भिक्षु बालों को 'नोचते हैं, मैंने' कुचैले घस पहनते हैं और बार २ उपवास करते हैं । इस प्रकार अपने आप को विविध 'क्लेश देते हैं' इसे वे 'आवागमन से कूटने का उपाय समझते हैं' ।

संकेत—४-य इदं ममोपशेते इदं नोपशेत इति विविच्यान्नमश्नाति स नाभ्यमति । ५—यदा कश्चिश्शाम्यति मित्रं मे मां सूचयति तदा भृशं दुःख्यति । (तदा जायते नामास्योत्तमा रुक् ।) ६—पित्तलमभ्लमन्यत्र दाडिमा-

१-१ - यदा वृत्त आविर्मूलो भवति । २—वि० हल् भ्वा० प० । ३—उद् वृत् भ्वा० आ० । ४—४ अभ्ययनं नाद्रियन्ते । ५—५ तस्मिन् (तं प्रति) विकुर्वते । वि कृ यहाँ आत्मनेपद में ही साधु होगा । यहाँ वह अकर्मक है । ६—छुञ्ज भ्वा० ७—७ कञ्चराणि, मलदूषितानि, मलिनानि । ८—क्लिश्नन्ति । प० । ९—संसरण—नपुं० ।

मलकात् । (सर्वमम्लं पित्तं प्रकोपयति) । ८—ये राजन्या राष्ट्रहितप्रयुक्ताः स्वार्थमननुसन्धाय (प्रयोजनमनुद्दिश्य, अगृह्यमाणकारणाः) संग्रामयन्ते द्विपतश्च परागुदन्ते ते नाम नाकं सचन्ते । ९—अद्यापि कुमारयन्तीमे कुमारा आक्रीडिनः पाठेऽप्यनवहिताः । १०—यज्ञे पञ्चालम्भः श्रेयसामर्थे पापीयानारम्भ इति पश्यामः, अपरेऽत्र विप्रतिपद्यन्ते । ११—यदा नृपतिः प्रजा करादानादिनाऽऽस्यन्तं कदर्थयति (बाधते, उपपीडयति), तदा तास्तस्मिन्नपरज्यन्ते व्युत्तिष्ठन्ते च (प्रकुप्यन्ति) । उद् स्था का अर्थं चेष्टा है अतः आत्मनेपद हुआ । 'वि' का अर्थ 'विरोध' है । १२—ये परस्वेषु गृध्यन्ति ते पतन्ति (पतनसृच्छन्ति) । गुध् (और लुभ्) दोनों अकर्मक हैं । १३—एष वर्षकि-र्वंधयति काष्ठम्, असावारया (= असौ आरया) चृतति, अयमपरस्तृतीय-स्तक्ष्णोति चतस्र च करोति । १४—नहि स आतुरः, आतुरलिङ्गी स भवति । (आतुरतां व्यपदिशति ।) १५—कृतं निर्मक्षिकम् (कृतं निःशलाकम्, कृतो वीकाशः) । सम्प्रति स्वं वृत्तमाचक्षे ।

अभ्यास—७

१—दक्षिण की नदियाँ गरमी में सूख जाती हैं, परन्तु पंजाब की नदियाँ बरस भर चलती^१ हैं । २—उसे न तो विवेक ही है और^२ न ही अपने मन की बात कहने का साहस^३ । वह तो केवल^४ हाँ में हाँ मिलाना जानता है^५ । ३ वह बेचारी भिखारिन शीत के कारण सिर से पाँव तक ठिठुर रही है । इसे ज्वर भी हो रहा है । ४—शेर दहाड़ता^६ है, हाथी चिंघाड़ता^७ है, कुत्ता मौकता^८ है, गधा हींगता^९ है, घोड़ा हिनहिनाता^{१०} है, बिल्ली म्याऊँ^{११} म्याऊँ करती है, मेंढक टरति^{१२} हैं, साँप फुंकारते^{१३} हैं, चिड़ियाँ चूँ चूँ^{१४} करती हैं, गीदड़^{१५} चीखते हैं, गौएँ और भैंसें रौंभती^{१६} हैं, कव्वे काँव काँव^{१७} ।

१ वह् भ्वा० उ०, स्तु भ्वा०, स्यन्द् भ्वा० आ० । २—२ न च क्रमते मनोगतं निर्वकुम् । ३—३ तथास्त्विति (साधु साध्विति) लुक्तमनुबदति । ४ गर्ज् । ५ वृंहू भ्वा० प० । ६ बुक्, भष्—भ्वा० प० । ७ गर्द् भ्वा०, रास् भ्वा० आ० । ८ हेष्, हेष् भ्वा० आ० । ९—षीव् भ्वा० प० । १० रु अदा०; प्र वद् भ्वा० । ११ फूत्कुर्वन्ति । १२ चीम् भ्वा० आ०, १३ फुश् भ्वा० प० । (क्रोशन्ति क्रोष्टारः) । १४ रम्भ् भ्वा० आ० (गौ का) रौंभना । रेम्भ् भ्वा० आ० (भैंस का) रौंभना । १५ कै भ्वा० प०, वाश् दिवा० आ० ।

करते हैं, भेड़िये गु^१रते हैं । ५—क्या आप सर्दियों में भी ऊनी^२ कपड़ा नहीं पह^३नते, और तो कुछ नहीं, जुकाम^४ और निमोनियाँ^५ का डर है । ६—वह^६ पढ़ने से जी चुराता है^६ और समय पर मित्रों के साथ खेलने भी नहीं जाता । ७—दीपक बुझ रहा है क्योंकि इसमें तेल समाप्त हो गया है । ८—ये सफेद घोड़े कितने सुन्दर हैं । दौड़ते भी क्या हैं, उड़ते हैं । ९—बूँदा बाँदी हो रही है, गरमी कम हो गयी है, सैर के लिए सुहावना समय है । १०—धनी लोग गरीबों पर सदा अत्याचार करते आये हैं । इस में कुछ भी आश्चर्य नहीं, दूसरों का देय भाग छीनने^७ से ही तो धन-संग्रह होता है । ११—वह पिछले तीन वर्षों से उसी छोटे से ^८मकान में रह रहा है और सुख अनुभव कर रहा है । १२—मैं दो बजे दोपहर से पाठ याद कर रहा हूँ । अभी तक याद होने में नहीं आया । १३—यह नन्हासा पक्षी अपने बच्चे को चोंगा दे रहा है । यह निष्कारण प्रेम का उदाहरण है । १४—जुआ खेलने वाला अवश्य नष्ट हो जाता है । जुआ बड़ा भारी व्यसन है और व्यसनी की लोकयात्रा सुखमय हो नहीं सकती । १५—आज कल जनता मनुष्य की योग्यता का ^९अनुमान उस के ^{१०}पहरावे से करती है । इसी लिये ^{११}वेप-भूपा में अधिकाधिक रुचि हो रही है^{११} । १६—यदि सब ^{१२}मांहल्ले ^{१२}वालें थोड़ा २ मी इस गरीब को दें तो इसका अच्छा निर्वाह हो सकता है । जल की बूँद बूँद गिरने से घड़ा भर जाता है । १७—हमार देश का जल वायु ऐसा विचित्र है कि वर्षा ऋतु में एक क्षण में ठंडी हवा चलती है और क्षण में कड़ाके की धूप निकलती है^{१३} । १८—व्यायाम से मनुष्य में

१ रश्, २ आर्विकसौत्रिक—वि० । ३ परि धा, वस् अदादि आ० । ४—प्रतिश्याय, पीनस—पुं० । ५ पुष्फुसशोथ—पुं० । ६—अध्ययनाद् ६—व्यपवर्ततेऽस्य चेतः । ७—आ छिद् रुधा०, आ मृश् तुदा० । ८ गृह, गेह, निकेतन, सदन, म्दमन्, वेश्मन्, उदवसित, भवन, शरण, अगार, मन्दिर—नपुं० । निकाय्य, निलय, आलय—पुं० । ९—अनु मि स्वा० उ० अनु मा जुहो० आ० । तर्क् चुरा० । १०—वेप, आकल्प—पुं० । नेपथ्य नपुं० । ११—वेपभूषायां भूय एवाभिवर्धते रुचिः । १२—१२विशिखावास्तव्याः रथ्याश्वाः । यहाँ 'रथ्या पुरुषाः' नहीं कह सकते, कारण कि 'रथ्यापुरुष' साधारण, अन्पात्तर अथवा अनत्तर पुरुष को कहते हैं । १३—१३ज्ञणेनाति-शिशिरो वहति समीरः, ज्ञणेन च रविरति तीक्ष्णं तपति ।

स्फूर्ति और बल आता है। शरीर स्वस्थ रहता है और चित्त एकाग्र। १९—
आपकी बात चीत प्रकृत विषय से कोई संबन्ध नहीं रखती। आप अपना
समय गँवा रहे हैं। २०—जब भूचाल आता है, कहीं पृथ्वी उभर आती है,
कहीं धँस, जाती है, कहीं गहरे गढ़े पड़ जाते हैं और पानी निकल आता है।
२१—आकाश पर बादल छा रहे हैं और बिजली कड़क रही है। २२—तेरा
पड़ोसी^६ गरीब^७ है, तू उसकी^८ सहायता क्यों नहीं करता ?^८

संकेत—३—तपस्विनी सा भिक्षुकी शैत्येनापादचूलं वेपते ज्वरति च ।
७—निर्वाति प्रदीपः, तैलनिपेकोऽस्य परिसमाप्यते (स्नेहोऽस्य परिसमाप्तः) ।
८—कर्का इमे वाजिनोऽतिमनोज्ञाः । शङ्क एते न धावन्त्यपि तूत्पतन्ति । यहाँ
श्वेताः, शुक्लाः आदि नहीं कह सकते। कर्क शब्द ही अश्व के विषय में नियत
है। ९—मन्दमन्दं वारिकणिका वर्षति वारिवाहः । हसितमुष्णम्^९ । ११—
अथ त्रीन् वत्सरांस तदेवालपकं सदनमावसति, सुखं च समश्नुते (अश् स्वा०
आ०) । १२—मध्याह्ने द्विवादनात्प्रभृत्यहं पाठं स्मरामि । नाद्यापि पारथामि
कण्ठे कर्तुम् । (ओष्ठगतं कर्तुम्) । १३—इयं शकुन्तिका शावमुच्चितान्कणा-
नाशयति । । इयमुपमा निष्कारणस्य प्रणयस्य (दिगियमकारणस्य स्नेहस्य) ।
१४—अक्षदेवी (देविता) ध्रुवं नश्यति (अक्षधूर्नियतमुत्सीदति, सत्यं रिष्यते
घृतकारः, अश्वशयं प्रणश्यति दुरोदरः) । १५—युवयोः संभाषा (संवादः,
संलापः) प्रकृतं नानुसरति (प्रकृतं नानुधावति, प्रकृतेन नान्वेति) । २०—
यदा भूः कम्पते तदा क्वचिद् इयमुदञ्चति, क्वचिन्न्यञ्चति (निषीदति), क्व
चिच्च महागर्ताः संजायन्ते जलं च प्रस्रवति । २१—अवस्तीर्यते नभस्तर्जं
वारिदैः, हादते च हादिषी ।

अभ्यास—८

(लङ् लकार)

१—जब मैं घर में प्रविष्ट हुआ तो कोई भी अन्दर न था। इस से मुझे
बहुत अचम्भा हुआ। २—भारत में अशोक नामक एक बड़ा सम्राट् हो चुका

६ प्रतिवेशिन्—वि० । ७ दारिद्रा अदा० प० । ८—८ स कथं नाभ्युपप-
द्यते । १ 'उष्ण' का यहाँ भाव प्रधान प्रयोग किया गया है। जैसे कालिदास ने
शकुन्तला में किया है—अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णम् ।

है जो जीव मात्रपर दया करने के लिए प्रसिद्ध हुआ । ३—दुष्यन्त ने हिरन^१ का बहुत पीछा किया, पर वह इसे पकड़ न सका । ४—वह शिकार खेलने के लिए निकल गया और बंटों जंगल में घूमता रहा । ५—गुरु ने शिष्य को उसकी^२ दिठाई के लिए बहुत भला बुरा कहा^३ । सहपाठियों ने भी उसकी खूब निन्दा की ।^४ ६—मैंने पड्यन्त्रों के बुरे^५ परिणाम से^६ उसे सावधान कर दिया है । ७—मैंने उस से सच^७ कह देने के लिये बहुत अनुनय विनय किया, पर वह न माना और अपनी बात पर डटा रहा । ८—प्रजा राजा में पूर्णतया^८ अश्रुत्क थी ।^९ सर्वत्र विद्या का प्रसार था और शान्ति का साम्राज्य था । ९—गवर्नर महोदय के आने पर सड़कें साफ की गईं, और उनपर पानी छिड़काया गया । आने-जानेवाले लोगों को परे हटा दिया गया । १०—भारत में ब्राह्मणों को वैराग्य (वैराग्येण) और संन्यासपूर्ण जीवन के लिये सर्वदा सम्मान^{१०} मिलता था ।^{११} ११—प्रत्येक द्विज के बालक को उपनयन कर चुकने के बाद सब विद्याएँ सिखाई जाती थीं । १२—मन्त्रियों ने विद्रोहियों को पकड़ने की आज्ञा दी । १३—कैदियों^{१३} ने अपना अपराध^{१४} मान^{१५} लिया । और इसलिये क्षमा कर देने के बाद वे छोड़ दिये गये । १४—उस से कई एक प्रश्न पूछे गये, परन्तु वह एक का भी सन्तोषजनक उत्तर न दे सका । डींगे इतनी मारता था । १५—अनावृष्टि^{१६} के कारण खेती^{१७} सूख गयी और खाद्य पदार्थों का भाव बहुत चढ़ गया । १६—कहते हैं कि विन्ध्याचल को पार करनेवाला पहिला आर्य 'अगस्त्य' था ।

संकेत—१—इह भारते वर्षेऽशोको नाम सम्राडासीत्, यो जीवमात्रस्या-
द्वयतेति लोके व्यश्रूयत । ३—दुष्यन्तः सुष्ठु सारङ्गमन्वसरत्, परं ना-
सादयत् । ४—स मृगयां निरगच्छत् । बह्वीश्र होरा वनमभ्रमत् । ५—गुरुर्नन्तेवासिनं
तस्य धाष्ट्येन निरभर्त्सयत् । ९—आगते भोगपतौ सममृज्यन्त मार्गाः प्रौक्ष्यन्त

१ हरिण, मृग, कुरङ्ग, पण—पुं० । २ घाई, वैयात्य—नपुं० ३—३
तर्ज् भ्वा० प०, तर्ज् भर्त्स—चुरा० आ० । ४—४ दुष्परिणाम पुं० ।
दुष्परिणति—स्त्री० । यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करो । ५—अनु नी
स्वा० । ६—अनु रञ्ज (कर्मकर्तरि) । ७—७ सम् मन् णिच् (कर्मणि) ।
८—आसिद्धाः, बद्धाः, बन्धयः (स्त्री०), बन्धः (स्त्री०) । ९—अपराध, मन्तु-
पुं० । आगस्, व्यलीक—नपुं० । १०—अभि—उप इ अदा०, प्रति पद्
दिया० । ११—अनावृष्टि स्त्री० । अवग्रह, अवग्राह—पुं० । १२शस्य—नपुं० ।

च । यदि किसी धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो, तो पहिले उस धातु का लङ्लकार का प्रयोग बना कर बाद में उस प्रयोग के पूर्व उपसर्ग लगाया जाता है । जैसे—उपर के वाक्य में मृज्' का लङ् (कर्मवाच्य लकार) का प्रथम पुरुष बहुवचन 'अमृज्यन्त' बना, और उसके पूर्व 'सम्' उपसर्ग लगा कर 'सममृज्यन्त' बना । वैसे ही उक्ष' का लङ् (कर्मवाच्य) 'अौक्ष्यन्त' हुआ, और फिर 'प्र' उपसर्ग लगाकर "प्रौक्ष्यन्त" बना । १२—मन्त्रिणो राजद्रोहिणामासेधमादिशन् । १६—अनुश्रूयते आर्येवगस्त्यो नामर्षिरिदमप्रथमतश्चा विन्ध्यगिरि मत्ययात् ।

अभ्यास—६

(लङ्लकार)

१—राम और सुग्रीव में मित्रता^१ बढ़ गयी । क्योंकि दोनों का कार्य एक दूसरे की सहायता से बनता हुआ दीखा । २—रात में अन्धेरा फैला हुआ था, और हम राह भटक गये । ३—देवताओं से समुद्र से मथकर अमृत^२ निकाला गया, और आपस में बांट लिया गया । ४—जिन्होंने ने डींग मारी (जो अपने मुँह मियां मिट्टू बने) वे मर्कट हो गये । ५—सूर्य जब पश्चिम में अस्त हो रहा था, तो वह जल्दी २ अपने घर की ओर चला । ६—दिन छिपे (घर) आए हुए यात्री का जंगल निवासियों ने पूरा सत्कार किया । ७—हनुमान् और दूसरे वानरों ने सीता की खोज में सारा वन छान मारा पर सीता का कुछ पता न चला । ८—मेरी अंगुली में सुई चुभ गई । जिस से अभी तक दर्द हो रही है । ९—मैं संसार में देर तक धूमा इसी लिये मैं इस बिचित्र सृष्टि के सौन्दर्य को जान सका हूँ । ११—नगर शत्रुओं से घेरा^३ गया और इसका सर्वस्व लूटा गया^४ । १२—एकाएक बारिश आ गई^५ और सब गड़बड़^६ मच गई । १३—पृथ्वी ने जँभाई ली, और हजारों लोग आन की आन में इसके बीच समा गये । १४—उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी

१—मैत्री स्त्री०, मैत्र्य, मैत्रक, सख्य—नपुं० । २—अमृत, पीयूष—नपुं० । सुधा—स्त्री० । ३—रुध् । ४—मुष् क्र्त्वा० । ५—प्र वृष् श्वा० । ६—संकुल—नपुं० । ६—न्यायाध्यक्ष, आधिकारणिक, प्राड्विवाक—पुं० । 'न्यायाधीश' इस अर्थमें संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता ।

मैं देर तक आँख मूँदे बिस्तर में लेटा रहा । और वही चिन्ता देनेवाली पुरानी घटना याद आती रही । १५—न्यायाधीशने दस अपराधियों को प्राण दण्ड दिया और बाकियों को आजीवन कारावास । १६—क्या तुम्हारे गाँव के लोगों ने पंचायत के चुनाव में विशेष दिलचस्पी नहीं ली ? १७—तब शङ्ख और डोल इस जोर से बजाये गये कि दूर ठहरे हुए हम लोगों के कानों में आवाज साफ सुनाई दी ।

संकेत—१—अमूर्च्छित्सख्यं रामसुग्रीवयोः । २—अमूर्च्छंनिशि तमः पथ-
श्चाभ्रंशामहि (अभ्रश्याम) । ३—देवैः सुधां क्षीरनिधिरमथ्यत सा च सुधा
मिथो व्यमज्यत । ४—ये आःमना व्यकथन्त, तेऽध्वंसन्त । यहाँ 'आत्मानम्'
का प्रयोग अशुद्ध है । ५—पश्चिमाशामवलम्बमाने दिवाकरे स गृहसुपगन्तुं
त्वरिततरं प्राक्रामत् । ६—सूर्योदस्य यात्रिण आरण्यका निकामस् आतिथ्यमन्व-
तिष्ठन् । ७—ते निखिलामटवीं मैथिलीं व्यचिन्वन् । ९—सूच्या ममाङ्गुलिर-
विध्यत (सूचिर्ममाङ्गुलिमतुदत्) येनाद्यापि सरुजोऽस्मि । ९—सुचिरं व्यचरं
भुवम्, तेन विजानामि विचित्रस्यास्य सर्गस्य सौन्दर्यम् । १४—तदा मां
निद्रा नागच्छत्, चिरमहं नेत्रे निमील्य शयनीये न्यपद्ये रणरणकदायिनं तमेव
पूर्वव्यतिकरं च स्मरम् । १३—पृथ्वी व्यजृम्भत, सहस्रशो जनाश्च निमेष-
मात्रेण तस्यां व्यलीयन्त । १६—किं युष्मद्ग्रामवासिनोऽस्मिन् विषये विशिष्ट-
मादरं नाकुर्वन् । १५—अक्षदर्शको दशाऽपराद्धान्वधदण्डमादिशन्, शिष्टांश्चा-
मृत्योः कारावासम् । १७—ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च तथा तरसाभ्यहन्यन्त यथा
सुदूरेपि स्थितानां नः श्रोत्रयोरमूर्च्छच्छब्दः ।

अभ्यास — १०

(लङ् लकार)

१—जब माता दृष्टि से ओझल हुई, तो बच्चा बिलख २ कर रोने लगा ।
२—जब मैं स्कूल पहुँचा तो अध्यापक महोदय उपस्थिति ले रहे थे । ३—
जब आप का नौकर मुझे बुलाने आया तो मेरे सिर में अत्यधिक पीड़ा हो रही
थी इसलिये मैं आपकी सेवा में नहीं आ सका । ५—जब हम रेलगाड़ी से
उतरे तो हमारा नौकर मेज पर कलेवा रख रहा था । ६—वह अपने मित्र से
उसके पिता की मृत्यु के बाद नहीं मिला इस लिये उसे क्या मालूम कि उस

पर क्या २ आपत्तियाँ आईं । ७—कछुआ धीरे २ चल कर खरगोश^१ से पहले नियत स्थान पर जा पहुँचा । ८—क्या तुम्हारे पहुँचने से पहले इन्स्पेक्टर महोदय आठवीं कक्षा का निरीक्षण कर चुके थे ? ९—जब आप पन्द्रह^२ वर्ष के^३ थे तो क्या आपने नवम श्रेणी पास कर ली थी ? १०—आग बुझाने वाले इंजन के आने से पहले उसका मकान जलकर राख हो गया था । ११—पन्द्रह दिन से डाक्टर मेरी बहिन की चिकित्सा कर रहा था । तब हमने उसे बदल दिया । १२—इस स्कूल में प्रविष्ट होने से पहले देवदत्त तीन वर्ष तक गवर्नमेण्ट स्कूल में पढ़ता रहा था । १३—पुलीस के घटना स्थल पर पहुँचने से पूर्व बलवा करने वाले आध घण्टे से दूकानों को आग लगा रहे थे । १४—सूर्य के निकलने से पूर्व वह दस मील चल चुका था । १६—जब राज कुमार संसार का चक्कर लगा कर घर पहुँचा तो उसके पिता का राज्याभिषेक हो चुका था ।

संकेत—१—नयनविषयमति क्रान्तायां मातरि शिशुः प्रमुक्तकण्ठं प्रारो-
दीत् । २—यदाऽहं पाठालयमाग्नवं तदागुरुचरणा नामावलेराह्वाने व्यापृता
अभवन् । ३—यावदत्रभवतः परिचारको मामाह्वातुमुपानमद् तावत् तीव्रया
शीर्षवेदनया पीडित आसम् अतएयात्रभवत उपस्थातुं नापारयम् । भूतकाल
की जब दो क्रियाएँ दो भिन्न वाक्यों द्वारा कही जायें, तो उनमें से पहले होने
वाली क्रिया को कृत् प्रयोग (क्तान्त अथवा क्तवत्त्वन्त) से प्रकट करना
चाहिए । और साथ में अस् वा भू का लङ् लकार का अनुप्रयोग होना चाहिये ।
दूसरी पीछे होने वाली क्रिया को शुद्ध लङ् लकार से ही कह देना चाहिये ।
५—अस्मासु रेलयानाद्वतीर्णेष्वस्मन्नियोज्यः कस्यवर्त परिवेविषाण आसीत्
(कल्यजग्धिसु, प्रातराशं) । ६—अपि त्वदागमनात् पूर्वं निरीक्षक महाभागो-
ऽष्टमीं श्रेणीं परीक्षितवानासीत् । ऐसे स्थलों में सम्पूर्ण भूत की क्रियाओं को
प्रकट करने के लिये धातु से क्त-क्तवतु का प्रयोग करना चाहिये । और साथ में
अस् वा भू के लङ् लकार का अनुप्रयोग । १०—अग्न्युपशमनयन्त्रस्यागम-
नात् पूर्वं सन्दीप्तमस्य गृहं भस्मचयोऽभवत् । ११—यदा भिषङ्मे सोदर्यां
पञ्चदशार्हांश्चिकित्सितवानासीत्, तदा तम्पर्यवर्तयाम १२—अत्र विद्यालये
प्रवेशात् प्राग् देवदत्तो वर्षत्रयं राजकीयविद्यालयेऽपठत् । १३—रक्षापुरुषाणां

१ कूर्म, कच्छप—पुं० । २ शश—पुं० ।

२ पञ्चदशवर्षः, पञ्चदशसंवत्सरीयः, पञ्चदशसांवत्सरिकः ।

व्यतिकरप्रदेशप्रापय्यात् पूर्वं तुमुलकारिणोऽर्धहोरामापशेष्वग्निमददुः (सम्-
दीपयन्) ।

अभ्यास—११

१ शिव के धनुष^२ को (लङ् लकार) झुका कर राम ने जनक की पुत्री सीता से विवाह^३ किया उसी समय भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का माण्डवी, ऊर्मिला और श्रुतकीर्ति से विधिपूर्वक विवाह हुआ । २ बिदेश को जाता हुआ वह अपने मित्रों से ४ श्रच्छी तरह गले लगकर मिला ४ । ३—न्यायाधीश ने मुकद्दम पर खूब विचार करके अभियुक्त पुरुषों को छः (६) वर्ष की कैद का दण्ड दिया । ४—देवताओं और राक्षसों में परस्पर स्पर्धा थी, और वे प्राय एक दूसरे से लड़ा करते थे । ५—पुराने क्षत्रिय १० पीड़ितों की रक्षा के लिये ६ सशस्त्र सदा तैयार रहते थे^६ । पर निर्दोष पर हाथ नहीं उठाते थे । ६—कुमार को इन्द्र की सेना का नायक नियुक्त किया गया । ७—उन्होंने यश का लोभ किया पर वे इसे प्राप्त न कर सके । ८—उन्होंने दूसरों की सम्पत्ति को लोभ की दृष्टि से देखा और वे ९ पाप के भागी बने^८ । ९—उन्होंने कितनी ही चीजें मोल लीं, और उन्हें अधिक मोल पर बेच दिया और १० रुपये लाभ उठाया । १०—उन्होंने घोड़े को कीले से बाँध दिया और वे विश्राम करने चले गये । पीछे घोड़ा रस्से को तोड़कर दौड़ गया । ११ साधुओं की संगति से उन के सब पाप धोये गये । १२—भीरे २ हम बूढ़े हो गये, और हमारी शक्तियाँ क्षीण हो गईं । १३—हिन्दुओं ने शूद्रों^९ का चिर तक तिरस्कार^{१०} किया^{११} जिस का परिणाम यह हुआ कि बहुत से शूद्र ख्रिस्तमतवाल्मवी हो गये । १४—उन्होंने मुझे वह स्थान छोड़ने को विवश किया । १६—उसने मुझे वैद्यक पढ़ने के लिये प्रेरित किया

१ शिव, शङ्कर, पिनाकिन्, कपर्दिन्, धूर्जटि, त्रिपुरहर, त्रिपुरारि—पुं० ।

२ धनुष्, चाप, कोदण्ड, कार्मुक, शराशन—नपुं० । चाप पुं० भी है ।
इच्छास पुं । ३ उद् वह्, परि नी, उष यम्, हस्ते कृ । ४—४ पीडितं पर्यध्वजत
पश्येभत, आशिलष्यत्, उपागृहत्) मित्राणि । ५ आर्त - वि० । ६—६
शश्वदुदायुषा आसन् । ७—७ परकीयां सम्पदमभ्यधायन् । ८—८ अपतन्,
पापे भागिनोऽभवन् । ९ एक जाति, वृषल—पुं० । १० अत्र शा, ६ प०, अत्र
क्षिप् ६ उ०, अवधोर १० उ० ।

में उसका कृतज्ञ हूँ । १७—हमने ऋषि से 'नम्र निवेदन किया' कि आप हमें धर्म का व्याख्यान करें । १८—उन्होंने बीरता दिखाई और शत्रु को हरा दिया । १९—यदि तुम आसानी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते थे, तो तुमने शिक्षक क्यों रक्खा । २०—यदि वह सारा का सारा रूपया दे सकता था, तो उसने ^३दिवाला क्यों दे दिया^३ ।

संकेत—शाङ्करं धनुरानम्य रामो जनकात्मजां सीतां पर्यख्यत् (उद्वहत्, उपायच्छत्) । २ बिदेशं प्रस्थितोऽसौ निर्भरं सुहृदः कण्ठआश्लिष्यत् । यहाँ 'सुहृदः' द्वितीया बहु० है । 'कण्ठे' सप्तमी एक० । ३—आधिकरणिकोऽभियुक्तानां षड्वदान् कारावासमादिशत् । ७—यशसि तेऽलुभ्यन्, परं तन्नाप्नुवन् । लुभ् ४ प० गुध् ४ प०, अकर्मक है अतः 'ते यशोऽलुभ्यन्' (अगृध्यन्) अशुद्ध प्रयोग हैं । ४—देवा असुराश्चास्पर्धन्त (देवानसुरा अस्पर्धन्त, देवैरसुरा अस्पर्धन्त) । स्पर्ध् धातु सकर्मक और अकर्मक भी है । दोनों प्रकार के शिष्ट प्रयोग देखे जाते हैं । १०—ते कीलकंऽश्वं (शिवकं तुरङ्गमं बद्ध्वा विभ्रमितुमयुः । यहाँ कीलकेन प्रयोग व्यवहार विरुद्ध है । अयुः = अयान् । वैकल्पिक रूप है । ११—सर्वे तेषां पाप्मानोऽप्यन्त सद्भिः सङ्गेन । १२—क्रमेणाजीर्याम करणवैकल्यं चाथाम् । १४—गृहं गच्छंस्तेनाहं मार्गोऽमिलम् । यह स्मरण रखना चाहिये कि मिल् अकर्मक है, अतः 'तमहममिलम्' अशुद्ध है । इस १४ वें वाक्य का इस प्रकार भी अनुवाद किया जा सकता है—गच्छन्नाहं पथि तेन समापद्ये, अथवा गृहं गच्छता मया स पथि समापत्या दृष्टः । १५—ते मां बलादिमं प्रदेशमत्याजयन् । प्यन्त त्याजि और ग्राहि धातुओं की द्विकर्मकता भी शिष्ट—संमत है । 'प्रदेशं त्यक्तुमवाभन्त माम्' यह संस्कारहीन होने के कारण त्याज्य है । १६ स वैषकाध्यायनाय मां प्राचोदयत् । यहाँ 'वैषकमध्येतुम्' अशुद्ध होगा । १८—ते पराक्रमन्त^४ द्विषतश्च पराजयन्त । १९—यदि त्वया परीक्षा सुप्रतरा (सहैलं शक्योत्तरीतुम्) तदा किमर्थं शिक्षकमयुङ्क्थाः । २०—निर्धनत्वं कथमुदघोषयत् (अकिंचनत्वं किमिति व्यानक्) ।

१—१ वि शप् । २ अनु शास्, वि + आ ख्या, वि + आ कृ ।
३—३ ऋणशोधनात्तमतां किमिति राजद्वारे न्यवेदयत् । ४ यहाँ 'उपपराभ्याम्' से उल्पाह अर्थ में आत्मनेपद हुआ है ।

अभ्यास—१२

(लङ् लकार)

१—यदि इस किले के सिपाही दो महीने और ँडटे रह सकते थे^१, तो उन्हें भोजन सामग्री क्यों न भे^२जी गई। २—प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में दूर २ के देशों के नवयुवक विद्या प्राप्त करने आते थे। और अनेक विद्याओं, कलाओं और शिल्पों में सुशिक्षित किये जाते थे। ३—उसे तो इतना भी ज्ञान न था कि दो और दो चार होते हैं इसलिये सर्वत्र धोखा खाता था और अनादर^३पाता था। ४—जब उसे पता लगा कि उसने मुकद्दमा जीत लिया है, तब उसने अपने मित्रों^४ में^५ मिठाई बाँटी। ५ जब अभियुक्त ने देखा कि उसके सम्बन्धियों ने मुकद्दमा चलाने के लिये वकील कर लिया है तो उसने दोषी होना अस्वीकार कर दिया। ६—जब हमने सुना कि हमारी उसने झूठी शिकायत की है तो हमने उससे बदला लेने की ठान ली। ७—जब साहूकार ने देखा कि उधार लेने वाला टालमटोल कर रहा है तो उसने दावा कर दिया। ८—क्या नाविक ने इन मनुष्यों को इस मगर-मच्छ वाली नदी को तैर कर पार करने से नहीं रोका था। ९—अध्यापक ने पूछा—गंगा यमुना में मिलती हैं, या यमुना गंगा में। एक चतुर विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि चूँकि मिलने के पश्चात् गङ्गा नाम शेष रहता है अतः यमुना गङ्गा में मिलती है। १०—उसने मुझसे अगले सोमवार तक रुपया लौटा देनेका^६ प्रण किया था पर पूरा नहीं किया। ११—इस दूकानदार ने मेरे तीन पैसे मार लिये और आगे के लिये उस पर मेरा विश्वास उठ गया।

संकेत—१—अस्य दुर्गस्य योद्धारश्चेन्मासद्वयमभिमुखं स्थातुं समर्था आसन्, तदाभोज्यपदार्थास्तेभ्यः कथं न प्राहीयन्त। ३ स नेदमपि व्यजानाद् द्वे च द्वे च पिण्डिते चत्वारि भवन्तीति। अतः सर्वत्रावाज्ञायता ५—यदामियुक्तः प्रैक्षत, यन्मे सगन्धैर्व्यवहारे मत्पक्षमभिभाषितुमभिभाषको, नियुक्तस्तदा स स्वस्यापराद्धताम् (आगस्विताम्, दोषवत्ताम्) अपालपत्

१—१ प्रत्यवस्थातुमपारयन्। २—७ हि, प्रस्थाप्यन्त, प्र हष् प्यन्त। ३—व्यवहार पुं०। ४—४ मित्रेभ्यः, वयस्येभ्यः (चतुर्थी)। ५—प्रतिज्ञा स्त्री०। प्रतिश्रव—संगर पुं०। प्रति शा, प्रति श्रु, आ श्रु। संस्कृत में 'प्रण' शब्द नहीं।

अपाजानीत, अपाह्नुत) । ६—यदा वयमश्रुणुम (वयमश्रुणुम) तेनास्मानुद्दिश्यान्यथैव सविलाषं विज्ञापिताः (अधिकृताः) तदाऽस्य प्रत्यपकर्तव्यमिति नो धीरजायत । ७—यदा वार्धुषिको व्यजानात् (साधुः प्रत्यैत्) यदधमर्षो वाचो भङ्गयोद्धारशोधनं (ऋणविगणनम्) परिहरतीति तदा स तं राजकुले न्यवेदयत् । ८—किं कैवर्त (नाविक) एतान् मानवान् तरणेन सनक्राया निम्नगायाः पारगमनाञ्च न्यवारयत् । नदीं तीर्त्वा समुत्तरितुं न न्यवारयत् । यह वाक्य दुष्ट है । 'नदीं' यहाँ द्वितीया के प्रयोग से 'तीर्त्वा' का अर्थ पार जाना ही लिया जायेगा । दूसरे यहाँ 'तुमुन्' का प्रयोग भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 'न्यवारयत्' का कर्ता भिन्न है । १०—स आगामिनं सोमवासरं यावत् धनं प्रत्यावर्तयितुं मे प्रत्यश्रुणोञ्च च प्रतिश्रवमरक्षत् । ११—एष आपणिको मां पणत्रयादवञ्चयत ।

अभ्यास--१३

(लङ्लकार)

१—मेले में इतनी भीड़ थी, कि दम घुटा जाता था । कई एक बच्चे और वृद्धे कुचले गये और बीसियों स्त्रियाँ बेहोश हो गईं । २—मैं उसकी बात को सुनकर हँसे बिना न रह सका । ३—उसके दाहिने गिट्टे में मोच आ गई । ४—मेरी बाँह उतर गई है, और मुझे असह्य वेदना हो रही है । ५—उसके सम्बन्धियों ने उसपर कलंक का टीका लगाने में कुछ उठा न रक्खा^२ । पर, उसने अपने^३ कुल की लाज बचा ली^३ । ६—हत्यारं ने बच्चे का गला घोट कर उसे मार डाला । और उसके भूषण उतारकर चम्पत हो गया । ७—पहलवानों ने लँगोट कस लिये और अखाड़े में उतर पड़े और चिर तक कुश्ती लड़ते रहे । ८—अन्त में अँग्रेजों की भेद-नीति का जादू चल गया और देश के कोने कोने से मुसलमानों ने विभाजन की माँग की जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करना पड़ा । १०—बालक बैलगाड़ी के नीचे आकर मर गया जिसपर पुलिस ने गाड़ीवान को पकड़ लिया । ११—उस राजा ने पासवाले देश पर कई आक्रमण किये, पर वह हरबार पराजित हुआ । १२—जिस सन्दूक का ढक्कन टूट गया था,

उसकी सब चीजों चूड़ों ने कुतर डालीं । १३—वह इस प्रकार ज़ोर से रोने लगा, मानो उसे बहुत अधिक दर्द हो । १४—प्रताप ने लड़ते २ मर जाना ठीक समझा पर, अकबर की आधीनता स्वीकार न की । १५—तुम्हें इस दूकान से लेन देन बन्द किये कितना समय हुआ ।

संकेत—१—मेलक (महोत्सवे) एतावाञ्जनसंबाधोऽभवद्यच्छ्वमितुमपि नालभ्यत । २—तद्वचो निशम्य हासं नियन्तुं नापारयन् । ३—दक्षिणस्तस्य गुल्फोऽभिहतसन्धिरभवत् । ४—मम भुजा^१ विसंहिता, असह्याञ्च वेदनामन्वभवम् । संस्कृत में भुज और बाहु दोनों पुँल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग हैं । ६—जाल्मः शिशोःकण्ठं निपीड्य इवासञ्च निरुध्य तं व्यापादयत् । ७—बद्धपरिकरा मल्ला अक्षवाटमवातरन् चिरं च नियुद्धमयुध्यन्त । यहाँ 'नियुद्ध' युद्ध-विशेष है, युद्ध सामान्य नहीं । अतः समानधातु से बने हुए क्रियापद के होने पर इस 'कर्म' का प्रयोग निर्दोष है । १०—कम्बलिवाहकेनाक्रान्तोऽर्भक उपारमत् (समानिष्ठत, व्यपद्यत) । ११—स भूपतिरुपान्तवर्तिनं नीवृतमसकृद्वास्कन्दत्, परं प्रतिवारं पराभवत् । १२—यस्य समुद्गकस्य (मञ्जूषायाः) पिधानमभ्ययत, तस्य सर्वानर्थानाखवो न्यकृन्तन् । १३—स तथोच्चैः प्रारोदत्, यथासौ महत्या पीड्या ग्रस्त इवासीत् । १४—प्रतापोऽकबरंण सममायोधनेनात्मनो निधनं वरमपश्यत्, न पुनस्तदायत्तताम् । १५—अथ कियान् कालोऽनेनापण्येन संव्यवहारं त्यक्तवतस्ते (इतः कियति काले त्वमनेनापण्येन संव्यवहारमत्यजः) ।

अभ्यास—१४

(लङ्कार)

१—नौकर को सारी रात जागना पड़ा कारण कि नगर में अफवाह फैल गई थी कि बाहर से चोर आये हुए हैं । २—इस निर्धन मनुष्य को अपनी सम्पत्ति वापिस लेने के लिये^२ बहुत^३ संकटों का सामना करना पड़ा^३ । वर्षों के पीछे उसका यत्न सफल हुआ । ३—नटखट बालकने मधुमक्खियों के छत्ते को

१—भुज और बाहु दोनों ही पुँल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग हैं । स्त्रीत्वविवक्षा में टाप् होने पर 'भुजा' रूप होगा । २—२ प्रयापत्तुम्, प्रतिलब्धुम् । ३—बहूनि कृच्छ्राण्यन्वभवत् । अवशम्, अनिच्छया आदि शब्दों की ऐसे स्थलों में आवश्यकता नहीं । व्यवहार इस का समर्थन भी नहीं करता ।

हाथ लगाया ही था, कि मक्खियों ने उसे डंग मार मार कर व्याकुल कर दिया । ४—वर्षा का होना था कि—चारों ओर मेंढक टरने लगे । ५—वह घोड़ा जिसे साईस सिधा रहा था, उसके हाथ से छूट गया और भाग निकला । ६—कल अधिक ठण्ड के कारण मुझे बहुत अधिक^१ जुकाम हो गया^२ । और थोड़ा सा श्वर भी । सारा दिन सिर चकराता रहा । ७—कुत्ते एक हड्डी पर लड़ पड़े, और उन्होंने एक दूसरे का खूब घायल किया । ८—जब मैंने देखा कि ठेकेदार अपनी प्रतिज्ञा से फिर रहा है तो मैंने उसे बहुत फटकारा । ९—रायसाहिब लाला लक्ष्मणदास ने अपनी स्थिर व अस्थिर सम्पत्ति को एक ट्रस्ट के आधीन कर दिया और अपने उच्छृङ्खल लड़कों को जायदाद में कुछ भी भाग नहीं दिया । १०—जब दीपक का तेल समाप्त हो गया तो वह बुझ गया । ११—जब चोर ने देखा कि घर का स्वामी जाग उठा है तो वह दुम दबा कर भाग गया । १२—मूसलाधार वर्षा होने के कारण मैं घर से शीघ्र नहीं चल सका और कालेज में आध घण्टा लेट पहुँचा । १३—इस वृद्ध मनुष्य के जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आ चुके हैं इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं । १४—कल मैं सौभाग्यवश बाल-बाल बचा । मेरे दायें पाँव के पास से साँप सरकता हुआ निकल गया । १५—डाकुओं को फौजी का आज्ञा हुई । १६—रूपड़ा सस्ता हो गया है, पर सोने का भाव खूब बढ़ रहा है । १७—ज्योंही परदार^३ उठा^३, उपस्थित लोगों ने हर्ष से तालियाँ^४ बजाईं^५ और सारा हाल गुँज उठा ।

संकेत—नियोज्यः "सर्वरात्रमवशमजागः" नगरे ह्यप्रथत प्रवादो बाह्यतश्चाराः समागता इति । ३—चपलो बालः क्षाद्रपटलं यावदेवास्मृशात् तावदेव स मधुमक्षिकाभिर्दर्शैर्व्याकुलीकृतः । ४—वृष्टमात्रे देवेऽमितः प्रारटन् भेकाः । (विरवितुमारभन्त मण्डूकाः) । ५—यमश्चमश्चपालो व्यनयत्स बल्गाभ्यो निरमुच्यत दिशश्चामभजत । ७—श्वानोऽस्थिशकलेऽकलहायन्त, अनयोऽन्यञ्च गर्हितमक्षण्वन् (अक्षिण्वन्) । ८—यदाहमजानां कृतसविज्ञो वितथप्रतिज्ञोऽभ्रवदिति, तदाहं तं बलवदुपालभे । ९—राजमान्यः श्रीलक्ष्मणदासो निजां स्थिरामस्थिराञ्च सम्पदं (स्थास्तु चरिण्णु चार्थजातम्, स्थावरं जङ्गमं च वस्तुनिवहम्)

१ अतितरां प्रतिशानोऽभ्रम् । २—तिरस्करणा, ज्वानका, (यत्रानका) प्रतिसीरा—झी० । ३—संहृता । ४—४ तलानददुः । ५—५ कृत्स्ना निशां जागरामकरोत् (प्रजागरमसेवत) ।

न्याससमितौ समार्पयत् सुतांश्चोदवृत्तान्दायाधे निरभजत् । १०—^१स्नेहक्षये^२
निरवाहीपः । ११—यदैकागारिको गृहपतिं जागरितमपश्यत्तदा भीतवत् सहसा-
पाक्रामत् (तदा भीतवत् तेनापवाहित आत्मा) । १२—धारासारैरवर्षद् देव
इति नाहमाशीयो गोहात् प्रयातुमुदसहे । १३—एष स्थविरो बहुशः समृद्धि-
वृद्धिं चाश्नुत (अयं जरटो वाराननेकान् पतनसमुच्छ्रायौ समवेत् । १४—ह्योऽहं
दैवानुग्रहेण कथं कथमपि जीवितसंशयादमुच्ये पादोदरो मत्पादान्तिकादत्य-
सर्पत् । १५—लुण्टाका उद्बध्य मार्यन्तामित्यादिशश्रुचिकृताः ।

अभ्यास--१५

(लङ्-लकार)

१—कुमारी मोहिनी का गीत समाप्त ही हुआ था कि उपस्थित लोगों ने
कहा—‘एक वार और’ एक वार और । २—आधी^२ रात^२ को सम्बन्धियों से
बातें करते करते रोगी ने दम^३ तोड़ दिया^३ । ३—वह परीक्षा के दिनों दस^४
बारह घण्टे^४ काम किया करता था तो भी नहीं थकता था । ४—जब मैं
पाठशाला गया, तो छुट्टी^५ का घण्टा^५ बज रहा था । लड़के कमरों से भागे २
बाहिर आ रहे थे । कोई चीखता^६ था, कोई सीटी^६ बजाता था^६, और कोई
खुशी^६ के मारे फूला नहीं समाता था^६ । ५—हिरन छलाँग^७ मारता हुआ^७
मैदान के पार निकल गया^७ । ६—वह लड़खड़ाता हुआ चट्टान से नीचे
झोंधे मुंह गिर पड़ा और उसका अंग २ टूट गया । ७—यह वह कहानी है
जो दस^८ वर्ष पहले मैंने सुनी थी^८ । ८—पक्षी आकाश में इतना ऊँचा
उड़ गया कि देखते ही देखते आँखों से श्रोक्ल हो गया । ९—राजपूत
ऐसी वीरता से लड़े कि उन्होंने शत्रु^९ के छक्के छुड़ा दिये^९ ।
१०—सन्तरोँ को देखते ही उस के मुँह में पानी भर आया । ११—वर्तमान
विश्वन्यायी युद्ध आरम्भ ही हुआ था कि दूकानदारों ने प्रत्येक वस्तु की कीमत

१—१ यदा तैलनिषेकोऽवास्यत्तदा... । २—२ निशीथ, अर्धरात्र—
पुं० । ३—३ प्राणानमुञ्चत् । ४—४ दशद्वादशा होराः (द्वितीया) । ५—५
अनध्यायघण्टा । ६—६ चीत्कारशब्द मकरोत् । ७—७ शीशूशब्दमकुञ्चत् । ८—
प्रमदेन परवानासीत् । ९—९ लवमानः । १०—१० निकर्षणमस्यक्रामत् ।
११—११ यामितो वर्षदशकेऽश्रुणवम् । १२—१२ अरीन्हतोत्साहान् व्यदधुः ।

दुगनी क्या चौगुनी से भी अधिक कर दी । १२—वह बहती नदी में बूढ़ पड़ा और डूबते बच्चे को बाहिर निकाल लाया । १३—पिता अपने इकलौते पुत्र की हत्या का समाचार सुन कर हक्का बक्का रह गया और लम्बी चिन्ता में पड़ गया । १४—उसने चित्र उलटा लटका दिया ३ ।

संकेत—१ कुमार्या मोहिन्या गीतेरवसाने संनिहिता जना भूयोपीति साम्रेडमाचक्षत । ५—उत्प्लवमानो मृगः क्षेत्रस्य पारं निरगच्छत् (निर्ययौ) । ६—प्रखलन्नसौ प्राव्योऽवमूर्धाऽधोऽपतत् (अभ्रश्यत्) अङ्गभङ्गं चाध्यगच्छत् ८—विहङ्गमो विहायस्येवमुच्चैरुडयत यत्प्रत्यक्षमीक्ष्यमाणोऽपि परोक्षोऽभवत् । १०—नारङ्गाणि इष्ट्वैव स तेषु भृशमलुभ्यत् (तस्य दन्तोदकसंप्लवोभूत्) ।

अभ्यास—१६

(लृट् लकार)

१—मैं जाता हूँ और बच्चे को खोजता हूँ । २ यदि गुरु जी अब आज्ञाओं तो (हम आशा करते हैं कि) हम ध्यान लगा कर पढ़ेंगे । ३—मुझे विश्वास है वह तुम्हारी पूरी सहायता करेगा । ४ उसके घर पुत्र जन्मेगा जो (पुत्र) अग्निष्टोम यज्ञ करेगा । ५—आगामी पूर्णिमा को एक बड़ा त्यौहार मनाया जायगा । ६—मैं 'इस वर्ष' गर्मा' की छुट्टियाँ 'कश्मीर में ही काटूँगा । ७—जैसा करोगे, वैसा भरोगे (जैसे बोझों, वैसा ही काटोगे) । ८—यदि वे उलटी राह पर जायेंगे तो अवश्य हानि उठायेंगे । ९ यदि तुम कृष्ण महाराज को प्रणाम करोगे तो स्वर्ग को जाओगे । १०—मुझे भय है तुम्हारे घाव देर से भरेंगे बरसात भी निकट है । ऐसे घाव बरसात में खराब हो जाया करते हैं । ११—

१-१ वहन्त्यां वाहिन्याम्, स्रवन्त्यां स्रवन्त्याम् । २—२ एककस्यात्मजस्व पातं निशम्य । हतो ममैकस्तनूज इति वृत्तमुपलभ्य । 'इत्या का समास' के उत्तर पद के रूप में ही प्रयाग हो सकता है । स्वतन्त्र रूप से नहीं । 'जनहत्या' कह सकते हैं, पर जनानां हत्या नहीं । 'समाचार' वृत्तान्त अर्थ । संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता । ३—३ विस्मयेन विधेयीकृतश्चिन्तासन्तानैकतानोऽभवत् । ३—३ प्रतिलोमं (विपरीतम्) अवालम्बन । ४—४ देशमः—अव्यय । ५—५ नैदाघमनध्यायम् (द्वितीया) । ६ कार्मरेषु ।

यह 'गरम अफवाह' है कि सम्राट इस वर्ष शरद में भारत पधारेंगे ।
 १२—पञ्जाब व्यवस्थापक-सभा की बैठक इस सप्ताह होगी, और उस में कुछ
 आवश्यक विषयों पर वाद विवाद होगा । १३—वह शीघ्र ही शिक्षा में अपने
 बड़े भाई से आगे निकल जायगा^२ । १४—यदि बुधवार को छुट्टी हुई, तो
 हम सब सिनेमा (चल-चित्र) देखने जायेंगे । १५—क्या आप पञ्जाब व्यव-
 स्थापक सभा के सदस्य-निर्धारित होने के लिये हमारे इलाके से खड़े होंगे ।
 १६—यह धोबी सप्ताह में एक बार कपड़े ले जाया करेगा और धोकर चार
 दिन में लौटा दिया करेगा । १७—चपरासी 'मेरी डाक' मेरे मकान पर
 प्रतिदिन सायंकाल 'पहुंचता रहेगा' । १८—सहायक सेना पहुंचने से पहले
 शत्रु ने किले पर 'अधिकार प्राप्त कर लिया होगा' ।

संकेत—लट् लकार सामान्यतः भविष्यत् मात्र की क्रियाओं को सूचित
 करता है । विशेषतः उन क्रियाओं को जिन का 'आज' से सम्बन्ध हो ।

१—उदाहरणार्थ—में जाता हूँ और बच्चे को खोजता हूँ 'यास्यामि विचेष्यामि
 च जातकम्' में आज की घटना का निर्देश है । यहाँ भविष्यत् का निकटवर्ती
 वर्तमान काल है । यहाँ लट् का प्रयोग भी साधु होगा । २—उपाध्यायश्चेदि-
 दानीमागमिष्यति एते युक्ता अध्येष्यामहे । यहाँ 'आशा' (आशंसा) शब्द
 के द्वारा न कही जानने से गम्यमान है, परन्तु यदि "आशंसा है" का प्रयोग
 किया जाय तो लट् की जगह विधि लिङ् का ही प्रयोग करना होगा ।
 ३—तस्य पुत्रो जनिष्यते योऽग्निष्टोमेन यक्ष्यते † । ४—आगामिनी पूर्णिमा
 महतोत्सवेनाभिनन्दिष्यते । ५—यदि तेऽसन्मार्गमभिनिवेक्ष्यन्तेऽबश्यं प्रलेप्यन्ते ।
 दिव्या० । १०—आशङ्के क्षतानि ते चिरेण संरोक्ष्यन्ति । अदूरे च वर्षाः । वर्षासु
 चैवं जातीयकानि व्रणानि विक्रियन्ते । रुह् भ्वा० प० । १५—अप्यस्मत्प्र-
 देशात् प्रतिनिधिः सन् व्यवस्थापिकायाः पञ्चापपरिषदः सदस्य इति निर्वाचि-
 तमात्मानमेषिष्यसि ?

१—१ बहुलः प्रवादः, विस्तुरा किंवदन्ती । २—२ अग्रजमतिक्रमि-
 ष्यति (अतिशयिष्यते । ३—३ मन्नाम्ना प्राप्तं लेखम् (द्वितीया) । ४—४
 हारयिष्यति । ५ वशे करिष्यति, हस्ते करिष्यति, अधिकरिष्यति । † यह लुट्
 का भी विषय है ।

अभ्यास—१७

(लृट् लकार)

१—यदि वह दाईं ओर जायगा तो गढ़े में गिर पड़ेगा । २—सज्जन उस के दुर्व्यवहार के कारण उसकी निन्दा^१ करेंगे । और उस से बोल चाल छोड़ देंगे । ३—पिताजी तुम्हारी असफलता का समाचार^२ सुन कर^३ प्रसन्न होंगे । और तुम्हारे छोटे भाई की असफलता को सुन कर^४ नाराज होंगे । ४—यदि तुम फिर कभी इस प्रकार बोले तो तुम्हारी खैर नहीं । ५—ज्ञान रूपी नाव की सहायता से तुम सब पापों को तर जाओगे । ६—तुम चावल पकाओ । मैं^५ इन्धन लाता हूँ^६ । ७—तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे । ८—मैं तुम्हारे लिये उस कर्म की व्याख्या करूँगा, जिसे जान कर तुम पाप से लूट जाओगे । ९—प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं केवल हठ क्या करेगा । १० पञ्चाङ्ग के देखने से पता चलता है कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा को ग्रहण लगेगा । ११—कृष्ण ! तुम्हें याद है कि हम कभी गोकुल में रहते थे और वहाँ स्वेच्छा से यमुना तीर पर विहार करते थे । १२—मेरे समान गुणों वाला कोई व्यक्ति कभी जन्म लेगा, समय की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी भी द्रुत विस्तृत है । १३—यदि तुम अपने लड़कों का ध्यान न करोगे, तो वे अश्वय बिगड़ जायेंगे । १४—मुझे भय है कि सहायता पहुंचने से पहले किले की सारी खाद्य सामग्री समाप्त हो चुकी होगी^६ । १५—क्या इस सप्ताह से पहले सारे कैदियों को गोली से उड़ा दिया जायगा । १६—आज ईशोपनिषद् के कुछ एक मन्त्रों की व्याख्या होगी^७, और गीता के ग्यारवें अध्याय का पाठ होगा^८ ।

संकेत—१—यदि स दक्षिणेन यास्यति गर्तं पत्स्यते (अयं पतिष्यति) ।

४—यद्येवं पुनर्वक्ष्यसि न त्वं भविष्यसि । १०—कार्तिक्यां चन्द्रो प्रसिष्यते ग्रहेण (चन्द्र उपल्लोप्यते, उपरक्ष्यते, चन्द्रोपरागो भविष्यति) । ११—

१—निन्दु श्वा० गहं श्वा० आ०, अव क्षिप् । २—२ सिद्धिब्रुतान्त—
पुं० । ३ प्रसद्, नन्द । ४ कोपं ग्रहीष्यति । ५—५ एष (आहरिष्यामि) ।
इन्धन, इध्म, एधस्—नपुं० । एष पुं० ।

६—६ सर्वा खाद्य सामग्री पर्युपयुक्ता भविष्यति । ७—७ व्याख्यास्यते (व्याख्यायिष्यते । ८ वाचयिष्यते ।

पुतावदवधि निर्दिष्टा दोषाः प्रतिविधास्यन्ते (निर्घानिष्यन्ते) । १२—स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वस्यामस्तत्र च कालिन्दीकूले विहरिष्यामः । यहाँ लट् भूत काल की क्रिया का निर्देश करता है । १४—न चेदवेक्षिष्यसे तनूजान् (न चेत्साधु चिन्तयिष्यसि सुतान्) असंशयं ते सत्पथाद् अंशिष्यन्ते (अंशिष्यन्ति) । अंश् भ्वा० आ, दिवा० प० है । कोष्ठक में दिया गया रूप दिवा० प० का है । १६—अप्येतस्मात्सप्ताहादवर्गवासिन्द्रा आग्नेयचूर्णेन ^१निसूदयिष्यन्ते ।

अभ्यास—१८

(लट् लकार)

११—गाँव छः दिन में हम स्वयं वहाँ जायेंगे और सारी बात की पड़ताल करेंगे । २—क्या तुम मुझे कल दोपहर मेरे घर पर मिल सकते हो ? मैंने तुमसे कुछ निजी बातें करनी हैं । ३—यदि वृष्टि होगी तो ^२अनाज बोयेंगे^२, नहीं तो अबके यँही समय निकल जायगा । ४—जब गरमी की ऋतु आयेगी तो हर जगह धूल उड़ती हुई गरम हवा चलेगी और कई जगह जोर की आँधियाँ आवेंगी । ५—कुम्भ के मेले पर लाखों आदमी ^३इकट्ठे होंगे^३ । वह दृश्य देखने योग्य होगा । ६—यह सुनकर अध्यापक तुम^४ से बहुत बिगड़ेगा^४, डर है कि तुम्हें पीटे भी । ७—मैं यह पुस्तक तुम्हें एक^५ शर्त पर^५ वापिस दूँगा और वह यह कि तुम मुझे अपनी “काशिका” चार दिन के लिये दो । ८—क्या आप अपने^६ दर्शनों से^६ मेरे घर को ^७पवित्र करेंगे^७ ? मेरे बन्धु कई दिनों से आप से मिलना चाहते हैं । ९—यदि तुम इस गहरे तालाब में उतरोगे तो डूब जाओगे । १०—शब्दों द्वारा न कही हुई बात भी समझ में आजायगी । यदि तू बुद्धिमान् है । क्योंकि दूसरों के संकेत को समझ लेना ही बुद्धि का फल है । ११—वह ब्राह्मण है, वह इतने से ही

१—निपूर्वक सूद् के ‘स्’ को ‘ष्’ करना अशास्त्रीय है । पर बहुत जगह किया हुआ मिलता है । २—२ बीजानि वप्स्यामः । बीजवापं करिष्यामः बीजा करिष्यामः क्षेत्राणि । ३—३ सम्-इ, सम् अब-इ, सम् वृत् । ४—४ स्वां भूयोऽभिक्रोत्स्यति । ५—५ एकेनाभिसन्धिना । ६—संनिधिनः । ७—सत् क, सम् भू—षिच्, पू ।

प्रसन्न (सन्तुष्ट) हो जायगा^१ । १२—धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और कुछ भी साथ नहीं देगा । १३—उस समय मैं बिल्कुल अकेला^२ था अतः क्या कर सकता था । १४—वह उसका ऋणी है, अन्यथा वह उसकी सहायता न करता । १५—यदि तुम अपने^३ आश्रितों के साथ अधिक नम्रता से वर्ताव करोगे^३, तो सबके प्यार बन जाओगे । १६—हम आज वा कल कलकत्ता जायेंगे, पर निश्चित नहीं ।

सकेत—१-पञ्चधैरहोभिर्वयमेव तत्र गमिष्यामः सर्वं च वृत्तजातं स्वयमेवानुसन्धास्यामः । २-उत श्वो मध्यान्हे मां मे गेहं द्रक्ष्यसि ? ९--यदि गम्भीरमिमं हृदमवगाहिष्यसे (अवघाक्ष्यसे), निमङ्क्ष्यसि । यह स्मरण रखना चाहिए कि अक् (गाह्) सकर्मक है, अतः सप्तमी एकवचन का प्रयोग 'हदे' अशुद्ध होगा । १०-अनुक्तोऽपि गंस्यते त्वयाऽर्थः सुधीश्चेदसि । परेङ्कितज्ञान फला हि बुद्धयः । १३-तदेकलोऽहं किं करिष्यामिः । ११-उपकृतोऽसौ तेन (स तस्मिन्नुपकारभारं बहति), अन्यथा न तस्य साहाय्यं करिष्यति । १६-अथ श्वो वा कलिकातां प्रति प्रयास्यामः (अभियास्यामः) परिमिदं व्यवसितं न । यहाँ लुट्लकार का प्रयोग नहीं कर सकते ।

अभ्यास--१६

(लृट् लकार)

१—इस प्रकार तुम अपनी नाक कटवा लोगे । नाक कट जाना मृत्यु का दूसरा नाम है । २—यह कपड़ा देर तक नहीं चलेगा^४ । क्योंकि पुराना प्रतीत होता है । ३—यदि तुम अपना अमूल्य समय इस प्रकार खेल-कूद में "गँवाओगे, तो^५ किसी न किसी दिन^६ पछताओगे । ४—क्या मोहन नवम श्रेणी में 'चल सकेगा' ? पढ़ता तो कुछ नहीं । न जाने आठवीं श्रेणी में कैसे पास हुआ । ५—क्या इतिहास की पुस्तक से तुम्हारा काम^७ चल जायगा^७ ? नहीं । यह तो मध्यम कोटि के छात्रों के लिये कुछ उपयोगी

१—सम् तुष । *ऐसे स्थलों में लृट् के प्रयोग के लिये "विषय प्रवेश" देखो । २-आत्मना द्वितीयः, छायाद्वितीयः, देवता द्वितीयः । ३-३-आश्रितेषु मदीयो व्यवहरिष्यसि चेत् । ४ निर्बह्, अवस्था । ५ लृप् चुरा० । ६-६ चिरं वा क्षिप्रं वा, गच्छता कालेन । ७ अनु शुच्, अमु तप् (कर्मणि) अनु शी अदा० आ० । ८ सम्बद्ध् निर्बोद्ध् क्षमिष्यते (क्षंस्यते) ।

है और प्रश्नोत्तर रूप से लिखी हुई है । ६—वदि वह छः दिन निरन्तर अनु-
पस्थित रहा, तो उसका नाम स्कूल से काढ दिया जायेगा । ७—जितना अधिक
परिश्रम करोगे परीक्षा में उतने ही अधिक अंक प्राप्त करोगे । परिश्रम किया
हुआ यूँ ही नहीं जाता । ८—राजा को पता लगने से पहले ही वे नगर की
'ईंट से 'ईंट बजा देंगे' । ९—गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त होने से पहले यह
पुस्तक छप चुकी होगी और बाजार में बिकती होगी । १०—कल मुझे इस
स्कूल में काम करते उन्नीस वर्ष सवा सात मास तथा पाँच दिन हो जायँगे ।
११—अगले वर्ष तक इसी ग्राम में शिल्पकारी स्कूल की आधार शिला रखी
जा चुकी होगी । जिस से शिल्प सीखना चाहनेवाले विद्यार्थियों की कठिनाई
दूर हो जायगी । १२—जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे । १३—इस^३ महीने की
पच्चीसवीं तारीख को^३ हमारी परीक्षा समाप्त^४ हो जायगी और अगले महीने के
चौथे सप्ताह में परीक्षा परिणाम निकल^५ जायगा ।^५ १४—जितना गुड
डालोगे, उतना ही मीठा होगा । १५—यदि तुम कुछ कर दिखलाओगे, तो
तुम्हें पारितोषिक मिलेगा ।

संकेत—१ एवं लोके लाघवं यास्यसि (इत्थं लोकसम्भावनाया हास्यसे) ।
बहुमतस्य लाघवं नाम मरणपर्यायः । ६—यदि सोऽनूचीनानि षडहानि
नोपस्थास्यते, तदा पाठालयनामसूच्यां तन्नामधेयं रेखया विलोपयिष्यते । ७—
यथा यथा परिश्रमिष्यसि, तथा तथाऽभ्यधिकान् परीक्षायामङ्गलं लप्स्यसे । नहि श्रमः
फलविधुरो भवति । १०—इह पाठशाले कार्यं कुर्वतो मे श्व एकोनविंशतिः समाः
(एकात्रविंशतिर्वत्सराः) सपादसप्त मासाः पञ्च दिनानि च भविष्यन्ति । पाठशाल
नहुं^० है । पाठशाला स्त्रीलिङ्ग है । इसी प्रकार इयं गोशाला, इदं गोशालम्
भी कह सकते हैं । ११—अग्रिमं वर्षं यावच्छिल्पविद्यालयस्याधारशिला
प्रतिष्ठापयिष्यते (प्रतिष्ठापिता भविष्यति) । १२—यो यच्छृद्धः स एव सः ।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी । १४—अधिकस्याधिकं फलम् ।

१—१ सेऽस्यति तेऽर्थः । २—२ उद् सदृश्यन्त । ३—३ अस्य मासस्य
पञ्चविंशो वासरे । यहाँ 'तिथि' का प्रयोग नहीं हो सकता । कुछ लोग 'तारिका'
शब्द की कल्पना करते हैं वह सर्वथा निर्मूल है । ४—परि श्रव सो दिवा^०
(पर्यवसास्यति) । ५—प्राकाश्यमेष्यति ।

१—❀ यदि तुम्हारा यही निश्चय है, तो शस्त्र उठा लो । २—❀ मैं आप का शिष्य हूँ, आप के पास आये हुए मुझे उपदेश दें । ३—❀ हे शकुन्तले ! आचार का अनुसरण करो तुम्हारे मुँह से कोई ऐसी वैसी बात मत निकले । श्रीमन् ! क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ ? आइये, यह आप का घर है । ५—कृपा करके आप मेरे फन्दे^१ काट डालें । मैं आपका चिर तक आमारी रहूँगा । ६—हे शकुन्तले ! भय छोड़ो और होश को संभालो ये तुम्हारी सखियाँ प्रियं घदा और अनुसूया तुम्हें पँखा कर रही हैं । ७—आओ किसी को हानि न पहुँचाने का वचन^२ करें । ८—❀ नम्रता, पूछ ताछ और सेवा भाव से उस (ब्रह्म) को जानो । ९—परमात्मा करे तुम अपने योग्य पति को प्राप्त करो और बीर जननी हो । १०—अभिमान को मार दो इसे बड़ा शत्रु समझो । क्रोध और लोभ^३ छोड़ दो । ११—अपनी वाणी पर काबू पाओ, वाणी पर अधिकार और फजूल बकवास करने में भेद करना सीखो १२—आओ कुछ समय के लिये हम उसकी प्रतीक्षा^४ करें । १३—बेटा धीरज धरो भय गया अब डरने का कोई कारण नहीं । १४—यज्ञ के लिये तैयारी की जाय । नाना देशों के राजाओं को निमन्त्रण पत्र भेज दिये जायें १५—❀ वे अपनी इच्छानुसार बन से तपस्या का धन, तीर्थों का जल, समिधायें, फूल, तथा कुशा घास ले आयें । १६—अपनी आण को बढ़ाओ । और खर्च को कम करो । इस प्रकार सुखी रहोगे, इस से भिन्न सुख का मार्ग नहीं १७—जल्दी २ मत खाओ, चबा २ कर खाओ नहीं तो खाना हजम नहीं होगा । १८—^५अपनी पुस्तक का दसवां पृष्ठ खोलो ^४ और दूसरे पैरे से पढ़ना शुरू करो । १९—नाथ मैं सब से पहले चढ़ो, और सब से पीछे उतरो । २०—पहले उस्तरा तेज करो, और फिर दाढ़ी बनाओ ।

संकेत—४—अप्यन्तराऽऽयाण्यार्थ ? अन्तर आ-या लोट् । ५—छिन्धि नः पाशान् । यहाँ 'लोट् लकार' का प्रार्थना के अर्थ में प्रयोग हुआ है । 'कृपया' 'सकृपम्' आदि शब्दों का लोट्लकार के होते हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ६—साध्वसं मुञ्च, प्रतिबुध्यस्व च । ९—आत्मसदृशं भर्तारं लभस्व

१ - पाश—पुं० । २ - प्रतिज्ञा । ३ प्रति+ईत्, प्रति पाल्, उद्+ईच् । ४—४ स्वं पुस्तकं दशमे पाश्चै समुद्राटय ।

(विन्दस्व) आत्मसदृशेन भर्त्रा युज्यस्व वीरसूश्च भव । यहाँ लोट् लकार आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । १४—संभ्रियतां यज्ञः । यहाँ लोट् लकार 'आज्ञा' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । १६—आयं वर्धय, व्ययं च हसय (आयं प्रकर्ष, व्ययं चापकर्ष, आयमुपचिनु, व्ययं चापचिनु) १८—सर्वप्रथमं नावमारोहत सर्वपश्चाच्च ततोऽवरोहत । २०—पूर्वं क्षुरं निश्य (निशिनु) ततः कूर्चं वप । निश्य शो दिवा० का रूप है और निशिनु शि स्वा० उ० का ।

अभ्यास--२१

(लोट् लकार)

१—महाराज—हे कन्सुकिन् ! ✽अपने कर्तव्य के स्थान पर चले जाओ कन्सुकी—जो महाराज की आज्ञा । २—यदि तुम चाहो तो यह काम समाप्त कर सकते हो । ३—मेरी^१ इच्छा यह है^१ कि आज आप मेरे घर भोजन करें, इस तरह हमें आपस में मिलने और विचार विनिमय करने का सुअवसर मिलेगा । ४—आपके लिये यह अच्छा अवसर है कि आप अपनी योग्यता दिखावें । ५—राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मणों को भोजन के लिये^२ यहाँ निमन्त्रित किया जाय^२ । ६—कुछ^३ देर के लिये अपनी जवान थामिये^३, ज्यादा बकबक करना अच्छा नहीं होता । ७—कुछ भी हो मैं अपने कथन का एक शब्द भी वापिस^४ लेने को तैयार नहीं । ८—✽उठो, जागो । श्रेष्ठ (आचार्यों) के पास जाकर ज्ञान सीखो । ९—मेरा धरोहर^५ वापिस^६ करो, अन्यथा मैं न्यायालय में दावा कर दूँगा । १०—^७बढ़ों का अभिवादन करने के लिए उठो । ^८और उन्हें आदर पूर्वक आसन दो । ११—✽राजा प्रजाओं के हित के लिये काम करे । और यथा समय बादल बरसे । १२—आचमन^८ करो, इससे तुम्हारा गला साफ हो जायगा । १३—उसे मोतिया^९

१-१—कामो मे, कामये, इच्छामि । २-२—भोजनेन । ३-३—कञ्चित् कालं सन्दृष्टजिह्वो भव (नियच्छ वाचम्, नियन्त्रय जिह्वाम्) । ४—प्रति+सम्+द् । ५—आधि—पुं० । ६—प्रति+निर्+यत् चुग० । ७-७—गुरुन् प्रयुत्तिष्ठ (अभ्युत्तिष्ठ) । यहाँ 'अभिवादानाय' कहने की आवश्यकता नहीं । क्रियापद के अर्थ में ही यह बात आ गई । ८—अप आचाम । तेन तवोत्कासो भविष्यति । ९—वृत्तमस्य नेत्रपटलेन रोगेण ।

उत्तर आया है कृपया उसे^३ घर तक पहुँचाने में सहायता करें^३ । १४--
तुम चाहो तो जा सकते हो, और चाहो तो ठहर सकते हो । १५—आओ, इस
घनी छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठें, यहाँ तो धूप आ गई है । १६—बाजार से
दो^४ रूपये का आटा^४ और आठ आने की सब्जी लाओ । १७--चार^५ २ की
पंक्ति बनाकर^५ खड़े हो जाओ । १८—नौकर को कह दो कि मेरा बिल्लौना^६
बिछा दो^६ मुझे नींद आ रही है । १८—दहकते हुए कोयलों को चिमटे से
उठाओ^७ और इकट्ठे करके पानी से बुझा दो । २०—पाश्र्वों को धुलाकर ब्राह्मणों
को अन्न परोस दो ।

संकेत—२—व्यवस्यतु भवानिदं कृत्यम् । ४—प्रसाधयतु भवान् स्वां
योग्यताम् । यहाँ लोट् लकार 'प्राप्तकाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । १४—
अपि याहि, अपि तिष्ठ । यहाँ लोट् लकार "कामचारानुज्ञा" के अर्थ में प्रयुक्त
हुआ है । १५—अस्य घनच्छायस्य (प्रच्छायस्य) वृक्षस्याधस्तिष्ठाम, आतपा-
क्रान्तोऽयमुद्देशः । १९—ज्वलतोऽङ्गारानेकैकशः कङ्कसुखेन (संदर्शनेन)
धारय समुद्य च वारिणा शमय । २०—पादनिर्णेजनं कृत्वा विप्रा अन्नेन
परिविष्यन्ताम् । यहाँ 'अन्नं' में तृतीया पर ध्यान देना चाहिये । ऐसा ही
शिष्ट व्यवहार है । परिवेषय विप्रेभ्योऽन्नम् । ण्यन्त परिवेषि के प्रयोग होने पर
ऐसी रचना भी हो सकती है ।

अभ्यास—२२

(लोट् लकार)

१—तुम्हारा मन धर्म में लगे । और सत्य में निष्ठित हो २—प्रिये ! मुझे
उत्तर दो^६ रुप कर्षों ब्रेठी हो^६ । कया कुपित हो । ३—हे कुन्ती पुत्र ! दरिद्रों
का पालन करो, धन वालों को धन मत दो । ४—अपना मुँह खोलो, मैं औषध
डाल दूंगा । ५—हे जुलाहे ! मेरे लिये इस सूत की एक धोती बुन दो ।
६—ॐ राजा प्रजा की भलाई के लिये काम करे और शास्त्र-श्रवण से बढ़े
हुए कवियों की वाणी पूजित हो । ७—कृपया दरवाजा बन्द^७ कर दो, बहुत

१-१ पनं गृहं प्रापय । २-२—रूप्यकद्वयलभ्यं गोधूमचूर्णम् ।
३—चतुर्णां चतुर्णां पंक्तिभिः । ४-४—शयनीयं रच्यताम् । शय्याऽऽस्तीर्य-
ताम् । ५—सम् ऊह् ल्यप् । यहाँ धातु को ह्रस्व हुआ है । ६-६ किमिति
बोधमास्ते, तूष्णीकां किमास्ते । ७ सम् + वृ, अपि धा, पि+धा, दा ।

तेज आँधी^१ चल रही है। ८—ॐ जो मान योग्य हैं, इन का मान करो, शत्रुओं को भी अनुकूल बनाओ और विनय दिखाओ। ९—अपने पिता की आज्ञा लेकर जाओ। १०—बाग में जाओ, कुछ फूल चुनो और मेरे लिये एक हार बनाओ^२। ११—हे देवदत्त तुम जुग २ जीओ तुम ने अपने आपको जोखम में डाल कर मेरे बच्चे की जान बचाई। १२—रात उतर आई है। गौओं को गोशाला में बन्द कर दो। और द्वार बन्द कर दो। १३—तुम्हारे इस उत्साह पर धिक्कार हो, इसने मेरा जीना वूमर कर दिया है। १४—तुम मनुष्य की पूर्ण आयु को प्राप्त होवो जिससे तुम देश, जाति और भर्म की सेवा कर सको। १५—विषह हुआ हुआ मनुष्य^३ कभी जन्म लेता है, कभी मरता है और इस प्रकार आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। १६—ध्यान रखो यह लम्पट हमारी वस्तुओं के पास न फटकने पाये। १७—आज का काम कल पर मत छोड़ो, इस से काम कभी समाप्त होने में नहीं आता। १८—सावधान रहो, शत्रु तुम्हारी घात में है। १९—ॐ श्वेतकेतो, ब्रह्मचर्य धारण करो, हमारे कुल में वेद न पढ़कर ब्रह्मबन्धु सा कोई नहीं होता।

संकेत—१ धर्म ते धीयतां धीः सत्ये च निस्तिष्ठतु। ४—व्यादेहि मुखम्, संक्षयाम्योपधम्। ५—तन्तुवाय ! मत्कृतेऽस्य सूत्रस्य शाटकं वय। ९—गन्तुमिच्छसि चेत् पितरमनुमानय (पितर मनुमान्य याहि)। १४—देवदत्त, पुरुषायुषं जीवतात् (सर्वमायुरिहि)। १२—उपस्थिता रजनी, देहि (पिधेहि) च द्वाराणि। ब्रजमवरुन्धि माः। १५—जायस्व त्रियस्वेत्येवं संसरत्यवशो देही। १६—प्रतिजागृहि, अयं लम्पटोऽस्माकमुपकरणजातं मोपसर्पतु। १७—अद्यतनं कार्यं श्वः करिष्यामीति माऽदः परिहर। १८—सावधानो भव, शत्रु निभृतमवसरं प्रतीक्षते। १९—वस ब्रह्मचर्यं श्वेतकेतो। यहाँ वस् का अर्थ आचरण करते हुए रहना है। जैसे 'भिक्षामट'—यहाँ अट् का अर्थ मांगते हुये घूमना है। अतः वस् के अन्दर छिपी हुई चर् घातु का कर्म होने से ब्रह्मचर्यम् में द्वितीया हुई।

अभ्यास—२३

(लोट् लकार)

१—आओ, हम इस मकान^३ का सौदा करें^३। २—^४नकली वस्तुओं^४

१ बास्या स्त्री०। २—२ मालां प्रथान। ३—३ इंद गृहं क्रीणाम।

४ अनुकृति निर्वृत्तेषु वस्तुषु।

से सावधान रहो । ^१असली माल पहचानने के लिये ^१ हमारी मोहर ^२ देखो ।
 ३—बच्चों को मेरी ओर से प्यार और बड़ों को नमस्कार । ४—पहले बात
 को तोलो और फिर मुँह से बोलो । ५—यहाँ से सीधे जाओ, सड़क के अन्त में
 जरा दहिनी ओर मुड़कर दस कदम चलकर ठहर जाओ । ६—संक्षिप्त उत्तर
 दो, इधर उधर की गप्प मत हाँको । ७—तुम्हारे वास्ते मैं क्यों कर अपने
 नाम को बट्टा लगाऊँ । ८—इस अत्याचारी को गर्दन से पकड़ो, और बाहिर
 निकाल दो । ९—तुम मानो या न मानो, सच बात तो यही है । १०—किसी
 की चुगली मत करो, यह कायरता है । ११—या तो मुझे किराया दो या
 मकान खाली कर दो । १२—हमारी प्रसन्नता के लिये दो चार कौर खा
 लीजिए । १३—दियेँ को फूँक मार कर बुझा दो, प्रकाश में नींद नहीं आती ।
 ४—हे देव ! मेरे अपराधों को क्षमा करो और मुझे घोर नरक से बचाओ ।
 १५—यहाँ जूती उतार दो । इस से आगे देव मन्दिर की भूमि में जूता पहने
 हुण नहीं जा सकते । १६—शीतल सुगन्धयुक्त पवन चले और सन्तप्तों के
 सन्ताप को हर । १७—क्षण भर सो जाओ, और चैन पालो ।

संकेत- १—अस्य निवेशनस्य क्रयविक्रयमविदं करवावहै । ३—बाला
 मद्रचनाद्वलालनीयाः, वृद्धाश्च नमो वाच्याः (प्रणति वाच्याः) । ५—स्थाना-
 दस्माद् प्रगुणं गच्छ, राजमार्गस्यान्ते किञ्चिद् दक्षिणतः परावृत्त्य दश पदानि
 गत्वा तिष्ठ । ६—संक्षिप्तां प्रतिवाचं देहि, यत्तदसम्बद्धं मा ब्रूहि । ८—
 अर्धचन्द्रं दत्त्वा निस्सारयामुं जाल्मम् । (गलहस्तय) । ९—प्रतीहि
 वा नवा, परं तथ्यं त्विदमेव (एष एव भूतार्थः) । १०—मा कस्यचित्पृ-
 ष्टमांसमद्भि । ११—भाटकं वा (परिक्रमम्) मे देहि, गृहं वा परित्यज ।
 १३—दीपकं मुख मारुतेन निर्वापय प्रकाशे हि मे निद्रा नोपजायते । १७—अण्यं
 संविश सुखं च निविश । १६—शीतः सुरभिः समीरः पत्रताम्, सन्तापं च
 परितप्तानां शमयताम् (परिहरताम्) । १५—इहैवापानहाववमुच्च^२,
 नातः परं देवताश्रतनभूभागे प्रतिमुक्तोपानत्को गन्तुमर्हसि ।

१—१ शुद्धार्थ प्रत्यभिज्ञानाय । २ मुद्रा स्त्री० । ३ परि+वद् । २—अब
 मुच् का अर्थ उतारना, खोलना है और आ मुच् और प्रति मुच् का अर्थ
 बाँधना, पहनना है । जूती पहनने के अर्थ में बन्ध का प्रयोग होता है अथवा
 'आ' या 'प्रति' के साथ मुच् का । परि धा का कभी नहीं ।

(लिङ्)

१—दुलहिन के सम्बन्धी दुलहिन पर खीलों की वर्षा करें। यह कर्म गृह-समृद्धि की कामना की ओर संकेत करता है। २—उचित तो यह है कि साधारण उद्देश्य के लिये हम आपस में मिल जाएँ, नहीं तो हम सब का अलग २ प्रयत्न असफल रहेगा। ३—ॐपुत्र वही है जो सदाचरण से पिता को प्रसन्न करे। ४—ॐविपत्ति में जो साथ दे वही मित्र है। विपत्ति मित्रता की कसौटी है। ५—ॐ पहले पाँच वर्ष बच्चे का लालन पालन करे और फिर दस वर्ष तक उसकी ताड़ना करता रहे। सोलहवें वर्ष के आते ही पुत्र के साथ मित्र का ना बर्ताव करे। ६—मोजन प्रसन्नता से करना चाहिये^१। ७—ॐ सत्य बोले और मीठा बोले कटु सत्य न बोले और मीठा झूठ भी न बोले। ८—अगर अध्यापक आज्ञाएँ तो मैं आशा करता हूँ कि मैं दत्तचित्त होकर पढ़ूँगा। ९—अब तुम्हें समान गुणों वाली सोलहवर्ष की सुन्दर कन्या से विवाह करना चाहिए। १०—वह कहीं यह न मान बैठे कि मानवी जीवन का यही सब से बड़ा लक्ष्य है। ११—उससे पूरी संभावना है कि वह अपने सिर से पर्वत को तोड़ दे। १२—यह अचरज है कि अन्धा भी पढ़ लिख सके। पहले समय में यह नहीं हो सकता था। १३—मुझे विश्वास है कि छुट्टी होने से पहले यह सारा पृष्ठ नकल कर लिया जा चुका होगा। १४—सोने से पहले तुम्हें अपना पाठ याद कर लेना चाहिये था। १५—तुम्हें अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देनी चाहिये थी, शायद वे सिद्धि प्राप्त कर लेते। १६—उसे अपना मकान धरोहर (गिरवी) नहीं रखना चाहिये था। शायद कोई सम्बन्धी उसकी सहायता कर देता। १७—ॐ हे धनवान् इन्द्र हम तेरी सहायता से अपने आप को बलवान् मानने वाले शत्रुओं को दबा डालें। १८—ॐ पश्चिम की ओर सिर करके न सोये। पाँव धोकर खाना खाये, पर पाँव धोकर न सोये।

संकेत—लिङ् का प्राप्तकाल, और 'कामचारानुज्ञा' अर्थों को छोड़कर लोटलकार के समान प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हेतु-हेतुमद्भाव, संभावना, योग्यता, शक्ति आदि और भी अर्थों में होता है। लोट् लकार की अपेक्षा इसका विषय विस्तृत है।

उदाहरणार्थ—१—वधूपक्ष्या लाजैरवकिरेयुर्वधूम (लाजैरभिवृषेयुर्वधूम) ।
 २—युक्तं नाम साधारणे नः साध्ये संगच्छेमहीति पृथङ् नो यत्ना वितथाः
 स्युः । ८—गुरुश्चेदागच्छेत्, आशंसे युक्तोऽधीयीय । यहां “आगमिष्यति”
 और “अध्येष्ये” का प्रयोग व्याकरणानुसार अशुद्ध होगा । ९—भवानिदानीं
 गुणैरात्मसदृशीं षोडशहायनीं हृद्यां कन्यामुद्रहेत् । १०—स न मन्येतायमेव परः
 पुमर्थ इति । ११—अप्यस्मत्सैन्या भूयसोपि परान्परास्येयुः । यहाँ विधिलिङ्
 पूर्ण संभावना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसके स्थान में लोट्लकार का प्रयोग
 नहीं किया जा सकता । १२—आश्रयं यद्यन्यो लिखेत्, पठेच्च । यहाँ ‘यदि’
 का प्रयोग न करें, तो लट् का प्रयोग करना होगा । (आश्रयमन्धो नाम
 लेखिष्यति, पठिष्यति च) । १५—त्वया स्व पुत्रा उच्चैः शिक्षयाऽलंकरणीया
 आसन्, सिद्धिं जात्वाप्नुयुस्ते । १६—तेन स्वं गृहं नाऽऽधीकरणीयमासीत्,
 कदाचित् कश्चिद् बान्धवस्तस्य साहाय्यं कुर्यात् । १४ वें तथा १५ वें वाक्यों
 के अनुवाद में लिङ् के स्थान में ‘कृत्य’ प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है ।
 ऐसा भी व्याकरण सम्मत है । कृत्य प्रत्ययान्त के साथ अस् वा भू का भूतकाल
 का प्रयोग कुल्ल भी असंगत नहीं, क्योंकि कृत्य प्रत्यय और लिङ् तीनों कालों
 में एक समान प्रयुक्त होते हैं । किसी काल विशेष में नहीं ।

अभ्यास - २५

(लिङ्)

१—❀ में महादेव के धैर्य को गिरा सकता हूँ ? दूसरे धनुर्धारियों का तो
 कहना ही क्या ? २—तुम्हें^१ यह मेरे लिये करना होगा^१ नहीं तो मैं तुम्हारी
 खबर लूँगा । ३—ब्रह्मचारियों के लिये मांस और शहद (मधु) वर्जित^२ हैं ।
 इसी लिये श्वेतकेतु ने अश्विनियों को कहा था—ब्रह्मचारी होता हुआ मैं कैसे
 शहद खाऊँ । ४—❀ जो व्यवहार अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरों के प्रति नहीं
 करना चाहिये । ५—❀ मनुष्य प्रत्येक पर विजय चाहे, परन्तु अपने पुत्र से
 हार चाहे । ६—यदि तुम कृष्ण को नमस्कार करोगे तो स्वर्ग को जाओगे ।
 ७—यदि तुम नित्य मृदु व्यायाम करोगे और खाने पीने में नियम करोगे तो

† यहाँ ‘षोडशहायनाम्’ नहीं कह सकते ।

१—१ त्वयेद् मत्कारणादवश्यकरणायम् । लिङ् न प्रयोग करना हो तो
 ‘कृत्य’ प्रत्यय से इस प्रकार कह सकते हैं । २ वर्जयेयुः ।

निश्चय ही थोड़े समय में हष्ट पुष्ट हो जाओगे । ८—❀ इस पृथ्वी पर सब लोग इस देश में जन्मे हुए ब्राह्मणों से सदाचार के नियम सीखें । ९—यह हरकारा^१ प्रतिदिन सात कोस दौड़ सकता है । देखने में यह पतला दुबला है पर हड्डी का पक्का है । १०—❀ रथ की इस चाल से मैं पहले चले हुए गरुड़ को भी पकड़ सकता हूँ । ११—❀ ललकारे जाने पर (क्षत्रिय) को जुए से और युद्ध से भुँह नहीं मोड़ना चाहिये । १२—कदाचित् भारतवासी जाग उठें, और अपने पुरातन गौरव को फिर प्राप्त करें ! १३—ईश्वर करें सत्य की भूठ पर जय हो, धर्म बढ़े और पाप का क्षय हो । १४—यदि वह थोड़े से हाथ पैर मारे, तो किनारे^२ तक पहुँच सकता है । १५—यदि तुम अपने रुपये को थोड़ी और बुद्धिमत्ता से खरचो, तो तुम्हारे पास गरीबी कभी न फटकें । १६—मोहन कितना भी निर्धन क्यों न हो जाय, वह अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ेगा । १७—यदि तू आज भोजन में नागा करे तो जुहाम कल ही शान्त हो जाय ।

संकेत—२—ममेदं कुर्याः । यहाँ 'लिङ्' विधि के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । उपर्युक्त वाक्य में लोट् लकार का प्रयोग भी हो सकता है । ३—ब्रह्मचारी मधु मांसं च वर्जयेत् । ९—जङ्गाकरिको होरया सत क्रोशान् गच्छेत् । यहाँ लिङ् सामर्थ्य को सूचित करता है । ११—आहूतो न निवर्तेत घृतादपि रणादपि । १३—जीयात्सत्यमनृतम् । यहाँ लिङ् का "आशिम्" अर्थ में प्रयोग हुआ है । आशिम् अर्थ में लोट् का भी प्रयोग हो सकता है । १५—यदि निजं धनं किञ्चिद्बुद्धिमत्तया (विवेकेन) व्यययेः, न जात्वकिञ्चनत्वं यायाः । १६—मोहनः कियतीमपि निर्धनतामियात्परं सद्गुणांस्तु न जह्यात् । (प्रकामं दारिद्र्यं यायान्न श्रद्धये सद्गुणाञ्जह्यात्) । १७—यद्यद्य लङ्घेथाः पीनसस्ते श्वोभूते निवर्तेत ।

अभ्यास—२६

(लिङ्)

१—मेरी^३ प्रार्थना है^३ कि उसके घर इस बार पुत्र पैदा हो जो शत्रुओं की लक्ष्मी का हरण करे । २—यदि आप का कभी इस ओर आना हो, तो मुझे अवश्य मिलना । ३—ईश्वर करें, तुम अपने देश की सेवा^४ करो ।

१ जङ्गाकरिकः । २—२ पारं यायात् । ३—३ इस की संस्कृत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । यह वाक्य आशीर्वाद अर्थ को कहता है जो लिङ् से कह दिया जायगा—पुत्रोऽस्य जनिषीष्ट यः शत्रुश्रियं हृषीष्ट (हियात्) । ४ सेविष्ठाः ।

४—युद्ध में गए हुए सैनिक वापिस आएँ या न आएँ कुछ पता नहीं । ५—❀ ईश्वर की इच्छा से विष भी कहीं अमृत हो जाता है और अमृत भी विष । ६—चाहे आकाश ही क्यों न गिर पड़े, सूर्य भी शीतल क्यों न हो जाय । हिमालय हिमको क्यों न त्याग दे और समुद्र अपनी मर्यादा को क्यों न छोड़ दे, पर मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता । ७—❀ मंसार सूर्य के बिना भले ही रह सके, अथवा खेती भी जल के बिना भले ही रह सके, परन्तु मेरा जीवन राम के बिना शरीर में नहीं ठहर सकता । ८—❀ मैं राजा के वचन से आग में भी कूद सकता हूँ, अत्युग्र विष का सेवन कर सकता हूँ । और समुद्र में भी डूब सकता हूँ । ९—साँप मुझे काट नहीं सकते, शत्रु मुझे हरा नहीं सकते, और मृत्यु भी मेरे पास फटक नहीं सकती । १०—बुद्धिमानों को विपत्ति में घबराना^१ नहीं चाहिये । ११—प्रजा को गुणवान् राजा के प्रति द्राह नहीं करना चाहिये । १२—दुर्बल मनुष्यों को बलवानों के साथ नहीं लड़ना^२ चाहिये ।

संकेत—४—रणं गताः (समरमुपेताः) याद्वारः प्रतिनिवर्तेन् वा न वेति को वेद् । ६—अपि गगनं पतेत्, तिग्मांशुर्वा शीततामियात्, हिमवान्वा हिमं जह्यात्, सागरो वा वेजामतीयात् मद्रचनं तु न विपरीयात् (नान्यथा स्यात्) । ९—सर्पा मां न दशेयुः, शत्रुर्मां न पराजयेत्, मृत्युश्च मां नोपेयात् । ११—गुणिनमीश्वरं नाभिद्रुह्येयुः प्रकृतयः ।

अभ्यास—२७

(लुङ्लकार)

१—यदि छकड़ा दाईं ओर गया होता तो न उलटता । २—यदि तुन पहले आते तो पूज्य गुरु जी को मिल लेते । ३—यदि समय पर वर्षा हो जाती तो अकाल न पड़ता । ४—यदि दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकारों को दे दें (जिसकी कोई सम्भावना नहीं) तो दोनों जातियों का आपस का सम्बन्ध बहुत अच्छा हो जाय । ५—यदि

१ वि मुह् २ वि प्रह् दुर्बला बलवत्तरैर्न विगृह्णीयुः (बलवत्तरान् विगृह्णीयुः) । दोनों तरह का प्रयाग शिष्ट सम्मत है ।

देवदत्त निन्दा^१ करने की आदत^१ को छोड़ दे, (जिसे छोड़ने को वह तैयार नहीं) तो वह^२ समाज में^३ सबसे^३ ऊँचा पद^३ प्राप्त करे। ६—यदि पहरेदार^४ सावधान होते, तो चोरी न होती। ७—यदि तुमने संस्कृत साहित्य के मधुर रस का पान किया होता तो क्या तुम्हारी अंग्रेजी या उर्दू^५ के प्रति कुछ भी रुचि होती? ८—यदि^६ भगवान् कृष्ण की सहायता न होती, तो पाण्डव कौरवों को न जीत सकते। ९—यदि आग बुझाने वाला इन्जन सामयिक^६ सहायता^६ न देता, तो सारे महल्ले को आग लग जाती और लाखों की सम्पत्ति जल^७ कर राख हो जाती^७। १०—अगर पत्थर का बांध न बनाया गया होता, तो नदी शहर को बहा ले जाती। ११—यदि पुत्लीस हस्तक्षेप न करती जो भगड़ा भली प्रकार निपट जाता। १२—यदि तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हें मधुर और स्निग्ध भोजन खिलाता। १३—हे अमर! ॐ यदि तूने उसके उसाँस की गन्ध ली होती, तो क्या तुम्हारी इस कमल में रति होती? १४—यदि वह^८ दुष्टों के वश में न पड़ता, तो सदाचार से न गिरता।

संकेत—लड्ड उन हेतु—हेतुमद्भावविशिष्ट वाक्यों में प्रयुक्त होता है, जहाँ क्रियातिपत्ति=क्रिया की अनिपत्ति, (अर्थात् असिद्धि) अर्थापन्न= (अर्थ से प्रतीत) हो, अथवा हेतु वाक्यार्थ का भूठापन (न होना) भलकता हो। जैसे नीचे लिखे उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा। लड्ड लकार भूत तथा भविष्यत् के अर्थ में व्यवहृत होता है। १—दक्षिणेन चेदयास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत् । यहाँ दोनों वाक्यों में क्रियातिपत्ति अर्थ से (शब्द से नहीं) स्पष्ट है। यहाँ स्पष्ट अर्थ यह है कि छकड़ा दक्षिण को गया, इसीलिये उलट गया। २—वृष्टिश्चेदभविष्यत्, दुर्भिक्षं नाभविष्यत् । ४—

१-१—परिवादन शीलता । २-२—लोके । ३-३—सर्वमहस्पदम् सर्वेभ्यो महत्तरम्=सर्वा महत् । गुणात्तरेण तरलोपश्च । ४—यामिकाः । ५-५—न चेत्कृष्णः साहाय्यं व्यतरिष्यत्..... । ६-६—सामयिकी सहायता । काल्यं साहायकम् । ७-७—मस्मसाद् अभविष्यत् । ८—सेतु पुं० । ९—दुराचार—वि० । संस्कृत में 'दुराचार' शब्द बहुव्रीहि समास के रूप में अधिक प्रयुक्त हुआ है। अपि चेत्सुदुराचारो भजते माभनन्यभाक्—गीता । दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः—मनु० । 'अत्याचार' भी प्रायः बहुव्रीहि है। अतः 'दुराचारिन्' और 'अत्याचारिन्' का परिहार करना चाहिये।

यदि दक्षिणाफ्रीकास्था गौराङ्गा आजन्मसिद्धानधिकारान् (जन्मतोलब्धान-
धिकारान्) भरतवर्षीयेभ्योऽदास्यन्, तदा द्वयोर्यात्योः साधीयान् मिथः
सम्बन्धोऽभविष्यत् । यहाँ भी वास्तव में हेतु वाक्य के अर्थ का झूठापन
(मिथ्यात्व) अभिप्रेत है । इसका अर्थ भविष्यत् में है । चन्द्र व्याकरणा-
नुसारी विद्वान् भविष्यत् काल में लृङ् का प्रयोग नहीं मानते । भविष्यत् काल
में लृङ् के विषय में लृट् का ही प्रयोग करते हैं (भविष्यति क्रियातिपत्ते
भविष्यन्त्येवेति चान्द्राः) । ११—यदि रक्षापुरुषा मध्ये नापतिष्यन्
मित्र भावेन विवादो निरणेष्यत् (कलिरशमयिष्यत्, कलहो व्यवस्थास्यत्)
१२—त्वचेन्मम सदनमुपैष्यः, मधुरं स्निग्धं चाञ्चं त्वामभोजयिष्यम् ।
१४—दुश्चरितैश्चेन्न समगंस्यत्, सदाचारान्नाभंशिष्यत् । जब 'चेत्' पूर्व वाक्य
में प्रयुक्त हो उत्तर वाक्य में 'तदा' को छोड़ने की शैली है । पूर्व वाक्य में
'यदा' यदि हो तो प्रायः उत्तर वाक्य में 'तदा' प्रयुक्त किया जाता है ।

अभ्यास.—२८

(लृङ् लकार)

- १—यदि रातें अँधेरी^१ न होतीं, तो चन्द्रमा का गुण कौन जानता ?
- २—यदि सूर्य न होता तो संसार में कौन जीवित रह सकता । ३—यदि
आप दूरदर्शिता से काम लेते, तो परिस्थिति ऐसी खराब न होने पाती । ४—
यदि राजा दुष्टों को दण्ड न देता तो वे लोगों को अवश्य पीड़ित करते ।
- ५—यदि दुर्योधन हठ^२ न करता^२, तो महाभारत का युद्ध न होता । ६—
यदि रावण सीता का अपहरण न करता, तो उसकी राम^३ के हाथों से
मौत न होती^३ । ७—यदि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता, तो रोगी
न होता । ८—यदि मैं धनी होता, तो अनार्थों और विधवाओं की सहायता
करता । ९—यदि आज चाँदनी रात न होती, तो हम मार्ग भूल जाते ।
- १०—यदि मैंने अपने गुरु की आज्ञा मानी होती, तो निपट गँवार न रहता ।
- ११—यदि तुमको अपने वंश की शुभ्र^४ ख्याति का तनिक भी ख्याल^४ होता

१—तामस—वि० । अँधेरी रात के लिये एक नाम 'तमिस्रा' है ।
२—२—प्रति नि विश् आ०, आ ग्रह् । ३—३—नातौ रामेण प्राणैर्व्यं
योक्ष्यत । ४—४—अवदाते यशसि स्वल्पोपि (अगुरपि, दभ्रोपि) समादरः ।

तो ऐसा घृणित^१ कार्य न करते। १२—यदि मैं सहस्र वर्ष जीऊँ (जो असम्भव है) तो मेरे सौ पुत्र होंगे। १३—यदि मनुष्य को जीवन शक्ति के सोत का पता चल जाय (जो असम्भव है) तो वह मौत पर वश पाले।

संकेत—१—निशाञ्चेत्तमस्विन्यो नाभविष्यन्, को नाम हिमांशो—
गुणं व्यज्ञास्यत् । ३—यदि भवान् दूरदर्शितया प्रावर्तिष्यत्, तदेदृशी
दुःस्थितिर्नावर्तिष्यत् । ४—यदि राजा (क्षितिपः) दुष्टेषु (दुर्वृत्तेषु)
दण्डं नाधारयिष्यत् (न प्राणेष्यत्) तदाऽवश्यं ते प्रजा उपापीडयिष्यन् ।
७—शरीरे चेद्वाधास्यन्नासौ रग्णोऽभविष्यत् (शरीरे चेद्वाहतो भविष्यन्नोप-
तोऽभविष्यत्) । ८—यद्यद्य ज्यौत्स्नी (ज्योत्स्नामयी) यामिनी नाभवि-
ष्यत्, तदा वयं मार्गादभंशिष्यामहि (अभंशिष्याम दिवादि) । १०—
गुरोश्चेदाज्ञामकरिष्ये, (अन्वरोत्स्ये) तदा ब्रजमूढो नावर्तिष्ये । १२—
यदि वर्षं सहस्रमजीविष्यं पुत्रशतमजनयिष्यम् । १३—यदि मनुजः प्राण-
शक्तेरुद्भवमवेदिष्यत्तदा नियतं निधनस्य प्राभविष्यत् ।

अभ्यास—२६

(लुट् लकार)

१—उसने संस्कृत में योग्यता^२ के लिये इनाम पाया है जिससे उसकी सब जगह स्तुति हो रही है। २—जिसने लालच किया, उसका पतन हुआ। ३—उसने अपनी शारीरिक दुर्बलता का विचार न करते हुए कठिन परीश्रम किया, और रोग ग्रस्त हो गया। ४—यद्यपि यह बात उसे कई बार समझाई गई, पर वह इसे नहीं समझ सका। ५—उसका ज्वर धीरे २ उतर गया और वह फिर स्वस्थ हो गया और अपनी दिनचर्या में लग गया। ६—क्या तुमने इस रास्ते छकड़े को जाते हुए देखा ? नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान किसी वृसरी ओर था। ७—आज सबेरे मैं रावी (नदी) पर गया, और रेत^३ पर देर तक धूमा। जो आनन्द मैंने उठाया वह कहते नहीं बनता। ८—जब राम को बनवास हुआ तो भरत अपने^४ मामा के पास था^४। ९—उसे घर से बाहिर बाजार को गये अब डेढ़ घण्टा हो गया, वह अभी तक नहीं आया।

१—गर्ह्यं कर्म । २ प्रौढि, चातुरी, अभिश्रुता—स्त्री० । तृतीया विभक्ति का प्रयोग करो । ३ सैकत—नपुं० । ४—४ मातुलेऽवार्थीत् ।

१०—जो कुछ भी ब्राह्मण को दिया^१ गया, उससे वह प्रसन्न^२ हो गया ।
 ११—जंगल के जानवरों ने सिंह से प्रार्थना^३ की कि आप हमारे राजा हूजिये ।
 जब उसने स्वीकार^४ किया तो उन्होंने उसका^५ यथाविधि राज्याभिषेक
 किया^६ । १२—मुझे इस बात का आज दोपहर को ही पता चला, मुझे यह
 बात पहले मालूम न थी । १३—ये दोनों सगे^७ भाइयों की तरह^८ इकट्ठे पाले
 पोसे गये हैं, अतः इनमें अगाध प्रेम है । १४—उपने जीवन भर भूखों को
 भोजन खिलाया, और नंगों को वस्त्र दिया । १५—यह सुनी सुनाई बात है
 कि आज पुलीस ने निरपराध गोपालचन्द्र को कोई दोष लगाकर पकड़
 लिया है । १६—वह अपने वचन से फिर गया, ऐसा उसने पहले कभी नहीं
 किया । १७—हमारे गाँव में रात दिन वर्षा होती रही और चारों ओर पानी
 ही पानी हो गया । १८—उसके कटाक्षों से तंग आकर मैंने उससे सर्वथा
 बोल-चाल छोड़ दी । १९—कई दिन पहले राम की श्याम से बिगड़ गई
 थी । अब राम ने श्याम से बिल्कुल किनारा कर लिया है । २० (उसने)
 कणाद की वाणी का खूब विचार किया, व्यास (वादरायण) की वाणी का
 भी निश्चय किया, तन्त्र में जो रमा, शेषावतार (पतञ्जलि) के वचन समूह
 में जिसने पूर्ण बोध प्राप्त किया, अक्षपाद से निकलती हुई उक्तियों के निखिल
 रहस्य को जिसने ग्रहण किया और विद्वानों का सौजन्य से होने वाला यश
 जिसके साथ प्रारम्भ हुआ (वह मल्लिनाथ) दुष्ट व्याख्या के विष से मूर्च्छित
 कालिदास के ग्रन्थों का उद्धार करता है ।

संकेत—लुङ्लकार सामान्य भूत अथवा अद्यतन भूत का वाचक है ।
 योऽलुभत्, सोऽपत् । ३—अनपेक्ष्य कायकार्श्यम् (शरीर सादम्) अश्रमत्
 सः, रण्णश्चाभूत् । ४—मयैतमर्थमसकृतप्रबोधितोऽपि स नाबुधत् । ५—शनै-
 रस्य ज्वरोऽपागात् (शनैर्विज्वरोऽभूत्), कल्पतां चाचकलत् सः (वार्तश्चा-
 भूत् सः) । ६—उत त्वं मार्गणानेन यान्तं शकटमद्राक्षीः । नाहमदर्शम् ।
 अन्यत्रमना अभूवम् । ९—अद्यार्धहोरया पूर्वं (इतोऽर्धहोरायां) सोऽगारान्नि-
 गात् पण्यवीथिं न चाद्यापि प्रत्यागात् । १४—बुभुक्षितेभ्यो यावज्जीवमन्नमदात्,

१ अदायि, व्यतारि, प्रत्यपादि (प्रतिपद् से णिच् करके) व्यभ्राणि !
 २ सम् तुष् । ३ अर्थ प्र वा अभि सहित—प्रार्तयन्त । ४ प्रत्यपादि, ५-५
 अन्वमन्त । सिंहं राज्येभ्यधिचन् । ६-६ सहोदराविव, सोदर्याविव । ७ संकथा,
 सम्भाषा—स्त्री० । संलाप—पुं० ।

नग्नेभ्यश्च वासो व्यतारीत् । यहाँ 'लुङ्' के स्थान में 'लङ्' का प्रयोग अशुद्ध होगा । १५—किंवदन्त्येषा, यद्दूरक्षापुरुषाः कंचिद् दोषमारोप्यानागसं गोपाल चन्द्रमग्रहीषुः । १६—स संगराद् व्यचालीत् (=व्यह्वालीत्) (स प्रतिसमहार्षीत् सन्ध्याम्), पूर्व तु नैवमचारीत् । १७—अस्मदीये प्राप्ते रात्रिदिवं देवोऽवर्षीत् , सर्वतश्चोदकेन सम्प्लुतम् । १९—रामः श्यामेन संव्यवहारमत्यन्ताय पर्यहार्षीत् (श्यामाद् वैमुख्यमास्थात्) ।

अभ्यास—३०

(लुङ् लकार)

१—ॐ हमने सोम रस पिया है, और हम अमर हो गये हैं । २—ज्यों-तियों का स्वामी सूर्य निकल आया है दिशाएँ चमक उठी हैं और सर्वत्र चहल पहल है । ३—मैंने भरसक प्रयत्न किया, शेष^१ ईश्वर के भरोसे है^१ । ४—मैंने इस मनोरञ्जक पुस्तक का पढ़ना अभी समाप्त किया है । तुम चाहो तो ले सकते हो । ५—देखो, शत्रु की सेना ने पहुँचने से पहिले ही नगर को बारूद^२ से उड़ा^३ दिया है^३ । ६—डस पर चोरी का अभियोग लगाया गया है पर यह अभियोग निराधार है । ७—समाचार मिला है कि भागने वाले शत्रु के द्वारा बन्दी बनाए गये हैं । ८—यद्यपि उसे चेतावनी^४ दी गई है, फिर भी उसने अपने आचरण को नहीं सुधारा^५ । ९—सब ऋषि इकट्ठे हो गये हैं केवल महातपस्वी बाल्मीकि की प्रतीक्षा की जा रही है । १०—कण्व ऋषि आश्रम में नहीं वह शकुन्तला के दुर्भाग्य^६ को टालने के लिये^६ गये हैं । ११—मैं स्नान कर लुका हूँ, अब मैं भोजन करूँगा । १२—शत्रु ने अपने आपको इस घने जंगल में छिपा^७ लिया है । १३—रीछ को देखकर वह श्वास बन्द कर पृथ्वी पर लेट गया । १४—ॐ यह जो पौर्णमासी व्यतीत हुई है उसमें उसने अग्न्याधान किया । १५—कृष्ण ने बचपन में ऐसे २ कौतुक किए, जो बड़े २ लोग नहीं कर पाए ।

१-१ शेषमीश्वरेऽधि । यहाँ 'शेषं पुंवत्' इत्यादि की तरह घञन्त 'शेष' शब्दों में नपुंसक में प्रयुक्त किया गया है । २ आग्नेयचूर्णेन । ३-३ उदसी-पदत् । ४ प्रबोधितः । ५ सम् + आ धा । ६-६ दुर्दैवं शमयितुम् । ७ अगात्, आयासीत्, अग्रमत्, आयिष्ट । ८ तिरस् क्त, गुप् , आ+छद्, गुह् ६-६ परीक्षा

संकेत—इस अभ्यास में कुछ एक 'आसन्नपूर्णभूत' काल की क्रिया के सूचक वाक्य दिये गये हैं। इनमें लुङ् लकार के अतिरिक्त अन्य कोई लकार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे—ज्योतिषां पति रहस्कर उदगात् दिश-श्चाराजिपुः (दिशश्चाभ्राजिपत)। ४—अद्यैवाहं रोचकस्यास्य पुस्तकस्य पाठं समापम् (समापिपम्)। ६—ते तं मिथ्यैव चौर्यैणाभ्ययुक्षत। ७—कान्दिशीकान्प्रागहीद्रिपुरिति वार्ता। ११—अहमस्तापिषम्, इदानीं भोक्ष्ये। १३—सक्रभंवीक्ष्य श्वासं निरुध्य भूतलेऽशयिष्ठ (न्यपादि)। १४—अग्नीनाधित—यहाँ लङ् का प्रयोग नहीं हो सकता। १५—कृष्णो बाल्य एवेदशानि कौतुकान्यकार्पात् यानि महान्तोऽपि कर्तुं नाशकन्।

अभ्यास—३१

(लुङ् लकार)

१—कोलाहल मत करो, इससे श्रेणी की शान्ति में बाधा पड़ती है।
 २—दूसरों^१ की सम्पत्ति को देखकर मत ललचाओ^१ यही पाप का मूल है।
 ३—ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिये अच्छा नहीं। ४—ऐसी बात का मन में ख्याल मत करो इससे मन दूषित होता है। सदा मङ्गल सोचो। ५—शोक^२ मत करो^२, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव पड़ेगा। ६—पढ़ाने के लिये इन लड़कों को किसी सुयोग्य अध्यापक को सौंप दो, ताकि वे कहीं उलटे मार्ग पर न जाएँ। ७—धर्म अर्थ और काम में लगे हुए इस जीवन के सर्वोत्तम प्रयोजन को मत भूलो। ८—भोजन के समय को कभी मत टालो^३ भोजन बेला के टालने में चिकित्सक दोष बतलाते हैं। ९—हे बालक, डरो^४ मत, यह तुम्हारी माता आ गई है। १०—इस प्रकार बात मत करो, इससे डिठाई^४ प्रकट होती है। ११—ऋहे पार्थ ? (अर्जुन) कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। १२—ऋभाई भाई से द्वेष न करे, और बहिन बहिन से। १३—बब्बे^५ का ध्यान रखो, कहीं कुएँ में न गिर जाय^५। १४—इस ऊँचे नीचे भूमि के टुकड़े को समतल कर दो।

ऋयहाँ प्रकारान्तर यह है—तं चौर इति मिथ्यैवाभ्ययुक्षत।

१-१—माऽभिध्यासीः पर सम्पदम्। २-२—मास्म शोचीः, मास्मि, शाब्ः। ३—अति क्रम्। ३—मी-मा मैषीः। ४—घाष्ट्यं, वैयास्य—नपुं०। ५-५—शिशुमवेक्षस्व, मा, कूपे ऽवघात् (मा स्म कूपे पतत्)।

कहीं आने वाले अन्धेरों में टोकरें न खाएँ ।

संकेत—१—शब्दं मा कार्षीः, एष हि श्रेण्याः प्रशमं मनक्ति (एष हि श्रेणीं क्षुभ्नाति) । इम अभ्यास में दिये गये वाक्य निषेध वाचक हैं । संस्कृत में निषेधार्थ मूचक निपात माङ् (मा) है । इस 'माङ्' के योग में केवल लुङ् का प्रयोग होता है । यदि 'माङ्' के साथ स्म भी लगा हो, तो पाणिनि ने लुङ् के अतिरिक्त लङ् के प्रयोग का भी विधान किया है । माङ् के योग में आगम ('अ' अथवा 'आ') का लोप हो जाता है । जैसे—यहाँ 'माङ्' के योग में 'अकार्षीः' के 'अ' का लोप हो गया है । यह नियम लुङ् और लङ् में सामान्यतः लगता है । ४—मैवं स्म मनसि करोः । यहाँ हमने 'मा' और 'स्म' दोनों के योग में लङ् का प्रयोग किया है । सामान्यतः यहाँ लुङ् भी प्रयुक्त हो सकता है । यथा—मैवं स्म मनसि कार्षीः । ६—मा ते विमार्गं गमन्निति समर्पयैतान् सुतान् प्रशस्याय शिक्षकाय (शिशु-करूपाय) । ८—माऽतिक्रमीर्जातु भोजनवेलाम् । १४—इमं नतोन्नतं भूमि-भाग (नतानतं भू प्रदेशम्, बन्धुरं भूविभागम्) समीकुरु, यथागामिन-स्तमसि मा स्म प्रस्त्रालिपुः ।

अभ्यास—३२

(लुङ् कर्मणि)

१—पाण्डवों की उस प्रकार की बढ़ती (वृद्धि) कौरवादिकों से न सही गई । एक दिन गहरी नोंद में सोया हुआ भीम कौरवों द्वारा^१ हाथ और पैरों से बान्धा गया^१, और फिर गंगा के जल में फेंका गया । जब उसे होश^२ आया^२, तब आसानी से ही अपने बन्धनों को काटकर उसने भुजाओं से गङ्गा को तैर कर पार कर लिया । फिर दुर्योधन आदि ने उसे सोए हुए को विषैले काले साँपों द्वारा कटाया, पर इससे भी वह नहीं मरा । विदु के आदेश से रात के समय सुरङ्ग^४ बना पाण्डव लाख के घर में

अवधात्—माङ् के योग से 'अ' आगम का लोप हुआ है । अब उपसर्ग और धा धातु है । धा का कुछ एक उपसर्गों के साथ अकर्मक तथा सकर्मक प्रयोग होता है, संनिघत्ते, अन्तर्घत्ते, तिरोघत्ते, अवघत्ते इत्यादि ।

१-१—हस्तयोः पादयोश्चाबन्धि । २-२—संज्ञा प्रत्यपादि । ३-३—दोभ्यां सन्तीर्य जाह्नवी पारमगमत् । ४—सुरङ्गा स्त्री० ।

बाहर^१ आ गये^१, और पास ही बन में प्रविष्ट हो गये । २—वह संयमी यति राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल द्वारा राजा के सामने लाया गया । ३—‘आकाश में विचरती हुई वाणी द्वारा वसुमती के गर्भ से सब शत्रुओं को नाश करनेवाला राजकुमार निश्चित रूप से पैदा होगा यह सत्य बचन कहा गया । ४—यदि कोई छींक^२ लेने लगे, तो उसे रोका न जाय^३ । ५—प्रणाम करती हुई उस वृद्धा ने आसानी से अपना वृत्तान्त कहा और सबने एकाग्र-चित्त होकर सुना । ६—राजा की मृत्यु का समाचार पाकर सारे नगर में न किसी ने कुछ पकाया, और न किसी ने स्नान किया, नहीं कुछ खाया, सब जगह सारे रोते ही रहे । ७—यह अपूर्व गुण हैं, पिछले समय भी कहीं कहीं ही देखने में आते थे । ८—इस विश्वव्यापी युद्ध में न जाने कितनी जानें नष्ट हुईं । ९—दो बन्दी^४ कचहरी से जेल में वापिस लाये गये । १०—ऋहे राजन् ! तेरा यश रूपी समुद्र कहाँ और सागर कहाँ—सागर तो मुरारि से मथा गया, वेला से नापा गया, मुनि (अगस्त्य) से मुख में निगला गया, लङ्कारि (राम) से बश में किया गया, कपि (हनुमान) से लाँघा गया, और (दूसरे) बन्दरो से सहज में ही पार किया गया ।

संकेत—३—गगनचारिण्यापि वाण्या वसुमतीगर्भस्थः सकलरिपुकुल-मर्दनो राजनन्दनो नूनं सम्भविष्यतीति सत्यमवाचि । ५—प्रणतया तथा वृद्धया सलीलमात्मवृत्तान्तोऽलापि सर्वैश्चावहितमश्रावि । ६—राज्ञो मृत्यु-प्रवृत्तिमुपलभ्य (राजान मुपरतं निशम्य) सर्वास्मिन्नेव नगरे न केनचिदपाचि, न केनचिदस्नायि, न केवचिदभोजि, सर्वात्र सर्वैररोदि । ७—अपूर्वा इमे गुणाः । पुरापीमे क्वचिदेवाद्दक्षत (अदशिषत) । ८—अस्मिन् विपूचि संख्येऽतिसंख्या योद्धारो निरघानिषत (अहंसत) । ९—द्वौ प्रग्रहावधि-करणात् कारां^५ प्रत्यनायिषातांम् (प्रत्यनेषाताम्) ।

अभ्यास—३३

(लुट्लकार)

१—मैं कल यहाँ से चल कर परसों घर पहुँचूँगा और वहाँ से एक

१-१—लाक्षा-गृहात्, जातुषाद् गृहात् । १-१—निरक्रमिषुः । २—प्रब्रुयात् । ३—मा निरोधि । ४—प्रग्रहोपग्रहौ वन्द्याम्— इत्यमरः ।

ससाह के पीछे कश्मीर को चलदूँगा । २—^२हम एक वर्ष वाद यज्ञ करेंगे^२ इस बीच में सब प्रकार की सामग्री जुटा लेंगे । ३—भविष्यद् वक्ता कहते हैं कि देवदत्त के घर पुत्र पैदा होगा, जो शत्रुओं के ऐश्वर्य को हर लेगा । ४—दुर्योधन के साथी उस के 'कपट व्यवहार से तंग आकर' उस से अलग हो जाएँगे । ५—ॐ संसार के पदार्थ चिर तक ठहर कर अन्त में जाएँगे ही । वियोग में क्या अन्तर है जो मनुष्य इन्हें स्वयम् नहीं छोड़ता । ६—जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं वैद्यक सीखने का प्रयत्न करूँगा । वैद्यक बड़े काम की चीज है । ७—स्वतन्त्र भारत अपनी आधुनिक घोर निर्धनता और निरक्षरता को शीघ्र ही मिटा देगा । ८—मुझे निश्चय है कि प्रत्येक अवस्था में तुम सत्य बोलोगे । ९—हा यह कब पहुँचेगा जो इस तरह पौत्रों धरता है ! १०—हा यह कब पढ़ेगा जो इस तरह पढ़ने में ध्यान नहीं देता !

संकेत—लुटलकार से उस भविष्यत्काल की क्रिया का बोध होता है, जो आज न होने वाली हो । जैसे—१—श्वोऽहमितः प्रस्थाताहे, परश्वश्च गृहमासादयिताहे ततश्च सप्ताहात्परेण काश्मीरान् प्रति प्रस्थाताहे २—वर्षात्परेण यष्टास्महे । अत्रान्तरे सर्वान्सम्भारान्कर्तास्महे । ३—आदेशिका आदिशन्ति देवदत्तस्य पुत्रो जनिता, यः शत्रुश्रियं हर्तेति । ८—सर्वावस्थागतस्त्वं सत्यं वक्तासीति दृढो मे प्रत्ययः ।

अभ्यास—३४

(लिटलकार)

१—ॐ कहते हैं कृष्ण ने कंस को मार डाला । २—महाराज समुद्र गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके पुत्र कुमार गुप्त ने भी । ३—जीव सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा ऋषि मुनियों के साथ वेद विषयक बातें करता हुआ अपने कमलासन पर बैठा था । ४—जैसे ही दुष्यन्त कण्व के आश्रम की आस पास की भूमि में प्रविष्ट हुआ, उस की दाहिनी बांह फड़क उठी । ५—असुर देवताओं से ^४स्पर्धा रखते थे, और ^५उन से प्रायः लड़ते रहते थे^५ ।

१—१ अमृतजुना व्यवहारेणोद्वेजिताः । २ स्पन्द, स्फुर् । ३ परिसर पुं०, पर्यन्तभू—स्त्री० । ४ पस्पधिरे । ५-५ तैः संयेतिरे च ।

६—रघु के ब्रह्म पुत्र पार कर चुकने पर प्राग्ज्योतिष् का राजा भय से काँप उठा । ७—क्या तुम कलिंग देश में रहे थे ? नहीं, मैं वहाँ गया तक नहीं । ८—❀ कहते हैं जब मैं पागल थी, तो मैंने उस के सामने बहुत प्रलाप किया । ९—जब राम इस पृथ्वी पर राज्य करता था, प्रजा बहुत प्रसन्न थी । १०—पुराने लोगों का दूसरी बातों में विवाद होने पर भी पुनर्जन्म के विषय में कोई मत भेद नहीं था । ११—दिलीप ने रघु को राज्य सौंपा, और स्वयं जंगल को चला गया । १२—❀ जब निकुम्भ के प्राण निकल गये तो प्रसन्न हुए वानरों ने शोर मचाया, दिशायें गूँज उठीं, पृथिवी काँप सी उठी, आकाश मानो गिर गया और राक्षसों के सेनादल में भय समा गया । १३—निर्वासित किये हुए पाण्डव काम्यक, द्वैत आदि बनों में रहे और तेहरवें वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया ।

संकेत—लिट्कार उस भूत कालिक क्रिया को कहता है जो आज से पहले समाप्त हो चुकी हो, और जिसे वक्ता ने स्वयं न देखा हो । यथा—१—जघान कंसं किल वासुदेवः । २—समुद्रगुप्तः सम्राडश्वमेधेनेजे (ईजे) । तदात्मजः कुमार गुप्तोऽपि । यहाँ “अश्वमेधेन” में तृतीया के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए † । ३—भूतभावनः परमेष्ठी मुनिभिर्ऋषिभिश्च समं ब्रह्मोद्याः कथाः कुर्वाण्यविष्टरं समासाञ्चक्रे । उत्तम पुरुष में भी लिट् का व्यवहार होता है । यदि पूर्ण रूप से किसी बात का इनकार (अत्यन्तापलाप) किया जाये, या कहनेवाले को उत्तेजना अथवा उन्माद के कारण अपने किये काम का ध्यान न रहे तो लिट् का प्रयोग निर्बाध होता है । देखिये—“क्या तुम कलिंग देश में रहे थे ? इस प्रश्न के उत्तर में ‘नहीं, मैं वहाँ गया तक नहीं’ इस वाक्य में पूर्ण इनकार पाया जाता है । उपर्युक्त दोनों वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार होगा—७—कलिङ्गेष्ववासीः किम् ? नाहं कलिङ्गाङ्गम ।

१ कम्प्, व्यथ्, उद् विज् । २-२ वसुमतीं शशाश । ३ नन्द । ४ अर्पयाम्बभूव. न्यास । ५ प्रतस्थे । ६ ऊषुः (वस् भ्वा० प०) । वनान्यध्युषुः । ७-७ अवरुद्धा विचेरुः ।

† अश्वमेध को फलकी सिद्धि में करण मान कर ऐसा प्रयोग होता था । इस प्रयोग को सूत्रकार भी अपने ‘करणे यजः’ (३।२।८५) इस सूत्र से प्रमाणित करते हैं ।

यहाँ 'कलिङ्ग देश विशेष का नाम होने से बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार—'जब मैं पागल थी तो कहते हैं मैंने उस के सामने बहुत कुछ बकवास किया' इस वाक्य में कहने वाला पागलपन के प्रभाव से अपनी कही हुई बात को नहीं जानता। इस का अनुवाद यह है—बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम् । १०—अन्यत्र विवदमाना अपि न प्रेत्यभावे व्यूदिरे प्राञ्चः (व्यूदिरे=वि ऊदिरे = वद् लिट्) ।

अभ्यास — ३५

(णिजन्त)

१ रसोहृण को मरे लिये चावल पकाने को कहो आज पेट में कुछ गड़बड़ है । २—अपने नौकर को ग्राम भेज दो, और उम के हाथ अपने बड़े भाई को मन्देश भेज^१ दो । ३—वह रात दिन तप द्वारा अपने शरीर को क्षीण^२ कर रही है । न जाने वह किम लक्ष्य से प्रेरित हुई है । ४—उसे मेरे लिये एक हार गूँथने के लिये कहो । ५—बच्चे को आराम से सुला दो, आज दिन भर यह सोया नहीं । ६—ॐ वृक्ष अपने ऊपर तेज धूप सहारता है और छाया के लिये उस का आश्रय लेने वाले लोगों के ताप को दूर करता है (शम्-णिच्) । ७—श्रेष्ठ मुनिजन कन्द और फलों द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं । ८—इन चावलों को धूप में सुखा लो ऐसा^३ न हो कि इन्हें कीड़ा लग जाए^३ । ९—मां बच्चे को दूध^४ पिलाती है^४, और चाँद दिखाती है । १०—यदि मैं मोहन से यह काम न करवा लूँ, तो^५ बात ही क्या^२ ? ११—दिव्यचक्षु प्राप्त हुआ संजय धृतराष्ट्र को राजभवन में ही युद्ध का सारा हाल सुना दिया करता था । १२—यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा सच्ची^६ है, तो हे राजन् राम को आज ही ब्रह्म में भेज दो । १३—जब वह यहाँ आए, तो मुझे यह बात अवश्य याद^७ दिलाना^६, देखना, कहीं भुला न देना । १४—चपरासी मेरी डाक मेरे मकान पर प्रतिदिन सायंकाल पहुँचाता^८ रहेगा^८ । १५—ॐ पक्ष में तीन बार केश, मूँछ, लोम और नखों को कटवाये, अपने^९ आपकी अधिक सजावट न करे^९ ।

१ हृ+णिच् । २ ग्लै+णिच् । ३--३ माऽत्र कीटानुवेधो भूत् । ४-४ शिशुं घापयते । घे (ट्) भ्वा० स्तन्यं पाययते । ५-५ तदा किं नु मया कृतं स्याद् । ६ अविताया । ७-७ स्मारय । ८-८ अनन्तगयं हार-यिष्यति । ९-९ नामानमतिमात्रं प्रघाघयेत् ।

संकेत - गिजन्त क्रियाओं को 'प्रेरणार्थक' भी कहते हैं। इन क्रियाओं में "प्रेरणा" शिच् प्रत्यय का वाच्यार्थ है। जब कोई अन्य व्यक्ति 'कर्त्ता' को अपने काम में प्रेरणा करता है तो धातु से शिच् प्रत्यय आता है। शिच् सहित धातु की भी धातु संज्ञा ही होती है। जैसे—रसाइये को मरे लिये चावल पकाने को कहो—'सूदेन समौदनं पाचय। सूदं प्रेरय समौदनं पचेति।' यह दूसरी वाक्य रचना यद्यपि सरल है तथापि गिजन्त का स्थान नहीं ले सकता विषय भेद होने से। जहाँ क्रिया करते हुए पुरुष (कर्त्ता को) प्रेरणा की जाती है वह शिच् का विषय है। जहाँ क्रिया में अवृत्त पुरुष को अवृत्त कराना होता है वह लोट् वा लिङ् का विषय है। अतः ओदनं पाचयति देव-दत्तेन यज्ञदत्तः—यहाँ 'पचन्तं देवदत्तं प्रेरयति' इति पाचयति ऐसा विग्रह संगत होता है। कई बार हमें अकर्मक धातुओं से सकर्मक क्रिया का बोध कराने के लिये गिजन्त का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे—वह रात दिन तप द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर रही है। "साऽहर्निशं तपोभिर्ग्लपयति गात्रम्।" यहाँ 'ग्लपयति' अकर्मक क्रिया 'ग्लायति' का गिजन्त प्रयोग है। मुनिपुङ्गवाः क्लेः कन्दैश्च यापयन्ति (वृत्ति कल्पयन्ति)। १२—राजन् यदि सत्यमन्धो-ऽसि, अर्धं च रामं वनं प्रधाजय।

अभ्यास—३६

(गिजन्त)

१—❧ वस्तुओं को कोई आन्तरिक कारण (परस्पर) मिलाता है प्रेम वाहिरी कारणों पर आश्रित नहीं। २—सूर्य कमलों को विकसित करता है और कमलानियों को बन्द कर देता है। ३—पम्पा का दर्शन मुझ दुःखी को भी सुख^१ का अनुभव कराता है^१। ४—नौकर घाम से सताए हुए स्वामी को ठण्डे जल से स्नान कराते हैं। ५—पुरोहित अग्नि^२ को साक्षी करके^२ वधू का वर से मेल कराता है। ६—वसन्त में कोयलों का कलरव घर^३ से दूर गये हुए^३ पुरुषों के मन को उत्सुक^४ बना देता है^४। ७—मदिरा पान पुरुष को उन्मत्त कर देता है, उसके पैरों को लड़खड़ा देता है, और आँखों को धुमा देता है। ८—राजा ने द्वार पाल को कवियों को अन्दर लाने की आज्ञा दी। ९—

१-१ सुखयति । मया सुखमनुभावयति । २-२ अग्निं साक्षिणं कृत्वा । ३-३ विप्रोषित—वि० । ४-४ उत्सुकयति ।

लक्ष्मण ने सीता को विश्वास^१ दिलाया कि यह राम की आवाज^२ नहीं है । १०—ठण्डी वायु कई वृक्षों के फलों को पका^३ देती है और कई बेलों को सुरभा देती है । ११—मन्त्री ने शत्रु के यहाँ से आए हुए पत्र को पहले स्वयं^४ पढ़ा^५ और पीछे महाराज को सुनाया^६ । १२—सीता ने तालियाँ बजा बजा कर अपने प्यारे मोर को नचाया । १३—राजा ब्राह्मणों को सभा में बुला और उनकी प्रतिष्ठाकर कोषाध्यक्ष से उन्हें धन दिलाता है^७ । १४—गायनाचार्य ने लड़कियों का गाना शुरु कराया । १५—विश्वामित्र ने राम का जनक की पुत्री सीता से विवाह कराया । १६—सम्राट् अशोक ने यात्रियों के आराम के लिये सड़कों पर जगह २ कूँ^८ और प्याऊ लगा दिये, और सरायें बनवा दीं^९ । १७—सेनापति ने राष्ट्र के नवयुवकों को आनेवाले संकटों से सचेत किया और सेना में भरती होने की जोर से प्रेरणा की । १८—मैं जुलाहे से एक चादर बुनवाऊँगा और दरजी से एक चोला सिलवाऊँगा । १९—आप अपने भाषण को समाप्त कीजिये, श्रोतृगण ऊत्र गये हैं ।

संकेत—२—सविता पङ्कजान्युन्मीलयति (विकासयति, बोधयति) कुसु-
दानि च निर्मीलयति (संकोचयति) । ४—धर्मात् स्वामिनं भृत्याः शिशिरै-
र्वारिभिः (हिमाभिरङ्गिः) स्नपयन्ति (स्नापयन्ति, प्रस्नापयन्ति) । ७—सुरा
सुरापानं (सुरापानम्) पुरुषमुन्मादयति, तस्य पदानि स्वलयन्ति, नयने च
घूर्णयति । १४—संगीताचार्यो दारिकाभिर्गानमारम्भयत् । (दारिका अगा-
पयत्) । १५—कौशिको (गाधिसुतः) रामेण सीतां पर्यणाययत् । १७—
सेनानी राष्ट्रयुवजनमेध्यन्तीभिः प्राबोधयत् सेनां च समवेतेति च प्रैरयत् ।
१८—अहं तन्तुवायेन (कुविन्देन) बृहतिका वाययिष्यामि, तुन्नवायेन
(सौचिकेन) च चोलकं (कूर्पासकं) सेवयिष्यामि । १९—अवसायय सपदि
स्वा गिरः, उद्विजन्ते श्रोतारः ।

१ भ्रद् घा + णिच् । २ स्वर संयोगः । ३ परिणमयति । ४-४
अन्ववाचयत् । ५ अवाचयत् । वाचन और अनुवाचन के अर्थों में यही भेद
है । ६-६ कोषाध्यक्षेण तेभ्यो धनं दापयति । ७-७ उदपानानि प्रपा आ-
सथांश्च निरवर्तयत् । 'उदपानं तु पुंसि बा' इस अमरवचन के अनुसार 'उदपान'
पुंल्लिङ्ग भी है ।

(१२६)

अभ्यास—३७

(सन्नन्त)

१—ॐ हजारों मनुष्यों में कोई एक भाग्यवान् ब्रह्म की जिज्ञासा करता है । और जिज्ञासा करने वालों में भी कोई एक उसे तत्त्वतः जानता है । २—हम आपके भाषण को सुनने के लिये उत्सुक हैं । हमारे लिये धर्म का व्याख्यान कीजिये । ३—संस्कृत पढ़ने के पीछे मुझे दूसरी भाषाओं के पढ़ने की थोड़ी^१ ही इच्छा रह गई है^१ । सच पूछो तो इस दैवी वाणी के रस को पीकर मुझे अमृत पीने की भी चाह नहीं रही । ४—उसकी बाँह फकड़ती है, उसकी आँखें लाल^२ हो रही हैं^२ निश्चय^३ ही वह लड़ाई के लिये छुटपटा रहा है^३ । ५—वे भाग्यशाली हैं, जो मनुष्य मात्र की सेवा कर यश को प्राप्त^४ करना चाहते हैं^४ । ६—जब कोई भूकम्प देवता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् संसार का संहार^५ करना चाहता है । ७—तुम्हारा अधर फड़क रहा है । तुम कुछ पूछना चाहते हो ? निःशङ्क^६ होकर कहो । ८—जब^६ ब्रह्मा ने कई प्रकार की प्रजा बनाने की इच्छा की^६ तो उसका आधा शरीर नर रूप और आधा नारी रूप हो गया । ९—क्या तुम दूध पीना चाहते हो । यह तुम्हारी यात्रा^७ की थकावट^७ दूर कर देगा । नहीं, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ । १०—मैं यह सिद्ध करना नहीं चाहता कि विधवा-विवाह शास्त्रानुकूल है, परन्तु यही कि आज कल यह आवश्यक है । ११—अगर तुम बोलना चाहते हो तो मैं तुम्हें समय दूँगा । ११—ॐ हमारे वर्णन का विषय वह महात्मा (गान्धी) है, जो उन स्वार्थी लोगों को जो उस से वृथा द्वेष करते हैं और जो दूसरों के धन से अपना पेट पालते हैं, प्रेम से जीतना चाहता है । १२—मैं यहाँ पाँच दिन और ठहरना^८ चाहता हूँ । फिर यहाँ से अमृतसर को चलने^९ की इच्छा है । १३—मैं^{१०} बहुत थक गया हूँ^{१०} । मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ अतः नौकर से कहिये बिस्तर लगा दे । १४—जब मैंने एक रीछ

१-१ अल्पपाऽधिजिगांसा । २-२ रज्यतः । ३-३ नूनं बलबद् युयुस्वते ।
४-४ ईप्सन्ति, जिप्सन्ते । ५ संजिहीर्षति । ६-६ यदा स्वयंभूर्विविधाः प्रजाः
सिसृक्षुरभूत् (' ' ' प्रजा असिसृक्षत्) । ७-७ अध्वखेद--पुं० । ८ तिष्ठासामि ।
९-९ प्रतिष्ठसे । १०-१० सुहृद् भ्रान्तोऽस्मि ।

को मुझे मारने के लिए आते देखा तो मैं भूमि पर मरे हुए का बहाना कर के सीधा लेट गया ।

संकेत—सन्नन्त क्रिया से 'जाना चाहता है', 'सुनना चाहता है', इत्यादि संयुक्त क्रियाओं का बोध होता है । जब चाहनेवाला और जानेवाला वा सुननेवाला एक ही हो । ऐसा समझो कि सन्नन्त क्रिया-पद धातु विशेष के तुमुन्नन्त और इष् धातु के तिङन्त रूप के स्थान में आता है । धर्म को सुनना चाहता है = धर्म श्रोतुमिच्छति । सन्नन्त आशंका (भय) के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है । जैसे—चूहा मरने ही वाला है = मुमूर्षति मूषकः । नदी का किनारा गिरने ही वाला है = पिपतिषति (पिप्सति) नद्यःकूलम् । ७—स्फुरति तेऽधरः । त्वं किमपि पिपृच्छिषसि । (विस्रब्धं = निर्भयं) ब्रूहि । १०—नाहं विधवा पुनरुद्विवाहस्य शास्त्रदृष्टतां प्रसिषाधयिषामि, † किन्तर्ह्यद्यत्वेऽस्यापेक्षाम् । (अथवा—यदहं प्रसिषाधयिषामि सा विधवापुनरुद्विवाहस्य शास्त्रदृष्टता न भवति, किन्तर्ह्यद्यत्वेऽस्यापेक्षा) ११—यदि विवक्षसि, अबसरं ते दास्यामि । १४—यदाहं मां जिघांसन्तमृक्षमपश्यम्, तदाहं मृतो नाम^२ भूत्वा भूमौ दण्डवन्निपतितः ।

अभ्यास—३८

(सन्नन्त)

१—हे राजन् ! यदि गौरूपी इस पृथ्वी को दोहना चाहता है, तो अब प्रजा की बल्लड़े के समान पुष्टि कर । २—ऋजिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हम जीना नहीं चाहते हैं वे सामने ही खड़े हैं । ३—तुम्हें भ्रष्टात्मा ने ईश के दोषों का वर्णन करना चाहते हुए भी उसके प्रति एक बात अच्छी कह दी है । ४—जो दुर्जन को वश में करने की इच्छा करता है वह कौतुक के साथ निश्चय से हलाहल (विष) का पान करना चाहता है, कालानल को इच्छा-पूर्वक चूमना चाहता है, और साँपों के राजा को आलिंगन करने का यत्न करता है । ५—विधाता ने मानो कि वह सौन्दर्य को एक स्थान पर देखना^३ चाहता हो,^३ प्रयत्न पूर्वक उसका निर्माण किया । ६—दूसरे दिन

१—अशयिषि (छुड़) † विष्- विच्- सन् । 'स्तौतिष्योरेव...' इस सूत्र से यहाँ अभ्यास के 'स्' को षत्व हुआ । २—२—नामेत्यलीके । 'नाम' अभ्यय है । अर्थ है झूठ । ३—३ दिदक्षत इति ।

अपने अनुचर के भाव को जानना चाहती हुई (वसिष्ठ) मुनि की गौ ने हिमालय की गुफा में प्रवेश किया । ७—ॐमन्द बुद्धिवालोंपर अनुग्रह करने की इच्छा से मल्लिजनाथ कवि ने कालिदास के तीनों काव्यों की विशद रूप से व्याख्या की है । ८—यदि तू राजाओं की कृपा दृष्टि चाहता है तो तू उनकी इच्छा के अनुकूल आचरण कर । ९—अपनी प्यास को बुझाने^१ की इच्छा से^१ एक बार एक लूमड़ी किसी पुराने कुएँ पर गई, और पानी की सतह तक पहुँचने का यत्न करती हुई उस कुएँ में गिर पड़ी । १०—मैं तुम्हें मिलना^२ चाहता हूँ^२ और तुम्हें अपनी यात्रा का सविस्तर वर्णन करना चाहता हूँ । ११—उन्होंने ने युद्ध को टालना चाहा, परन्तु फिर भी शान्ति प्राप्त न कर सके । १२—मोक्ष चाहनेवालों के लिए यह (व्याकरण शास्त्र) सीधा रात्रमार्ग है । १३—ॐ मनुष्य कर्म करता हुआ ही सौ बरस जीने की इच्छा करे । १४—इस लोक में सब कोई सुख को प्राप्त^३ करना चाहता है^३ । और दुःख को छोड़ना^४ चाहता है । १४—जो समृद्ध होना चाहते हैं^५ उन्हें नियम-वान् और पवित्र होना चाहिये और बड़ों के साथ विनय से बर्तना चाहिये ।

१ - राजन् ! क्षितिधेनुमेतां दुबुक्षसि चेद् वत्सवदिमाः प्रजाः पुषाय । ८—
राज्ञोऽनुग्रहं लिप्ससे चेत् तच्छन्दमनुवर्तस्व । ११—ते युद्धं पर्यजिहीर्षन् तथा-
पि शमं स्थापयितुं नाशक्नुवन् । १४—ये समीर्त्सन्ति तैर्नियतैः प्रयतैश्च
भवितव्यम् । गुरुषु च विनयेन वर्तनीयम् ।

अभ्यास — ३६

(सोपसर्गक धातुएँ)

(भू=होना)

१—तुम शीघ्र ही वियोग की पीड़ा को अनुभव करोगे, (अनु+भू) ।
२—ॐपिता को अपनी पुत्रियों पर पूर्ण अधिकार है^६ (प्र+भू) । ३—मैं

१—१ तुष्णा चिच्छिरमन्ता । २—ददत्ते स्वाम् । ३—अभीषति ।
४—४—जिहासति । ५—ममारुहान्त, समार्दिषन्ति । ऋष दिवा०—वन् ।
६—दुहितुः प्रभवति—यहाँ आधिकार अथ में दुहितु शब्द से शैषकी
षष्ठी हुई है । इसी प्रकार सञ्जनापत चेतसः प्रभवति—यहाँ 'चेतस' से
षष्ठी होती है । पर पर्याप्त वा अलमथ में प्रभवति का प्रयोग होने पर चतुथ

तुम्हारी सहायता के बिना पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता (न, प्र+भू) चाहे कितना ही यत्न क्यों न करे । ४—यह पहलवान दूसरे पहलवान से टक्कर ले सकता है (प्र+भू) । ५—ऋगंगा हिमालय से निकलती है (प्र+भू) विष्णु चरण से निकलती है ऐसा पौराणिक कहते हैं । ६—पुत्र जन्म की अत्यधिक प्रसन्नता से वह फूला न समाया (प्र+भू) । ७—वे बड़ी बहादुरी से लड़े पर हार गये (परा+भू) । ८—निर्धनों का हर स्थान पर तिरस्कार किया जाता है (परि+भू कर्मणि) । ९—जब मैं उसके भाषण पर विचार करता हूँ (परि+भावि) तो मुझे इसमें बहुत गुण दिखाई नहीं देते । १०—तुम्हारी युक्ति में मैं कोई दोष नहीं देखता हूँ (वि+भावि), तुम ठीक ही कह रहे हो । ११—हाँ, शेर का बच्चा हाथियों के सरदार से वशीभूत किया जा रहा है (अभि+भू) । १२—मंगलों के निवासस्थान, गुणों के निधान तुम्हारे जैसे इस संसार में विरले ही जन्म लेते हैं (सम्+भू) । १३—तत्त्वज्ञानी ऋषि नाशवान् देह को त्याग देने पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं (सम्+भू) । १४—इस वर्तन में एक प्रस्थ चावल समा सकते हैं (सम्+भू) । १५—ऐसे रूप की उत्पत्ति (सम्+भू) मनुष्य (योनि) में कैसे हो सकती है । १६—बिडाल वृत्ति वाले धर्म-ध्वजी वेद को न जानने वाले ब्राह्मण का वाणी से भी सत्कार न करे (सम्+भावि) । १७—सब कष्ट निर्धनता से ही पैदा होते हैं (उद्+भू) । १८—चन्द्रमा के निकलने पर (आविर्+भू) सब अन्धकार दूर हो गया । १९—सूर्य के छिपते ही जंगली जानवर अपना शिकार खोजने के लिये निकल पड़ते हैं (आविर्+भू) और प्रातः अन्धकार के साथ ही छुप जाते हैं (तिरो+भू) ।

संकेत—अभ्यास ३९ से अभ्यास ५० तक प्रत्येक अभ्यास में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाना चाहिये । एक एक क्रियापद के साथ कोष्ठकों में दिये गये भिन्न भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से भिन्न भिन्न अर्थों का बोध होता है । इस प्रकार जहाँ विद्यार्थी अनेक धातुओं के अर्थ और रूपावली को कण्ठस्थ करने के आयास से बच जाते हैं, वहाँ उपसर्गों के योग से वाक्यों में सौष्ठव

का ही प्रयोग व्यवहारानुगत है—अयं मल्लो मल्लान्तराय प्रभवति । कहीं कहीं विभक्ति विशेष की अपेक्षा नहीं होती—विश्वासात्प्रभवन्त्येते । ये लोग विश्वास से शक्तिमान हो जाते हैं) ।

और चमत्कृति आ जाती है। तथा साधारण धातुओं के प्रयोग की अपेक्षा भाषा मँझी हुई वा परिष्कृत मालूम होती है। ५—हिमवतो गङ्गा प्रभवति (उद्गच्छति)। ६—सुतजन्मजन्मा गुरुस्तस्य प्रहर्षो नात्मानि प्रबभूव। ९—यदाहं तस्य भाषितं परिभावयामि तदा नात्र बहुगुणं विभावयामि। १०—नाहं ते तर्के दोषं विभावयामि (उत्पश्यामि)। अञ्जसा वक्षि।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सम् पूर्वक भू 'मिलने' व धारण करने के अर्थ में सकर्मक है। मिलने अर्थ में अकर्मक भी है^२। परा भूर्वक भू अकर्मक है^३। परि + भू नित्य ही सकर्मक है। १४—इदं भाजनं तण्डुलप्रस्थं संभवति।

अभ्यास — ४०

(कृ = करना)

भारतवासी दासों की तरह अंग्रेजों की भाषा, व्यवहार और वेशभूषा की नकल करते हैं (अनु+कृ)। यह उनकी मन्दमति का लक्षण है। २—यह पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई है, निश्चय से यह विद्यार्थियों के लिये बहुत लाभ की होगी (उप+कृ)। ३—तुम्हें अपने शत्रु का भी अपकार नहीं करना चाहिये (अप+कृ), सज्जनों के अपकार की तो बात ही क्या। ४—अच्छों की संगति पाप को ऐसे दूर भगाती है (अप+आ+कृ) जैसे—सूर्य अन्धरे को। ५—ब्राह्मण राजा की भेंट (प्रतिग्रह) अस्वीकार करता है (परा+कृ) क्योंकि वह सोचता है कि इसकी स्वीकृति पापमय होगी। ६—जो रामायण की कथा करता है (प्र+कृ) वह जनता की बहुत बड़ी सेवा करता है (उप+कृ)। ७—शास्त्र शूद्रों को वेदों के अध्ययनादि का अधिकार नहीं देता (अधि+कृ)। ८—जो शारीरिक शत्रुओं को वश में कर लेते हैं (अधि+कृ-आ०) वे ही सच्चे विजेता हैं। ९—काम वासना मन में विकार पैदा करती है, (वि+कृ-र०)। १०—अपना पेट भर विद्यार्थी व्यर्थ चेष्टा करते हैं (वि+कृ-आ०)। ११—छठीक ढंग से सिधाए हुए

१—इस अर्थ को मा (अदादि अकर्मक) से भी कहा जा सकता है। प्रबभूव =ममौ। २—दिवं बोधसं वा मिथु न्येनया स्यामिति तां सम्भव-र० १।७।४।

१॥ सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा—शिशु० २। १००॥

३—तेऽसुरा हेलथो हेलथ इति कुर्वन्तः पराबभूवुः। महाभ,ष्य।

घोड़े बहुत अच्छे दौड़ते हैं (वि + कृ'—आ०) । १२—वह एक कपड़े के टुकड़े पर चित्र बनाता है (आ + कृ) । १३—यदि वह शराब पीता ही रहेगा, तो निश्चय ही विरादरी से बाहर कर दिया जायगा (निरा + कृ) । १४—दुष्यन्त ने निर्दोष शकुन्तला का परित्याग कर दिया (निरा + कृ) । १५—संस्कृत के पढ़ने से मन पवित्र होता है (सम् + स् + कृ) और विशेष कर उपनिषद् आदि आर्ष ग्रन्थों के पाठ से । १६—मैं नहीं जानता कि इस दोष का कैसे प्रतिकार किया जाए (प्रति + कृ) । १७—ऋरोहिणी नक्षत्र में वेद का संस्कार पूर्वक पाठ प्रारम्भ करे । (उप + आ + कृ) ।

संकेत—१—भरतवर्षीया दासवदनुकुर्वन्त्याङ्गलानाम् भाषां चर्यां परिकर्म च ॥ यहाँ भाषा आदि के साथ षष्ठी भी साधु होगी । ६—स खलु साधिष्ठमुपकरोति लोकस्य यो रामायणं प्रकुरुते । ७—ते नाम जयिनो ये शरीरस्थान् रिपनधिकुर्वते । ९—चित्तं विकरोति कामः । १०—श्रोदनस्थ^१ पूर्णाश्छात्रा विकुर्वते । ११—विकुर्वते सैन्धवाः (= साधु दान्ताः शोभनं वल्गन्ति) । १२—पटे मूर्तिमाकरोति । १३—यदि स पानं प्रसञ्जयति ध्रुवं निराकरिष्यते । निराकृत का अर्थ जाति पंक्ति ते बाहर निकाला हुआ है । निराकृति^२ उसे कहते हैं जिसने स्वाध्याय (वेद पाठ) छोड़ दिया है । वह भी आकृति (जाति) से बाहर किया होता है ।

अभ्यास—४१

(ह = ले जाना)

१—उसकी छाती में तीर लग गया (प्र + ह) २—ऋ हे सौम्य ? यज्ञ की लकड़ियाँ ले आओ मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा । ३—यह मौलिक पुस्तक नहीं है, यह दूसरी पुस्तकों से उद्धरण संगृहीत करके (सम् + आ + ह), बनाई गई है (रच , प्र + नी) । ४—अपने भाषण को संक्षिप्त करके (सम् + ह) सुननेवाले उतावले हो रहे हैं । ५—गौओं को इकट्ठी करो, आओ घर को लौटें । ६—चन्द्रमा चाण्डाल के घर से चाँदनी को नहीं ढटाता (सम् + ह) । ये दो बालक सीता से मिलते-जुलते हैं (अनु + ह^३) ८—घोड़े अपने बाप

१—इस षष्ठी के प्रयोग के विषय में तृतीय अंश में षष्ठी उपपद-विभक्ति के संकेतों को देखो । २—निःस्वाध्यायो निराकृतिः इति श्लोकः ।

३—अनु ह सकर्मक है । यहाँ सीता शब्द से द्वितीया विभक्ति होगी ।

४—आ ह का अर्थ 'लाना' है । यद्यपि 'द्वार' (कृदन्त) का अर्थ

की चाल की नकल करते हैं (अनु+ह, आ०) । ९—पथ्य का सेवन करना चाहिये, कुपथ्व का कभी नहीं (अभि+अव+ह) । १०—जो देश अव बिहार कहलाता है वह पहले कभी बौद्ध बिहारों से भरपूर था, इसीलिये इसका ऐसा नाम पड़ा । ११—जो प्रातःकाल सैर करता है (वि+ह) वह प्रायः स्वस्थ रहता है । १२—अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन कर उसने सावन भादों की तरह आँसू बहाये (वि+ह) । १३—दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिये (परि+ह) इससे बढ़ कर पातित्य का साधन नहीं । १४—उसने ठीक कहा है (वि+आ+ह) कि बहुत से दैववादी मनुष्यों का नाश हो गया । १५—चोर जो कुछ हाथ लगा ले कर भाग गये (अप+ह) १६—बाजार जाकर फल वा शाक ले आओ (आ+ह) १७—पुत्र को चाहनेवाला पुरुष^१ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों के आदेशानुसार बडा यज्ञ^२ करे (आ+ह) । १८—चिकित्सक भोजन के उचित समय के लांघ जाने पर दोष बतलाते हैं (उद्+आ+ह) । १९—क्या वह मूढ़ मेरे साथ कार्य के विनिमय से व्यवहार करता है (वि+अव+ह) । २०—यद्यपि ऐसा है फिर भी राजा की कृपा दृष्टि इसे प्रधानता दे रही है (उप+ह) ।

संकेत—४ - संहियतां वचः (संहर वाचम्) त्वरमाणमानसाः सम्प्रति सामाजिकाः । ५—सहियन्तां गावः, गृहं प्रति निवर्तावहे । ८—पथ्यमभ्यवहरेन्नापथ्यं कदाचन । १०—यः कल्ये विहरति स कल्यो भवति । १२—परिहर खलसम्पर्कम्, (वर्जय दुर्जनसंसर्गम्) नातः परं पातित्यकरमस्ति । १३—दैष्टिकताऽनीनशद्बहूनिनि सुष्ठु तेन व्याहारि (दैष्टिकतयाऽनशन बहव इति साधु तेन व्याहृतम्) ।

अभ्यास—४२

(गम्=जाना)

१—नहीं मालूम यह आगन्तुक यहाँ किस लिये आया है (आ+गम्) । इसकी आकृति शङ्का उत्पन्न करती है । २—वह ऐसे देश में गया है, जहाँ से कोई यात्री कभी लौटा नहीं (प्रति+आ+गम्) । ३—उपाध्याय के

भोजन है, 'आहरति' जाता है इस अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त होता है । हों विजन्त आहारयति 'जाता है' इस अर्थ का बोधक है ।

१—पुत्र कामः । २—यश, सब, अध्वर, मख, ऋतु, मन्यु—पुं० ।

पास जाओ, और व्याकरण पदों (आ + गम् + णिच्) व्यर्थ मत घूमो । ४—ऋ संयोग के बाद वियोग भी होता ही है । ५—गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं (सम् + गम्, आ०) और क्या ही दृश्य बनाती हैं । ६—वह अपने गाँव को जाता हुआ (सम् + गम्—पर०) रास्ते में बीमार हो गया । ७—अयोध्या के लोगों^१ ने बनवास^२ जाते हुए^२ राम का पीछा किया (अनु + गम्) और उसे वापिस लाने का भरसक यत्न किया । ८ सूर्य निकल रहा है (उद् + गम्) और अँधेरा दूर हो रहा है (अप + गम्) । पक्षी इकट्ठे होकर कलरव करते हैं । ९—लंका से लौटते हुए राम को लिवा लाने के लिये (प्रति + उद् + गम्) भरत आगे बढ़ा । १०—वह घर से बाहिर गया है (निर् + गम्) मुझे मालूम नहीं वह कहाँ होगा । ११—वीर वापिस आ गया है (परा + गम्) मुझे उसका सामना करने दो । १२—श्रीमतीजी को मैं कौन व्यक्ति जानूँ (अव + गम्) । १३—जिस प्रकार मनुष्य कुदाली से खोद कर जल प्राप्त कर लेता है (अधि + गम्) उसी प्रकार परिचर्याशील शिष्य गुरु गत विद्या को प्राप्त करता है । १४—हे माणवक^३ ! जरा ठहरो^३ (आ + गम् + णिच्—आ०) गुरुजी अभी आते हैं । १५—अपने पिता के पास जाओ (उप + गम्) और उससे अनुज्ञा प्राप्त करो । १६—समुद्र गृह में सखी सहित मालविका को बैठा कर मैं आप का स्वागत करने आया हूँ (प्रति + उद् + गम्) । १७—हमारे घर आज एक पाहुना^४ आया है (अभि + आ + गम्) । उसका^५ आतिथ्य सत्कार करना है । १८ क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकृत है (अभि + उप + गम्) ? हाँ जी, हमारा इस से कोई विरोध नहीं । १९—इस जन्म में मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त करता है (सम् + अधि + गम्) ।

संकेत—३—उपाध्यायमुपसीद्, ततश्च व्याकरणमागमय । अनर्थकं च मा परिकाम । ६—नंवसथं संगच्छन्सोऽन्तराऽरुज्यत । सम् + गम्, जब सकर्मक हो, तो इससे परस्मैपद प्रत्यय आते हैं । ८—रविस्द्गच्छति, तमश्चापगच्छति । संगत्य च क्वणन्ति कलं शकुन्तयः । ९—लङ्कातो निवर्तमानं श्रीरामं भरतः

१—आयोध्यकाः । २—२ वनं प्रव्रजन्तम् । ३—३ आगमयस्व तावन्माणवक ! आगमयस्व = कञ्चित् कालं सहस्व = प्रतीक्षा करो । यहाँ 'कर्म' के प्रयोग न करने की ही शैली है ।

४—प्राधुणिकः । ५—५ स आतिथ्येन सरकरणीयः ।

प्रत्युज्जगाम (प्रत्युद्ययौ) । १४—आगमयस्व तावन्माणवक, अभित आग-
च्छन्ति गुरुचरणाः । १७—अस्मद्गृहानद्यैकोऽभ्यागतोऽभ्यागमत् । १८—
अपीमं प्रस्तावमभ्युपगच्छसि (अभ्युपैषि) । ननु नाहमेनं विरुन्धे ।

अभ्यास—४३

(चर् = चलना)

१—जो धर्म का पालन करता है (चर्) उसे धार्मिक कहते हैं । जो अधर्म करता है उसे अधार्मिक कहते हैं और जो धर्म नहीं करता उसे अधार्मिक कहते हैं । २—*जब तक पृथ्वी पर पर्वत स्थिर रहेंगे, और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण की कथा लोगों में प्रचलित रहेगी । ३ पार्वती प्रति दिन शिव की सेवा करती थी (उप + चर्) यह जानती हुई भी कि शिव को पति रूप में प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है ।

४—*यह बिलकुल ठीक है कि उसे महारानी की उपाधि से सम्मानित किया जाय (उप + चर्) । ५—उस स्त्री का इलाज (उपचार) सावधानी से होने दो कदाचिद् स्वस्थ हो जाय । ६—जो कोई भी अपराध करेगा (अप + चर्) उसे दण्ड दिया जायगा, पक्षपात नहीं होगा । ७—यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सज्जनों का अनुसरण करो (अनु + चर्) । ८—नौकर ने मालिक की देर तक सेवा की (परि + चर्) और मालिक ने प्रसन्न होकर (परितुष्य, प्रसद्य) उसे बहुत सा धन दिया । ९—नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण किया करते थे (सम् + चर्) और लोक वृत्तान्त को स्वयं जान कर दूसरों को बताया करते थे । १०—इस सड़क से बहुत से लोग आते जाते हैं (सम् + चर्) कारखानों^१ में जाने वालों के लिये यह प्रसिद्ध मार्ग है । ११—जो शिष्टाचार की सीमा लांघते हैं (उद् + चर्) वे निन्दित हो जाते हैं (अव + गै) । १२—किसी को खुले मैदान में मलमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिये । (उद् + चर्) । १३—जिस प्रकार आग से चिन-गारियाँ^२ निकलती हैं उसी प्रकार प्राणिमात्र ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं (वि + उद् + चर्) । १४—लोगों को समाधि की विधि का उपदेश देता हुआ योगी पृथ्वी पर खूब धूमा (वि + चर्) । १५—जो स्त्री पतिव्रता धर्म के विरुद्ध

१—कर्मान्त-पुँ० । शिल्पशाला—क्री । आवेशन—नपुँ० । २—स्फुल्लिङ्ग, अग्निकण—पुँ० ।

आचरण करती है उसके लिये पुण्यमय लोक नहीं हैं । १६—यह एक अटल (अ + वि + अभि + चर्) नियम है । १७—ऋसुना है वहाँ विराध दनु कबन्ध आदि अनर्थ कर रहे हैं (अभि + चर्) । १८—ऋपुत्र पिता के विरुद्ध आचरण करते थे और नारियाँ पति के विरुद्ध ।

संकेत—९—त्रिलोकीं समचरन्नारदः । यहाँ परस्मैपदी धातु सं + चर् सकर्मक है । आवेशनानि धियासतामेष प्रख्यातः सञ्चरः । यहाँ (सम् + चर्) अकर्मक है । १०—भूयांसो जना मार्गणानेन संचरन्ते । यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग भली प्रकार समझ लेना चाहिये । ११—ये समुदाचार मुचरन्ते, तेऽवगीयन्ते । १२—प्रकाशेऽवकाशे नोच्चरन्त । १४—लोकं समाधिधिभिमुपदिशन् भुवं विचचार= (वभ्राम) योगी । यहाँ द्वितीया के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये । १५—या पतिं व्यभिचरति, न तस्याः सन्ति लोकाः शुभाः ।

अभ्यास—४४

(नी = ले जाना)

१—रथ पास में लाओ (उप + नी) जिससे मैं इसमें चढ़ सकूँ । २—आओ, मैं तुम्हें उपनीत करूँगा (उप + नी - आ०), तू सत्य से विचलित नहीं हुआ । ३—अपने सदाचरण से इस कालिख को मिटाने का प्रयत्न करो (अप + नी) । ४—राजा मनु की बताई गई (प्र + नी) विधि से अपनी प्रजा पर राज्य करो । ५—यह पुस्तक किसने बनाई है (प्र + नी) । 'इससे पहले बनाई गई पुस्तकें इससे कहीं बढ़ चढ़ कर हैं' । ५—नरों में श्रेष्ठ राम ने स्त्रियों के सभी गुणों से भूषित^२ जनकात्मजा सीता से विवाह किया (परि + नी) । ७—कृपया मेरे लिये बाग में से कुछ गुलाब के फूल लाओ (आ + नी) । ८—ऋउस स्त्री ने अपने भीषण भ्रूभंग द्वारा अपने क्रोध का अभिनय किया है (अभि + नी) । ९—अपने क्रोध को रोको (सम् + ह) कोमल स्वभाव वाली बालिका पर दया^३ करो' इस प्रकार देवताओं ने दुर्वासा से प्रार्थना की (अनु + नी) । १०—तुम निस्सन्देह इस उजले चरित्र से अपने वंश को ऊँचा उठा दोगे (उद् + नी) । ११—यह समझना (उद् + नी)

१—प्रणीत पूर्वाणि पुस्तकान्यतः सुदूरमुक्त्वभ्यन्ते । २—सर्वयोषिर्दुष्कृत-लङ्कृता । यहाँ 'योषित् सर्वगुणालङ्कृता' नहीं कह सकते । समास अधिकार में "विषय-प्रवेश" देखो । ३—दय् भ्रा० आ० ।

कुछ कठिन नहीं कि मुसलमानों से बढ़िया वर्ताव करने में सरकार का क्या अभिप्राय है। १२—शास्त्र-समुद्र के पार गये हुये गुरुओं ने रघु को शिक्षा दी (वि+नी)। १३—जो अपनी वासनाओं^१ पर काबू रखते हैं (वि+नी+आ०) वे इस संसार में खूब फलते^२ फूलते^३ हैं। १४—तुमने यह कैसे निश्चय किया (निर्+नी) कि^३ वह गलती पर है^३। १५—शर्मिली^४ दुल्हिन ससुर के होते हुए अपना मुँह फेर लेती है (वि+नी)। १६—तब उसने दोनों हाथ जोड़ कर (समा+नी) गुरु को प्रणाम किया (प्र+नम्) और गुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। १७—आप दोनों को कौन सी कला में शिक्षा दी गई है (अभि+वि+नी)। १८—इस देर से देखे गये (व्यक्ति) के पास फिर कैसे पहुँचना चाहिये (उप+नी)। १९—वह ईश्वर तुम्हारी तामसी प्रकृति को दूर करे (वि+अप+नी) ताकि तुम सन्मार्ग का दर्शन कर सको।

संकेत-१—उपनय रथं यावदारोहामि (उपश्लेषथ स्यन्दनं..... । २—एहि, त्वा.मुपनेष्ये, न सत्यादगा इति । ६—रामः सीतां परिणिनाय । परि+नी का मूल अर्थ अग्नि के चारों ओर ले जाना है। इस कार्य में 'वर' कर्ता है. और 'वधू' कर्म रूप में ले जाया गया व्यक्ति है। हमारी यही आर्य प्रणाली है और हम इसके विपरीत नहीं जा सकते। एवं परिणयविधि में वधू की कर्तृता को कल्पित कर "सीता रामं परिणिनाय" ऐसा प्रयोग करने वाले संस्कृत वाग्धारा अथवा आर्ष-संस्कृति का गला घूँट देते हैं। पुरुष 'वर' के रूप में 'परिणेतृ' है और वधू परिणीता है। १०—अवदातेनानेन चरितेन कुलमुञ्चेप्यसि । ११—मुहम्मदानुगानां सविशेष-समादरे राज-मन्त्रिणां कोऽभि-प्राय इति न तुष्करमुञ्चेतुम् । १६—ततः स हस्तौ समानीय (करो सम्पुटीकृत्य) गुरुं प्रणानाम गुरुश्च तमाशिषाऽऽशशासे (गुरुश्च तस्मा आशिषोऽभ्युवाद) ।

अभ्यास—४५

(स्था = ठहरना)

१—महाराज श्रीराम के राज्याभिषेक उत्सव^५ में लङ्का^६ युद्ध में सहायक^७ अनेक

१—मनोवृत्ति-स्त्री । २-२—समृध्यन्ति, समेधन्ते, आप्यायन्ते । ३-३ सोऽसाधुदर्शीति । ४—हीमती, अपन्नपिषणु, हीनिषेव-वि० । ५—उत्सव, उद्भव, उद्घर्ष मह-पुं० । ६-६—लङ्कासमरसुद्धः ।

बानर और राक्षस तथा नाना दिशाओं को पवित्र करने वाले ब्रह्मर्षि व राजर्षि उपस्थित हुए (उप+स्था-आ०) । २—देवता तारकासुर से पीड़ित हुए रक्षा के लिये ब्रह्मा^१ की सेवा में (ब्रह्माणम्) पहुँचे (उप+स्था-प०) । ३—आर्य लोग सूर्य की पूजा करते थे (उप+स्था-आ०) और ऋचाओं से उसकी स्तुति करते थे (उप+स्था-आ०) । ४—यह मार्ग मुलतान को जाता है (उप+स्था-आ०) और यह लाहौर को । ५—अपने गुरु की आज्ञा का (निदेशम्) पालन करो (अनु+स्था) और शास्त्र चिन्ता में मग्न रहो (रम्) । ६—मैं यहाँ कुछ दिन ठहरूँगा (अव+स्था-आ०) और फिर पेशावर (पुरुषपुर) चला जाऊँगा (प्र+स्था-आ०) । ७—जो निर्धनों की सहायता करता है वह स्वर्ग में प्रतिष्ठा लाभ करता है (प्रति+स्था-प०) । ८—हम इस युक्ति का इस प्रकार विरोध करते हैं । (प्रति+अव+स्था-आ०) । ९—इस बात का निर्णय हुआ (वि+अव+स्था-आ०) कि हम अब से भगड़ेवाली बातों के विषय में बातचीत नहीं करेंगे । १०—ऋष्यशृङ्ग का बारह^२ वरसों में पूरा^३ होनेवाला^२ यज्ञ प्रारम्भ हो रहा है (सम्+स्था-आ०^१) और वसिष्ठ आदि वापिस लौट रहे हैं । ११—बहुत से लोग जवानी में ही दरिद्रता के कारण बिना^३ किसी उपचार के^२ मर जाते हैं (सम्+स्था-आ०) । १२—जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियां निकलती हैं (वि+प्र+स्था-आ०) , इसी प्रकार ब्रह्म से सब भूत जड़ व चेतन उत्पन्न होते हैं । १३—महात्मा गान्धी हर सोमवार को चौबीस घण्टों के लिये मौन व्रत रखा करते थे (आ+स्था-प०) । १४—नैयाकरण मानते हैं कि शब्द नित्य है (आ+स्था-आ०) नैयायिकों की प्रतिज्ञा है कि शब्द अनित्य है । १५—वह अकेला ही सब लोगों पर प्रभुत्व रखता है (अधि+स्था) । १६—इस ग्राम से प्रत्येक वर्ष एक सौ रुपये लगान प्राप्त होता है (उद्+स्था-प०) । १७—मुनि लोग सांख्य वा योग मार्ग

१-१-ब्रह्मा की सेवा में पहुँचे = ब्रह्माणमुपतस्थुः । उप+आस् अथवा अनु+आस् का भी इस अर्थ में प्रयोग होना है । ब्रह्मणुः सेवायां जग्मुः इत्यादि आधुनिक प्रकार व्यवहारानुपाती नहीं । २—२ द्वादश वर्षिकं सप्तम् । यहाँ उत्तर-पद वृद्धि करके द्वादशवार्षिकम् कहना ठीक न होगा । ३—३ अनुप-चरिताः, अनुपक्रान्ताः ।

से मुक्ति के लिये प्रयत्न करते हैं (उद्+स्था—आ०) । १८—प्रयाग में गंगा यमुना में जा मिलती है (उप + स्था—आ०) । १९—भोजन के समय आ जाते हो (उप+स्था) काम के समय कहाँ चले जाते हो । २०—राजकुमार पुष्यरथ^१ पर चढ़ कर (आ स्था) सैर के लिये निकल गये ।

संकेत—७—यो दरिद्रान् भरति, स स्वर्गं लोके प्रतिष्ठति (महीयते, नाकं सचते) । ८—इत्युक्ते एवं प्रत्यवतिष्ठामहे । ९—इदं तर्हि व्यवतिष्ठते, न वयं विवादपदमुद्दिश्य संलपिष्याम इति । १६—शतं रूप्यकाः प्रत्यब्द-मुत्तिष्ठन्त्यस्माद् भ्रामात् । १७—मुक्तावुत्तिष्ठन्ते मुनयः साङ्ख्येन योगेन वा । यहाँ सप्तमी के प्रयोग के साथ २ आत्मनेपद का प्रयोग भी अवधेय है । १३—भोजनकाल उपतिष्ठसे, कार्यकाले क्व यासि ?

अभ्यास—४६

(पत् = गिरना)

१—शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करता है (प्र+नि+पत्) और^२ गुरु उसे आशीर्वाद देता है । २—ॐघावों पर बार २ चोट लगती है (नि+पत्) । ३—ॐविवेक से रहित (मनुष्यों) का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है (वि+नी+पत्) । ४—आकाश में बलाकायें उड़ रही हैं (उद्+पत्) अनुमान होता है वृष्टि होगी । ५—तुम कब लौट कर आओगे (परा+पत्) । मैं कब तक आप की बाट देखूँ । ६—वह शत्रु पर टूट पड़ा (सम्+नि+पत्) और उस के टुकड़े २ कर दिये । ७—इन्द्रियों के विषय कुछ काल के लिये हर्षदायक होते हैं, पर अन्त में अरुचिकर हो जाते हैं । ८—जंगल का यह भाग मनुष्यों के यातायात जन-सम्पात) से शून्य है । ९—भिन्न २ देशों के नीतिज्ञ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार करने के लिये यहाँ इकट्ठे होंगे (सम्+नि+पत्) । १०—दुष्यन्त के रथ ने भागते हुए हिरन का पीछा किया (अनु + पत्) । ११—इन्द्रियों के विषयों का यदि बार २ अनुभव किया जाय, तो वे मनको^३ मधुरतर मालूम होते हैं^३ (आ+पत्) । १२—

१—१ पुष्यरथम् (चक्रयानम्) आस्थाय । २—२ गुरुश्च तमाशिषा-ऽऽशास्ते । ३—३ मधुरतरा आपतन्ति मनसः । यहाँ षष्ठी का प्रयोग सविशेष अवधान के योग्य है । २—यहाँ 'इन्द्रिय विषयाः' ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं । केवल 'विषय' शब्द इस अर्थ में प्रसिद्ध है ।

उत्तम को प्रणिपात (प्र+नि+पत्) से, और शूर को भेद (नीति) से (उप+जप) वश में करे । १३—ऐसा कहना शिष्ट-व्यवहार के अनुकूल नहीं (नाऽनुपतति शिष्ट व्यवहारम्) । १४—आक्रमण करने (उद्+पत्) की की इच्छावाला सिंह भी क्रोध से सिकुड़ जाता है । १५—रानी कोप से मुक्त पर दूट पड़ी, (अभि+उद्+पत्) पर मेरा कुछ विगाड़ न सकी ।

संकेत—१—उपाध्यायचरणयोः प्रणिपतति शिष्यः । ६ - स शत्रुसैन्ये संन्यपतत् (शत्रु सैन्यमुपाद्रवत्), शतधा च तद् व्यदलयत् । ७ - आपात-रमणीयाः परिणतिविरसा अमी विषयाः^२ । ९—नाना देशस्था प्रमुखा नयज्ञा नृपनीतिकृतां वर्तमानामवस्थां मिथः परामर्शुमिह संनिपतिष्यन्ति । राज-नैतिक और राजनीतिक आदि आधुनिक प्रयोग से बचना चाहिये । तद्धित प्रस्थ्यों से बनाये गये नए २ विशेषणों का छोटे २ समासों के स्थान में संज्ञापदों के साथ जो प्रयोग देखने में आ रहा है, उसमें आधुनिक भारतीय बोलियों का प्रभाव झलकता है । एवं—आर्थिकं कृच्छम्, आर्थिकी दशा, व्यावहारिकं ज्ञानम्, आदि का प्रयोग त्याज्य है, और इनके स्थान में क्रमशः 'अर्थकृच्छम्, अर्थदशा, तथा व्यवहारज्ञानम्' का प्रयोग होना चाहिए । ऐसा ही संस्कृत का स्वरस है ।

अभ्यास—४७

(वृत् = होना)

१—जब रात पड़ती है (प्र+वृत्) पक्षी अपने घोंसलों^१ में आ जाते हैं ।
 २—ऋराजा प्रजा के भले के लिये काम करे (प्र+वृत्) । और प्रजाओं को पीडित न करता हुआ पृथिवी को भोगे (भुज्—घ्रा०) । क्या समाचार है (प्रवृत्ति) ? कहां कैसे दिन गुजरते हैं । ४—इस वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं (उद्+वृत्) यह अब गिरा कि तब । ५—यह संसार सदा बदलता रहता है^२ (परि+वृत्) । ६—लोग बड़ों में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं । जिस बात को वे प्रमाण मानते हैं लोग उसी का अनुसरण करते हैं (अनु+वृत्) । ७—वह पुत्र ही क्या जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है (अति+वृत्) । ८—ऋभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा—ऋवही मेरा परम स्थान है जहाँ पहुँच कर (लो ग) वापिस नहीं आते (नि+वृत्) ।

९—सुख और दुःख (रथ के) पहिये के समान आते जाते हैं (परि+वृत्) । १०—यह पाठ दीहराया जायगा (आ+वृत्+णिच्) और विषम स्थल स्पष्ट किये जायेंगे । ११—मैं नहीं कह सकता कि वह घर से कब लौटता है आ+वृत्, प्रति+आ+वृत्) । वह बहाना^१ बनाने में बहुत चतुर है^२ । १२—मैंने एक तापस कुमार को रुद्राक्ष की माला फेरते (आ+वृत्+णिच्) देखा । १३—रस्से बनाने वाला रस्सी बाटता है (आ+वृत्+णिच्) । १४—यह क्षत्रिय बालक सेनाओं के विनाश से टल गया है (वि+अप+वृत्) । १५—वह इधर ही आ रहा है (अभि+वृत्) । मैं इसके सामने होता हूँ । १६—इस अवसर पर यमुना के किनारे सारा देहात एकत्रित हो रहा है (सम्+वृत्) । १७—सांख्यमतावलम्बियों के अनुसार यह संसार प्रकृति से उत्पन्न हुआ है (सम्+वृत्) । १८—वेदान्तियों का मत है कि आदि और अन्त से रहित ब्रह्म इस संसार के प्रातिभासिक रूप में बदलता है (वि+वृत्) । १९—यह बकुलावलिका मालविका के पैरों की सजावट कर रही है^२ (निर्+वृत्+णिच्) ।

संकेत-३—का प्रवृत्तिः ? (का वार्ता) ? 'समाचार' इस अर्थ में अब प्रयोग होने लगा है । साहित्य में इस अर्थ में कहीं नहीं मिलता । १०—आवर्तयिष्यते पाठः । विषमाणि च स्थलानि समी करिष्यन्ते । यहाँ वृत् धातु णिच् के साथ प्रयुक्त हुई है । १२—अक्षवलयमावर्तयन्तं तापसकुमारमदर्शम् । आ+वृत् फिरने वा घूमने के अर्थ में प्रयुक्त होता । १३—जैसे—“आवर्तोऽम्मसां भ्रमः” णिच् के साथ फिराने या घुमाने में भी इसका प्रयोग होता है और औटाने और पिघलाने के अर्थ में भी—आवर्तयति पयः । सुवर्णमावर्तयति स्वर्णकारः । १३—स रज्जुमावर्तयति । १७—जगदिदं प्रकृतेः समवर्तत इति सांख्याः ॥

अभ्यास - ४८

(सद्=बैठना)

१—माता पिता अपने पुत्र के आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं (प्र+सद्) । २—शरद् ऋतु में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है (प्र+सद्) । ३—वह आशा से पूर्व जलाशय पर पहुँच गया (आ+सद्) बहुत^३ तेज दौड़नेवाला है^३ । ४—परीक्षा सिर पर आ रही है (प्रति+आ+सद्) और

१-१-व्यपदेश चतुः। २-२-चण्णालङ्कारं निर्वर्तयति । ३-३-बहुलो ह्यसौ ।

तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाते । ५—विद्यार्थियों को अपने आसनों पर झुकना नहीं चाहिए (नि+सद्) परन्तु सीधा (दण्डवत्) बैठना चाहिए (आस्, उप+विश्) । ६—जो वस्तु हलकी है वह तैरती है, जो भारी है वह नीचे बैठ जाती है (नि+सद्) । ७—क्षुद्र हृदयवाले अपने प्रयत्नों में बाधाओं को प्राप्त कर हिम्मत हार देते हैं (अव+सद्) ८—यदि आप को किसी आवश्यक कार्य में बाधा न हो (अव+सद्) तो कृपया आप मुझे कष्ट सबेर मिले । ९—वीर पुरुष विपत्ति में प्रसन्न होता है (प्र+सद्) और विपाद (शोक) नहीं करता (न, वि+सद्) । १०—युग २ के अनुसार धर्म बदलता रहता है (परि+वृत्) अतः कई^२ शास्त्रोक्त अनुष्ठान भी नष्ट हो गये हैं^२ (उद्+सद्) । ११—भगवान् कृष्ण कहते हैं—अयदि मैं कर्म न करूँ तो ये लोक नष्ट हो जावें (उद्+सद्) । १२—इस प्रकार असत्य में हठ तुम्हें अवश्य विनष्ट कर देगा (उद्+सद्+णिच्) । १३—सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण यदि पूर्ण रूप से न हो सके तो भी उनका थोड़ा बहुत अनुसरण करना चाहिये क्योंकि मार्ग से चलता हुआ व्यक्ति कष्ट नहीं उठाता^२ (न, अव+खद्) । १४—जो धर्मानुसार अपनी जीविका^३ कमाता है, वह अवश्य श्रेय (श्रेयस नपुं०) प्राप्त करता है (आ+सद्) । १५—कौत्स भगवान् पाणिनि की सेवा में गया (उप+सद्) और उनसे वैदिक तथा लौकिक व्याकरण चिन्तक पढ़ता रहा । १६—इस ब्राह्मण का अवशिष्ट भाग स्पष्ट है (प्रसन्न) इसके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं ।

संकेत—१—पितरौ सुतस्य वश्यतया प्रसीदतः, (वश्ये सुते प्रसीदतः पितरौ) । यहाँ 'वश्यतया' नृतीयान्त है । क्योंकि—'वश्यता' प्रसन्न होने में हेतु है । वैकल्पिक अनुवाद में सप्तमी का प्रयोग ध्यान देने योग्य है । ३—तर्कित्वात् समयादवर्गेव स कासारमासीदत् । ४—प्रत्यासीदति परीक्षा, त्वं च पाठेऽनवहितः (पाठे मनो न ददासि) । ५—छात्रा न निषीदेयुरासनेषु, किन्तहिं दण्डवदुपविशेयुः । ७—प्रतिहत प्रयत्नाः क्षुद्रमानसा अवसीदन्ति । १२—अयमसत्येऽभिनिवेशो नियतमुत्सादयिष्यति वः । १५—उपसेदिवान्कौत्सः पाणिनिम् । चिरं ततो वैदिकं लौकिकं च व्याकरणमधिजग्मिवान् । १६—प्रसन्नो ब्राह्मणशेषः, नैव व्याख्यानमपेक्षते । (नायं व्याकार्यः) ।

२—२ उत्सन्नाः शास्त्रोक्ता अपि केपि विषयः । ३—आजीव-पुं० । जीविका, वृत्ति—स्त्री० । वर्तन—नपुं० । -४-४- न रिष्यात ।

अभ्यास — ४६

(चिञ् चुनना)

१—बह अचञ्जा भोजन करता है और भली प्रकार व्यायाम करता है, इसलिये उसका शरीर पुष्ट हो रहा है (प्र + चि) । २—व्यायाम से रक्त की गति^१ सुधर जाती है,^१ ^२चर्बी कम हो जाती है (अप+चि कर्मणि) शरीर ^३हलका और नीरोग^४ हो जाता है । ३—उसने बाग में बेलों से बहुत से फूल तोड़े (अव + चि) और उन से एक सुन्दर सेहरा बनाया । ४—बनिया धन बटोर रहा है (सम् + चि) और उसे खर्ख (विनि + युज्) नहीं करता । ५—हम निश्चय करते हैं (निस् + चि) कि जब तक हम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक विश्राम नहीं करेंगे । ६—पुलिस असली अपराधियों की खोज निकाल (वि + चि) आशङ्कित षड्यन्त्र का पता लगाए (उप + लभ्) । ७—आर्य लोग अध्यापक को आचार्य कहते हैं, क्योंकि वह अपने शिष्य की बुद्धि को बढ़ाता है । आ + चि । ८—वह हार गूँथने के लिये फूल एकत्रित करता है (सम् + उद् + चि) । ९—एक स्थान में इकट्ठी हुई (अभि + उद् + चि) युक्तियाँ प्रभाव रखती हैं । १०—मैं भली प्रकार जानता हूँ (परि + चि) कि वह मीठा बोलता है, और किसी के 'चित्त को ठेस नहीं पहुँचाता'^५ । ११—कहते हैं कि मांसाहारी लोग केवल मांस को ही बढ़ाते हैं (उप + चि), बुद्धि को नहीं । १२—ॐ मैं इस बात का ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकता^६ (वि + निस् + चि) कि यह (सीता का स्पर्श) सुख कारक है या दुःख कारक है । १३—नौकर शय्या पर चादर बिछाता है (आ + चि) ।

संकेत—१—स पुष्टिप्रदमञ्जं भुङ्क्ते सुष्ठु व्यायच्छते च, तस्मात् प्रचीयन्ते तस्य गात्राणि । ३—उद्याने प्रतानिनीर्बहूनि कुसुमान्यवाचिनोत् (बह्वीः मुमन-सोऽवाचेष्ट) । 'प्रतानिनीः' द्वितीया बहुवचन है । एवं चि यहाँ द्विकर्मक है । गौणकर्म में पञ्चमी का भी प्रयोग हो सकता है, यथा—स उद्याने प्रतानिनीभ्यो बहूनि कुसुमान्यवाचिनोत् । ५—वयं निश्चिनुमः (निश्चिन्मः) न वयं विश्र-मिष्यामो यावन्न स्वातन्त्र्यं प्रतिलभामह इति । ९—अभ्युच्चितास्तर्काः

१—१ साधू भवति । २ मेदस्—नपुं० । ३ परिलधु—वि० । ४ स्वस्य, अरोग, नोरुज, निरामय, कल्प—वि० । ५—५ न दुनोति चेतः । ६—शक् स्वा० प०, दिवा० उ० ।

प्रभावुका भवन्ति । ११—मांसाशिनो मांसमेवोपचिन्वन्ति न प्रज्ञामित्याहुः ।
१३—भृत्यः शय्या प्रच्छदेनाचिनोति (भृत्यः शय्यामास्तृणोति) ।

अभ्यास—५०

(धा = धारण करना वा रखना)

१—दरवाजा बन्द कर दो (अपि + धा) जिससे देर से आने वाले अन्दर न आने पावें २—मैं अपने पुत्र को कल विदा करने के लिये प्रबन्ध कर रहा हूँ (सम् + धि + धा) । मुझे इस काम से रघुपति पीछे अवकाश मिलेगा । ३—जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान! दो (अव + धा) अन्यथा तुम्हें हानि पहुँचेगी । ४—जैसा शास्त्र आदेश करत है वैसा ही करो (धि + धा) उसके विपरीत नहीं । ५—यह तुम्हारी रचना में नया गुण भर देगा (आ + धा) । ६—मैं यात्रा के लिये पर्याप्त सामग्री ले जाऊँगा, बाकी के धन को मैं गाँव के किसी विश्वासी बनिये के पास अमानत रख जाऊँगा । ७—अपने से प्रबल शत्रु के साथ सन्धि कर लेनी चाहिये (सम् + धा) क्योंकि लड़ाईमें अपना विनाश निश्चित है । ८—क्या तुम इन लोहे के दो टुकड़ों को पिघला कर जोड़ सकते हो? (प्रति + सम् + धा) ९—राजा दूसरों को धोखा देने को^४ विज्ञान की भाँति अध्ययन करते हैं । क्या वे कमी विश्वास^५ के योग्य हो सकते हैं ? १०—चिद्वान् अब भी भारत के प्राचीन इतिहास की खोज कर रहे हैं, (अनु + सम् + धा) । ११—जल्दी करो, जो कहना है कहो (अभि + धा), मैं अधिक देर नहीं ठहर सकता । १२—मैं तुम्हारा अभिप्राय (अभिसन्धि) नहीं समझ सकता, तनिक और साफ साफ कहो ? १३—थका हुआ मज़दूर अपनी बाँह का तकिया बना कर (बाहुमुपधाय) सो रहा है । निश्चिन्त पुरुष को जहाँ तहाँ नींद आ जाती है । १४—कपड़े पहिनो (परि + धा) और पाठशाला जाओ । देर मत करो । १५—अपने कपड़े बदलो (वि + परि + धा) क्यों कि ये मैले हो गये हैं । १६—मुझे लड़के की पढ़ाई का प्रबन्ध करने के लिये रुपया चाहिये, सो मुझे अपना गृह साहू के पास गिरवी रखना पड़ेगा ।

१—१ गुणान्तरमाघास्यति । रचनायाः उपस्करिष्यते—ऐसा कृ का प्रयोग करते हुए कह सकते हैं । यहाँ रचनायाः में घृष्ठी तथा उपस्करिष्यते में आत्मनेपद पर ध्यान देना चाहिये । २ विलाप्य । ३ घटयितुमलम् । ४ पराति-सन्धानम् । ५—५ आसवाचः ।

संकेत—१—द्वारं पिधोहि, अतिकालमागतास्त्रे मा प्रविक्षन्निति ।
 ❀ 'अपि'के 'अ'का विकल्प से लोप हो जाता है। इसी प्रकार 'अव' के 'अ' का भी लोप हो जाता है। जब कि 'अव' का भी धा' के पूर्व प्रयोग किया गया हो। 'एवं' द्वारमपिधेहि भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध प्रयोग है। ६—गृहीत-पर्याप्तपाथेयोऽहमवशिष्टं मदनं विश्वास्थे ग्रामवणिजि निधास्यामि। 'वणिजि' में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिये। ७—बलीयसाऽरिणा सन्दध्यात् । विगृह्णानो हि ध्रुवमुत्सीदेत् । १२—नाहं तेऽमिसन्धिमुन्नयामि, निर्भिन्नार्थतरकमुच्यताम् । (अतिशयेन निर्भिन्नार्थम् निर्भिन्नार्थतरम्, तदेव निर्भिन्नार्थतरकम्) । १५—विपरिधेहि वाससी, मल्लिने ते जाते । प्राचीन आर्यावर्त में वेष्ट दो वस्त्रों का ही होता था। चाहे राजा हो चाहे रज्जु । महाराज दशरथ के विषय में 'भट्टिकाव्य' का "मनोरमे न व्यवसिष्ट वस्त्रे" यह वचन इसमें साक्षी है। ये दो वस्त्र एक प्रावरण (उत्तरीय, चादर) और दूसरा परिधानीय (शाटक वा शाटिका^१) होते थे। विवाह में भी वर को दो ही वस्त्र दिये जाते थे, जिन्हें "उद्गमनीय" इस एक नाम से पुकारा जाता था। १६—सो मुक्ते...तन्मया साधवे स्वं गुहमाधातव्यमभविष्यति । †

❀ वष्टि भागुरिरहोपमवाप्योरसर्गयोः ।

षाऽऽकृजोस्तसिनव्याशिन बहुलत्वेन शौनकिः ॥

† सोपसर्गक धातुओं के त्रिविध व्याख्यान के लिये हमारी कृति उपसर्गार्थ-चन्द्रिका देखा ।

तृतीयोऽंशः

(उपपद विभक्तियाँ)

अभ्यास—१

(उपपदविभक्तिः द्वितीया)

१—वह मेरे विचार में कोई धीर नहीं, वह तो एक कायर^१ से कुछ^२ अधिक भिन्न नहीं^३ । २—भूखे को कुछ नहीं सूझता । स्मरण किया हुआ सभी कुछ भूल जाता है । ३—मेरा दक्षिणापथ की यात्रा^३ करने का विचार है^३ । केवल साथी के बिना । कुछ^४ संकोच है^४ । ४—लाहौर की चारों ओर (अमितः, परितः) सर्व साधारण के उपयोग के लिये (सा^५जनीन) बाग है, जिससे लोगों को बहुत आराम मिलता है । ५—किले की चारों ओर (परितः) एक खाई (परिखा) है । शत्रु^६ के चढ़ आने पर^२ इसे पानी से भर देते हैं । ६—श्री नगर वितस्ता नदी की दोनों ओर बसा हुआ है । रात को विद्युत् प्रदीपों से प्रकाशित इसके विशाल भवन जल में^६ प्रति बिम्बित हो कुछ और ही रमणीय दृश्य बनाते हैं । ७—नदी के पास किले के पुराने खण्डहर वैभव की याद दिलाते हैं । ८—हिन्दु-सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये संस्कृत अध्ययन उपयोगी है, इसमें कोई मत भेद नहीं । ९—आज प्रातः तुम ने कितनी दूर तक भ्रमण किया ? इरावती तक (यावत्) । १०—ऋषभ-धनुर्धारी अर्जुन से घटिया हैं । और सब वैयाकरण पाणिनि से ११—तुम्हें धिक्कार है जो कार्य^७ के परिणाम पर विचार किये बिना^८ कार्य करते हो । मनुष्य को विचार पूर्वक काम करना चाहिए । १२—ऋषाँधी वर्षा और विजली के पतन के बिना तथा हाथियों के उपद्रव के बिना किस ने इन दोनों वृक्षों को गिराया है । १३—अन्तरिक्ष आकाश और पृथ्वी के बीच में है ।

१ कातर, प्रस्तु, भीरु, भीरुक, भीलुक—वि० । २—२ न व्यातिरिच्यते । कातराज्ञास्यव्यतिरेकः । ३—३ यात्रां संकल्पयामि । ४—४ कलया संकुचामि । ५—५ शत्रोरवस्कन्दे, अरातेरभ्याघाते, अरेराक्रमे, शत्रुणा प्रार्थिते नगरे । ६—प्रति फल, मुच्छं, षम्, क्रम् । ७—७ कार्यान्वन्धविचारमन्तरेण । ८—८ प्रेक्षापूर्वकारिणा भवितव्यम् ।

१४—ऋषिपदार्थ जाने बिना प्रवृत्ति की योग्यता ही नहीं होती । १५—ऋषि अध्यापक मेरे विषय में (मामन्तरेण) क्या विचार करेगा यह चिन्ता मुझे लगी हुई है । १६—तिब्बत भारत के उत्तर में (उत्तरेण) है । १७—मजदूर दिन में छः घण्टे काम करते हैं । १८—ऋस्त्री के बिना लोक यात्रा निष्फल है । अन्यत्र भी कहा है कि—घर घर नहीं है 'गृहिणी' ही घर है ॥

संकेत—१—मां प्रति तु नासौ वीरः, स हि कातरान्नातिभिष्यते । ८—हिन्दु-संस्कृतेः प्रतिपत्तये संस्कृताध्ययनस्य प्रयोजनवत्तां प्रति न मतद्वैधमस्ति । १३—दिवं च पृथिवीं चान्तराऽन्तरिक्षम् ।

अभ्यास — २

(उपपद्विभक्तिस्तृतीया)

१—ऋ चांदनी चन्द्रमा के साथ चली जाती है, और बिजली बादल के साथ । २—व्याकरण कठिन है, बारह वर्षों में इसका अध्ययन समाप्त होता है । ३—स्वभाव से कुटिल वह किसी की भी प्रार्थना स्वीकार न करेगा । ४—वह एक आँल से काणा, और एक टाँग से लंगड़ा है । ५—ऋ जंगली बेलों ने गुस्से में बगिया की बेलों को मात कर दिया है । ६—तुन्हें पूना (नगर) पहुँचने में कितना समय लगेगा ? और किराया^१ आदि पर कितना खर्च^२ होगा । ७—यह बालक स्वर में प्रिय राम से^३ मिलता-जुलता है । (अनु+ह् + सम् + वद्) और आकार में सीता से । ८—मैं^४ अपने आप से लजित हूँ^५ । यह दुष्कर्म^६ मुझसे क्यों कर हुआ, यह समझ^७ में नहीं आता^८ । ९—वह मीमांसा पढ़ने के लिये काशी में ठहरा हुआ है । अभी उसका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ, नहीं तो लौट आता । १०—मुझे अपने जीवन की सबसे प्यारी वस्तु की सौगन्ध है । ११—ऋ हजारों मूर्खों के बदले में एक पण्डित को खरीदना अच्छा है । १२—ऋ राजाओं को सोने की आवश्यकता है, पर वे सभी से तो जुर्माना नहीं लेते । १३—मैं वसिष्ठ गोत्र का हूँ अतः वसिष्ठ की निन्दा करने वाली इस ऋषि की ब्याख्या नहीं करूंगा ऐसा दुर्गाचार्य जी कहते हैं ।

१ भाटक—नपुं० । २ विनियोक्ष्यते, व्ययिष्यते । (व्यय् चुरा०) ३ रामभद्रमनुहरति । रामेण संबदति । संबद् अकर्मक है । ४ आरामना जिहेमि । लज्जे, अवत्रपे, व्रीड्यामि । ५ दुष्कृत, दुश्चरित—नपुं० । ६-६ इति बुद्धिं नोपारोहति ।

१४—मैं नहीं जानता कि मैं इस रोग से कब छूटूँगा । अथवा यह मेरे प्राणों को ही हर लेगा ।

संकेत—२—कष्टं व्याकरणम्, इत्वं हि द्वादशभिर्वर्षैः श्रूयते । ३—प्रकृत्या वक्रः (प्रकृतिवक्रः) न कस्याप्यनुनयं प्रहीष्यति । ६—क्रियता कालेन पुण्यपत्तनं प्राप्स्यसि । ७—स्व स्वरेण रामभद्रमनुहरति, (अस्व स्वरो रामभद्र-स्वरेण संवदति । ११—यद्यन्मे जगत्यां प्रियं तेन तेन ते शपे । यहाँ 'ते' चतुर्थी है । शप्, यद्यपि उभयपदी है फिर भी लौगन्ध खाने अर्थ में आत्मने-पद में ही प्रयुक्त होती है । १३—वासिष्ठोऽस्मि गोत्रेण । प्राचीन रीति के अनुसार 'वासिष्ठेन सगोत्रोऽस्मि' । 'वासिष्ठगोत्रीयः' ऐसा कहना व्यवहारानुगत नहीं ।

अभ्यास—३

(उपपदविभक्तिश्चतुर्थी)

१—ॐ मले लोगों^१ की रक्षा के लिये, दुष्टों^२ के नाश के लिये, और धर्म की स्थापना के लिये मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ । २—उसने सेवकों को, अपने स्वामी को मर डालने के लिये उकसाया । ३—उन प्राचीन महर्षियों को प्रणाम हो, जिन्होंने मनुष्य मात्र के आचरण के लिये आचार के नियम बनाये । ४—गौश्रों और ब्राह्मणों का कल्याण (स्वस्ति) हो । किसानों^३ और मजदूरों का भला हो^३ । ५—प्रसिद्ध पहलवान् देवदत्त के लिये यज्ञदत्त कोई जोड़ नहीं । ६—वह एक ही वर्ष में व्याकरण मध्यम परीक्षा पास करने को समर्थ है । ७—कर्म (बीघने) में समर्थ होता है इस लिये धनुष को 'कार्मुक' कहते हैं । ८—ॐ मूर्खों को उपदेश देना केवल उनके क्रोध को बढ़ाने के लिये हो है, न कि (उनकी) शान्ति के लिये । ९—गाय का दूध बच्चों के लिये बहुत लाभदायक (हित) है, ऐसा आयुर्वेदाचार्यों का मत है । १०—ॐ यह उत्साह को भङ्ग करने के लिये काफी है । ११—उठो ! हम दोनों अपने प्रिय पुत्र के प्रस्थान की तैयारी करने चलें । १२—इसे दस्त आते हैं, इसके लिये लङ्घन ही अच्छा है । यदि रुचि हो तो कुछ पतली सी लिचड़ी ले ले ।

१ कुञ्जत्, सदाचार—वि० । २ दुञ्जत्, कुपूयाचरसु—वि० । ३-३ कृष-केभ्यः कर्मकरेभ्यश्च कुशलम्भूयात् ।

संकेत—२—स स्वामिहत्यायै भृत्यानचोदयत् । ३—नमस्तेभ्यः पुराण-
मुनिभ्यो ये मनुष्यमात्रस्य कृते आचारपद्धतिं प्राणयन् १५—यज्ञदत्तः प्रत्यात-
मस्त्राय दशदत्ताय नाखन् । (न प्रभवति) । ६—प्रभवति स एकेनैव हावकेन
व्याकरणमध्यम-परीक्षोत्तरायाय । १२—अवमतिस्त्रारकौ, अस्मै लङ्घनं द्विजम् ।
रुचिश्चेत् स्यात्तरलं कृशरं मात्रयोपभुञ्जीत ।

अभ्यास—४

(उपपदविभक्तिः पञ्चमी)

१—* अधर्माचरण छोड़ और सब कार्यों में आचार्य के अधीन रहो ।
२—मूर्ख का चपलता के कारण पण्डित से भेद समझा जाता है । ३—नीच
के पास एक बाग है, जहाँ काम धन्धे से छुट्टी पाकर ग्रामवासी आनन्द मनाते
हैं । ४—वसन्त को छोड़ अन्य ऋतु को ऋतुराज नहीं कहते । ५—हिमालय
पर्वत श्रेणियों भारत के उत्तर में हैं । ६—सम्पादक महोदय प्रातःकाल से
हिसाब^१ की जाँच^२ पड़ताल कर रहे हैं । ७—पुलिस पिछले सोमवार से
भाग^२ हुए डाकुओं^२ की खोज^३ कर रही है । ८—मैं ठीक प्रारम्भ से सुनना
चाहता हूँ । ९—फाल्गुन से श्रावण तक छः महीने उत्तरायण कहलाते हैं ।
और आश्विन से पौष तक दक्षिणायन । १०—तुम्हें पौ^४ फटने से पूर्व ही^४
यह स्थान छोड़ देना चाहिये नहीं^५ तो तुम पर बड़ा भारी कष्ट आवेगा^५ ।
११—* सत्पुरुषों के किये अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोजन ही बढ़ा है ।
१२—* अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि (प्रति) था और प्रद्युम्न कृष्ण का ।
१३—शरच्चन्द्र शुचिप्रत से अधिक मेधावी (मेधीयस्) है पर शुचिप्रत व्यव-
हार में अधिक कुशल है । १४—* सत्य से बढ़ कर कोई धर्म नहीं, और
भूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं । १५—धीर मनस्वी लोग धन के बदले मान
को नहीं छोड़ते, चाहे^६ कितना ही तंग क्यों न हों^६ । १६—हम कार्तिक मास

१ गणेश—नपुं० । २ परीक्षते । २-२ विद्वतोल्ङ्घटाकान् । ३ मृगू, चुरा०
आ०, मार्ग, गवेष, चुरा०, अनु+सम्+धा, अनु+इष्+दिवा०, वि चि,
अनु+एष्+धा० आ० । ४-४ प्राक् प्रमातादेव । ५-५ अन्यथा महद् ब्यसनं
स्वामुपस्थास्यति । प्रसिद्धि शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति तो आचार्य
के अपने प्रयोग से स्थापित है—प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् । पर षष्ठो का
प्रयोग भी शिष्ट-संगत है । ६-६ कियतापि कदर्थिताः स्युः ।

के २५ वें दिन से इस पुस्तक को दुहरा रहे हैं। १७—ॐ वे योद्धा जो प्रतिज्ञा करके (समयात्) युद्ध में पीठ नहीं दिखाते 'संशसक' कहलाते हैं।

संकेत—२—मूर्खोहि चापलेन भिद्यते पण्डितात् । ३—ग्रामादारादारामः, यत्र व्यवसायान्निवृत्ता ग्रामीणा आरमन्ति । 'आरात्' का अर्थ 'दूर, और 'समीप' है तो भी प्राचीन साहित्य में विशेष कर वेद में यह दूर अर्थ में ही देखा जाता है। मूल में यह 'आर' का पञ्चम्यन्त रूप है जो कालान्तर में 'अव्यय' माना जाने लगा (आरे द्वेषोऽस्मद्युयतन—इत्यादि) । ४—ऋते वसन्तान्नापर ऋतुराजः (नापरऋतुर्ऋतुराजशब्दभाक्) । ५—उद्गभरतवर्षाद् हिमवन्तो गिरयः (हिमवन्तः सानुमन्तः) । श्रेणियों का अनुवाद 'गिरयः' और सानुमन्तः से भी हो सकता है। प्रायः विद्यार्थी 'भारतवर्षम्' का प्रयोग करते हैं, जिसमें भरत शब्द के तद्धितान्त 'भारत' का वर्ष से समास किया जाता है, पर यह उपेक्ष्य है। यदि हम तद्धित का प्रयोग करते हैं तो हमें समास का व्यवहार नहीं करना चाहिये और यदि समास का प्रयोग किया गया है तो हम, तद्धित को छोड़ सकते हैं। एक स्थान में दो वृत्तियों का आश्रय क्यों लिया जाय। अतः ठीक प्रयोग 'भारतं वर्षम्' अथवा-भरतवर्षम् है। इसी प्रकार "सर्वशक्तिम्" के स्थान में "सर्वशक्ति" का प्रयोग करना चाहिये। १४—धीरा मनस्विनो न धनात्प्रति यच्छन्ति मानम् । 'प्रति' कर्म-प्रवचनीय का प्रयोग न हो तो तृतीया भी ठीक होगी—धनेन मानम् इत्यादि। तृतीया के प्रयोग के साथ विलि + मे का भी प्रयोग हो सकता है—न धनेन मानं विनिमयन्ते (परिवर्त्तयन्ति) ।

अभ्यास—५

(उपपदविभक्तिः षष्ठी)

१—अपनी प्रिया से नित्य युक्त-शरीर वाला भी शिव निर्विषय मन वाले यत्तियों से परे (परस्तात्) है। २—ॐ उसके जन्म का वृत्तान्त विस्तार-पूर्वक कहते हुए मुझे ध्यान से सुनो। ३—ॐ तुम संसार के लिये वास्मीकि हो, पर मेरे तो तुम पिता हो। ४—ॐ मैं उससे क्रोध करूँगी, यदि मैं उसे देखती हुई अपने आप को वश में रख सकी। ५—ॐ हे सुन्दरि ? क्या तुम अपने स्वामी को याद रखती हो, क्योंकि तुम उसकी प्यारी हो। ६—ॐ थोड़ी वस्तु के लिये (अल्पस्य हेतोः) अधिक छोड़ना चाहते हुए

गुम मुझे विचार में मूढ़ प्रतीत होते हो। ७—मैंने उसका क्या अपराध किया है, जो वह मुझे खोटी^१ खरी सुनाने लगा^१। ८—ॐ कार्य में समर्थ लोगों के लिये क्या कठिन है ? व्यवसायशील पुरुषों के लिये क्या दूर है ! विद्वानों के लिये कौन सा विदेश है ? मीठा बोलने वालों के लिये कौन पराया है ? ९—धनुर्धारियों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था, तलवार चलानेवालों में नकुल और बरछी चलाने वालों में सहदेव सर्वश्रेष्ठ था। १०—बृहस्पति वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ और इन्द्रादि देवताओं का गुरु था। ११—ॐ सब लोगों का पितामह ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुआ। १२—मुझे उस के दर्शनों की उत्कण्ठा है उससे मिले हुए चिर हो गया है। १३—^२समुद्र के दक्षिण में ^३लङ्का है जिसे सिंहल द्वीप भी कहते हैं। १४—अवरंगजीव की मृत्यु^३ के पश्चात्^३ मुगल साम्राज्य धीरे २ टूट फूट (भङ्गुर) गया। १५—परमात्मा करे तू अपने सदृश पति को प्राप्त होवे। (लभस्व-आशिस अर्थ में लोट्)।

संकेत—७—मया तस्य किमपराद्धम्..... । ९—धानुष्काणां (धनुर्भृतां) पार्थो वरो बभूव । आसिकानां नकुलः शाक्तीकानां च सहदेवः । यहाँ 'वर' शब्द से ही तारतम्य का बोध हो जाता है इसमें प्रत्यय की अपेक्षा नहीं। इसमें शब्दशक्ति स्वाभाव्य ही हेतु है। १०—बृहस्पतिर्हि वदतां वरोऽभूत् । १२—तस्य दर्शनस्योत्कण्ठे । चिरं दृष्टस्य तस्य ।

अभ्यास ६

(उपपदविभक्तिः सप्तमी)

१—मनुष्यों में श्रेष्ठ राम जगत् में किसके नमस्कार के योग्य नहीं ? २—इस देशमें गंगानदी सब नदियों से लम्बी है। इसका शुभ्र निर्मल जल वर्षों तक नहीं विगड़ता^४। ३—नाटकों में शकुन्तला नाटक सब से अच्छा है, उसमें चौथा अंक सब अंको से बढ़िया है, और वहाँ भी ४२सवां श्लोक सर्वोत्तम है। ४—कभी हिमालय से कन्या कुमारी तक इस समुद्र

१—१ मां पुरुषमवादीत्, मां समतर्जत् । २—२ दक्षिणतो लबणतोयस्य । ३—३ मृत्योः पश्चात् । मृत्योः षष्ठ्यन्त है। 'पश्चात्' अस्ताति प्रत्ययान्त निपातन किया गया है। अतः इसके योग में षष्ठी ही साध्वी है, षड्धपी नहीं। ४—विक्रुस्ते (अकर्मक), दुष्पति ।

मेखला पृथ्वी पर सम्राट् अशोक का अधिकार था । ९—वह बोग में कुशाक है, और कई एक कौतुक कर सकता है । ७—वह अपनी माता के साथ अष्टावर्ताब करता है (मातरि साधुः) और भाइयों^१ के साथ अनुकूलता से रहता है (संमनस्^१) । ८—मैं अपनी माता को देखने के लिये उत्सुक हूँ । मैंने उसे देर से नहीं देखा । ९—ॐ शिकारी चीते को चाम (चर्म) के लिये, हाथी को दाँतों के लिये, चमरी को बालों के लिये, और कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिये मारता है । १०—वह^२ अपने बालों में ही लगा रहता है^२ । शृङ्गार ही उसका एक कृत्य रह गया है । ११—कृष्ण ने दासी को कपड़ों के लिये मार डाला । १२—गुणों^१ में राम से बढ़ कर कोई नहीं । १३—द्रोण खारी से अधिक होता है ।

संकेत—१—पुरुषोत्तमो रामो भुवि कस्य न वन्द्यः । 'पुरुषोत्तम' यह समास व्याकरण के विरुद्ध है । इसकी व्याख्या गीता में आये हुए श्लोक "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैत्युदाहृतः" के आधार पर 'उत्तमः पुरुषः इति पुरुषोत्तमः' इस प्रकार की गई है । ४—आ हिमाचलादा च कन्यान्तरीपात् समुद्रमेखलायामस्यामितायामध्यशोकः पुराऽभूत् । ९—चर्मणि द्वीपिनं हन्ति व्याधः । यहाँ 'चर्म' समवाय सम्बन्ध से चीते के साथ सम्बद्ध है । जहाँ केवल मात्र संयोग हो वहाँ भी मुग्धबोध आदि के अनुसार सप्तमी का प्रयोग हो सकता है । जैसे—कृष्ण ने दासी को..... ११—ब्रह्मेश्वधधीदासीं कृष्णः । १३—अधिको द्रोणः खार्याम् । इसमें ('तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताङ्ङ') सूत्रकार का अधिक के योग में सप्तमी प्रयोग ही प्रमाण है । अधिक के योग में पञ्चमी भी साध्वी है—अधिको द्रोणः खार्याः, इसमें भी 'यस्मादधिकं.....' इत्यादि में पञ्चमी का प्रयोग प्रमाण है । इस अर्थ को कहने का एक और भी प्रकार है—अधिका खारी द्रोणेन । अधिका=अध्यारूढा । कर्मणि क्तः । 'अधिकम्' इस सूत्र से अध्यारूढ अर्थ में अधिक शब्द निपातन किया गया है ।

अभ्यास—७

(उपपदविभक्तिः सप्तमी)

आप के यहाँ आते ही हमारे कार्य विज्ञों से रहित हो गये हैं । २—ॐ

१—१ कारकविभक्ति का प्रयोग करना हो, तो ऐसे भो कह सकते हैं—
 भ्रातृभिश्च संजानीते । २—२ स केशेषु प्रसितः । (स केशकः) । ३—३ उप
 रामे गुणैर्न कश्चनास्ति ।

उल्लाहना मत दीजिये, नगर के होते हुए गाँव में रत्न परीक्षा ! ३—ॐ उस प्रकार के प्रेम के इस अवस्था पर पहुँच जाने पर याद कराने से क्या ! १४—ॐ पौरव के पृथ्वी पर राज्व करते हुए कौन प्रजाओं के प्रति अनाचार (अविषय) करेगा ! ५—* शुभ्र ज्योत्स्ना में स्वर्ध दीपक दिखाने से क्या काव्य १—ॐ पिताजी के जीते जी नया नया विवाह होने पर निश्चय से हमारे वे दिन हूँ पर गये जब हमारी माताएँ हमारी देख-भाल करती थीं । ७—मैं जो तुम्हारे देखते देखते इस कुमार वृषभ सेन को मार डालता हूँ । ८—ॐ जब कि बेल पहले ही कट चुकी है, ता फूल कहाँ से आ सकते हैं । ९—ॐ जब संकट आते हैं^२ तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । १०—वर्षा जब शुरु होना था कि उसने अपना छाता खोल लिया । ११—उसने पग उठाया ही था कि किसी ने पीछे से आवाज दी । १२—रात^३ पड़ते ही^३ जंगली जानवर शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं । १३—अध्यापक के कमरे में प्रविष्ट होते ही जो बालक शोर मचा रहे थे^४, चुप हो गए । १४—ॐ मीन के मारे जाने पर, द्रोण के मारे जाने पर आर कर्ण के मार गिराये जाने पर, हे राजन् ! आशा ही बलवती है जो शल्य पाण्डवों को जीतेगा ।

संकेत—१—प्रविष्टमात्र एवात्रभवति निरुपप्लवानि नः कर्माणि संवृत्तानि । ७—अहं पुनर्युष्माकं प्रेक्षमाणानामेनं कुमारवृषभसेनं स्मर्तव्यशेषं नयामि । १०—छाता खोल लिया = छत्रं व्यतानीत् ।

अभ्यास--८

(भावलक्षणा षष्ठी व सप्तमी)

१—ॐ राक्षस के देखते हुए नन्द पशुओं को भौंति मारे गये । २—माता के रोते हुए भी शङ्कराचार्य ने संन्यास ले लिया और मोक्ष की चिन्ता में प्रवृत्त हो गये । ३—निहत्थे ग्रामीणों के देखते-देखते डाकू ग्राम मुखिया की सारी सम्पत्ति लूट ले गये । ४—जब वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो मैं दैवयोग से पास से निकला । ५—सुनार लोगों के देखते-देखते (सोना) चुरा लेता है इस लिये उसे 'पश्यतोहर' कहते

१—१ स्मर्तव्यशेषं नयामि, पञ्चतां प्रापयामि । २—२ यमन्त्र्यं (यमसदनं) गमयामि । उपनतेषु व्यसनेषु, उपस्थितासु व्यापसु । ३—३ अकतीर्णानां त्रियामायाम् । ४—४ शब्दकारिणो माणवकाः, शब्दकाराश्छात्राः ।

हैं और चूँकि यह एक अंश मात्र हरता है अतः इसे 'कलाद भी कहते हैं । ६—जब वर्षा प्रारम्भ हुई तो मैं घर की ओर चल पड़ा । ७—ॐ उसके जीते रहने पर मैं जीता हूँ, और मरने पर मैं मरता हूँ । ८—यदि गांधी जी का शरीरपात हो जाय तो कौन जीवित रहेगा, और यदि वे जीवित हैं तो कौन मरता है । ९—इस बात को पाठशाला के मुख्याध्यापक^१ को कहने की अपेक्षा^१ उन्होंने पाठशालाओं के निरीक्षक से कह दिया । १०—आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए उसे महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़नी पड़ी । ११—^२तुम घर में न थे^२ इस लिये मुझे निराश लौटना पड़ा । १२—* आः, यह कौन है, जो मेरे होते हुए चन्द्रगुप्त को दबाना चाहता है । १३—क्षत्रियों के देखते हुए ब्राह्मणवेषधारी अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह कर लिया । १४—दिन निकलने पर यात्रियों ने फिर^३ यात्रा प्रारम्भ कर दी^३ । १५—नटखट बालक ने शहद की मक्खियों के छत्ते को हाथ लगाया ही था कि मक्खियों के झुण्डों ने उसे डंग मार मार कर व्याकुल कर दिया । १६—ॐ आप के देखते देखते मैं इसे मौत के घाट उतारता हूँ ।

संकेत—२—इदत्या मातुः (इदत्यां मातरि) शंकराचार्यः प्राब्राजीत् । ६—प्रवर्षति देवेऽहं प्रति प्रास्थिषि । ७—संस्थिते गान्धिति को ध्रियते ध्रियमाणे च तस्मिन्कः सन्तिष्ठते । १०—सत्यर्थं कृच्छ्रे सोऽन्तरा व्यच्छिन्नन् महाविद्यालयेऽध्ययनम् । ११—त्वयि गृहेऽसंनिहिते सति मनोहतोऽहं प्रत्या-भूतम् । १३—पश्यतामेव क्षत्रियाणां ब्राह्मण-वेषोऽर्जुनो द्रौपदीमुपयमे । १५—हम यहाँ—चपले बाले मधुपटलं (क्षौद्रपटलम्) स्पृष्टवत्येव तं क्षुद्रा दंशं दंशं व्याकुलमक्कार्षुः ऐसा नहीं कह सकते । ऐसे वाक्यों का अनुवाद दो वाक्यों से ही करना उचित है—यावदेव चपलो बालः क्षौद्रपटल-मस्पृशत्, तावदेव तं क्षुद्राः.....यहां भावलक्षणा सप्तमी का अवकाश नहीं । जिस क्रियावान् कर्ता की (प्रसिद्ध) क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होता है उस कर्ता में सप्तमी विभक्ति आती है । पर वह कर्ता षष्ठी विभक्ति को छोड़ कर किसी अन्य विभक्ति में मुख्य वाक्य में नहीं आ सकता, और न ही सर्वनाम से उसका परामर्श किया जा सकता

१-१ मुख्याध्यापक के वेदयितव्ये । २-२ गृहेऽसंनिहितः । ३-३ पुनरवहनं, अवाहयन्नध्वशेषम् ।

है। अतः यहाँ भावलक्षणा सप्तमी का अवकाश नहीं।

अभ्यास—६

(कारक-विभक्तिया)

(कारक विभक्ति प्रथमा और द्वितीया)

१—ॐ जिसे यह आत्मा चाहता है उसी से प्राप्त किया जाता है। उसी के प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है। २—वृक्षों के पीछे छिपे हुए राम के बाण से बाली मारा गया। ३—* विष^१ वृक्ष को भी संवर्धन करके स्वयं काट डालना ठीक नहीं। ४—उन्होंने गो-रूप धारण किये हुई पृथ्वी से चमकते हुए रत्न और ओषधियां दोह कर प्राप्त कीं। ५—देवताओं ने क्षीर सागर से चौदह रत्नों को मथ कर प्राप्त किया। ६—डाकुओं ने उसे रास्ते में घेर लिया, और उसके पास से ५० रुपये लूट लिए। ७—* घात लगाये बैठा हुआ ऊँघता शिकारी मृगों को नहीं मार सकता। ८—ब्रह्मचारी खाट पर नहीं सोते (अधि + शी), अति कीमती गद्दे वाली शय्या का तो कहना ही क्या ? ९—वह गाँव में छुः महीने रहे, और सत्पुरुषों के भ्रम से पतित हो जाय जिसकी अनुमति से आर्य (राम) वन को गये हों। १०—शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए ऐसा स्मृतिकार कहते हैं।

संकेत—२—तरुतिरस्कृतस्य रामस्य शरणं हतो बाली। यहाँ 'बाली' कर्म है। ५—देवाः क्षीराम्बुधिं चतुर्दशं रत्नानि ममन्थुः। यहाँ 'क्षीराम्बुधि' गौण कर्म है। ६—पारिपन्थिकास्तं पथ्यवास्कन्दन्। पञ्चाशतं रूप्यकाँश्च तममुष्णन् (पञ्चाशतं रूप्यकाँश्च तस्यालुण्ठन्)। ८—ब्रह्मचारिणः खट्वामपि नाधि-शेरते, किमुत महार्घं (महाधनम्) सोपबर्हं शयनीयम् ॥

अभ्यास—१०

(तृतीया और चतुर्थी कारक विभक्तियाँ)

१—उसने अपनी ओर बढ़ते हुए शत्रु को देख कर साहसपूर्वक उसका

‡ इस विषय को सर्वमन्य कोषकार प्रिंसिपल श्री शिवराम आपटे ने सब से पहले विशद किया। विद्वन्मण्डल उनका एतदर्थ हृदय से आभारी है।

१ यहाँ 'साम्प्रतम्' इस निपात से अभिधान होने पर विष ब्रह्म (कर्म) से प्रथमा होती है। इसी प्रकार 'इति' से अभिधान होने पर भी—पण्डितं मूर्खं इति मन्यते।

सिर^१ काट डाला^१ । २—लाहौर में प्रायः सरकारी क्लर्क (लिपिकर) रहते हैं, और अमृतसर में व्यापारी लोग । ३—राम और सीता पुष्पक नाम वाले विमान में लंका से अयोध्या आये । ४—ॐ दस पत्रों के होते हुए भी गधी भार उठाती है । ५—हे राजन् ? आपके परिश्रम से कुछ न बनेगा । मुझ पर चलाया हुआ भी शस्त्र अकारथ जायगा । ६—वाजश्रवस् ने अपने पुत्र से कहा—मैं तुम्हें मृत्यु को समर्पण करता हूँ । ७—उसका आचरण मुझे पसन्द नहीं (न रोचते), वह बनावटी तपस्वी है (छद्मतापसः) । ८—वह कर्म से, वाणी से तथा मन से दूसरों को दुःख देता है (दु) । सचमुच बहुत हठी और अभिमानी है । ९—मैंने जर्मन भाषा सीखी है, परन्तु अभी^२ इसमें^१ बात चीत नहीं कर सकता । १०—मैंने उसे कान^३ से पकड़ा^३ और उसकी पीठ पर मुक्का मारा । ११—पूष^४ आदि घृतपक्वपदार्थ मारी होते हैं, और देर से पचते हैं । १२—ऋषि लोग बुढ़ापे को साँझ के साथ उपमा देते हैं । १३—हमें उन प्राचीन ऋषियों के प्रति अत्यधिक आदर देय है, जिन्होंने लोगों को सदाचार का मार्ग दिखाया । १४—राजा लोग साधारणतः उनके^५ प्रति असहिष्णु (असूयान्वित) हो जाते हैं जो उन्हें हित की बात कहते हैं^५ । १५—लक्ष्मी को ~~अस्वती~~ से ईर्ष्या है । १६—उसने मुझे (मे, मद्यम्) सहायता देने~~का~~ (साहायदानम्) (प्रति + श्रु, आ + श्रु, प्रति + ज्ञा) वचन दिया था, परन्तु कभी सहायता नहीं दी । १७—सारा संसार महारामा गांधी के चरित को इच्छा रखता है । (स्पृहयति) । १८—प्रजाएँ सखती करने वाले शासक के प्रति विद्रोह करती हैं । अतः राजा उनके साथ सखती न करे और न ही अधिक नरमी करे । १९—अध्यापक अपने शिष्य पर उसके कर्तव्य से

१-१ शिरश्चकर्त, शिरः शतयामास, शिरो वव्रश्च । ॐ इस वाक्य की संस्कृत में जो सह शब्द का प्रयोग है वह विद्यमान अर्थ में है । उसके योग में तृतीया नहीं हो सकती, क्योंकि जो उससे युक्त (पुत्र) है वह गौणार्थक नहीं प्रत्युत प्रधानार्थक है । सो यहाँ 'पुत्रैः' में तृतीया 'हरथम्भूतलक्षण' में हुई है । १-२ अनया । वाणी भावों के प्रकाशन में द्वार है, अतः तृतीया विभक्ति ही संगत होती है । 'अधिकरण' न होने से सप्तमी का प्रयोग भ्रममूलक ही समझना चाहिये । ३-३ कर्णेनागृह्णाम् । यहाँ तृतीया के साथ साथ सप्तमी का प्रयोग व्यवहारानुकूल है । सप्तमी का प्रयोग प्रचुरतर है । ४-पूष, अपूप, पिष्टक—पु० । ५-५ असूयन्ति हितवादिने ।

भ्रष्ट होने के कारण क्रोध करता है । २०—मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि भूमि को सूर्य की चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है । २१—मैं ईश्वर की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि यह दोष मेरे पर मूठ मूठ ही मढ़ा जा रहा है । २२—जो कुछ रूपया पैसा उसके पास था, वह सब उसने गरीबों में बांट दिया (दरिद्रेभ्यो व्यतारीत्) । २३—जल से तृप्त पुरुष को शीतल सुगन्ध युक्त जलधारा अच्छी नहीं लगती ।

संकेत—२—राजनियुक्तैः प्रायेण लिपिकरैरध्युषितं लवपुरम् अमृतसरसं च नैगमैः । ३—सीतारामौ पुष्पकाख्येन विमानेन लङ्कातोऽयोध्यामावर्ततम् । यहाँ विमान अधिकरण होता हुआ भी करण समझा जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक वाहन के विषय में समझो । एवं शरीर का प्रत्येक अंग वाहन समझा जा सकता है । इसलिये यहाँ सप्तमी का प्रयोग उचित नहीं । इस विषय में “विषयप्रवेश” में कारक प्रकरण देखो । “पुष्पकाख्येन” में गत्व नहीं होगा । १२—ऋषयो जरां प्रदोषेणोपमिमते । १३—तेभ्यः पुराणेभ्यो मुनिभ्यो बहुमानं धारयामो ये मनुजमात्रस्य कारणादाचारपद्धतिं प्राणयन् । २०—कियता कालेन क्षितिरादित्यं परित आवर्तत इति नाहं ते निवर्त्तुमर्हामि ॥

अभ्यास—११

(पञ्चमी कारक-विभक्ति)

१—वह एक बहुत अच्छा घुड़सवार होते हुए भी प्रमत्त हो गया । २—सज्जनों को पाप से बचाने के लिए, और पुण्य में प्रीति है । इसमें स्वभाव ही कारण है । ३—तू स्वाध्याय (वेद पाठ) से प्रमाद मत कर । स्वाध्याय ही ब्राह्मण के लिये परम तप है । ४—ब्रह्मों से सताने हुए वे अपने कार्य से हट जाते हैं । ५—ब्राह्मण विष के समान सम्मान से सदा डरे और अमृत की तरह अपमान को चाहे । ६—इस धर्म का थोड़ा से भी अंश बड़े भय से बचाता है । यहाँ प्रारम्भ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता और न करने से पाप भी नहीं लगता । ७—अब मैं असत्य से सत्य को प्राप्त होता हूँ । ८—चोर संध

१-१ ईश्वरेण शपे । इस प्रकार की शपथ अनार्यों के सम्पर्क से आर्यों में भी संक्रान्त हो गई है । पहले तो सत्य आदि की शपथ होती थी । देखो मनु० सभ्येन शापयोद्विप्रम् इत्यादि । १—जुगुप्सन्ते ।

लगा^१ कर चौकीदारों^२ से छिप गये^३ और दबे पांव निकल गये । ९—❀ हमें कृपण की कुटिलता से बचाओ । १०—* वेद अल्पज्ञ से डरता है कि कहीं यह मुझे चोट न पहुंचाये । ११—कुछ लोगों ने व्यवसाय बना रखा है कि वे अपने मित्रों से रूपया ढुंढते हैं । १२—गंगा हिमालय से निकलती है (प्र + त्रू) और बंगाल^४ की खाड़ी में जा गिरती है^५ । १३—❀ हे मूढ़ ! मृत्यु^६ से क्यों डरता है, वह डरे हुये को छोड़ तो नहीं देगी, वह आज अथवा सौ बरस में कमी तो आएगी ही । १५—अपने बच्चे को दुर्जन के संग से बचाओ, कहीं वह व्यसनों में न फँस जाय ।

संकेत—१—निपुणः स सादी, तथापि तुरङ्गादपतत् । क्षयं हि प्रमत्तोऽभूत् ४—बिघ्नैः प्रतिहतारणे विरमन्ति व्यापारात् । ११—केषाञ्चिज्जनानाम् एष एव व्यावसायो यत्ते स्वमित्राणि धनाद् वञ्चयन्ते । ठगने अर्थ में वञ्च (चुरादि) आत्मनेपदी ही है । जो चीज़ ठगी जाती है उसमें पञ्चमी आती है । यहाँ 'अपादान' अर्थ में ही पञ्चमी है । शक्ता वञ्चयितुं प्राज्ञं ब्राह्मणं छगलादिव—तन्त्राख्यायिका । 'मुष्' चुराना, लूटने के अर्थ में जो पदार्थ लूटा या चुराया जाता है, उसमें द्वितीया, तिसरी, चतुर्थी आती है, उसमें पञ्चमी और द्वितीया भी । हाँ जहाँ किसी पदार्थ को वञ्चन की क्रिया का कर्ता मान लिया जाय वहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीया भी निर्दिष्ट होगी—न वञ्चयते वेतसवृत्तिरर्थः—तन्त्राख्यायिका । १२—अपने बच्चे को दुर्जन से बचाओ । मा स्म प्रसाङ्क्षीद् व्यसनेषु ।

अभ्यास — १२

(षष्ठी-कारक-विभक्ति)

१—* पाणिनि के सूत्रों की कृति अतीव विचित्र है । २—गीता का दैनिक पाठ अध्यात्म उन्नति के लिये अत्यधिक हितकर है । ३—❀ मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता हीता है । ४—❀ चाही हुई वस्तुओं के उपभोग से चाह कभी मिटती नहीं, बढ़ती ही जाती है जैसे हवि से अग्नि ।

१ सन्धि छिन्धा । २ प्रहरिन् । ३ त्रितोऽभवन्, तितोधीयन्, अन्तरदधत् (अन्तर्दधिरे) । ४—४ बह्वस्वात्मभ्येति (प्रविशति) । ५ मृत्यु शब्द पुं० और स्त्री० है । अतः यहाँ उत्तर वाक्य में तद् सर्वनाम का पुँल्लिङ्ग रूप सः' अथवा स्त्री० 'सा' प्रयोग किया जा सकता है ।

५—दूसरे के गुणों को जानने वाले बहुत नहीं होते । ६—ॐ तुम्हें यक्षेश्वरों की अलका नामक नगरी को जाना है । इसलिये मेघदूत में बताये हुये मार्ग का आश्रयण करना । ७—पिता ने पुत्र को कहा—बेटा, तुम लोकव्यवहार से अनभिज्ञ हो । ८—ॐ विद्वान् लोग बड़े २ शास्त्रों को कण्ठस्थ किये हुये और रंश्यों को छिन्न-भिन्न करने वाले लोभ से मोहित होकर कष्ट पाते हैं । ९—मैं दिन में एक बार नहाता हूँ, दो बार भोजन करता हूँ और तीन बार सैर करता हूँ ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे । १०—ॐ अंग को काट डालना, जला देना, घाव से रक्त निकाल देना ये अमी अमी उसे हुए लोगों की आयु बचाने के उपाय हैं ।


सकेत—२—नित्यां गीतानामध्यायोऽध्यात्मोन्नतयेऽतिमात्रं हितः । संस्कृतसाहित्य में 'गीता' शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता आया है । गोता के एकवचनान्त आधुनिक प्रयोग को शिष्ट व्यवहार पुष्ट नहीं करता । वस्तुतः 'गीताः' का 'उपनिषद्' अनुक्त विशेष्य समझना चाहिये । ३—ॐ लोको हि स्वस्य भाग्यस्य निर्माता (लोको हि स्वं भाग्यं स्वयं निर्मिषीते) । ५—न हि परगुणानां विज्ञातारो बहवो भवन्ति । ७—पुत्र ! लोक-व्यवहारमगाम-नभिज्ञोऽसि ।

अभ्यास--१३

(सप्तमी-कारक-विभक्ति)

१—ॐ विपत्ति में धीरज, सम्पत्ति में क्षमा, सभा में वाणी की चतुराई, युद्ध में विक्रम, यश से प्रेम तथा वेद में लगन ये सब महात्माओं में स्वभाव-सिद्ध हैं । २—श्री राम अपनी सन्तान की भाँति प्रजा का पालन करते थे । अतः प्रजा उनमें अनुरक्त थी । ३—इस प्रकार के आचरण की तुम से सम्भावना न थी । तुमने नीचों (प्राकृत, पृथग्जन) का सा व्यवहार क्यों कर किया १४—ॐ राजा से भूषणविक्रय की सम्भावना कौन कर सकता है । १५—मैं यह मुद्रिका अपने पुत्र को अर्पण कर दूँगा । अब यह मुझे शोभा नहीं देती । ६—उसने अपने पुराने मित्र देवदत्त^३ के पास^३ २००

१ क्लिश्यन्ते (दिवादि० अकर्मक) । २ भाव में घञ् । अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्—यहाँ संज्ञाग्रहण प्रायिक है । करण वा अधिकरण में निपातेत 'अध्याय' का अर्थ 'वेद' है । ३-३ देवदत्ते (सामीपिकमधिकरणम्) ।



स्पष्ट जमा^१ कराए, जिन्हें उसने लौटाने का नाम तक नहीं लिया^२ ।
 ६—मुनिशौं के बलकल वृशौं की शाखाश्रौं^३ से लटक रहे हैं, अतः यह तपो-
 वन ही होगा । ८—ः मो महाराज ! आप कृपा करके मेरी (नाट्य) शास्त्र
 श्रौंर उसके प्रयोग में परीक्षा करें । ९—शत्रु का उचित आतिथ्य सत्कार किया
 जाना चाहिए यह शिष्टौं का आचार है । १०—पुरांचन ने लाख के धर को
 आग लगा दी, पर पाण्डव पहले ही वहाँ से निकल चुके थे । ११—कालि-
 दाय संवार का यदि सबसे बड़ा कवि नहीं, तो बड़े कवियों में से एक अवश्य
 था । १२—पेमी खेलें जो पाठशालाश्रौं में खेली जाती हैं, प्रत्येक^४ दर्शक के
 लिये मनोरञ्जक हो सकती हैं^५ । १३—पैरौं में मोच आने के कारण मैं चल
 नहीं सकता । १४—वह पतिव्रता दमयन्ती नल से सुख व दुःख में समान
 प्रेम करती थी । १५—पुराना नौकर अपराध करने पर भी गिडर (अपराधे
 पि निः शङ्कः) होता है श्रौंर प्रभु का तिरस्कार करके बेरोक^६ टोक विचगता है ।
 १६—ः में दस सुवर्ण हार गया हूँ । १७—ः हिरन के इम कोमल शरीर
 पर कृपा कर के बाण न छोड़िये, यह रुई के डेर पर आग के समान होगा ।
 १८—ः शकुन्तला ने किर्मा पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति अपराध किया है ।

संकेत—२—श्रीरामः प्रजाः स्वाः प्रजा इव तन्त्रय ते^७स्म, (तन्त्रयास्व-
 भूय) तस्मात्तास्तस्मिन्भूयो^८नुरज्यन्तेरस । ३—नद स्म सम्भाव्यते स्वयि ।
 'स्म' शब्द का प्रयोग क्रियापद से पहले भी हो सकता है, श्रौंर पीछे भी ।
 ५—अहमेतद्गुलीयकं (इमासृजिकां) पुत्रे समर्पयामि । जेतुंमते मयि ।
 यहाँ 'पुत्राय' भी उद्ध होगा, पर प्राचीन साहित्य में मत्समी का प्रयोग अधिक
 देखा जाता है । ईश्वरप्रणिधान तस्मिन्परमगुरौ सवकर्मार्पणम् (योगभाष्य) ।
 कर्मा नहीं द्वितीया भी देखी जाती है । जैसे—तं देवाः मरे अपिनास्तदु नात्येति
 कश्चन । सिद्धा मतिविभ्रममिवापितो न किञ्चिदप्युदाहृतवान् (तन्त्रा-
 ख्यायिका) । अर्पितः (ऋ + णिच् + क्त) का मूल अर्थ 'पहुँचाया हुआ'
 (गमितः) है । अतः द्वितीया उपपन्न ही है । अधिकरण विवक्षा में मत्समी

१—न्यास्यत्, न्यक्षिपत् । २—२ यत्प्रत्यावर्तनं न जातु वाचापि निर्दिशत् ।
 ३—३ शाखासु । अपादान न होने से पञ्चमी का कोई अवसर नहीं । ४-४
 प्रत्येक दर्शकानां मनोविनोदाय कल्पन्ते । ५—निरवग्रह—वि० । ६—तन्त्र चुरादि
 नित्य आत्मनेपदी है । ७—अनुरज्यन्ते कर्मकर्तारि प्रयोग है । 'तमनुरज्यन्ते'
 भी निर्दोष है ।

का प्रयोग होने लगा । कालान्तर में अर्थान्तर (देना) हो जाने से चतुर्थी का भी व्यवहार होने लगा । ७—यतीनां बल्कलानि वृक्षशाखास्ववलम्बन्ते, अतस्तपोवनेनानेन भवितव्यम् । यहाँ 'वृक्षशाखाभ्यः' ऐसा पञ्चम्यन्त प्रयोग बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपादान कारक नहीं है । हिन्दी के 'मे' को देखकर भ्रान्ति होती है । १०—पुरोचनां जतुगृहेग्निमदात्, पाण्डवाः गतः प्रागेव ततो निरकामन् । १६—इशसु सुवर्णेषु पराजितोऽस्मि (चारुदत्त, अङ्क २) । यहाँ सप्तमी का प्रयोग विशेष अवधेय है ।

अभ्यास—१४

(अव्यय—निपात)

१—* ज्योंही वे समुद्र^२ पर पहुँचे, आदि पुरुष जान पड़ा (च-च) ।
२—*श्रीमन् ! (अङ्ग) कृपया आप इस बालक को व्याकरण पढ़ाइये । ३—हे मित्र (अयि) कृपया आप मेरी प्रार्थना को न टुकराएँ । ४—जैसे ही (यावदेव) मैं वहाँ पहुँचा, वैसे ही (तावदेव) मैंने पृथु-ताञ्ज शुरू कर दी, और अभियुक्तों को बिल्कुल निर्दोष पाया । ५—जब से (यदेव) उसने घर छोड़ा है, तबसे (तदा प्रभृत्येव) उसकी माता बहुत व्याकुल है । ६—माना (कामम्) कि—मैं दुर्बल हूँ फिर भी मैं उसमें बड़-बड़ कर हूँ । ७—* राम

१—यहाँ यह जानना भी विद्वानों के प्रमाद के लिए होगा कि पद (जाना) के प्रतिपूर्वक ण्यन्त रूप 'प्रतिपादि' के प्रयोग में भा ण्यन्त ऋ (अयि) की तरह द्वितीया, सप्तमी और चतुर्थी विभक्तियाँ श्वा जाती हैं । यहाँ भा प्रतिपादन का मूल अर्थ 'पहुँचाना' मानने से द्वितीया निवाच ही है—मवरस्नानि राजा तु यथाहं प्रतिपादेयत् । ब्राह्मणान् वेदविदुः यज्ञार्थं चै । दत्त खाम् ॥ (मनु० ११.४॥) । एता माला च ताग च कामाभ्यं न शश्वत्म् । सुप्रीवो बालिन हस्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ (राम० युद्ध० २८ ३२॥) । सामीपिक * भिकरण की विवक्षा में मूल अर्थ का ही रसाकार करते हुए सप्तमी का प्रयोग होने लगा—घनानि तु यथाशक्ति त्रिप्रपु प्रतिपादयत् (मनु० ११.६॥) । कालान्तर में 'देना' अर्थ स्वाधार होने पर चतुर्थी का प्रयोग भी होने लगा—गुणवते कन्या प्रतिपादनीया (शकुन्तला अङ्क ४) । अयिभ्यः प्रतिपाद्य मनमर्नशं प्राप्नोति वृद्धिं पगम् । मत् ० २ १६०) । २—सरस्वत्, उदन्वत् अकूपार—पुं० ।

दुबारा बाण-सन्धान नहीं करता, आश्रितों को दुबारा स्थान नहीं देता और दुबारा वचन नहीं कहता । ८—उमसे यह वियोग तो एकाएक (एकपदे) (सपदि अकस्मात्) आ गया (उपनत) है । ९—वह अच्छा बोल रहा है, इसको बीच में (अन्तरा) मत टोको (गंको) । १०—वह शत्रुओं से घिर गया था । उसे बहुत कठिनता से (कथकथमपि) बचाया गया । ११—ॐ प्रायः^१ समान विद्या वाले एक दूसरे के यश को नहीं सहते । १२—ॐ राजाओं को तिनके से भी काम पड़ता है, फिर बाणी और हाथ से युक्त मनुष्य का तो क्या कहना (किमङ्ग) । १३—चपड़ागी प्रतिदिन (अनुदिनम्) प्रातःकाल छः बजे घण्टी बजाया करता है । १४—वह भले ही प्राणों को छोड़ दे, पर शत्रु के आगे न झुकेगा । १५—वह इतना चुलचुला लड़का है कि एक शरण भी निचल्ला नहीं बैठ सकता । १६—कुर्छा जितना आंधक महारा होगा, उतना ही पानी ठण्डा और सोडा होगा । १७—वह इतना (एतावत्) थका, और भूखा था कि घर पहुँचते ही अधमरा होकर जा गया । १८—मैं उसे अपना प्यारा मित्र समझता हूँ पर (पुनर्^२ वह मुझे शत्रु की दृष्टि से देखता है । १९—अर्भा^३ जाइये^३ और महाराज से कह दीजिये कि मरागरी को झूला झूलते समय गिर में सक्त चोट आई है ।

संकेत—३—अग्नि ! नाहंसि प्रणयं मे विदन्तुम् । ४—यावदेवाहं तत्रागं सावदेव इत्तमनुसमधाम् अयुध चाभियुक्ता अनागम इति । ६—कामं दुर्वलाऽस्मि, तस्मात्त्वभ्याधकोऽस्मि । ९—एष सावु भाषते (देशरूपं ब्रवीति, बदति-रूपम्) मैत्रमन्तरा प्रतिवधान । १५—कामं प्राणान् जह्यात्, न पुनरसौ शत्रोः पुरतो वैतर्सी वृत्तिमाश्रयेत् । १७—स तथा चपलः कुमारो यथा क्षणमपि निश्चलं न तिष्ठति ।

अभ्यास—१५

(अव्यय, निपात)

१—* पिछले बरस (परन्तु) आप चतुर थे, और इस बरस (ऐपमस) अधिक चतुर हो गये हैं । २—पिछले से पिछले बरस (परारि) गया हुआ

१—‘प्रायस्’ सकारान्त अव्यय है । ‘प्राय’ अकारान्त पुं० नाम भौ है । इसका प्रयोग तृतीया अथवा पञ्चमी में होता है—प्रस्येण, प्रायात् ।

२ पुनर् वाक्य के आदि में प्रयुक्त नहीं होता । ३-३ अभितो गच्छ ।

स्वामी पिछले बरस (परन्तु) नहीं आया, और न उसकी इस बरस (ऐषमस्) लौटने की आशा है । ३—मैंने तुम्हें बार-बार (अमकृत्) कह दिया है कि मैं अपने^३ इरादे को बदलनेवाला नहीं । ४—शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात् (अनुपदम् अन्वक्) पुनर्जन्म होता है । ५—भारतवर्ष कब पहले की तरह जगद्गुरु बनेगा, और कब अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा । ६—जब तेरी बुद्धि अज्ञानरूपी दलदल के पार पहुँच जायगी तब (तदा) जो कुछ तुम (पहले) पढ़ चुके हो, और जो तुमको अभी पढ़ना है उसके प्रति तुम्हें परम-वैराग्य प्राप्त हो जायगा । ७—क्या तुम वहाँ गये थे ? जी हाँ (अथकिम्) मैं गया था । ८—प्रस्ताव का विरोध करने के लिये नगररक्षिणी सभा के बहुत से सदस्य एक साथ (युगपद् चिल्ला उठे आक्रोशन्, सम्प्रावदन्त) । ९—अब मुझे जाने दो ।^२ मैं तुम्हें परमों (परश्वस) फिर मिलूँगा, तब हम बाकी विषयों पर विचार^३ करेंगे^२ । १०—कल (श्वस्) क्या होने वाला है, यह कौन ठीक-ठीक (अद्वा) जानता है । ११—तारे रात को (दोषा) चमकते हैं, और दिन में (दिवा) छिप जाते हैं । १२—सूर्य पृथ्वी में उदय होता है, और पश्चिम में अस्त होता है । यह कथन मिथ्या है । वस्तुतः उसका न उदय होना है और न अस्त । १३—तुम क्यों अजनबी^४ की तरह (इय) पड़ते हो ? तुम तो यहाँ चिर से (चिरात् प्रभृति) रहते हो । १४—क्या (किम्) यह जगत् रस्मी में साँप की तरह अथवा (उत, आहो, उताहो, आहोस्विन्) साँप^५ में चान्द्री की भ्रान्ति की तरह मिथ्या है वा सत्य है ? १५—अनुवाद करना विद्वानों के लिये भी कठिन है, साधारण लुत्तों का तो कहना ही क्या (कि पुनः) । १६—यदि^६ उल्लू दिन में नहीं देख सकता, तो इसमें सूर्य का क्या दोष! १७—उसका उच्चारण कुछ नहीं वह तो अच्छी तरह शिक्षा दिया हुआ भी बार बार अशुद्ध उच्चारण करता है । १८—ज्योंही अलक्षेन्द्र घोड़ेपर सवार हुआ, घोड़ा^७ हवा हो गया^७ । १९—ज्यों ज्यों मनुष्य शास्त्र को पढ़ता है त्यों त्यों ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान में उसकी रुचि होती है । २०—

१-१ नाहं निश्चयं हारयामि । २ सम्प्रति विसृज माम् । ३-३ विप्रकथावः, चिन्तयिष्यावः । ४-आगन्तु, आगन्तुक—वि० । ५-शुक्ति—स्त्री० । ६-इस वाक्य के अनुवाद में यदि शब्द सिद्धार्थानुवाद में प्रयुक्त होता है । ७-७ वातत्येव रंहोऽघात्, वायुरिव क्षेपिष्ठो बभूव, अवातायत ।

बह गरमी की ऋतु में रातों में लगातार (पुरा) पढ़ता रहा । जिससे उसकी आँखें खराब हो गई ।

संकेत—३—अहं न्याममकृदवोचं नाहं मनोऽन्यथयितुमीह इति (न मनो विकल्पयितुमिच्छामि) । १२—आदित्यः पुरस्तादुदेति पश्चादस्तमेतीति मिथ्या कल्पना । नहि तस्योदयास्तमयो स्तः । १५—अनीपत्करोऽनुवादो विशेषज्ञैः किम्पुनश्छात्रमामान्यैः । १७—स किमर्थात् । बलवदपि शिक्षितोऽसौ पदानि मिथ्याकारयते ।

अभ्यास—१६

(अन्यय निपात)

१—* पुत्र के गोल्ड वग्स के हो जाने पर पिता उससे मित्र के समान (वत्) आचरण करे । २—यह समय के अनुकूल नहीं अतः विचार स्थगित कर देना चाहिये । ३—* सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश कहाँ (क) और मेरी तुच्छ बुद्धि कहाँ (क) । ४—* यौवन, धन सम्पत्ति, और प्रभुत्व तथा अविचेकता—इन (चारों) में प्रत्येक अर्थ के लिये है, जहाँ चारों ही हों, वहाँ क्या कहना (किमु) । ५—* मैं विदेश में रहने वाला हूँ, इस लिए (इति) तुम से पढ़ता हूँ कि पुलिस का एक मात्र अध्यक्ष कौन है ? ६—* क्या गुरु जी उस लड़की से अप्रमत्त नहीं थे (न खलु) ? ७—मर^२ हुए का बहाना कर के^२ वह शेर के सामने सांस रोक कर पड़ा रहा । ८—पिता जी, कुशल हैं न ? (कच्चत्) । क्या माता जी सब तरह सुखी हैं ? ९—अर्जी (ननु) मैं कहता हूँ तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिये । समय^३ बीता जा रहा है^३ । १०—जितना अधिक (यथा यथा) संस्कृत साहित्य का मैंने अध्ययन किया, उतना ही अधिक (तथा तथा) मुझे अपनी संस्कृति के महत्त्व पर विश्वास होता गया । ११—* मनुष्यों के लिए एक ही बड़िया वस्तु है—या (उत) राज्य या (उत) तपोवन । १२—मुझे पुरा (अलम्) पता नहीं और न ही मैं कुछ और जानने में समर्थ (अलम्) हूँ । १३—जितने आप अधिक नरम होते हैं, उतना ही वह ढीठ होता जाता है

१—१ क्षपासु पुराऽधीतेऽस्म (पुराऽध्यगीष्ट) । यहाँ 'पुरा' 'प्रबन्ध' अर्थ में है अतः 'पुरि लुङ् चाभे का विषय नहीं । इसीलिये लट् के साथ 'स्म' का प्रयोग किया गया है । २—२ मृतो नाम भूषा । ३—३ प्रत्येति कालः ।

(यथा यथा) (तथा तथा) । १४—वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध आरम्भ ही हुआ था, कि दुकानदारों ने प्रायः प्रत्येक वस्तु की कीमत दुगुनी क्या चौगुनी कर दी। कितना स्वार्थपरता ! १५—जब तक सांस तब तक आस । १६—मैंने अभी (यावदेव) पुस्तक हाथ में ली ही थी कि^१ नौद ने मुझे आ घेरा । १७—ॐ मन्त्री को कहा हमें स्वीकार है (ओम्) । १८—आप को मङ्गल बुध की छुट्टी ह, आर किसी एक दिन (अन्यतरेद्युः) मुझे मिल सकते हैं ।

संकेत—२—दृढमयास्प्रतम् (नेदं प्रस्तावमदशम्) व्याक्षेपणीयो विमर्शः । संस्कृत में स्थग् का अर्थ ढाँकना या घेरना है । स्थगितमम्बरमम्बुर्दः । हिन्दी “ठग” इसी धातु से बना है ऐसा विद्वानों का मत है । अतः यहाँ ‘स्थगनीयः’ ऐसा नहीं कह सकते । ८—कच्चिक्कुशली तानः सुखिनी वाऽभ्या । ‘सुखवती’ नहीं कह सकते। १०—यथा यथाह संस्कृतं वाङ्मयमभ्ययि तथा तत्रास्मत्संस्कृतेगौरवं प्रति प्रत्ययित्तोऽजाये । १४—वर्तमानो विश्वं व्यश्नुवानः समरश्च समारभ्यत, आपणिकाश्च प्रायेण प्रत्येकं वस्तुनोऽर्धं न केवलं द्विगुणता-मापादयंश्चतुर्गुणतामपि । अहो स्वार्थप्रमङ्गः ।

अभ्यास—१७

(अव्यय, निपात)

१—ॐ राजा—जयसेन ! क्या (ननु) गौतम ने (अपना) काम समाप्त कर लिया है ? प्रतिहारी—जी हाँ ! (अथ किम्) ? २—भीम और (अथ) अर्जुन ने भारत युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया । ३—ॐ क्या मैं आशा करूँ ! (अपि) कि वह ब्राह्मण का लड़का जी जाय । ४—एक ओर तो उमका काम कठिन है, और दूसरी ओर उमका बल घट गया है (च—च) । ५—ॐ यह कैसे सम्भव हो (कथंनु) कि मैं गुणवती स्त्री को पाऊँ । ६—ऐसी सुन्दर मधुर वाणी बोल कि कोयलें भी चुप हो जाएँ । ७—मित्र देवदत्त ! (ननु देवदत्त) इतनी कठोरता कहाँ से आगई कि पास से निकलते हुए इधर दृष्टि नहीं डालते हो ? ८—ॐ अब (हन्त)^२ मैं तुमसे अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूँ । ९—ॐ विदूषक—पूज्ये ? आओ मेहों की लड़ाई देंगे । व्यर्थ (मुधा) वेतन देने से क्या ? १०—ॐ बड़े हर्ष की बात

१—१ निद्रयाऽपहिये । २— यहाँ ‘हन्त’ वाक्यारम्भ में प्रयुक्त हुआ है । अर्थ विशेष कुल नहीं । हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविपादयोः—अमर ।

है (दिष्टया) कि महारानी ने आप को क्रोध के बहाने बचा लिया है ।
 ११—❀ मैंने तो निश्चय ही (नाम) मुग्ध चातक के समान (इव) सूखे
 जल रहित बादलों की गर्जवाले आकाश में जलपान चाहा । १२—❀ लेख के
 द्वारा बात के निर्णोत हो जाने पर वाणी द्वारा सन्देश^१ से कुछ काम नहीं
 (खलु) । १३—❀ सम्भावना है (किल)^२ अर्जुन कौरवों को जीत लेगा ।
 १४—चुपचाप (जोषम्) बैठो । हर एक अपने अपने काम में लग जाओ ।
 १५—क्यों जी ? (ननु) मैं अपने मित्र से सहायता माँगूँ ? वह बुरा तो
 नहीं मानेगा । १६—देवदत्त ! तूने चटाई बना ली ? अजी हाँ ! बना चुका
 हूँ । १७—कुशिक्षित बार बार बोलता है । विद्वान सभाओं में ठीक ठीक कहता
 है । मूर्ख अवसर के सदृश नहीं बोलता । १८—अच्छा । (भवतु) मैं इस बात
 को छिपाता हूँ और इसका मन दूसरी ओर खींचता हूँ । १९—❀ तू बहुत
 (वाढम्) बोलता है, तेरे मुँह में लगाम नहीं । २०—❀ गदा हाथ में लिये
 हुए भीम युद्ध में क्रोध में आये हुए साँप की तरह (वा) बादलों में से निकले
 हुए सूर्य की तरह (वा) और यम की तरह (वा) दिखाई देता था ।

संकेत—४—न च सुकरं कार्यं, परिक्षीणं चास्या बलम् । ६—वितर
 गिरमुदारं येन मूकाः पिकाः स्युः । १३ अर्जुनः किल विजेष्यते कुरून् । यहाँ
 'किल' का अर्थ 'संभावना' है । १४—जोषमाध्वम् । यूयं प्रत्येकं यथायथं
 (यथास्वम्) कर्मणि ब्याप्रियध्वम् । १५—ननु सखायं साहायकं याचे ?
 कच्चिन्न कोपिष्यति । १६—अकार्पाः कटं देवदत्त ! ननु करोमि भोः । यहाँ
 लुङ् के स्थान पर लट् का प्रयोग विशेष अवधेय है । १७—शश्वद्वक्ति कुशि-
 क्षितः । यथातथं वक्ति सभासु विद्वान् । विषमं वक्ति मूर्खः ॥ १८—भवत्वन्तर-
 यामि । मनोऽस्यान्यत आक्षिपामि ।

अभ्यास—१८

(समास)

१—वह अपने शरीर का कुछ ख्याल नहीं करता । पीछे पछतायेगा ।
 २—वह ठोस अज्ञों वाला,^३ विस्तृत छातीवाला^४ और लम्बी भुजाओं
 वाला कुमार न जाने किस कुल का अलङ्कार है । ३—❀ जूता पहने हुए

१ वाचिक—नपुं । २—'किल' वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त नहीं होता ।

३—घनापघनः । ४—व्यूढोरस्कः ।

पैरों वाले व्यक्ति को पृथ्वी निश्चय ही चमड़े से ढकी हुई सी मालूम होती है । ४—स्वामी जो अपने नौकरों को प्रसन्न करता है, सुख पाता है । ५—मथुरा नगरी यमुना के किनारे के साथ साथ बसी हुई है और बनारस गङ्गा के । ६—यह सभा प्रायः विद्वानों से पूर्ण है, तो किस नाटक को खेल कर हम इसे प्रसन्न करें । ७—मेरी प्रजाएँ रोग रहित और साधारण देवी आपदाओं से रहित हैं । ८—तुम्हें मार्ग के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिये । ऐसा न हो तुम गाड़ी से टकरा कर गिर जाओ । ९—प्रिय मित्र, तुम पहले की तरह मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते । १०—वह तुम्हें धोखा दे यह बात कल्पना^१ से परे है^३ । ११—वह समय से पूर्व वृद्धा हा गया है, उसके बाल सफेद हो गये हैं और दाँत गिर गये हैं । १२—ॐ तपस्या को धन मानने वालों के लिये तप ही श्रेष्ठ है । १३—काश्मीर में स्वच्छ जलवाले कई तालाब हैं जहाँ पेट^२ के रोगों से पीड़ित जल सेवन से नीरोग हो जाते हैं । १४—हरि वरुण और यम तथा चन्द्र और सूर्य तुम्हारी नित्य रक्षा करें । १५—सब इन्द्रियों के विषय की चाह से विमुख मुझ आसी^४ (८०) बरस के व्यक्तिको धन से क्या काम । १६—गुरुजी के सो से ऊपर शिष्य हैं और सभी बुद्धिमान (सुमेधस्) हैं । १७—इस बच्चे को जन्मे छः मास हुए हैं, इसमें अपूर्व ही चुरती है ।

संकेत—१—सोऽनवहितः स्वे शरीरं (स मन्दादरः स्वे शरीरे) । दूसरे वाक्य में आदर का सम्बन्ध यद्यपि 'शरीर' से है फिर भी इसका 'मन्द' से समास हुआ है । ऐसा करने पर भी जहाँ अर्थ प्रतिपत्ति निर्बाध होती है, वहाँ दोष नहीं माना जाता । जैसा कि शिष्ट-व्यवहृत प्रसिद्ध वाक्य "देवदत्तस्य गुरुकुलम्" में असामर्थ्य होने पर भी गुरु शब्द का समास कुल के साथ होता है । ५—अनुयमुनं मथुरा, अनुगङ्गं वाराणसी । ८—न त्वया मध्येमार्गं स्थानीयम्, नोचेद्यानेनावपातयिष्यसे (यानाघातेन निपातयिष्यसे) । ११—स युवजरन्भवति (अकाले परिश्रुतोऽसौ) पल्लितास्तस्य केशाः^२ प्रपतितारश्च दन्ताः । १६—आदित्यचन्द्रौ (दिवाकर निशाकरौ) । चन्द्र की अपेक्षा सूर्य अभ्यर्हित

१-१ कल्पनापाठम् । २-उदर्यै रोगैरार्ताः । ३-केश, कच, कुन्तल, शिरोरुह, मूर्धन्य—पुं । ४-अशीतिवर्षः, अशीतिहायनः । इनका विग्रह इस प्रकार है—(अशीति वर्षाणि भूतः, अशीतिर्हायनाः, प्रमाणमस्य वयसः) ।

है (पृथ्वी, श्रेष्ठ है) अतः समास में सूर्यवाची पद पहले आता है । इन दोनों को एकपद 'पुष्पवन्तौ' से भी कह सकते हैं । १५—विषयव्यावृत्त-कौतूहलः । १७—वर्णमासजात एष शिशुः । अस्मिन्नपूर्वः कोपि परिस्पन्दः ।

अभ्यास—१६

(समास)

१—ॐ ये गरमी के दिन हैं, जब जल में स्नान करना भला मालूम होता है, जब गुलाब के फूलों के संसर्ग से वायु सुगन्धित रहती है, जब सघन छाया में नींद आसानी से आ जाती है, जब साँझ सुहावनी होती है । २—शरीर के ऊपर के भाग में (पूर्वकाये) ओढ़ जाने, वाले वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं, और नीचे के भाग में (अपरकाये) पहने जानेवाले वस्त्र को परिधानीय कहते हैं । ३—हे माली ! मेरे लिये अच्छी सुगन्ध वाले कोई तीन एक हार गूँथ दो । ४—यदि वह पाप को धोना चाहता है, तो उसे ब्राह्मण को दस गौ और एक बैल देने चाहिए । ५—मैं अब जाने के लिये उत्कण्ठित हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ठहरने से मेरे व्यापार में बिघ्न पड़ता है । ६—पुस्तक को हाथ में लिये हुए मेरे पास आओ और 'एकाग्रचित्त' होकर पढ़ो । ७—दुर्व्यवहार किये जाने पर होठों को काटते हुए और लाल आँख किये हुए वे राजकुमार वहाँ से उठकर चल दिये । ८—नागरिक और देहाती लोग राज्य शासन में किये गये इस महान् परिवर्तन को जानें । ९—अमित तेजवाले और पापों से विशुद्ध हुए हुए ऋषि भारत में रहते थे । १०—ॐ बहुत पत्नियों वाले राजा सुने जाते हैं यह शकुन्तला की सखी प्रियंवदा ने राजा दुष्यन्त से कहा । ११—मेरे जोड़ों में चोट लगी है, इस लिये मेरे हाथ पाँव आगे नहीं बढ़ते ! १२—उसने सारी रात जागकर काटी (आँखों में) काटी । १३—उन दोनों में मुक्का-मुक्की युद्ध तबतक जारी रहा जबतक एक हार नहीं गया । १४—कोसे जल से स्नान करें, इससे आपको सुख अनुभव होगा । १५—ॐ शरत्काल के बादल के समान चंचल, तथा बहुत छल वाली लक्ष्मी अपनी इन्द्रियों पर वश न रखने वाले लोगों से आसानी से नहीं बचाई जा

१-१ एकतान, अनन्यवृत्ति, एकाग्र, एकाग्र, एकसर्ग, एकाग्र, एकाग्र-यनगत—वि० । २ पौरजानपदाः ।

सकती । १६—* सब याचकों के लिये कल्पतरु तथा सब कलाओं में पारं पहुँचा हुआ अमरशक्ति नामक राजा हुआ । १७—* इन्हें से द्रवित हृदय उसने तीन रातों के बाद यात्रा को तोड़ा । १८—* फिर कभी सब जानवरों से घिरा हुआ, प्यास से व्याकुल पिंगलक नाम का सिंघ जल पीने के लिये यमुना के किनारे उतरा । १९—एक दो गलतियाँ करने वाले को क्षमा किया जा सकता है पर बार-बार अपराध करने वाले को कौन क्षमा करे । २०—ऐसी आशा है कि लगभग बीस^१ विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास होंगे और तीस के ऊपर^२ द्वितीय श्रेणी में ।

संकेत—३—मालाकार ! उत्तमगन्धाख्याः (सुरभिगन्धीः) उपत्राः स्रजो मे ग्रथान । ४—स विप्राय वृषभैकादशा गा ददातु, यदि स एनः प्रमार्ष्टु-मिच्छति । (वृषभ एकादशो यासां ताः) । इसी प्रकार अन्यान्य कुछ प्रयोग ये हैं—सीताद्वितीयो रामः, पाण्डवा मातृषष्टाः छायाद्वितीयो नलः—इत्दि । ९—भारते वर्षेऽमिततेजसः पूतपापा ऋषयो बभूवुः । ११—कण्डितसन्धेर्मे पाणिपादं न प्रसरति । १३—तयोर्मुष्टीमुष्टि सम्प्रहारस्तावदवृतत, यावदेक-तरो निर्जितो नाभूत् । १४—ऋतुष्णेन (कत्रोष्णेन कोष्णेन) जलेन स्नाहि, इदं ते सुखं भविष्यति (इदं त्वां सुखाकरिष्यति) १९—एकद्वानपराधान्कु-र्वशक्यः क्षमितुम् । क्रियासमहिहारेणापराध्यन्तं क्षमेत कः ।

अभ्यास—२०

(समास)

१—जब उसने अपने पुत्र को संकट में फँसे देखा तो वह उसकी सहायता के लिये गया । २—* हे बादल ? वहाँ तुम्हें क्रीड़ा^३ में लगी हुई सुर-युवतियों को सुनने^४ में भयानक गर्जन से डराना चाहिये । ३—राम के राज्य में सब लोग रोग तथा विपत्ति से रहित थे और बिन^५ आई मौत नहीं मरते थे । ४—यह देश बहुत नदियों वाला है । इस लिये यह कभी दुर्भिक्ष से पीड़ित नहीं हुआ । ५—* वह (शिव) चराचर पदार्थों की

१ बीस के लगभग—आसन्नविशाः, अदूरविशाः । २ नीस से ऊपर—अधिकत्रिशाः । ३—क्रीडालोलाः, क्रीडासक्ताः । ४—भवणभैरवेणः । ५—भाययेः । यहाँ सीधा 'हेतु' से मय न होने से 'भीषयेथाः' प्रयोग नहीं हो सकता । ६. निरातङ्गाः, निरापदः । ७—अकाल मृत्यः ।

की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश का कारण होने से मुझे मान्य है । ६—ज्येष्ठ के पहले (१०) दस दिन लोग प्रतिदिन नदियों में नहते हैं, और प्रत्येक मन्दिर देखते हैं । ७—बनारस गंगा के किनारे पर बसा हुआ प्राचीन नगर है, जहां बहुत से हिन्दु प्रतिवर्ष यात्रा के लिये जाते हैं । ८—उसके बाण निश्रय से बज्र^१ के समान शक्ति वाले^१ हैं और वायु^२ के समान वेग वाले^२ हैं । १०—जो कार्य के समय माँगता है वह निन्द्य नौकर और घटिया मित्र है । ११—* राजसभा कम से कम तीन सदस्यों की और अधिक से अधिक दस सदस्यों की होनी चाहिये । १२—* अपनी वस्तुओं में संकोच कैसा । पर हम जंगल में रहने वाले हैं, हमें रथ चलाने का अभ्यास नहीं ।

अभ्यास— २१

(समास)

१—^३अत्यधिक बलवाला हाथी^३ मँडराते^४ हुए मस्त भ्रमर के पैरों से टकराया हुआ^५ क्रोध नहीं करता । २—पिंगलक नाम का सिंह करटक और दमनक (दोनों) को राज्य का भार सौंप कर संजीवक के साथ सुभाषितों से पूर्ण वार्तालाप करता हुआ बैठा है । ३—किसी एक जंगल में "अनेक प्रकार के जलजन्तुओं से सुशोभित" एक बहुत बड़ा तालाब है । ४—तब भूख में सूखे हुए कण्ठवाला तालाब के किनारे बैठा हुआ एक बगुला^६ मोतियों की लड़ी के समान बहते हुए आँसुओं से^६ पृथ्वी को सींचता हुआ रोने लगा । ५—उसके ऐसा कहने पर कैंकड़े के सँडासी (सन्दंश) के समान दोनों जबड़ों से जकड़ी गई मृणाल के समान श्वेत गर्दनवाला वह कुलीरक मर गया । ६—किसी घोबी के घर में^७ नील से भरा हुआ बड़ा भारी बर्तन तैयार पड़ा था । ७—अन्य गीदड़ों के कोलाहल को सुन कर शरीर में रोंगटों के खड़े हो जाने से^८ आनन्द के आँसुओं से पूर्ण नेत्रों वाले उस गीदड़ ने भी उठकर ऊचे स्वर से चीखें^९ मारनी शुरू कर दीं^९ । ८—कभी हेमन्त के

१—वज्रधाराः । २—२ वातारहसः, माहृतवेगाः । ३—३ अमितबलो मतककः । ४—४ उद्भ्रमन्मत्तचञ्चरीकचरणाहतः । ५—५ नाना बलचर-सनाथम् । ६—६ मौक्तिक सरसंनिभैरश्रुप्रवाहैः । ७ नीली । ८—८ दृष्टलोमा, दूषितलोमा, कण्टकितगात्रः, रोमाञ्चित कलेवरः । ९—९ प्रकृष्टः । रवितुमारुचः ।

समय में अतितीव्र^१ वायु के संस्पर्श से काँपता हुआ तथा ओले^२ बरसाते उमड़ते हुए बादलों की धाराओं के प्रहार से ताड़न किया गया^२ बन्दरों^३ का कुण्ड^३ किसी प्रकार भी शान्ति न प्राप्त कर सका। ९—फिर उस शमी के कोटर के जलने पर आधे जले शरीर वाला तथा फूटी हुई आँखों वाला अति दीनता से रोता हुआ पाप बुद्धि का पिता (उस कोटर से) बाहर निकल आया। १०—इस धोती का ताना और बाना^४ दोनों ही हाथ^५ से काते हुए सूत^५ का है। ११—अभी^६ अभी सूई हुई गौ के क्षीर^६ को “पीयूष” कहते हैं। स्त्रियों को यह प्यारा होता है। ११—ॐ हे देवि ! फड़कती हुई भुजाओं से घुमाई हुई गदा की चोटों से चूर चूर की हुई जंघों वाले दुर्योधन के जमे हुए पैरों के हुए घने रुधिर से लाल हाथों वाला भीम तेरे बालों को बाँधेगा। १२—ये^७ वहाँ गगन-चुम्बो चोटियों वाले बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं जहाँ नित्य साते बहते हैं, जिनसे सैकड़ों झरनों और नदियों के शब्द के कारण दिशाएँ गूँज रही हैं, जो सुवर्ण रजत आदि धन की गोद में लिये हुए हैं, जिनकी ऊँची भूमियाँ अनेक हाथियों के झुण्डों से भरे हुए जंगलों से श्याम हो रही हैं, जिनकी विशाल हरी भरी तराइयाँ हैं और जिन्होंने आक्रमणकारियों के उद्योग की रोक थाम की है।

अभ्यास—२२

(तद्धितप्रत्यय)

१—ॐ वायु निश्चय से शीघ्रतम चलने वाला देवता है। २—आज सफलता^८ निकटतर है। कल का पता नहीं। ३—यद्यपि कालिदास शिव का

१-१ अतिकठोरवातसंस्पर्श वेपमानकलेवरम् । २-२ तुषारवर्षोद्धतधनधारा-
निपातसमाहृतम् । ३-३ वानरयूथम् । ४ तानवाने । ५ इस्तकृत्तसूत्रस्य ।
६-६ नवप्रसूतगवीक्षीरम् । पीयूष (पेयूष) इस अर्थ में पुँल्लिङ्ग है । ७-७ योषित्-
प्रियः, प्रिययोषः । ८-८ त एवैते सततस्रवत्प्रस्रवणाः, परः शतनिर्भरनिर्भरिणी-
श्च नभ्वनितदिगन्तरालाः, क्रोडाकृतसर्वाकुप्यवसवः, अनेकानेकपयूथसंकुलसान्द्र-
कान्तारमेचकितसानवः, पृथुशाद्वलक्षोणाकाः, कृताभिवातिप्रक्रमभङ्गाः, गगनो-
ल्लेखिशिखरा दिभ्याः शिखरिणः । ८-अद्य नेदीयसी सिद्धिः (अद्य सिद्धिरु-
पस्थिता) । आयतौ क आशवासः ।

भक्त था, फिर भी वह अन्य मत्तों के प्रति असहिष्णु नहीं था। ४—पानी कितना गहरा है? घुटने तक है। ५—ॐ धीर लोग न्याय के मार्ग से एक पग भी नहीं विचलते। ६—यह राजा ऋषि से बहुत मिलता जुलता है (ऋषि-कल्प, ऋषिदेश्य, ऋषिदेशीय)। यह तदा सच्ची और मीठी बाणी बोलता है। ७—आर्य रसोई^१ में मिट्टी के (मृन्मय) पात्रों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ॐ जो पात्र चक्र पर कुम्हार से बनाये जाते हैं वे असुरों के हैं (असुर्य)। ८—बुद्धिमान् जल्दी ही कण्ठस्थ कर लेता है और देर तक धारण करता है। ९—क्षेमेन्द्र के अनुसार औचित्य के न होने पर कोई वस्तु कविता में सुन्दरता^२ नहीं ला सकती^३। १०—सीता ने रावण से कहा—मैं दूसरे की भार्या होती हुई तेरी योग्य (औपयिक) भार्या नहीं हो सकती। ११—स्कन्द को इन्द्र की सेना के सेनापतिपद (सैनापत्य) पर नियुक्त किया गया। १२—ॐ उनका पारस्परिक भ्रातृस्नेह^३ कुल परम्पराप्राप्त है। यह कहना कठिन है कि लक्ष्मण का रामसे अधिक प्रेम है या भरतका। १३—ॐ कल को तू आजकल की मौजबहारको याद करके पछतायगा। १४—ॐ सीता ने राम के अश्वमेध में सम्मिलित होने के लिये लवकुश का प्रस्थान-भंगल किया। १५—यह बेचारा कुटुम्बपालन में लगा रहता है इसे दूसरे आवश्यक कार्यों को करने के लिये समय नहीं मिलता। १६—ऊनी^४ कपड़ा ही इस कड़ी सर्दी से तुम्हें बचा सकता है, कपास का नहीं। १७—वह गंजा^५ है। उसका गंजापन^६ जन्म से ही नहीं, चिर रोग से उत्पन्न हुआ है। १८—बिजली^७ की चमक दमक ज्योंही होती है त्योंही नष्ट हो जाती है^८। १९—सौतेली^९ माँ का पुत्र^{१०} होते हुए भी भरत ने श्रीराम और कौसल्या के प्रति जो स्नेह दिखाया उसकी उपमा नहीं मिलती। २०—वर्तमान हिन्दु अपने शत्रुओं^{११} का सामना करने में पूर्णतया समर्थ हैं^{१२},

१-रसवती स्त्री०। महानस—नपुं०। तर्कसंग्रह आदि में पुँल्लग में भा देखा जाता है। २-२ शोभाभाषत्, रम्यतामावहति। ३ संस्कृत में 'पारस्परिक' ऐसा तद्विद्वान्त प्रयोग नहीं मिलता। संस्कृत में इसके अर्थ को बिना तद्वित किये समाप्त अथवा व्यास से कहने की रीति है। परस्पर प्रेम, परस्परस्य प्रेम, परस्पर प्रेम। ४ आवाकसौत्रिक-वि०। ५ खलति, खलवाट वि०। ६ खालित्य—नपुं०। इदमस्येन्द्रलुप्तं चिररोगकृतम्। ७-७ आकालिका विद्युद्विलासाः। ८-८ वैमात्रेय-वि०। ९-९ अभ्यमित्याः, अभ्यामन्त्रियाः, अभ्यामन्त्राणाः।

केवल वे दुर्बल बाल बृद्ध, स्त्रियों^१ और असहाय लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते । २१—इसे^२ भूख नहीं लगती, इसके लिये काँजी ठीक होगा^२ । २३—यह बैल साँढ^३ बनने के योग्य है^३ । गोपाल को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । २३—‘गोमिन्’ का मूल में ‘गौघ्नो वाला’ अर्थ था और गोधन के कारण भारत में लोगों का मान होता था, अतः कालान्तर में ‘गोमिन्’ ‘पूज्य’ अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । २४—अध्यापक की अनुपस्थिति में ये विनय-रहित विद्यार्थी ऊधम^४ मचा रहे हैं^४ ।

संकेत—३—यद्यपि कालिदासः शैवोऽभूत् (शिवमक्तिरभूत्), तथापि नासावसहनः स्वपक्षानुगामी । मतावलम्बी के लिये कई लोग ‘साम्प्रदायिक’ शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु यह भ्रमात्मक है । साम्प्रदायिक का अर्थ (सम्प्रदायाद् आम्नायाद् आगतः) ‘सम्प्रदाय से आया हुआ’ है । इसका अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है । जैसे—हम कहते हैं—“साम्प्रदायिकः पाठः” । धाधुनिक पाठ को आगन्तुक कहते हैं और वह निष्प्रमाण होता है । ४—कियन्मात्रं पयः ! जानुमात्रम् (जानुद्वयसम्) । “जानुदधनम्” यह पुर्यंतया शुद्ध प्रयोग नहीं । भाव्यकार ने ऊँचाई के मापने में ‘दधन्च्’ प्रत्यय का निषेध किया है । ८—मेधावी क्षिप्रं स्मरति चिरं च धारयति । १२—सूचिभेद्ये नैशे तमसि गच्छतां पदानि विषमी भवन्ति । १४—अश्वमेधोपस्थानार्थं कुशलवयोः प्रास्थानिकानि कौतुकानि व्यतानीत् सीता । १५—अभ्यागारिक एष तपस्वी कार्यान्तराण्यात्यधिकान्यपि कर्तुं कालं न लभते । १७—नास्य जन्मनः खालित्यम् । इदं ह्यस्येन्द्रलुप्तकं कालिक्या रुजः समजनि ।

अभ्यास — २३

(तद्धितप्रत्यय)

१—शकुन्तला का पुत्र भरत शक्ति शाली राजकुमार था । इसी के नाम से इस देश को ‘भारतं वर्षम्’ कहने लगे । २—उ५ का भतीजा इस साल मध्य प्रान्त में संस्कृत की एम० ए० की परीक्षा में प्रथम रहा । ३—गरमी में कई

१ स्त्रैण - नपु० । २-२ अरोचकिनेस्मै सौवीरं हितम् । ३-३ आर्षभ्यः । ४-४ सारात्रिणां कुर्वते ।

बवरण्डर वात्या आते हैं । ४—ये सब उपहार (औपहारिक) लौटा देने चाहिए । इसके स्वीकार करने में हमारा लाघव है । ५—तुम्हें (पीने के लिये) नदी का पानी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए । वहता है इतने से ही सर्वा जल पीने के योग्य नहीं हो जाता । ६—रूप उसी प्रकार आंखों का विषय है जैसे शब्द कानों का । मूत्तं पदार्थ इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं ऐन्द्रियिक) । ७—यद्यपि वह मरे पड़ोस में रहता है, वह मेरा पड़ोसी नहीं । ८—यह बाग जनसाधारण के लिये (विश्वजनीन) इस में प्रत्येक व्यक्ति आ जा सकता है । ९—वह मध्यमश्रेणी का वैयाकरण है । १०—उस समय के लोग बहुत प्रसन्न रहते थे । उनकी आवश्यकतायें कम थी । ११—वह अवैतनिक मुख्याध्यापक है, अतः बड़ा हठी (ग्रहिल, अभिनिवेशिन्) व अत्याचारी है । १२—यह सुन्दरता स्वाभाविक नहीं है, यह मुझे नहीं भाती । १३—वह निर्भीक चार (ऐकाग) है उस पर हाथ उठाना भयावह है । १४—यह न केवल धर्म नहीं करता, प्रत्युत अधर्म भी करता है । १५—कहते हैं भैंस का दूध (महिषं पयः) अति शक्ति वर्धक होता है । १६—वह मेरा प्यास मित्र (वयस्य, सहचर) है, मुझे उमकी सचाई पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं । १७—उमकी योग्यता (आर्हन्ती) की प्रत्येक प्रशंसा करता है । और उसके विनय (वैनयिक) की भी । १८—ॐ स्त्रियां स्वभाव से लज्जाशील होती हैं । १९—गुण वाले (गुण्य) ब्राह्मणों को नमस्कार हो क्यों कि वे संसार के शरण हैं । २०—भारत के सिपाही युद्ध में उतने ही चतुर (सांयुगीन) हैं जितने दूसरे देशों के । २१—उसकी बुद्धि सब विषयों में समान चलती है । वह विद्वानों में मुखिया (मुख्य, मूर्धन्य, धुर्य, धौर्य) है । २२—इस हलवाई का हलवा तो बढ़िया होता है पर दूध घटिया ।

संकेत २ तस्य भ्रातृव्यः संस्कृते एम०ए० परीक्षायां सर्वस्मिन् मध्य देशे प्रथम इति निर्दिष्टोऽभूत् । ४—एतदौपहारिकं प्रत्यर्पणायम् ५—नादेयं जलं नाऽऽदेयम् (नद्या इदं नादेयम्) (न आदेयं नादेयम्) । नहि स्यन्दत इत्येतावता सर्वं पाथः पेयं भवति । ७—स मे प्रातिवेश्यो न भवति यद्यप्यारातीयः । १०—तात्कालिको (तादात्विकः) लाकोऽतिसुखं न्यवसन्

१—सौन्दर्य, अभिरूपक, राभणीयक, कामनोयक-नपुं० । २-स्वाभाविक, नैसर्गिक, सर्वाधिक, औपत्तिक—वि० ।

(महत्सुखमाश्नुत) । अल्पापेक्षो^१ ह्यभूत् । 'तत्काजीन' शब्द संस्कारहीन है यद्यपि इसका बहुत प्रयोग देखा जाता है । १४—न केवलमसावधार्मिको भवति, आधर्मिकोऽपि । यहाँ 'अधार्मिक' और 'आधर्मिक' का भेद जानने योग्य है । २२—सर्वपथीनाऽस्य धिषणा ॥ धुर्यः स विदाम् (धीरेयो विदुराणाम्) । २३—अयमावृषिकः संयावरूपं विक्रीणीते इति प्रशस्यते, पयस्पाशमिति निन्द्यते ।

अभ्यास—२४

(कृत्य और अन्य कृत् प्रत्यय)

१—तुम्हें बासी और खटा भोजन नहीं करना चाहिये । यह सुस्ती को उत्पन्नकर स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है । २—इतिहास जानने वालों को सबसे बढ़कर केवल तथ्य का आदर करना चाहिये । ३—इस (ब्रह्म) की व्याख्या करने वाला कोई विरला ही (आश्चर्य) है और पूछने वाला भी कुशल है । ४—बाजार में बहुत सी बिकाऊ वस्तुएँ हैं, परन्तु उनमें खरीदने योग्य थोड़ी ही हैं । ५—जो कुछ कल तुमने अपने मित्रों के सामने कहा उससे विपरीत नहीं जाना चाहिये । ६—दोनों में सदा रहने वाली मैत्री हो । ७—विद्वानों को गुण पक्षपात^२ होना चाहिये । दोष^३ में ही दृष्टि नहीं रखनी चाहिये^३ । ८—रात को बाहर जाते समय तुम्हें लाठी के बिना नहीं निकलना चाहिये । ९—यदि तुम्हारे अपने काम में विघ्न न हो, तो तुम्हें प्रातः ही वहाँ पहुँच जाना चाहिये । १०—बहुत विस्तार^४ को जाने दो, कृपया संक्षेप से कहो । ११—मुझे इस कमरे की लम्बाई और चौड़ाई मालूम है । यह कितना ऊँचा है मैं नहीं जानता । १२—^५वैयाकरणों के समाज में^५ पतञ्जलि मुनि भाष्यकार माने जाते हैं ।

१—संस्कृत में 'आवश्यकता' शब्द नहीं है । इसके स्थान पर अपेक्षा शब्द का प्रयोग करना चाहिये । जहाँ अनिवार्यता अर्थ हो वहाँ 'अवश्यम्भाव' पुं० अथवा 'आवश्यक'नपुं० का प्रयोग करना चाहिये । २—गुणगृह्य—वि० । ३—३ दोषैकदक्, पुरोभागिन्—वि० । भावार्थक—पौरोभाग्य—नपुं० । ४—विस्तर, प्रपञ्च, व्यास—पुं० । यहाँ 'विस्तार का प्रयोग अशुद्ध होगा । ५—५ वैयाकरणनिकाये ।

१६—'यह मनुष्यों की सभा नहीं, किन्तु पशुओं का संघ है' । १५—ॐमेरे शरीर में कँपकपी है और मेरी त्वचा (चमड़ी) जल रही है । १५—विद्या से भूषित दुर्जनों का भी त्याग करना चाहिये और वाणी मात्र से भी उनका आदर नहीं करना चाहिये । १६—ॐजिन घरों को निरादर की गई स्त्रियाँ शाप देती हैं, वे इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे मानों जादू से नष्ट किये गये हों । १८—अभयानक तथा आकर्षक राजगुणों से युक्त वह (राजा) अपने आश्रितों के लिये जल और रत्नों से युक्त सागर की तरह अवहेलना के अयोग्य पर सहज में पहुँचने योग्य था । १९—ॐशब्द और अपशब्द से अर्थ-बोध के समान हीने पर भी शब्द से ही अर्थ को कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं ।

संकेत—१—त्वया पर्युषितं शुक्तं च न मोक्तव्यम् । इदं ब्रह्मसतां जनय-
न्नाभयति भोक्तारम् । २—येतिहासिकेन तथ्यमेवात्तमं समादरणीयम्, न
त्वर्थान्तरम् । ४—सन्ति बहूनि क्रय्याणि त्रिपण्याम्, न तु बहु क्रयमस्ति ।
३—अजर्यं नौ संगतं स्यात् । ९—कार्यान्तरान्तरायमन्तरेण त्वया प्रातस्तत्र
संनिधानीयम् । १०—अलमति विस्तरेण, समासेनोच्यताम् । ११—अस्या-
गारस्यायामं विस्तारं च तावद्वगच्छामि कियानस्पोच्छाय इति न वेद्यि ।
यद्यपि 'उच्छयः' शब्द कहीं कहीं मिलता है परन्तु यह व्याकरण सम्मत
नहीं । 'विस्तर' (शब्द प्रपञ्च) के स्थान में 'विस्तार' (व्यास = चौड़ाई)
का व्यवहार नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार 'अवतर' (= उतराव) के
स्थान में 'अवतार' (= घाट, मानुषदेह में आविर्भाव) का प्रयोग असाधु
होता है । १५—विद्यासंस्कृता अपि दुर्जनाः संचक्ष्याः । वाङ्मात्रेणापि च
नाचर्याः ।

अभ्यास—२५

(कृत्य और अन्य कृत प्रत्यय)

१—अहिंसा का प्रभान अजर्य है । हर प्रकार से हर समय हर एक प्राणी को हानि न पहुँचाने की इच्छा ही अहिंसा है । ३—ॐमोजन से ठीक पहले तीन बार आचमन करना चाहिये । भोजनोत्तर तीन बार मुँह पोंछना

चाहिये । ४—यह छड़ड़ा पर्याप्त भार ले जा सकता है । ५—मैं तुम्हारे में कोई निम्न बात (अथवा, गह्रं) नहीं पाता, वास्तव में तुम्हारा चरित्र निर्दोष है । ६—बह शिष्य जो अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, सरल^१ और सहनशील है^१ वह प्रसंसा^२ का भागी होता है^२ । ७—यह^३ मामी हुई बात है^२ कि पंजाब के श्री हंसराज जी ने हिन्दुओं का पर्याप्त उपकार किया । ९—समय मिलने पर किसान को चरखा कातना चाहिये, और बुनना चाहिये यदि हो सके, जिससे उसकी तुच्छ आय बढ़े । १०—यह कम्बल बिकाऊ है, यदि चाहो तो दस रुपये में इसे मोल ले लो । ११—लोगों को क्या सेवन करना चाहिये ? सुरनदी (गंगा) का दोष रहित सामीप्य (निकटता) । एकान्त में किसका ध्यान करना चाहिये ? कौस्तुभ धारण करने वाले भगवान् (कृष्ण) के चरणयुगल का । १२—ऋषसज्जनों (दुष्टों) से प्रार्थना नहीं करनी चाहिये, और थोड़े धनवाले मित्र से भी याचना न करनी चाहिये । विपत्ति में भी उच्च आदर्श रखना चाहिये, तथा बड़ों के पद का अनुसरण करना चाहिये । १३—क्या तुम्हारे विचार में वह सेवा-निवृत्तिकाल से पहिले ही नौकरी से हटा दिया गया होगा । १४—सोने से पहले तुम्हें अपना पाठ याद कर लेना चाहिये था । १५—तुम्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी चाहिये थी शायद वे प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते । १६—मैंने घर का सामान ले जाना है, गाड़ी नहीं मिलती । १७—बहुत धन देना कठिन है, बहुत पिछली बातों को जानना मुश्किल है । १८—इस ग्रन्थ में शास्त्रों और काव्यों की सूक्तियाँ ५६६२ कर^६ इकट्ठी की गई हैं । १९—बनिया लोग अपने गन्तव्य स्थान को जा रहे हैं । २०—ऋषादखों के बीच में से निकले हुए, काफूर के पत्तों (से मिलकर) शीतल कंवड़े की गन्धवाले ये वायु के फाँके इस याग्य हैं कि इन्हें अजलि भर-भर पीया जाय ।

संकेत—१—अजय्योऽहिंसा प्रभावः । अहिंसा च सर्वथा सर्वदा सर्व-भूतानामनभिद्रोहः । ३—भोजनादव्यवहितपूर्वं त्रिराचाम्यम् त्रिश्चान्ते प्रमृज्यम् (प्रमार्यम्) मुञ्जम् । यहाँ 'आचम्यम्' का प्रयोग अशुद्ध हागा । ४—इदं वद्यं महद् वद्यं वहति । ९ निर्व्यापारं कृषाणेन कर्त्तनीय वानीषं च शक्यं चेततद् भवेत्, येनाल्पस्तदीय आया विधत् ।

१—१ अजुगनस्यइश्च । २—२ प्रशस्या भवति, पनाय्या भवति ।

३—इत्थम्युपगतम्, इति प्रतिपन्नम् । ४—४ विचाय (वचायम्) । अन्वेषमन्वेषम् ।

१०—पण्य एष कम्बलः, यद्येनं रोचयसि रूप्यकदशकेन फ्रेतुमहंसि ११७ वि-
शतीता अर्था दुर्जानाः । १६—अस्ति मे परिणाह्यं वाह्यं वह्यं नास्ति । १७
प्रसुताः स्वा दुर्जानाः, १८६४ वञ्च्यं वञ्चन्ति वणिजः । २०—शक्यमञ्जलिभिः
पातुं चाताः केतकगन्धिनः । यहां शक्य का नपुं० एक० में प्रयोग सामान्य
उपक्रम के कारण हुआ है ।

॥ चतुर्थोऽशः ॥

प्रकीर्णक

(विविध वाक्य)

अभ्यास—१

१—देवदत्त को पिछले बरस अपने विवाह के अवसर पर भारी सम्पत्ति
दहेज में मिली जिससे उसे मैं भाग्यवान् हूँ ऐसा भ्रम हो गया । २—स्वामी
का अपने नौकरों के प्रति आदर न केवल उनका उत्साह बढ़ाता है स्वामी के
प्रति भक्ति को भी । ३—लोभ को बढ़ने न दो । लोभ^१ से प्रेरित होकर मनुष्य
न जाने क्या २ पाप करता है । ४ ॥ आज के सुख के अनुभव को कल तुम
दुःख से याद करोगे । अतः तुम स्वप्न रूप अभिलाषाओं के शिकार न बनो ।
५—सौन्दर्य प्राप्त करना आसान है, परन्तु गुणों को पाना कठिन है ।
६— ॥ परार्थीन पुरुष प्रीति के रस को कैसे जान सकता है ? ७— इतिहास
इस बात का साक्षी है कि सुन्दरता सोने की अपेक्षा चोरों को अधिक प्रेरित
करती है । ८—जल्दी गुस्सा करने वाले (लोग) मयङ्कर होते हैं । ९—मैं
अपने दुःखों को कैसे घटाऊँ, और सुखों को कैसे बढ़ाऊँ ? १०— ॥ तंग किया
हुआ साँप अपना फण दिखाता है । ११—सुनार सोने को कसौटी पर परखता
है (कषति) । १२— ॥ छोटा और महत्त्वपूर्ण भाषण ही वक्तृता है । १३—
ब्रह्मचारी को^२ सजावट के लिये कोई वस्तु धारण नहीं करनी चाहिये और चन्दन
आदि से अङ्ग संस्कार का परिहार करना चाहिए । १४—दर्जी यह^३कोट मुझे ठीक
नहीं बैठता इसे ठीक कर दो । १५—आश्चर्य है वह नाकोदर से प्रभात समय

१—लोभप्रयुक्त, लोभाकृष्ट—वि० । २ इत्यर्थम् । ३—३ तुल्यवाय ।
अर्थं चोलको ममाङ्गेषु न चाधुं शिलष्यति । सोऽयं समाधीयताम् ।

चला हुआ जालन्धर में सूर्य का दर्शन करता है । १६—सबरे और शाम दोनों समय का सैर आयु को बढ़ाता है इस में किसे सन्देह है ?

संकेत—१—देवदत्तः परुदात्मन उपयामे महद्यौतकं प्राप्नोत् (महान्तं सुदायमविन्दत) । येनासौ कृतिनमारमानमभ्यमन्यत । अभि मन् का अर्थ 'मिथ्या मानना' भी है । २—प्रभोराश्रितेष्वानुदरः (स्वामिनो भृत्येषु संभावना) तदुत्साहाय भवति स्वामिन्यनुरागाय च । ७—रूपं यथापहृतं न प्रेरयति न तथा हिरण्यम् । ९—कथमहमात्मनो दुःखमपकर्षामि सुखं च प्रकर्षामि । १५—प्रभाते नाकोदरात् प्रस्थितो जालन्धरनगरे सूर्यमुद्गमयति ! यहाँ आश्चर्य को कहने के लिये किसी पद के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं । १६—आयुष्यः सायम्प्रातिको विहारः । कोत्र सांशयिकः ।

अभ्यास—२

१—तुम इन पुस्तकों में से अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक पुस्तक को खे सकते हो । २—उसे सुख^२ पाने की इच्छा^२ है, पर इसे पूरा करने के साधन नहीं हैं । ३—मुझे इस चोरी से कुछ काम नहीं । मेरे शत्रुओं ने मुझ पर मिथ्या दोष लगाया है । ४—हमें इस (बात) पर नहीं भगड़ना चाहिये, इससे हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँचेंगे । ५—तुम्हें असफलता के लिए औरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये । अपने में दोष ढूँढना चाहिये । ६—कल मैंने अपने मित्र को भोजन के लिये निमन्त्रित किया था । ७—यदि यह कोरे आदर-सत्कार की भाषा नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि रत्न यहाँ सुरक्षित रहे और तुम राख का ढेर बन जाओ इस प्रकार रति ने काम-देव की मृत्यु पर विलाप करते हुए कहा । ८—वह अपने सादे पहरावे से छात्र मालूम होता है और कमंडल से भी । ९—यदि तुम में शिष्टाचार^५ नहीं तो केवल मात्र परीक्षा पास कर खेने से क्या प्रयोजन ? १०—वे मूर्ख हैं जो दूसरों की उन्नति में डाढ़ (ईर्ष्या) करते हैं । उन्हें सुख का अनुभव नहीं होता । ११—उसने साहस करके अपने आप को विषम परिस्थिति^६ से बचा लिया । १२—* मैंने गुरु^७ से अभिनय—विद्या सीखी है और मैंने इस का

१—१ छन्दः, यथेच्छम् । २—२ सुखेप्सा, सुखलिप्सा । ३ निर्वर्तयितुम्, सम्पादयितुम्, साधयितुम् । ४—सद्वृत्त, शौचन्य, सौशील्य—नपुं० । ५—५ साहसमास्थाय । ६—६ संकट—नपुं० । ७ तीर्थ—पुं०, नपुं० ।

प्रदर्शन भी किया है । १३—मुझे आशा है कि आप इस बालक को इस की बुद्धिमत्ता के लिये जानते होंगे^२ । १४—तुम धन के स्वामी हो, और हम भी सब अर्थों को कहने वाली बाणी के स्वामी हैं । १५—वे महात्मा जो भारत की स्वतन्त्रता के लिये लड़े, हमारी कृतज्ञता के भागी हैं । १६—अचम्भा होगा यदि वह इस पहेली को समझ जाय ।

संकेत—३ न मेऽनेन स्तेयेन कश्चिदभिसम्बन्धः । द्विषद्भिर्मिथ्याऽभिशस्तो स्मि । ४—नात्र मिथो विवेदमहि, नैतेन कमपि निर्णयमधिगमिष्यामः । ५—इहोहं सुहृदं भोजनेन न्यमन्त्रये । इस वाक्य में 'भोजनेन' में तृतीया हेतु अर्थ में है । तृतीया से ही इस बात को कहने की शैली है । यहां चतुर्थी व्यवहारानुगत नहीं होगी । ८—अमण्डितभद्रेण वेपथु तमहं छात्रं पश्यामि कमण्डलुना च । १०—ये पराभ्युदये सेष्याः (मत्सरिणः) ते मूढाः । न तेषां सुखसंवित्तिरस्ति । १६—आश्चर्यं यद्यसौ प्रहेलिकामिमां बुध्येत ।

अभ्यास—३

१—जो तुम कहते हो मुझे उस पर विश्वास नहीं । मुझे तुमने पहले भी कई बार ठगा है । २—यहाँ से कण्व ऋषि का आश्रम कितनी दूर है ? यह इस स्थान से चार अथवा साढ़े चार कोस है । ३—खेद मत करो, हम आ ही पहुँचे हैं । ४—आँख^३ को सिकोड़ कर^३ पढ़ते हो, यह हा नकारक है । ५—संक्षेप बुद्धि का लक्षण है और वाचालता ओछेपन का चिह्न है । ६—ईश्वर की सृष्टि कितनी विशाल (विशङ्कट) है ? इसके परिमाण को कौन जान सकता है । ७—मैं तुम्हारी कार्य^४ तत्परता की स्तुति करता हूँ और सरलता की भी । तुम चिर तक जीयो और उत्तरोत्तर बढ़ो । ८—उन महाकवियों को नमस्कार हो, जिन्होंने हमारे साहित्य कोश को अपनी अमर कृतियों से भर दिया । ९—मैंने बहुत देर के पीछे पहचाना कि जिसके साथ मैं बातें कर रहा था, वह मेरा पुराना गुरभाई था । १०—मैं तुम्हें वैदिक साहित्य का धुरन्धर विद्वान समझता हूँ । यह केवल स्तुति नहीं, परन्तु यथार्थ कथन है । ११—मैं तुम्हारी तनिक भी परवाह नहीं करता, तुम यूँही बढ़े बनते हो ।

१—यहाँ तृतीया का प्रयोग होना चाहिये । २ लट् वा लृट् का प्रयोग निर्दोष होगा । ३—३ अचिनिक्तोचम् । ४—कार्यतात्पर्यम् ।

१२—यहां दलदल है। पांव धंसते जाते हैं। १३—क्या कभी हिरन भी सिहों पर धावा करते हैं ? १४—बारिश हुई तो धान हो गये।

संकेत—१—नाहं त्वद् बचसि विश्वसिमि (नाहं त्वद्बचः प्रत्येभि) (श्रद्धधे) पुराऽऽयसकृद् विप्रलब्धोस्मि त्वचा । वि + श्वस् अकर्मक है । प्रति + इ, और श्रत् + धा सकर्मक हैं । २—इतः कियति दूरे कण्वर्षेराश्रमः ? चतुर्वर्ध्वर्धचतुर्षु (सार्धचतुर्षु, अर्धपञ्चमेषु) वा क्रोशेषु । ३—मा स्म सिद्यथाः प्राप्ता एव वयम् । कियद्दूर आश्रमः” ऐसा समास से नहीं कहना चाहिये। ‘कियता दूरः’ कह सकते हैं अथवा कियदन्तरः (या किमन्तरः, । अन्तर के मापने में प्रथमा का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे—चत्वारः क्रोशाः। और सप्तमी का भी। यथा—चतुर्षु क्रोशेषु इत्यादि। ‘अर्ध्वर्धचतुर्षु’, में ‘अर्ध्वर्ध’ बहुव्रीहिसमास है (अधिकमर्धम्, अध्याकृद् वाऽर्धं येषु)। इसका फिर चतुर् से समास हुआ है। ४—अक्षिनिकाशं पठसि, तद् दोषाय। ५—समासो बुद्धि लक्षणम्। ६—अहो ! पृथ्वी भगवतः सृष्टिः क इमामियत्तया परिच्छेत्तुमलम्। ७—कार्यतात्पर्यं ते स्तवीमि सारस्य च। ज्योग्जीव्यां उत्तरोत्तरं चाभ्युदियाः। ८—चिरात्प्राबुधं येनाहं समलपम्, स मे पुराणः सतीर्थ्य इति। ९—अहं त्वां वैदिकवाङ्मयस्य विशेषज्ञं (मार्मिकम्) जाने। नायमर्थवादः (नेदमुपचारपदम्, नेदमधिकार्थवचनम्)। अर्थं भूतार्थः (इदं वस्तुकथनम्)। ११—अहं त्वां तृषाय मन्ये। अकारणं गुरुतां धत्से (मुधैव गौरवमात्मनि संभावयसि)। १२—पिच्छिलेवं भूः। न्यञ्जतो (निषीदतः) मे चरणौ। १३—किं हरिणाका अपि केसरिणः प्रार्थयन्ते ? १४—देवश्चेद्वृष्टो निष्पन्ना व्रीहयः।

अभ्यास—४

१—उसने नाना शास्त्रों और कलाओं में शिक्षा प्राप्त की है^२।
३—व्याकरण में तो वह पारंगत है^३। २—ऐसे शब्दों से मेरे पुत्र के उत्साह पर पानी फिर जाता है। ३—फिर कभी ऐसा मत करना। सारा आदर मान मिट्टी में मिल जायगा। ४—यदि राजा अपनी प्रजा पर सली प्रकार शासन

१—अर्धः पञ्चम एषामिति विग्रहः। २—२ अभिविनीतोस्ति।
३—३ व्याकरणस्य च पारंगः, व्याकरणस्य च परपारङ्गत्वा। यहाँ दोनों वाक्यों में अर्धमर्थ समस है। पर शिष्ट सम्मत है।

करे तो प्रजा का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध हो जायगा और उसका राज्य देर तक रहेगा । ५—ऋजंगल के जानवरों ने सिंह के साथ यह समझौता^१ किया कि हम आपको प्रतिदिन एक जानवर भेज^२ देंगे । ६—तुम इधर-उधर की क्यों हाँकते हो ? प्रस्तुत विषय पर आओ । ७—चोर चोरी करता^३ पकड़ा गया^३ और पुलिस के हवाले कर दिया गया । ८—भगवान् ध्यवन की मेरा प्रणाम कहना । ९—यह मेरे लिये कठिन काम है, फिर भी मैं इसे करने का यत्न करूँगा । १०—वह भीरे २ चलता है, और लड़खड़ाता^४ है, इसीलिये पीछे रह जाता है । ११—ब्रह्मचारियों को चटकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहियें । और उन्हें शरीर की सजावट में समय नहीं खोना चाहिये । १२—आश्चर्य है इसका अपनों में इतना प्रेम है, और वह भी अकारण ।

संकेत—२—ईदृशीभिरुक्तिभिर्भज्यते मत्-सुतस्योत्साहः । ३—मा तथा तथाः (मा स्मैवं करोः) । यहाँ 'तथाः' तन् धातु का एक पक्ष में लुङ् लकार मध्यम पुरुष एकवचन है । अडागम सहित रूप 'अतथाः' है । 'मा' के योग में 'अ वा आ' का लोप हो जाता है । ५—वन्यैः पशुभिः सिंहेन समं समयः कृतः, एकैकं पशुं प्रत्यहमुपदौकयिष्याम इति । ६—किमित्यप्रस्तुतमालपसि, प्रस्तुतमनुसन्धीयताम् । ९—एष कार्यभारो मम (इदं मयाति दुष्करम्), तथाप्येनं प्रयतिष्ये घटयितुम् (सम्पादयितुम्) । ११—ब्रह्मचारीभिरुत्बण आकल्पो न कल्पनीयः, न च परिकर्मणि कालः क्षेपणीयः । १२—अहो अस्य प्रणयप्रार्भारः सगन्धेषु । सोष्यगृह्यमाणकारणः ।

अभ्यास—५

१—अपने बड़ों के उपदेश की अवहेलना न करो । और उन पर क्रोध मत करो । २—अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करो, और उसके सुख दुःख

१—१ समञ्च—पुं० । २ उपदौकयिष्यामः । उप—दौक् भ्वा० आ० + षिच् । ऐसे वाक्यों में दोनों शब्दों में कान्त का प्रयोग हो व्यवहारानुकूल है । देवश्चेद् वृष्टो निष्पश्यन्ते व्रीहयः ऐसा नहीं कह सकते । इसमें भाष्य प्रमाण है—'देवश्चेद् वृष्टो निष्पन्नाः शालयः । तत्र भवितव्यं सम्पश्यन्ते शालय इति ...सिद्धमेतत् । कथम् । भविष्यत्प्रतिषेधात् । यत्लोको भाविष्यद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगं न मृष्यति । (३ । ३ । १३३ ॥) ३—कर्म-गृहीतः । ४—स्खलति ।

में हाथ बटाओ। ३—कर्मिन्त्रों से बाँटे गये दुःख की पीड़ा सहारने योग्य हो जाती है। इसलिये हम तुमसे बार २ कहती हैं कि अपने रोग का वास्तविक कारण बताओ। ४—वर्षा पड़ने से पहले घर चले जाओ, यदि वर्षा पड़ने लगी तो मेरे विचार में यह मूसलाधार होगी। ५—वह मुझसे घृणा करता है, यद्यपि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ६—प्रजा^१ के साथ यदि इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया तो वह जल्दी ही असंतुष्ट^२ हो जायगी^२ ७—नुक़े इस आदमी पर तरस आता है, जो अपनी पीठ पर भारी बोझ ले जा रहा है। बेचारे का दम टूट रहा है। ८—यह नहीं कि नौकर झूठ बोलने के आदि होते हैं सत्य कहते हुए भी नौकर पर मालिक का मद्य छा जाता है। ९—उसकी विद्वत्ता को देखा जाय तो वह आदर के योग्य है, मनुष्यता को देखें तो तिरस्कार का पात्र है। १०—विद्यार्थी को अपने सहपाठियों के उत्कृष्ट ज्ञान के कारण उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये। ११—भगवान् कृष्ण ने स्वयं विद्वानों के पैर^३ धोए^३ और उन्हें^४ भोजन परोसा^४। १२—उस खेत में हल चलाया गया है, और सुहागा फेरा गया है, अतः वह बीज बोने के लिये तैयार है। १५—परीक्षा आज^५ कल में होने वाली है^५। दिनरात तैयारी में लग जाओ।

संकेत—१—गुरुणामुपदेशान् माऽवमंस्थाः । मा च तानभि क्रुषः । ५—स च मत्तो ह्यपीयते ऽहंच तस्मिन् प्रीये । ७—पृष्टेन महान्तं भारं वहतोऽस्य जनस्य दये । वराकेण श्वसनमपि दुर्लभम् (श्वसितुमपि न लभ्यते) । ८—मृषा वादिनो भृत्या इति न । सत्यमाचक्षाणमपि भृत्यं मर्त्तुर्भीतिराविशत्येव ॥ ९—विपश्चिदिति बहुमानमर्हति, पुरुष इत्यवधीर्याम् । १०—छात्रा विद्याप्रकर्षेण सहाध्यायिभ्यो नेष्येयुः । १२—कृष्टसमीकृतमदः क्षेत्रं बीजवापाय कल्पते ।

अभ्यास—६

१—उतावली मत कर, रेलगाड़ी पर पहुँचने के लिए काफी समय है।
२—मेरे विचार में तुम इस दीवार को नहीं फाँद सकते। यदि तुम प्रयत्न

१—बहुवचन में प्रयोग व्यवहारानुगत होगा। २—२ अपरकारः (कर्मकर्तरी प्रयोगः)। ३—३ चरणौ निर्णिनिजे। ४—४ भोजनेन च तान् परिविषे। ५—५ अद्यश्चीना (परीक्षा)।

करोगे तो गर्दन तोड़ बैठोगे । ३—मैं कल 'मुंह अंधेरे जाग उठा, और अपने मित्र के साथ पटेल पार्क में खूब घूमा । ४—हम भारत के उन मह-विषियों के बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने संसार को सच्चाई और न्याय का मार्ग दिखाया । ५—अब खानेका समय है । भोजन के समय के लांचने में वैद्य लोग हानि बतलाते हैं । ६—उसका अपने आप पर कोई काबू नहीं, वह औरों को किस प्रकार संभम सिखा सकता है ? ७—उन व्यक्तियों के पास जो कभी भी सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते, सुख बिना^२ ढूँढे स्वयमेव आ^३ उपस्थित होता है । ८—तुम किस की आज्ञा से गये थे ? देखो, आगे को बिना गुरु की आज्ञा कमरे से बाहर मत जाओ । ९—संस्कृत के अध्ययन में व्याकरण-ज्ञान उपयोगी है इसमें हमारा मतभेद नहीं । पढ़ाई के ढंग में अवश्य भेद है । १०—महानगरों में कहीं तो बिजली के प्रकाश के कारण रातें भी दिन सी मालूम होती हैं और कहीं अंधेरी कोठड़ियों के कारण दिन भी रातें मालूम पड़ते हैं ।

संकेत—१—मा त्वरिष्ठाः कालात् प्रयास्यति रेलयानम् । तच्छ्रक्ष्यामोऽधिरोढुम् । रेलयानं संगन्तुं पर्याप्तः कालोऽस्ति । यह अच्छी (सुन्दर) संस्कृत नहीं । तुमन्त का प्रयोग भी उचित नहीं । २—नाहं विश्वसिमि त्वं कुड्यमिदं लब्धयेरिति, यदि प्रयतिष्यसे ग्रीवा ते भङ्क्ष्यते । यहां त्वं स्वां ग्रीवां भङ्क्ष्यसि । यह ऊपर के वाक्य की संस्कृत नहीं । संस्कृत में ऐसा कहने का ढंग नहीं । ६—स्वयमयतात्मा स कथंकारमन्यान् विनयेत् । य आत्मना चक्षुर्विकलः स नान्याम्मार्गमादिशेत् । ८—कस्यानुमतेऽगमः, नातः परं गुरुमननुमान्य बहिरगारं गमनीयम् । अगार आगार—दोनों रूप शुद्ध हैं । ९—संस्कृताध्ययने व्याकरण ज्ञानमर्थवदित्यत्र न विस्वदामः, नेह नो नाना दर्शनम्, नेह नाना पश्यामः, नेह नो मतद्वैधमस्ति । अध्ययनविधायां तु विप्रति-पत्तिरस्ति । १०—महानगरेषु क्वचिद्वैद्यतः प्रकाश इति दिवामन्या रात्रयः क्वचिदप्रकाशानि गृह्याणीति रात्रिर्मन्यान्यहानि ।

१ महत्ति प्रत्यूषे, अनपेते नैश्चे त्मसि २ अयाचितमेव अमार्गितमेव, नमृगितमेव । उपनमति (तान्, तेभ्यः, तेषाम्) । यहां तीनों विभक्तियों का प्रयोग शिष्ट—व्यवहार-संमत है । ❀ देखिए—पाणिनि का सूत्र “काल-समयवेलाषु तुश्रुत्” । ३ । ३ । १६७ ॥ उसके अनुसार वेलेयं पाठशालां गन्तुम्’ पाठशालागमनस्येयमुचिता वेला ऐसा अर्थ होता है ।

अभ्यास—७

१—आजकल संसार में उथल^१ पुथल है। हर एक देश शक्ति संग्रह करने और दूसरों के अधिकार को छीनने में लगा हुआ है। २—आधी रात के समय बड़े जोर का भूचाल आया। न जाने इस का कहां कैसा परिणाम हुआ होगा। ३—निष्कारण क्रुद्ध होने वाले समाज^२ की आंखों में गिर जाते हैं,^३ इस लिए हर एक को अपने मन^४ को सदा वश में रखना चाहिए^५ ४—तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं ? मेरी घड़ी खड़ी हो गई है। ५—क्षत्रिय लोग धुनष धारण करते हैं ताकि आर्तशब्द न हो। क्षत (घाव) से रक्षा करता है इसी अर्थ में क्षत्र शब्द लोक में प्रसिद्ध है। ६—उसने मुझ से सौ रुपये ठग लिए, पुलिस उस^६ का पीछा कर रही है^७। ७—वह हाफता^८ हुआ मेरी ओर आया, और पटुंचते ही सिर^९ के बल पृथ्वी पर गिर गया^९। ८—ऋष सत्य वृद्धिशील है ऐसा वेद कहते हैं। सत्य की ही जय होती है झूठ की नहीं। ९—क्या किया जाय ? जो एक मनुष्य कर सकता है सो मैंने किया। विधाता की रेखा अमिट है। १०—और किस के साथ मैं अपने दुःख को बँटा सकता हूँ यदि अपनों से नहीं। ११—उषा (लड़की का नाम) अपनी पुस्तक को रत्न की तरह रखती है और दूसरी वस्तुओं का भी पूरा ध्यान रखती है।

संकेत—१—अद्यत्वेऽस्वस्थं (अप्रकृतिस्थं) विश्वम्। ४—कां वेलां ते कालमापनी कथयति। मदीया तु विरता। ६—स मां रूप्यकशतादवञ्चयत। यहां पञ्चमी के प्रयोग का ध्यान रखो। ठगे जाने के अर्थ में। वञ्चि (चुरा०) आत्मनेपद् में ही प्रयुक्त होती है। ९—किं करोमि। मानुष्यके यदुपपाद्यं तत्सर्वं मथोपपादितम्। अप्रमार्ग्या वैधसी लिपिः। १०—केन साधारणी करोमि दुःखम्। ११—रत्ननिधायं निदधाति पुस्तकमुषाः, प्रतिजागर्ति च स्वस्थोपकरणान्तरे।

अभ्यास—८

१—जैसे हजारों गौओं में से बछड़ा अपनी मां को पा लेता है, वैसे

१ संकलम्, अधरोत्तरम्। २—२ लोकसंमाननाया अश्रयन्ति ३—३ मनस ईशितव्यम्। ४—४ तमनुसरति। (रत्नविगेष) तस्यानुसारः क्रियते। ५—दीर्घं दीर्घं निश्चसन्। ६—६ शिरसा गामगात्।

ही पिछले किये हुए कर्म करने वाले को प्राप्त होते हैं । २—सीता ने राम से कहा—आर्य ? मैं फिर भगवती भागीरथी के पुण्य तथा स्वच्छ जल में डुबकी लगाना^१ चाहती हूँ और आश्रमवासी ऋषियों के दर्शन करना चाहती हूँ । ३—मैं उस भयंकर आकृतिवाले मनुष्य से जो मेरी ओर लपक रहा था डर गया । ४—तुम संशय में क्यों पड़े हो ? सचाई को स्पष्टतया ऋटपट कहना चाहिए । ५—ऋजैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही करो । मैं तुम्हें बिक्कुल नहीं रोकूंगा । ६—* उन्मार्ग में जाने वाला कभी अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचा । ७—कच्चा दूध कुड़ देर के बाद खराब हो जाता है । इस लिए इसे पकालो । ८—चपलता न करो इससे तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जायगा । ९—क्या समाचार है ? सुना है, तुम्हारा भाई आक्सफोर्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा है । १०—तुम्हारे^२ पिता अब क्या कर रहे हैं^२ मैं उन से मिलना चाहता हूँ । ११—तुम भलेही सप्ताह में दो तीन बार क्षौर कराओ या न कराओ पर तुम्हें^३ अपने नाखून अवश्य काटने चाहियें^३ । १२—क्या तुम स्वयं भोजन बनाते हो ? नहीं । मैं रसो-इये से बनवाता हूँ । १३—पापिन^४ कैकेयी ने दम^४ नहीं लिया जब तक कि राम को बन में नहीं भेज दिया ।

संकेत—४—किमिति विचारयसि ! सद्यो निर्वक्तव्यं सत्यम् । ७—अतस-मश्रुतं पयः कालान्तरं न क्षमते, अश्रुतं पयः कालेन दुष्यति (विक्रुते) तस्माच्छ्रुयैतत् । ८—मा चापलम् विकरिष्यते ते शीलम् (दोक्ष्यति ते स्वभावः) । ९—का प्रतिपत्तिः ? (का वार्ता) श्रुतं मया आता ते भूयो-विद्यायै गोतीर्थं जिगमिषुरिति ॥ १२—किं स्वयमेव संस्करोषि मक्षम् । न हि, सूदेन संस्कारयामि ।

अभ्यास—६

१—ऋदिन काम करने के लिये है, और रात आराम के लिये, पर आज

१ अबगाहितुमिच्छामि । अब गाह सकर्मक है । इस का जल अबवा भागीरथी कर्म होगा । पुण्य प्रसन्न सलिलानां भगवतीं भागीरथीम् अबवा भगवत्स आगोरथ्याः पुण्य प्रसन्न सलिलम् । सप्तमी का प्रयोग सर्वथा अनुपपन्न होगा । २—२ सप्रति किंसमाचारास्ते पितृचरणाः ? ३—३ नखात्स्ववश्यं करूपयेः (करजात्स्ववश्यं संहारयेः) । ४ पापसमाचारा—वि० । नारवधीत् ।

जीवन की समस्या से तंग आया हुआ संसार इस सुनहले नियम को नहीं मानता । २—पिता अपने बच्चे का नाम 'रखता' है । इस अवसर पर बच्चे को स्नान कराकर नये वस्त्र पहनाये जाते हैं और भाई बन्धुओं में मिठाई बाँटी जाती है । ३—अच्छे लोगों की इच्छा फलित हो जाती है । वे देवताओं के अनुग्रह के पात्र होते हैं । ४—दुःख के बाद प्राप्त हुआ सुख अधिक प्रिय होता है । जैसे घने अंधकार में दीपक का प्रकाश रुचिकर होता है । ५—मंगल पदार्थ निराशता से प्राप्त नहीं होते इसलिये मनुष्य को पहली असफलताओं के कारण अपना तिरस्कार नहीं करना चाहिये । ६—अहो भाग्यहीन पुरुषों के लिये एक के पीछे दूसरा दुःख चला आता है । ७—जो भाषा तुम सीखते हो उसका प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिये सदा उद्योग करना चाहिये । सरल और सुगम संस्कृत बोलने का अभ्यास करो । ८—इस कपड़े का धागा अलग अलग हो गया है । यह पहनने के योग्य नहीं रहा । अब इसे फेंक दो । ९—तुम पहली अवस्था से कम नहीं हो । तुम्हारी दीप्ति, कान्ति और द्युति वैसी ही है । १०—सभा^२ विसर्जन हुई,^२ और लोग अपने^३ अपने घरों को चले गये । ११—राजा के आने पर रक्षा-पुरुष रास्ते के साथ साथ पंक्ति में खड़े कर दिये गये । १५—तुम राज सचिव के हाथ में कठपुतली^४ के समान नाचते हो । १३—जब लड़का बालिग^३ हो गया^३ तो पिता ने अपनी बहुत सी सम्पत्ति उसको सुपुर्द कर दी । और दुकान उसके अधिकार में कर दी । १४—सेनापति^५ वीरसेन को लिख दिया जाय^५ कि आप ऐसा करें । १५—इस गाँव से आम के वृक्ष पूरब की ओर हैं और अशोक के पश्चिम की ओर ।

संकेत—७—यां भाषां शिक्षसे तां प्रयोगतः परिचेतुं सततं यतस्व । सरलेन सुगमेन च संस्कृतेन वक्तुमभ्यस्यस्व^६ । यहाँ "संस्कृते" ससम्बन्ध

१—१ नाम करोति । २—२ विसृष्टं सदः । ३—यथास्वम्, यथायथम् । ३—३ प्राप्तव्यवहारदशोऽभूत् । ४—पुत्तलिका, पुत्रिका, शालमञ्जिका । और दुकान.....आपणो च तमभ्यकरोत् । ५—५ सेनापतये वीरसेनाय लिख्यताम्—यहाँ चतुर्थी 'क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्' इस वार्तिक के अनुसार हुई है । यहाँ द्वितीया का प्रयोग 'प्रति' के योग से अथवा 'उद्दिश्य' का कर्म बनाकर हो सकता है अन्यथा नहीं ।

६—यहाँ 'अभ्यस्य' के स्थान पर अभ्यस्य परस्मैपद में भी कहा जा

का प्रयोग व्यवहार के अनुकूल न होगा । कर्मत्व विवक्षा में द्वितीया 'संस्कृतम् भी निर्दोष होगी । ११—आगते राजनि रक्षिणोऽनुरथ्यं पङ्क्तिक्रमेण स्थापिताः । १२—त्वममात्यमनुवर्तसे पुत्तलिकावच्च तेन नत्यसे । १५—प्राचीना अस्माद्ग्रामादान्नाः, प्रतिचीनाश्चाशोकाः ।

अभ्यास—१०

१—क्या आप मेरी सहायता करेंगे ? हाँ, विचार तो है, यदि^१ बस चला तो^१ । २—डूबते को तिनके का सहारा । ३—जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ । ४—जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है । ५—जो काल करे सो आज कर आज करे सो अब, पल में परलय होयगी बहुरि करेगा कब । ६—वह दबे पाँव पिछ्छे दरवाजे से कमरे में प्रविष्ट हो गया । और रुपया पैसा जो हाथ लगा लेकर चम्पत हो गया । ७—मेरा भाई और मैं मैच देखने जा रहे हैं, पता नहीं कि हम कब लौटेंगे । ८—वह बचपन से ही होनहार^२ प्रतीत होता था पर उसने अपने निर्दिष्ट आचरण से अपने कुल को सदा के लिये कलंकित कर दिया । ९—अपने मित्रों की सहायता करने में आनाकानी^३ न करो^३ । ऐसा न हो कि समय पढ़ने पर वे काम^४ न आयें^४ । ११—तुमने चार^५ दिन से^५ पुस्तक का हाथ नहीं लगाया । १२—रेशम (कौशेय, पत्रोर्य) के कीड़े शहतूत^६ के पत्तों पर पलते हैं । रेशम बनाने के लिये अगणित जीवों की हत्या होती है । १३—उसने अपने पुत्र की हत्या का बदला ले लिया । तिस पर भी उसका क्रोध शांत न हुआ । १४—सुशोला की सगाई श्री रामनिवास से हो गई है । अब इसका आश्विन की पूर्णिमा को विवाह होगा ।

संकेत—२—ब्रुडतो हि कुशं वा काशं वाऽवलम्बनम् । कुश और काश दोनों पुं० और नपुं० हैं । ३—योऽन्तःङ्गमनुसन्धत्ते, सोऽज्ञसा वेद (नेतरः) । ४—यो जागर्ति स इष्टेन संयुज्यते, यो निद्राति स तद्वापयति । हा का णिच्

सकता है । अस्यत्यूहो वा वचनम्—यह वार्तिक इसमें प्रमाण है । मूल में अस् दिवा० परस्मैपदी है ।

१—१ यदि प्रभविष्यामि । २—२ भव्य, भूष्णु, भविष्णु । ३—३ न विचारयेत्, न विमृशेत् । ४—४ उषकरणीमावं न यायुः । ५—५ चत्वारि दिवसानि (द्विताया) ६—६, ब्रह्मण्य—पुं० । ब्रह्मदार नपुं० ।

सहित प्रयोग स्वार्थ में देखा जाता है॥ ६—स पक्षद्वारेण प्रकोष्ठं निभृत्तं प्राविशत् । पल में परलय होगी.....पुरा भवति भूतसंप्लवः । ततः किं प्रतिपत्स्यसे । ७—मम सोदर्योऽहं च विजिगीषा-खेलां प्रेक्षितुं यावः, न विद्वः कदा परापतावः । यहाँ 'परापतावः' (परापतिव्यावः) लट्ट के स्थान में प्रयुक्त हुआ है । यह भी व्याकरण के अनुसार निर्दोष है । १३—पुत्रवधं निरत्या-वयत् (पुत्रहत्यां प्रत्यकरोत्) ।

अभ्यास—११

१—लज्जावती सुन्दरता में अन्तःपुर की दूसरी स्त्रियों से बाजी ले गई है । २—मेरी घड़ी में इस समय पौने तीन बजे हैं । ३—जब डाक्टर आया तो रोगी के प्राण होंठों पर थे । ४—वह सिगरेट पीए बिना नहीं रह सकता । ५—मुझे तेरे जैसे शरारती बालकों से कभी पाला नहीं पड़ा । निश्चय ही तुम लाड़ प्यार से विगड़ गये हो । ६—स्त्री के देहान्त के बाद हरि को यह^१ धुन लगी कि मैं साधु हो जाऊँ^१ । ७—चार बद्माश^२ वे बेचारे^३ साहूकार पर टूट पड़े, और उसको मार मार कर (प्रहारं प्रहारम्) अधमरा कर दिया । ८—एकदम बसन्त के आ जाने से पशु पक्षी काम विकार को प्राप्त हो गये, दुःख-शील यतियों ने ज्यों ज्यों मन पर काबू पाया । ९—भई, जाने भी दो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो । १०—आप ने मेरी दुःख भरी कहानी (कथानक-नपुं०) सुन ली । कृपया इसे आप अपने^४ तक ही सीमित रखें^४ । ११—हिरण्य को देखते ही शेर उसकी ओर दौड़ा और एक^५ रूपट में^५ ही उसे आन^६ दबाया^६ । १२—उसने मोहन को खूब उल्लू बनाया । १३—मुगलों के अत्याचारों को सुनकर खून^७ खौलने लगता है^७ । १४—गाड़ी को कीचड़ से निकलने के लिए मैंने पड़ीचोटी का जोर लगाया, पर वह टस से मस न हुई ।

॥यथा—पञ्चैतान्यो महान्यश्नान्न हापयति शक्तिः(मनु० ३।७१) ।
द्रुतमेतु न हापयिष्यते सदृशं तस्य विघातुमुत्तरम् (गाथ० १६।३३॥) ।

१—१ भिक्षुवृत्तिमातिष्ठेयमिति सन्ततमचिन्तयत् । २ जारुम; अस-मीक्ष्यकारिन्—वि० । ३ अवश—वि० । ४—४ आत्मन्येव गोपाय । (एतत्त्व-न्मुख एव तिष्ठतु । ५—५ एकयैव भुत्या । ६—६ आक्रामत् । ७—७ रक्त-मुक्तव्ययत इव ।

१५—लण्डन में मनुष्यों की चहल-पहल, गाड़ियों की भीड़-भाड़ तथा व्यापार की धूमधाम देखने योग्य है १६—वह सदैव मेरी उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकता रहा है ।

संकेत—१—लज्जावती लावण्येन सर्वान्तःपुरवनिताः प्रत्यादिशति (अतिक्रामति) । २—अधुना मम कालमापनी (घटिका यन्त्रम्) पादोन-वृत्तीयां होरां दिशति । ४—स धूमवर्ति (तमाखुनर्ली) विना निर्वोदुं नालम् । ५—न मे संन्यवहारोऽभूत्पुरा त्वादशैश्वर्यलै र्माण्यकैः । दुर्ललितो ह्यसि । ८—...यतयोपि कथंचिदीशा मनसां बभूवुः । ९—आर्य ! सहस्व (विरम) कृतमतिक्रान्तस्मारयोन (अलमतिक्रान्तं स्मारयित्वा) । १२—स मोहनं मानुसुखमुपदर्श्य व्यडम्बयत् । १४—शकटं कर्दमादुद्धर्त्तुं सर्वात्मना प्रायस्यं न चैतत् ततः पदमेकमपि प्रासरत् । १५—लण्डन नगरं प्रसुरो जनसञ्चारः सञ्चारद्-यानसम्बाधो वणिग्व्यापारभूयस्त्वं च दर्शनीयम् । 'दर्शनीयानि' भी कह सकते हैं । १६—स मे समुन्नतिपथं नित्यं प्रतिबध्नाति ।

अभ्यास—१२

१—मोहन ने इस जोर से गेंद मारी कि शीशा टूट कर चूर चूर हो गया । २—उस पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, पर उसने जी न हारा । सच कहा है आँधी में भी अचल अचल रहते हैं । ३—तुम ने स्वयं अपने लिये गढ़ा खोदा जब तुमने अपने पुत्र को अपने सामने ही बिगड़ते देखा और लाड़ प्यार वश उसे कुछ नहीं कहा । ४—अधिक^१ से अधिक^२ आष को दस बारह भिनट और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ५—मैं बातों ही बातों में उस की आर्थिक अवस्था को जान गया । मुझे यह पहली बार मालूम हुआ कि वह तंग है । ६—जो थोड़ी बहुत आशा थी, वह भी धूल में मिल गई । ७—वर्तमान महायुद्ध के समय यथेष्ट जीवन निर्वाह का क्या कहना, यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं । ८—आजकल दूध^३ घी का क्या कहना^२ । यहाँ तो शुद्ध तेल भी नहीं मिलता ।

९—अपने आप पर भरोसा रखो, कभी तो दिन फिरेंगे ही । देखिए—सूरदास ने क्या कहा है—“सब दिन होत न एक समान” । ओह, कितनी

१—१ अधिकाधिकाः, उत्तरोत्तराः (दशद्वादशाः कलाः) । २—२ किम्पुनः पयः सर्पिणी ।

पालाक लड़की है। देखने में तो यह 'नाहन मालूम पड़ती है'; मान संसार^२ की इसे हवा ही नहीं खरी^२। ११—आज बाजार बहुत तेज था, इसलिए चावलों का भाव न बन पड़ा। १२—जहाँ पर फूल है, वहाँ काँटा भी। इसलिए मनुष्य को आपत्ति सेलने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिये। १३—ऋ मित्र वह है, जो विपत्ति में काम आये। १४—तन्दुदस्ती हजार नियामत है। १५—आप तो हमारे हमेशा के ग्राहक हैं। आप से हम कभी अधिक मोल ले सकते हैं अथवा खराब वस्तु दे सकते हैं ?

संकेत—मोहनस्तथा वेगेन प्राहरत्कन्दुकं यथाऽऽदर्शः परिस्फुट्य परिस्फुट्य खण्डशोऽभूत् । ४—त्वया स्वहस्तेनैवाङ्गाराः कर्षिताः, यत्त्वं प्रत्यक्षं विकुर्वाणामपि सुतं जालनावशो भूत्वा नावारयः । ५—अर्थमन्तरेण कीदृशोऽसाविति कथाप्रसंगेन पर्यचैषम् । ६—अवशिष्टाप्याशा हता (अस्तंगता) । ७—अत्र महासंख्ये उदरपरं भोक्तुमपि न लभ्यते, त्रिभुतौपयिको योगक्षेमः । ११—अथ विपण्यां पण्यानां महीयानघोऽभूत्, तस्मात् तण्डुलानां मूल्ये मे सविन्नाभूत् । १२—नहि कण्टकान् सुमनसो व्यभिचरन्ति, नहि सुखं दुखेनासंभिन्नमस्ति, नहि सम्पदो विपद्भिरननुस्यूताः सन्ति । तेन व्यादो (व्यसनानि) विसोढुं सज्जेत् । १४—स्वस्थं शरीरम् (कल्पः कायः) अनुत्तमं सुखम् ।

अभ्यास—१३

१—तुम बच्चे हो, जमाने की चाल ढाल से परिचित नहीं हो। 'फूँक-फूँक कर पग धर' मग में जाग न जाय शूल कहीं पग में। २—जो हो, सो हो, मैं उसके आगे कभी नहीं झुकूँगा। ४—चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ५—अथदि थोड़ा २ भी सब लोग इस निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण की दें तो इसका यथेष्ट निर्वाह हो जायगा। बूँद बूँद मिलने से नदी बन जाती है। ६—बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेय। ७—पहले उसने अपनी जायदाद गिरवी रखी थी, अब वह दिवाला दे रहा है। ८—रामचन्द्र जी ने कहा—माता जी ! आप की आज्ञा सिर माथे पर। मैं अभी बन को जाता हूँ। ९—उसकी मुट्टी गरम करो तो काम हो जायगा, नहीं तो वह अड़चन डालेगा। १०—वह उसकी उँगलियों पर नाचता है। ११—इधर-उधर की बातें न बनाओ, ठीक कहो कि क्या तुमने उसका खून किया है या नहीं।

१२—यह सुनकर वह आपे से बाहर हो गया और अनाप-धनाप बकने लगा ।
 १३—इस दुर्घटना में वह बाल-बाल बच गया । यदि गाड़ी पहाड़ से टकरा
 कर खाई में गिर जाती तो उसकी हड्डी-पसली का पता न चलता । १४—जैसे
 बाप जैसे बेटा । यदि पं० श्री मोतीलाल जी ने देश-सेवा के निमित्त आराम
 हराम कर दिया तो उनके सुयोग्य पुत्र पं० जवाहरलाल जी ने देशोद्धार के
 लिये कौन सा कष्ट नहीं सहा ? १५—# इधर कूँआ और उधर खाई । १६—
 हंसते हंसते हमारे पेट में बल^२ पड़ गये^२ । १७—जाको राखे साँह्यां मार
 सके न कोय । बाल न बांका करि सकै जो जग बैरी होय ।

संकेत—१—बाल एवासि, अनभिज्ञोऽसि लोकवृत्तान्तस्य साम्प्रतिकस्य ।
 २—यद्मावि तद्भवतु, नाहं तस्य पुरः शिरोऽवनमयिष्यामि । ३—अहः
 कतिपयानि सम्पदस्ततो व्यापदः । ७—पूर्वं स स्वां सम्पत्तिं बन्धकेऽप्यात्
 (आधिमकरोत्, आधात्, आधित (आ० लुङ्) साम्प्रतम् ऋष्यशोधनेऽक्षमतामुद्-
 घोषयति । ९—तस्मा उत्कोचं (आमिषम्) देहि तेन तव कार्यं सेत्स्यति ।
 ११—माऽप्रस्तुतं ज्ञपीः (माऽप्रस्तुतं ज्ञपीः) सुनिश्चितं ब्रूहि किं स्वया
 तस्य बन्धः कृत उत नेति ॥ १३—अस्मिन्दुर्भागो दैवात्तस्यासवो रक्षिताः ।
 १४—पितरमनुगतः पुत्रः ।

अभ्यास—१४

१—बालक को दवाई दे दो नहीं तो वह सारी रात रोता ही रहेगा ।
 २—कुल को कलंकित करने वाले तेरे जैसे का जन्म न होता । तुम्हारे
 दुर्भ्यवहार से जो हमें दुःख हो रहा है, वह कहा नहीं जाता । ३—चोर कमरे
 में ऐसे खुपके से घुसा जैसे मकड़ी^२ मक्खी को पकड़ती है । ४—मछलियाँ
 जल में ऐसी शीघ्रता से तैरती हैं, जैसे पृथ्वी पर खरगोश भागते फिरते हैं ।
 ५—तुम्हें पुस्तकों को सुनने में इस प्रकार साबधान होना चाहिये, जैसे तुम
 अपने मित्र^५ सुनते हो^३ । ६—इन दो पहलवानों में यह कम प्रसिद्ध है
 क्योंकि इसने कम कुश्तियाँ लड़ी हैं और कम पहलवानों को^५ पछाड़ा है^५ ।

१—१ अवेक्ष्यावेक्ष्य चरखं न्यस्य, दृष्टिपूतं पादं न्यस्य । २—२ कुक्षि
 परिवर्तोऽजनि । ३—लुप्ता, कर्णनाभि । ४—४ यथा सुहृद्वरणे । ५—५
 परास्ताः, निर्जिताः ।

०—इन दो कपड़ों में से वह कपड़ा अधिक देर तक चलेगा, क्योंकि इसकी^१ बुनती अधिक गाढ़ी है^१ । ८—बाबक ने डरते-डरते (ससाध्वसम्) उत्तर दिया, मुझे मालूम नहीं कि मेरे पिता का वेतन २०० रुपये से अधिक है । ९—बन्दर ने रीझ से कहा—तुम्हें मेरा साथ देना चाहिये था क्योंकि तुम मेरे मित्र^२ होने का दम भरते हो^२ । १०—पिता ने पुत्र से कहा—रात के समय घर से बाहर मत जाओ ऐसा न हो कि तुम्हें ठंड लग जाय । ११—अपने बच्चे की मृत्यु का समाचार सुनकर माता चिल्ला उठी, हाय ! अब मैं इसके बिना कैसे जीवित^३ रह सकती हूँ^३ । पुत्र ! तू मुझ बुदिया की बटिबरा था । १२—अध्यापक ने पूछा—गंगा यमुना में मिलती है या यमुना गंगा में । १३—कवि ने राजा की प्रशंसा के पुत्र बाँध दिये । १४—मैंने तुझे बातला दिया कि वह किस प्रकार इस कठिनाई से छुटकारा पा सकता है ।

संकेत—२—व्यपदेशमाविद्यतस्तेऽजननि भूयात् । ५—एतयोद्द्योरेष्व षटः सुचिरतरमवस्थास्यते, यतोऽयं निरन्तरमुतः । १०—निकेतनाद् बहिर्गर्भः, मा ते शैत्यविक्रिया (शीतम्) भूत् । १२—उपाध्यायः पर्यन्वयुक्त्वा किं गंगा यमुनामुपतिष्ठते, उत यमुना गङ्गामिति । १३—कविरत्यर्थमवर्णयद्भूपम् । (कवी राजानमतिमात्रमस्तावीत्) । १४—स केनोपायेन कृष्णान्निर्भोक्तुम् (आपदमुत्तरीतुम्) अर्हतीति तं प्राबुधुषम् ।

अभ्यास—१५

१—अब छुट्टियाँ हैं । समय काटे नहीं कटता । परीक्षा की तैयारी में खगा हुआ था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि समय पंख ग्रहणकर उड़ा जा रहा है । २—जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठीगा बाजे । ३—शत्रु के पाँव^४ जमने न दो^४, वह तुम्हारे खिये अति कष्टदायक सिद्ध होगा । ४—मैं तुम्हें बता दूँगा कि मैं किस प्रकार भीड़^५ को चीरकर^५ निकल^५ आता हूँ । ५—यदि चपरासी की मुट्टी गरम न करोगे तो वह तुम्हें कमरे के अन्दर नहीं जाने देगा । ६—आटा कुछ मोटा पिस रहा है, इसे बारीक पीसिये ।

१—१ निविडतरमस्य (गाढतरमस्य) बानम् । २—२ मन्मित्र-भात्मानं प्रख्यापयसि । मत्सुहृदभात्मानमुदाहरसि । ३—३ जीवेयम् (शक्ति-विक्र-) । ४—४ मा भूवत्त्वमूखः । ५—५ जनौषं मध्यतो विचिह्न विर्यामि ।

७—मेरा दिख दुःख से इतना भरा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कह सकता ।
 ८—ज्योंही उस पर संकट आया सारे मित्र^१ जो दांतकाटी रोटी खाते थे^२,
 चम्पत हो गये । ९—कृषि जितना गुड़ उतना मीठा, जितना दान उतना
 कल्याण । १०—आप उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर फिसल गये, पर
 स्मरण रहे वह तो परले दर्जे का गुण्डा है । ११—मुझे तो अपने काम से
 अतलब होना चाहिए, औरों की बातों में क्यों टांग अड़ते हो । १२—प्रातः
 मैंने खाजी पेट दूध पी लिया था, अतः अब^२ मेरा जी बबराता है^२ । १३—
 लुभार^३ सौदा तो देना कहीं दूर रहा^३, यह दुकानदार तो कुछ रुपये भ्रगता^४
 माँगता है^४ । १४—अतिथियों की टहल सेवा करने में गृहस्थ ने कोई^५
 बात उठ्य न रक्खी^५ । १५—ठाट-बाट से रहना तो दूर रहा, वह तो वास्तव
 में अपना निर्वाह भी नहीं कर सकता ॥

संकेत—१—सम्प्रत्यनध्यायदिवसाः । अव्यापृतस्य (अव्यग्रस्य) मे
 जातिर्याति कालः । २—यद्यस्योचितं तत्समाचरन् स एव शोभते, इतरस्तु
 प्रवृत्तो लोकस्य हास्यो भवति (विडम्बयते) । ३—मा तेऽरातिः प्रतिष्ठात् ।
 (प्रतिष्ठां गात्, लब्धास्पदो भूत्), अन्यथाऽसौ तेऽतिवेत्तं कष्टदो भविष्यति ।
 ५—द्वारस्थाद्योपप्रदानं चेन्नोपहरिष्यसि (न प्रदेक्ष्यसि) न हि सोऽन्तरगारं
 ते प्रवेष्टुं दास्यति । यहाँ 'दास्यति' का प्रयोग व्यवहार के अनुकूल है ।
 "वाष्पश्च न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि"—मेघदूत । ६—अवचूर्ण्य-
 तेऽयं गोधूमः, एष साधीयश्चूर्ण्यताम् । ८—यावदेव तस्य विपदुपस्थिता
 (उपनता) तावदेवास्थ हृदयङ्गमा सखायोऽदर्शनं गताः । १०—मा त्वं तस्य
 मधुरवचनेष्वाश्वस्तो भूः (चादृक्त्तुषु व्यवशसीः) । परमसौ बभ्रधुर्त इति
 प्रतीह । ११—भवान् पराधिकारचर्चां किमिति करोति । १५—आस्तां
 तावदूर्जितं जीवितम्, (विभवेन लोक यात्रा निर्वाहयाम्) स तु कथञ्चिन्निर्वोदु-
 मपि नेष्टे ।

अभ्यास—१६

१—मेरे पैर का अंगूठा उतर गया है । दर्द से मरा जा रहा हूँ । २—

१—१ येषां सन्धिश्च सपीतिश्चाभूताम् । २—२ बमनेष्वा मेऽस्ति ।
 अस्ति ममोत्खलेदः । ३—३ अयमेन क्रमदानं तु दूरे । ४—४ अग्रतो दीयमानं
 ब्रह्ममात्रा मिच्छति । ५—५ न यत्नमुपैक्षिष्ट ।

इस बालक की टाँग टूट गई है और इसके भाई के पाँव में मोच आ गई है ।
 ३—फोड़े में धीब भर गयी है, और उसका मुँह भी बन गया है; अब इसे चीरा दिया जायगा^१ । ४—आजकल मुकदमाबाजी बढ़ रही है और रिश्वत का बाजार गरम है । ५—उसका^२ बाल-बाल ऋण में फँसा हुआ है^३ । साहू इसे तंग कर रहा है, बेचारा ऋण चुकाने के लिये और ऋण लेता है । ६—मुझे तीस रुपये ऋधार चाहिये आप क्या ब्याज लेंगे । ७—नीलामी^४ के समय लोग एक^५ दूसरे से बढ़-बढ़ कर बोली देते हैं^६ और जो सब^७ से अधिक^८ बोली देता है, उसे ही ताम देना पड़ता है । ८—क्या वह पहले से अच्छी दशा में है ? नहीं, उसकी पहले से भी बुरी हालत है । ९—आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हवाई जहाज में बैठकर आकाश की सैर कर सकते हैं और घर बैठे देश-देशान्तरों में हो रहे भाषणों को सुन सकते हैं । १०—रेल के कर्मचारी यात्रियों के दुःखों और संकटों का तनिक भी खयाल नहीं करते । ११—पति-वियोग में वह बूख कर काँटा हो गई है । इसकी दशा को देखते ही रोना आता है । १२—वे दोनों गुथ्यमगुथ्या हुए ही थे कि मैंने उन्हें छुड़ा दिया । नहीं तो वे लड़-भिड़ कर लहू-लुहान हो जाते । १३—एक ही राग अलापते जाते हो, कुछ नई बात नहीं कहते हो और न तो किसी दूसरे की सुनते हो । १४—आजकल उसकी खूब चलती है । पाँचों उँगलियाँ घी में हैं । १५—इस आन्दोलन को बन्द न होने दो, कुछ देर चलता रहने दो । १६—जेब^९ कतरा रुपये लेकर चलता बना और यात्री को पता तक नहीं चला ।

संकेत—१—मम पादाङ्गुष्ठः सन्धेश्चयावितः (विसंहितः) । २—अस्थ बालस्य जङ्गा-भङ्गो जातः, भ्रातुश्चास्य पादस्नायुर्वितता..... (प्रसृता भङ्गा,स्नायुर्वितानो जातः) । ३—व्रणः पूयक्लिन्नो बद्धमुखश्च जातः । 'पूयक्लिन्न' के स्थान पर 'सपूयः, विपक्व' ऐसा भी कह सकते हैं । ५—साहू इसे तंग कर रहा है.....साधुस्तं बाधते, वराक ऋणार्थं कुरुते । ६—त्रिंशत् रूप्यकानुद्धारमिच्छामि । ७—अष्टत्वे व्यवहार उत्तरोत्तरं वर्धते । आभिष-

१—१—इदानीमस्य शालाक्यं करिष्यते । २—२ स ऋणभराक्रान्तः । कियती वृद्धिर्भविष्यति । ३—३ दोषव्यापर्वके क्रये । ४—४ एकोऽपरमतिशयः येयं मूल्यमुदघोषयति । ५—५ सर्वोतिरिक्तम् । ६—६ ग्रन्थिच्छेदकः ।

परिग्रहस्य बहुलः प्रवर्तते । ८—अस्ति तस्य विद्वेषः ! न हि, स तु पर्वा-
बन्धायाः परिहीयते । ११—पतिविप्रयोगेभ्य सा तनुतां गता (भर्तृविश्लेष-
कहिंता सा) कङ्कालशेषा समजनि । १२—प्रवृत्तसम्पातौ तौ व्यश्लेषयम्
(पृथगकार्षम्) । १३—एकमेवार्थमनुक्षपसि नार्थान्तरमभिधत्से । न चान्यं
शब्दोपि । १४—अद्यत्वे ऽप्रतिहतोऽस्य प्रभावः । यतस्ततो महार्थावकाशभते ।

अभ्यास—१७

१—उसका दाव नहीं चला, नहीं तो तुम इस समय अपना सिर धुनते
होते । २—उसके भाषण को सुन कर मैं तो नख-सिख में प्रेरणा से भर
बधा, नस^१ नस में संजीवन रम गया^१ । ३—तुम तो घड़ी में माशा हो
और घड़ी में तोला । ४—उस दुष्ट से तुमने कैसे पीछा छुड़ाया ? ५—हमने
उसकी खूब^२ खबर^२ ली । ६—माता बच्चे को गुदगुदी करती है, बच्चा
खिलखिला कर हँसता है और माता का दिल बाग-बाग होता है । ७—हम
तो प्रेम के डुकराये, दुर्दैव के मारे हैं, हमें मत छोड़ो । ८—कोई भोला-
आला मनुष्य इधर आ निकले, तो तुम उसका सिर मूँड़ लेते हो । ९—पथिक
के अपना मांस रोक लिया और रीछ ने उसे मुरदा समझ कर अपनी राह ली ।
१०—धिर प्रवासी तथा रोगी रहने से वह ऐसा बदल गया है कि पहचाना
नहीं जाता । ११—इस महायुद्ध में अनेक वीर काम आये और कई बेचारे
आंगरिक भी खेत हो रहे । १२—बातों ही बातों में हमारी यात्रा कट
गई । १३—समा में जब उसे फूट बोलने के कारण चारों ओर से फटकार
घड़ी तो वह बगलें झाँकने लगा । १४—मैं मर कर तुम्हारे सिर चढ़ूँगा ।
१५—बेचारा लड़का मुँह^३ देखता रह गया^३ । १६—रण थम्भौर के किले में
धिरे हुए राजपूत सिपाही साथ सामग्री के कम हो जाने से बाहर आ गये और
जान से हाथ धोकर खूब लड़े । १७—उसकी ऐसी दशा देखकर मेरा^४ दिल
भर आया^४ ।

संकेत—१—न स प्राभवच्छाठ्य, अन्यथा सम्प्रति स्वानि भाग्यानि निन्द-
यसि । यद्वाँ लट् का प्रयोग व्याकरणानुशिष्ट न होता हुआ भी व्यवहारानुकूल है ।

१-१—प्रति धमनि नवः प्रायसञ्चारः । २-२—साधु (सुष्ठु) तमशिष्म ।
३-३—विस्मयप्रतिहतोऽभूत् । ४-४—काङ्क्षमाविशच्छेतः । कश्चान्-
थेता अभवम् ।

देखो “विषय-प्रवेश” लकार प्रकरण । ३—क्षये रष्टः क्षये तुष्टो रष्टस्तुष्टः क्षये क्षये । ६—अम्बा बालं कुतकृतयति । सोऽट्टहासं हसति, अम्बायाश्चाति-मात्रं मोदते मनः । १०—चिरं विप्रोषितो रुग्णश्चासौ तथा परिवृत्तो यथा परिषेतुं न शक्यः (दुरभिज्ञानः संवृत्तः) । १३ ततः सोऽमुतोऽपक्रमोपायम-चिन्तयत् । १४—अहं तथोपरंस्यामि यत्कृते त्वमेव दोषमाग्नं भविष्यसि । १६—.....स्वजीवितमविगण्यथ्य (त्यक्तजीविताः, प्राणांस्तृणाय मन्य-मानाः) निर्भरमयुध्यन्त । इस “त्यक्तजीविताः” की साधुता के निश्चय के लिये गीता (१ । ३३ ॥) पढ़ें ।

अभ्यास—१८

१—मेरी सब आशाओं पर पानी फिर गया (मेरी सब आशाएं धूल में मिल गईं) । २—कभी वह मेरे बश में आ गया तो अगली पिछली कसर निकाल लूँगा । ३—दूध गरम करते ही फट गया । बासी होगा, अथवा दही की बूँद पड़ गई होगी । ४—तुम्हें इन बातों से क्या । अपने काम से काम रखो । ५—बस, श्रीमान् बहुत हो चुका, अपनी जवान को जगाम दीजिये । ६—तुम सदा मन के लड्डू फोड़ते रहते हो । ७—आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, देश के नेताओं के चित्र खड़ाखड़ बिक रहे हैं । ८—आजकल रुपया पैसा खून पसीना एक करके मिलता है । ९—तुम तो दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखना चाहते हो । १०—जब पाण्डवों ने वारणावत में पहुँच कर जाक्ष्मगृह में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को ज्ञास की गन्ध आई । तब उसने कहा—दास में कुछ काला है । ११—आजकल प्रत्येक मनुष्य अपना उल्लू सीधा करना चाहता है दूसरों के हित की उसे चिन्ता नहीं । १२—दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है ।

संकेत—१—सर्वा ममाशा हताः । (मोघाः जाताः) २—स चेन्मम हस्ते पतिष्यति, तदाऽथावधिकृतं (पूर्वं पूर्वतरं च कृतम्) कृस्नमपकार-जातं निर्यातयिष्यामि (प्रतिकरिष्यामि, विगणयिष्यामि) । ३—सन्तसमात्र-मेव दुग्धं द्विधाऽभूत् । ५—अहं ! अज्ञमतिवाचा (कृतमतिप्रसंगेन)

१—१ अग्निः प्रवाहिता इवास्तं गताः सर्वा ममाशाः । (रजोऽवकीर्णा इवाऽविकला ममाशाः प्रक्षीनाः) ।

नियन्त्रयस्व जिह्वाम् । ६—मनोरथसतो मोदकप्रयाजिष्ठानर्थावित्थं भ्रुकुक्षे ।
 ८—नाश्रान्तेन सम्प्रति धनमाप्यते (उद्योगप्रस्विन्नगात्र एवार्थाप्लवमते) ।
 ९—त्वं तु परगृहेषु विसंवादमुद्मान्य कौतुकं मार्गयसि । १०—शाल मे...
 ... अस्तीह शकुं कावकाशः । ११—अद्यत्वे सर्वः स्वार्थमेव समीक्षते परहितं तु
 नैव चिन्तयति । १२—आत्मनो विनोदाय कल्पतेऽयं विचारः (आत्मानं
 विनोदयितुं कल्पोऽयं विचारः) ॥

अभ्यास-१६

१—जब राजा महल में वापिस आया, तो देखा कि रानी औंधे^१ मुँह पड़ी है^१ । २—ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है । ३—तुम तो आये दिन कोई^२ न कोई बात खड़ी कर देते हो^२ । यदि तुम्हारा कोई भगड़ा है तो तुम उसे पंखों के सामने रख सकते^३ हो । ४—आखिर इस तू तू मैं मैं से क्या लाभ^३ ? ५—अब तो पिता की कमाई खा रहें हो, यदि कमा कर खाना पड़े तो नानी याद आ जाय । ६—मेरे पाँव में काँटा चुभ गया है, उसे सुई से निकाल दो । ७—तुम ने तो मेरी नाक में दम कर रक्खा है । एक बार कड़ तो दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता । ८—जी में आया कि मार मार कर उसका कचूर निकाल दूँ । ९—तुम तो अपनी ही हाँकते जाते हो और किसी की सुनते ही नहीं । १०—मैं रात भर खाट पर पड़ा पड़ा करवटें लेता रहा । मैंने सारी रात आँखों में काटी । ११—अच्छा जो हुआ, सो हुआ, भविष्य में सावधान रहना । १२—यहाँ हमारी दाल नहीं गलती प्रतीत होती है, हमें यहाँ से कूच करना चाहिये । १३—क्या तुमने अपने घोड़े की नाक बँधवा ली है ।

संकेत—२—भाग्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । ५—यदि स्वयमुपाज्यं विनियुञ्जीथाः बाढं दुःखमश्नुवीथाः । यहाँ प्रसिद्धि वशात् कर्म (अर्थ, धन) न कहने में भी कोई दोष नहीं । जैसे—देवो वर्षति इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्धि-वशात् कर्म (जल) नहीं कहा जाता । ६—चरणे मे कण्ठको लगनः । तं सूच्या समुद्धर । ७—द्वं कदर्थितोऽस्मि त्वया । ८—(नूनं कण्ठगतप्राण इव

१—१ अबमूर्धशयाऽऽसीत् । २—२ अनुदिनं नवं नवं विवादविषय-
 भुज्जववसि । ३—३ अन्ततो गरवा ऽनेनाक्रोशेन किम् (अलमन्योन्य-
 माक्रुश्य ।) ।

कृतोस्मि त्वया) । ८—इदं मे चित्तमुत्पन्नं प्रहारं प्रहारं (प्रहस्य २) तं श्रुत्वा-
ग्नीति (प्राणैस्त्वं विमोचयामीति) । १०—खट्वामभिशयानः सर्वरात्रं पार्श्वे एव
पर्यंबीवृतम् (सर्वरात्रमुच्चिद्र एव शयनीयेऽल्लुठम्) । पर्यङ्के निषण्णस्य ममा-
क्षयोः प्रभातमासीत् । १२—नेह स्वार्थसिद्धिमुत्पश्यामः । प्रदेशान्तरं संक्रा-
मामः । १३—अपि त्वयाऽश्वस्य क्षुरश्राणि बन्धितानि ॥

अभ्यास—२०

१—उसके मुँह न लगना, वह बहुत चञ्चलता पुरजा है । २—जब से
उसने अकारण मेरा विरोध किया तब से वह मेरी आँखों में अखरने लगा ।
३—श्याम के पिता ने अपने पुत्र को बहुत मिर पर चढ़ा रखा है । अब वह
न केवल बन्धुओं का तिरस्कार ही करता है, पिता के कहने में भी नहीं
है । ४—यह जूता बहुत तंग है और दूसरा दिखाओ । ५—उस भाग्यहीन ने
अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी । ६—अजी, तुम मुझे क्या समझते हो ?
यह तो मेरे बायें हाथ का करतब है । ७—तैमूरलङ्ग ने दिल्ली की ईंट से ईंट
बजा दी । ८—ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं^१ यदि पिता कपटी और
क्षुद्र है तो पुत्र भी वैसे ही । ९—यह करतब ऐसा जान पर खेलने का है कि
देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । १०—गया वक्त फिर हाथ आता नहीं ।
११—भाई,^२ परमात्मा ने पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं बनाईं^३ । संसार में
मले लोग भी हैं और बुरे भी । १२—मित्र मुझे नींद आ रही है, अब मुझे
मत बुलाना । १३—सँवारे हुए बालों से स्त्री पुरुष की जो शोभा होती है वह
दूसरे शृंगार से नहीं, वे भी जब घुँघराले^४ हों तो क्या ही कहना । १४—
मित्र, दिखावा न दिखाओ, दो चार कौर खा लो १५—आइये, बैठिये, बहुत
समय के बाद आना हुआ, कहिये, सब कुशल तो है ? १६—ईश्वर न
करे,^५ यदि तुम फेल हो गये तो क्या तुम अध्ययन जारी रखोगे ?

संकेत—१—तेन सह नाति परिचयः कार्यः, शठो हि सः (कितवोऽसौ) ।

२—यदा प्रभृति स मामकारणं व्यरुधत् तदा प्रभृति मेऽक्षिगतः समजनि ।

१-१ सर्व इमे सजातीयाः (समानप्रसवाः) । २-२ भद्र (कल्याण,सौम्य) !
न हि समे समानशीला भगवता सृष्टाः (न हि समानशीलः स्वायम्भुवःसर्गः) ।
सन्ति चेहोभये सुजनाश्च दुर्जनाश्च । ३-३ अराजाः (कुटिला) केशाः,
ऊर्मिमन्तः कचाः, कुण्डलिनः केशाः । ४-४ शान्तं पापम् ।

३—श्यामेनात्मजोऽति मानेनोन्नमितः, स न केवलं ज्ञातीनघजानाति पितु-
र्बचनमपि नानुरुध्यते । ४—एते उपानहावति संसक्ते उपानदन्तरे दर्शय ।
५—नावैषि मे सारम् । अलमहं सव्येनापि पाणिनाऽदः सचितुम् ।
७—तैमूरलङ्गो दिव्यजीमेकान्तमुत्साहयामास (इष्टकाचयतां निनाय) ।
८—इदमद्भुतं कर्म तथा प्राणाल्यथम् (जीवितसंशयम्) उत्पादयति यथा
प्रेक्षकाणां लोमानि हृष्यन्ति (रोमाण्यञ्चन्ति) । १२—सखेऽपह्नियेहं निद्रया
(निद्रा मां बाधते, निद्रयाऽभिभूतः, निद्रालुरहम्) ।

अभ्यास—२१

१—आज सबेरे ही सबेरे बीस रुपये पर पानी फिर गया । २—व्यायाम
सौ दवा की एक दवा है फिर, हॉग लगे न फिटकिरी । ३—ऐसा अँधेरा था
कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था । ४—जो^२ दूसरों के लिये गढ़ा खोदता
है^२ वह खुद उसमें गिरता है । ५—पुरुष जुलजुला है अल का ! क्या
विश्वास है जीवन का । ६—मुझे इस बात का सिर पैर नहीं पता लगता ।
७—क्यों माई, तुमने परीक्षा में परचे कैसे किये, मेरा तो सिर चकराता है ।
८—मुँह पर थपपड़ लगाओ, कनपटिया पर एक घूँसा मारो, देखो, तीर की
तरह सीधा होता है या नहीं ? ९—वाह यार वाह, बारह वर्ष दिल्ली में
रहे, माइ भोंकने के सिवाय कुछ न सीखा । १०—जो कार्य नीति से निक-
लता है, वह बल से नहीं निकलता । ११—मित्र ? सुना है तुम्हारी नौकरी
बड़े मजे की है (सुखस्ते नियोगः) । काम तो कुछ नहीं, पर वेतन तो
अच्छा है । १२—मेरा तो चिल्लाते-चिल्लाते गला बैठ गया, परन्तु यहाँ कोई
सुनता ही नहीं । १३—उधार नहीं देना चाहिये, इससे न केवल रकम
बरन् मित्र भी हाथ से जाते रहते हैं । १४—अमीन ! आप क्या कहते हैं,
कहाँ वह लंगोटिया लौंडा और कहाँ मैं अमीरजादा । १५—उ्यों त्यों करके
पहाड़ सी रात तो कटी । देखें दिन कैसे कटता है । १६—डाकुओं का नाम
सुनते ही बन्दूकची के हाथों के तोते उड़ गये । १७—वह गिरगिट की तरह

१ सख् के इस अर्थ में 'त्रीयि ज्योतीषि सचते स षोडशी' यह ऋग्वेद का
मन्त्र प्रमाण है ।

२-२—यः परार्थं निहन्तुमुपायं चिन्तयति ।

रंग बदलता है । आज हिन्दू हैं तो कल ईसाई और परसों बौद्ध । १८—जाँच होते-होते उसका भाँडा फूट गया ।

संकेत-१—अथ प्रातरैव (प्रग एव) विंशते रूप्यकाणां हानिर्मे जाता ।
 २—व्यायामो हि भेषजं भेषजानाम् ? एतत्कृते कश्चिद् व्ययोऽपि नानुभवितव्यो भवति । ३—मुष्टिमेयं तमोऽभूत् । एकोऽपरं नान्वभवत् । (तम-स्तथा निबिडमभूद्यथैकः सदेशे स्थितमपरं नालोकत) । ५—आयुष्यं जलज्जोला बिन्दु चपलम् । तत्र क आश्वासः । ६—अस्या वार्ताया अन्तादी (आद्यन्तौ) नावगच्छामि । ८—मुखेऽस्मै (प्रहस्तं) चपेटां देहि, कर्णपात्र्यां च मुष्टिप्रहारं प्रयच्छ, एवमयं शरवदजुर्यास्यतीति निश्चितमवेहि । ९—साधु सखे साधु । धिरतरं दिवलीमावसः, जघन्यकृत्यवर्जं च नान्यदशिक्षथाः । १०—साम्ना हि यच्छक्यं न तच्छक्यं प्राभवत्येन (प्रभुतालम्बनेन) । आक्रोशतो मे कण्ठरोधो जातः (रुद्धः कण्ठः, सन्नः कण्ठः, कण्ठः कलुषः उपादास्त स्वरः) न हि कश्चिच्छृणोति माम् । १३—ऋणं न देयम्, अनेन न केवलं धनराशिः क्षीयते, परं मित्राण्यपि हीयन्ते । १४—श्रीमन् किमास्थ । कासौ कौपीनमात्रपरिधानो बालः, क्वाहं कुले महति सम्भूतः । १५—ब्रह्मरात्रिरिव दीर्घा त्रियामाऽत्यगात् । १६—परिपन्थिनामनिशमनसमनन्तरं बौहसुषिकः परं क्लेश्यमगमत् (सन्नहस्तोऽभूत्) । १७—प्रतिसूर्यक इव सोऽनेकरूपः ॥

अभ्यास—२२

(संस्कृत पढ़ने का महत्त्व)

देवदत्त—मित्रवर विष्णुमित्र, यह मालूम होता है कि तुम अन्य विषय की अपेक्षा संस्कृत में विशेष रुचि रखते हो, क्या यह ठीक है ?

विष्णुमित्र—हाँ, प्रिय मित्र !

देवदत्त—क्या, तुम कृपया मुझे बता सकोगे कि संस्कृत में रुचि पैदा करने वाली ऐसी कौन सी चीज है ?

विष्णुमित्र—इसके विशेष माधुर्य और स्फटिक के समान विस्पष्ट रचना मे मेरे हृदय में घर कर लिया है ।

१-१—अन्धकारं तथा नीरन्ध्रमभूत् । अन्धकारं पुं० और नपुं० है ।
 २-२—बुद्बुदोपमं पुरुषजीवितम् ।

देवदत्त—कहते हैं कि संस्कृत की अपेक्षा फारसी में अधिकतर मिठास है।
विष्णुदत्त—स्मरण रहे कि फारसी में संस्कृत की अपेक्षा आधी भी मिठास नहीं।

देवदत्त—विशुद्ध तथा स्पष्ट रचना से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?

विष्णुदत्त—संस्कृत के शब्द प्रायः व्युत्पन्न हैं—ये धातुज हैं। प्रायः संस्कृत की रचना ऐसी स्पष्ट होती है कि तुम स्फटिक में विम्ब के समान इसमें भी मूलांश को भली भाँति देख सकते हो ?

देवदत्त—पर क्या आजकल संस्कृत पढ़ने की कोई आवश्यकता है ?

विष्णुदत्त—वाह-बाह अनूठा प्रश्न किया ! क्या तुम यही सोचते हो कि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं ?

देवदत्त—मेरा तो ऐसा ही विचार है।

विष्णुदत्त—प्रिय मित्र, यह तुम्हारी भूल है। भारत के अतीत इतिहास के अध्ययन के लिये तथा इसकी संस्कृति व धर्म को जानने के लिये अन्या कोई भाषा उतनी सहायक नहीं जितनी कि संस्कृत।

ऐसा कौन होगा, जो ऋषि-मुनियों की संगृहीत हुई ज्ञान-राशि से ज्ञान न उठाना चाहे।

देवदत्त—तो क्या हम अनुवाद के द्वारा संस्कृत-साहित्य का सब परिचय प्राप्त नहीं कर सकते ? इतना अधिक समय तथा शक्ति को व्यर्थ क्यों खोया जाय।

विष्णुदत्त—देव, क्या तुम यह मान सकते हो कि अनुवाद प्रमाण होते हैं ? क्या अनुवाद में मूल ग्रन्थों का असली सौन्दर्य तथा भाव आ सकते हैं ?

देवदत्त—अनुवाद निश्चय से सहायक हैं, पर मैं यह नहीं कहता कि वे सदा ही प्रामाणिक होते हैं।

विष्णुदत्त—मित्र, मैं तुमसे एक सीधा सा प्रश्न करता हूँ, क्या तुमने कभी अनुवाद में कविता का रसास्वादन किया है ?

देवदत्त—नहीं ! कदापि नहीं।

विष्णुदत्त—तो देव, इसका यह अभिप्राय है कि मूल पुस्तक की सुन्दरता तथा भाव अनुवाद के द्वारा प्रकट नहीं किये जा सकते ?

देवदत्त—प्रिय मित्र, मैं यह मानता हूँ।

विष्णुदत्त—तो देव, क्या तुम्हारे विचार में एक हिन्दू के लिये संस्कृत का अज्ञान शोभा देता है ।

देवदत्त—पर इससे विपरीत क्यों हो ?

विष्णुदत्त—सुनो, ऐसे क्यों नहीं हो सकता । संस्कृत के ज्ञान से रहित हिन्दू को अपने धर्म का स्वतः परिचय नहीं होता । वह हिन्दू संस्कृत के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, और वह अपने आचरण को तदनुसार बना नहीं सकता । पूर्वी तथा पश्चिमी विद्वानों के अनुसार 'हिन्दू' हो और संस्कृत से अनभिज्ञ हो—यह परस्पर विरुद्ध है । इससे यह परिणाम निकला कि एक हिन्दू के लिये संस्कृत न जानना, न केवल अनुचित ही है, प्रत्युत विशेषकर लज्जास्पद है ।

संकेत—देवदत्त—क्या तुम कृपया..... उच्यतां कोऽसौ गुणविशेषः संस्कृते य इयतीमभिरुचिं जनयतीति ।

विष्णुदत्त—इसके विशेष माधुर्य..... सर्वातिशायिनी (सर्वातिरिक्ता) माधुरी स्फटिकाच्छा चास्य रचना मामत्यन्तमावर्जयतः ।

विष्णुदत्त—देव, क्या तुम यह..... क्या अनुवाद में (मूल ग्रन्थों का) संस्कृत का असली... सौन्दर्य कि भाषान्तरेषु शक्यं मूलग्रन्थस्य चारुता स्वरसश्चाक्षतं रक्षितुम् । यहाँ "शक्यम्" नपुंसक लिंग एक वचनान्त है । जिस कर्म को यह कह रहा है वह एक नहीं, परन्तु दो हैं—चारुता और स्वरस, जिनमें पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग है । तदनुसार यहाँ (नपुं० द्वि०) 'शक्ये' होना चाहिए था । पर जब सामान्य से बात प्रारम्भ की जाय, किसी विशेष पदार्थ का मन में ध्यान न हो, तो 'शक्य' शब्द का नपुं० एकवचन में प्रयोग निर्दोष माना जाता है, पीछे अपेक्षानुसार जिस किसी लिंग व वचन में 'कर्म' रख दिया जाता है । इस पर वामन का सूत्र है—'शक्यमिति रूपं कर्माभिधायान् लिङ्गवचनस्यापि सामान्योपक्रमात् । इसके कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं—

नृशंसेनातिलुब्धेन शक्यं पालयितुं प्रजाः (महा० भा० शा० प०)

बहि देहवता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः (गीता)

शक्यमञ्जलिभिः पातुं चाताः केतकगन्धिनः (रामायण),

शक्यं हि श्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहन्तुम् (महाभाष्य),

शक्यमरविन्दसुरभि.....आलिङ्गितुं पवनः (शकुन्तला),

विष्णु०—तो देव, क्या तुम्हारे विचार में.....कि मन्थसे देव, शोभेतापि
संस्कृतानभिज्ञता हिन्दोरिति ? विष्णु०—पूर्वी तथा पश्चिमी विद्वानों के
अनुसार 'हिन्दु' हो और संस्कृत से.....हिन्दुश्च संस्कृतानभिज्ञश्चेति
विप्रतिषिद्धम् इति प्रतीक्या अपि विद्वांसः किमुत प्राच्याः ।

अभ्यास—२३

(वैद्य और रोगी)

राम—प्रिय श्याम, तुम्हारा चेहरा^१ पीला क्यों पड़ा है ?

श्याम—मित्र, मुझे पुराना अजीर्ण रोग है ।

राम—कृपया मुझे यह बताइये कि यह कैसे प्रारम्भ हुआ ?

श्याम—मेरे विचार में यह चिर^२ तक बैठने की आदत से^२ हुआ है ।

राम—तो क्या तुमने इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय^३ नहीं
किया ।

श्याम—मैंने कई एरु डाक्टरों से परामर्श किया और देर तक उनका
उपचार करता रहा, परन्तु कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

राम—तुम्हें इन डाक्टरों के पास जाने की किसने सलाह दी थी ? वे
सुटेरे हैं । वे तो विदेशी दवाइयों की बिक्री करने के साधन मात्र हैं । एवं वे
औषधों से रोगी के शरीर एवं पेट को भर देते हैं ।

श्याम—प्रिय मित्र, मेरा भी ठीक यही विचार है । कृपया मुझे बतायें
कि अब^४ मुझे क्या करना चाहिये^५ ।

राम—तुम स्वयं स्वास्थ्य के प्रारम्भिक^६ नियमों को पढ़ सकते हो और
उन नियमों का पालन करो । संक्षेप में मैं तुम्हें नियमित रूप से प्रातः
भ्रमण, थोड़ा सा व्यायाम, हल्का भोजन, जिस में^७ फल प्रधान^८ हो और
पूरी नींद की सलाह दे सकता हूँ ।

१—१ किमिति विचर्यं ते वदनम् । २—२ चिरोपवेशितया, चिरासन-
तया । ३—उपाय, औषधिक, प्रतिकार—पुं० । क्रिया स्त्री० । ३—३ इदानीं
किं मे कृत्वमित्यनुशाधि माम् । ४—प्रथमानुष्ठेया नियमाः । ५—५ फल
भूयिष्ठ (आहारः) ।

श्याम—मैं निश्चय ही तुम्हारी सलाह मानूँगा। इस समयोचित^१ उप-
देश के लिये^१ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

सकेत—श्याम—मित्र, मुझे पुराना अजीर्ण रोग है.....कालिकेना-
जीर्णेन बाधेऽहम्। राम—तो क्या तुमने इससे छुटकारा पाने का कोई.....
.....न खलु नैरुज्यलाभाय कश्चिदुपक्रमः कृतः ? श्याम—मैंने कई एक
प्रसिद्ध डाक्टरों से परामर्श.....अहं वैद्यवरेभ्योऽपृच्छम्, चिहं
च तैरुपचरितोऽभवम्, परं न विशेषः कश्चिदभूत्। यहाँ “वैद्यवरेभ्यः”
पञ्चम्यन्त है। प्रच्छ् आदि अन्य धातु केवल विकल्प से द्विकर्मक हैं, पर यहाँ
द्विकर्मक के रूप में प्रच्छ् का प्रयोग नहीं किया गया।

अभ्यास—२४

(ग्राम्य-जीवन तथा नागरिक-जीवन)

हरि—ग्राम्य-जीवन व नागरिक-जीवन इन दोनों में से तुम किसे पसन्द
करते हो ?

मदन—मैं तो नागरिक-जीवन को सदा ही अच्छा समझता हूँ।

हरि—क्या नागरिक-जीवन में वास्तव में कोई चाही जाने वाली बात है ?

मदन—प्रिय मित्र, मुझे क्षमा करो ! तुम तो अनजान आदमी की तरह
बातें करते हो !

हरि—कृपया मुझे इस विषय में ठीक-ठीक समझाएँ।

मदन—मित्र हरि, नागरिक-जीवन के इतने सुख हैं कि उनका वर्णन
करना कठिन है। नगरों में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली बड़ी २ संस्थाएँ हैं।
इसके अतिरिक्त पुस्तकालय, अजायबघर, चिड़ियाघर, विद्या सम्बन्धी समाएँ,
राजनैतिक-मण्डल, विनोदसमाज आदि भी वहाँ होते हैं। इन सबसे मानसिक
विकास होता है।

हरि—यह ठीक है, हमें उपयुक्त साधन ग्रामों में नहीं मिल सकते।
परन्तु प्रिय मित्र, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि ये सब साधन स्वयं ही
जीवन को अच्छा बनाते हैं।

१—१ सामयिकस्यास्यानुशासनस्य कृते (काल्याया अस्या अनुशिष्येः
कारणात्)।

मदन—निश्चय से ये साधन हमारी बुद्धि के विकास में सहायक होते हैं और मानसिक भूख के दुःख से बचाते हैं ।

हरि—तो क्या मदन तुम यही समझते हो कि मनुष्य केवल मात्र बुद्ध्युपजीवी प्राणी है ।

मदन—मैंने तो यह कभी नहीं कहा ।

हरि—तो फिर तुम नगरों में इन साधनों के होने के विषय में इतना जोर क्यों देते हो ? तुम्हें मालूम होना चाहिये कि जीवन के दूसरे अङ्ग भी हैं जो बराबर गौरव रखते हैं और जिनकी पुष्टि के लिये विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है ।

मदन—हाँ, यह ठीक है । पर तुम्हारा इससे क्या अभिप्राय है ?

हरि—मेरे विचार में स्वास्थ्य, सदाचार, प्रकृति निरीक्षणादि जीवन के अन्यान्य अङ्गों के लिये नगरों में कोई वायुमण्डल नहीं ।

मदन—मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ ।

हरि—तुम मानो या न मानो, पर स्मरण रहे कि गाँव ही ऐसे स्थान हैं जो जीवन को स्वस्थ बनाते हैं । गाँवों में गाड़ियों के संचार से उठने वाली धूल नहीं होती, वहाँ भीड़-भाड़ नहीं होती । सूर्य की अमृत-भरी किरणों ग्रामीणों के घरों में प्रवेश कर उन्हें जगमगा देती हैं । फिर यह गाँवों का ही श्रेय है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और सदाचार उत्तरोत्तर बढ़ता है । इसी प्रकार ग्रामीणों को ही प्रकृति-निरीक्षण का पर्याप्त समय मिलता है ।

मदन—परन्तु गाँवों में जीवन को सरस व रम्य बनाने के साधनों की कमी है । ग्राम्य-जीवन नीरस एवं कठोर है ।

हरि—इस प्रकार की चटक-मटक से जीवन अस्वाभाविक तथा आचार-हीन हो जाता है । गाँव का सरल, तपोमय तथा कर्मशील जीवन सदा ही तुम्हारा पाँव नेकी के रास्ते पर जमाए रखेगा ।

संकेत—मदन—नागरिक^१ जीवन के इतने सुख हैं कि.....संख्या तिगामीनि खलु नगरवाससुखानि

१—जीवन, जीवित का संस्कृत में 'प्राण्य' अर्थ है । जहाँ हम संस्कृत में 'प्राण्यः' बोलते हैं वहाँ जीवन, जीवित का भी प्रयोग कर सकते हैं । प्रकृत में जीवन से वास उपलक्षित है । नागर, नागरक, नागरिक, पौर—पुँ ।

मदन—मित्र, मुझे क्षमा करो तुम तो.....मित्र मर्षय माम्, असंवि-
दान इव वदसीति वक्तव्यं भवति ।

मदन—निश्चय से ही ये साधन हमारी बुद्धि के वि.।.....नून-
मेतेऽर्थाः बुद्धिविकासेऽङ्गभावं यान्ति क्षुधा मनोऽवसादं च वारयन्ति ।

हरि—मेरे विचार में स्वास्थ्य, सदाचार, प्रकृति निरीक्षण.....
अयं मेऽभिसन्धिः, नगरे जीविताज्ञान्तरेषु सुस्थता—सौशील्य—सर्गदर्शनादिषु
साध्वी नास्त्यवस्थितिः । यहाँ 'साधु' शब्द हित का पर्याय वाचक है ।

मदन—मैं यह मानने के लिये.....नेदमनुमतम् मम (नेदं प्रतिपद्ये,
नैतदभ्युपैमि) ।

हरि—फिर यह गाँवों का ही श्रेय है कि सदाचार जिसके आधार पर...
.....अन्यच्च प्रामा एव स्वस्थे शरीरे स्वस्थं मनो जनयन्ति, सदाचारवृद्धि
च कल्पन्ते ।

हरि—गाँव का सरल तपोमय तथा कर्मशील जीवन.....अकृतिकां
तपोमयीं क्रियावतीं च प्रामेषु लोकयात्रामनुभवस्त्वं शश्वत् सन्मार्गमभिनवे-
क्ष्यसे (सत्पथ एव पदमर्पयिष्यसि) ॥

अभ्यास—२५

(समय का सदुपयोग)

ललित—मित्र शान्त, मैं तुम्हें सदा पुस्तकों में लीन ही देखता हूँ ।
क्या तुम्हें आसपास के लोक-वृत्तान्त का भी तनिक ध्यान है ?

शान्त—प्रिय ललित, मैं बहुत अधिक नहीं पढ़ता और जैसा कि तुम
ख्याल करते हो लोक-वृत्तान्त से अनभिज्ञ भी नहीं हूँ ।

ललित—परन्तु मैं तुम्हें मनमौज करती हुई मित्र-मण्डली के साथ इधर-
उधर घूमते हुए कभी नहीं देखता । प्रत्युत मैं तुम्हें स्कूल के समय के बाद घर
में ही कार्यव्यग्र (संलग्न) पाता हूँ ।

शान्त—मित्र ललित, मुझे बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर घूमने में
कोई प्रसन्नता नहीं । मैं समय का मोल जानता हूँ । मैं अध्यापकों द्वारा
निर्दिष्ट किये गये कार्य को नियमित रूप से करता हूँ । और साधारण ज्ञान के

लिये कुछ पुस्तकें भी पढ़ता हूँ । इस प्रकार मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ । तुम अपना समय किस प्रकार बिताते हो ?

ललित—मुझे कोई कष्ट मालूम नहीं होता । स्कूल से तो मैं कमी ही घर सीधा आता हूँ । मैं अपने हँसमुख मित्रों से जा मिलता हूँ, और फिर हम धूमते-फिरते रहते हैं । हम होटल में जा खाना खाते हैं, कुछ काल तक ताश खेलते हैं । और फिर गप्पें हाँकते हैं । इस प्रकार हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं ।

शान्त—प्रिय ललित, तुम अपने समय को व्यर्थ ही खो रहे हो । तुम्हें बाद में इस पर पछताना पड़ेगा ।

ललित—मुझे आने वाले दिनों की कुछ परवाह नहीं, मैं तो वर्तमान-काल में आमोद-प्रमोद करने में विश्वास रखता हूँ । यथार्थ में जहाँ मैं जीवन का आनन्द लेता हूँ, वहाँ तुम केवल लोहार की धौंकनी की तरह साँस ही लेते हो ।

शान्त—परन्तु तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम केवल शाक-पात की तरह शरीर वृद्धि कर रहे हो, तुम अपने आपको किस प्रकार पशुओं से भिन्न दिखा सकते हो ।

ललित—(क्रोध के साथ) मैंने तुम जैसे बीसियों छात्र देखे हैं । ऐसे जोग अपनी शक्ति का माश करके लोक-व्यवहार में प्रवेश करते हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ ।

शान्त—अच्छा मित्र, तुम्हें यदि ऐसे सफलता प्राप्त हो सके तो मुझे कोई दुःख न होगा ।

संकेत—ललित—मित्र शान्त मैं तुम्हें पुस्तकों में लीन.....अहं त्वां नित्यं पुस्तकपाठव्यग्रं पश्यामि, अपि लोकवृत्तान्तानामभितः स्थितानां मात्र-याप्यभिज्ञोऽसि ! शान्त—मुझे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर..... अनर्थकः परिक्रमो (अकारणाटाट्या, वृथाट्या, वृथाटनम्) न मे विनोदाय । ललित—स्कूल से तो मैं कमी ही घर.....पाठालयात् कदाचिदे-वाहं तत्कालं गृहमागच्छामि, विनोदीनि प्रहासीनि च मे मित्राणि संगच्छामि, संगत्य चोच्चलामः । ललित—मुझे आने वाले दिनों का.....न मे समादर आयत्काम्, नाहमायति गण्ये) ।

ललित—मैंने तुम जैसे बीसियों छात्र देखे हैं.....दृष्टं मयाऽनेका
विंशत्यस्त्वद्विधानां छात्राणां पाठालयलब्धपुरस्काराणां कृतेऽतिमात्रं सीदन्ति,
क्षीयशक्तयश्च सत्यो लोक व्यवहारं प्रविशन्तीति ।

अभ्यास—२६

(स्वामी और सेवक)

स्वामी—कहाँ से आये हो ?

सेवक—जिला होशियार पुर से ।

स्वामी—आगे कहीं नौकरी की ?

सेवक—जी हाँ, आपके पड़ोसी श्री रामदेव जी के यहाँ चार बरस काम
किया है, आप उनसे मेरे विषय में पूछताछ कर सकते हैं ।

स्वामी—तो उनके यहाँ से क्यों नौकरी छोड़ दी ?

सेवक—मेरे किसी निकट सम्बन्धी की शादी थी और ऐसे अवसर पर
मेरा उसमें सम्मिलित होना आवश्यक था । मैंने पन्द्रह दिन की छुट्टी ली
पर घर जाकर मेरा महीने से पहले आना न बना । इसी बोच में उन्होंने किसी
और नौकर का प्रबन्ध कर लिया ।

स्वामी—क्या कुछ काम करना जानते हो ?

सेवक—श्रीमन्, घर के सब काम कर सकता हूँ । भोजन पका सकता
हूँ, ऐसी स्वादिष्ट भाजियाँ बनाता हूँ कि आप प्रसन्न हो जायेंगे ।

स्वामी—क्या बाजार से हर किस्म का सौदा भोल ले सकते हो ?

सेवक—सच जानिये दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, पर मैं तो उनका
भी गुरु हूँ । पूरा तौल लेता हूँ और फिर मोल देता हूँ । यदि हो सका तो
खोटा रुपया भी जड़ आता हूँ ।

स्वामी—तुम तो चल्ते पुरजे मालूम होते हो, कहीं हमारे साथ भी हथ-
कण्डे न खेलना ।

सेवक—जी नहीं, मैं चालाकी उसी के साथ करता हूँ जो मेरे साथ
चालाकी करता है, नहीं तो मेरे जैसा सीधा साधा व्यक्ति आपको हूँ दुबे से भी
नहीं मिलेगा ।

संकेत—सेवक—प्र घर जाकर मेरा महीने से पूर्व..... परं गृहं
गत्वाऽहं मासाद् पूर्वं प्रत्यावर्तितुं नापारयम् ।

सेवक—भोजन पका सकता हूँ ऐसी स्वादिष्ट भाजियाँ.....भोजन
साधयितुं क्षमः, एतावता स्वादून् (सुरसान्) शाकान् साधयामि, येन भवतः
परितोषोऽवश्यं भावी । सेवक—सच जानिये दुकानदार बहुत चालाक
.....आपणिका यथार्थतः हस्तकौशलाः, परमहं तेषामपि गुरुः । वस्तूनां
पूर्णपरिमाणं गृह्णामि तदनु तत्तुल्यं मूल्यं परिददामि । यदि संभवः स्यात्
(सति संभवे) कृत्तिकां मुद्रामपि तेभ्यः समर्पयामि । स्वामी—तुम तो
बल्लते पुरजे मालूमः.....त्वं तु धूर्त्त एव प्रतिभासि, माऽस्मानपि
प्रतारय (मा नोऽतिसन्धाः) ॥

अभ्यास—२७

(ग्राहक और दूकानदार)

दुकानदार—क्यों साहिब, क्या चाहिये ?

ग्राहक—कुछ फल । सेब कैसे दिये हैं ?

दुका०—तीन रुपये सेर । जितने चाहिये चुन लो या मुझे कहो मैं
चुन दूँ ?

ग्राहक—अच्छा, तीन सेर सेब चुन कर तोल दो, परन्तु देखना मेरे
विश्वास से अनुचित लाभ न उठाना । गन्दे, सड़े या कच्चे सेब न बूकेल
देना ।

दुका०—क्या यह भी संभव है ? आप स्वयं देख लेंगे कि कैसे अच्छे
सेब मैंने आपको दिये हैं । यदि फिर भी पसन्द न आएँ तो अपने पैसे वापिस
के जा सकते हैं ।

ग्राहक—बम्बई के केले कैसे दिये हैं ?

दुका०—श्रीमन् ! एक रुपये दर्जन ।

ग्राहक—तीन दर्जन केले दे दो । देखना कहीं कोई सड़ा गला केला न
दे देना ।

दुका०—श्रीमन्, आप तो मुझे बार-बार शर्मिन्दा करते हैं । क्या आज आपने किसी को निमन्त्रण दिया है ।

ग्राहक—हाँ, आज मैंने कुछ मित्रों और सम्बन्धियों को चिरंजीव रमेश की वर्ष-गाँठ के दिन पर बुला भेजा है ।

दुका०—यह लीजिये तीन दर्जन केले । सारे बारह रुपये हुए । कहो तो ऐसे आपके हिसाब में डाल दूँ ।

ग्राहक—नहीं, नहीं, वह सर्वथा भिन्न हिसाब है । यह तो पन्द्रह रुपये पाँच पाँच के तीन नोट । बाकी तीन रुपये दे दो ।

दुका०—सबेरे-सबेरे नोट कौन तोड़ेगा । अभी आप ही ने तो बोहनी कराई है ।

ग्राहक—अपनी तिजोरी तो देखो, कोई दो चार रुपये निकल ही आयेंगे ।

दुका०—(तिजोरी देखकर) लीजिए, आपका तो काम बन गया, और ग्राहकों से तों में निपट लूँगा ।

संकेत—ग्राहक—सेब कैसे दिये हैं ?.....आताफलानि केनाषेष् विक्रीयन्ते । ग्राहक—गन्दे, सड़े या कच्चे सेब न ढकेल देना..... दूषितानि पूतिगन्धीनि (पूनानि) आमनि च फलानि मा स्म दाः । दुका०—यदि फिर भी पसन्द न आये तो ऐसे.....न चेदमि-नन्दनीयानि स्युः मूल्यं प्रतिगृह्यताम् । ग्राहक—बम्बई के केले कैसे दिये हैं.....मुम्बापुरी कदलीफलानि कथं विक्रीयन्ते ? दुका०—श्रीमन्, एक रुपये दर्जन.....श्रीमन्, रुपयकेष द्वादशकम् । ग्राहक—हाँ, आज मैंने कुछ मित्रों और सम्बन्धियों को.....अस्तु, अद्य मया केचिस्सुहृदो ज्ञातयश्चायुष्मतो रमेशस्य वर्षग्रन्थि पुण्याहे निमन्त्रिताः ।

दुका०—कहो तो ऐसे आप के हिसाब में डाल दूँ ?.....यदी-च्छसि तदा द्वादश रूप्यकाणि भवद्गणनायां योजयामि । ग्राहक०—यह जो पन्द्रह रुपये के पाँच पाँच के तीन नोट.....प्रत्येकं मुद्रापञ्चकसंमितानि त्रीशीमानि प्रमाण पत्राणि गृहाण्य । दुका०—(तिजोरी देखकर) लीजिए, आपका तो काम बन.....(लोहमञ्जूषामवलोक्य) परिगृहाण्य, तावत् निष्पन्नं ते कार्यं (सिद्धं ते समीहितम्) ग्राहकान्तरैस्तु स्वयं व्यवस्था-पयिष्यामि ।

अभ्यास—२८

(कथायें या कथांश)

अन्त में वह फाँसी पर चढ़ा दिया गया और लाश फड़कने लगी। हतने में लोगों ने देखा कि एक दम एक आदमी घोड़ा कड़कड़ाता हुआ सरपट दौड़ाता हुआ सामने से आ रहा है। दम के दम में जेलखाने में दाखिल होकर उसने कहा कि अभी^१ रोको, फाँसी न देना^१। और वहाँ लाश तड़फड़ा रही थी। मनुष्य के मन की भी विचित्र दशा है, घड़ी में माशा घड़ी में तोला। अभी दो दिन ही हुए कि शहर भर इस कातिल के लहू का प्यासा था। किसी ने दाँतों से बोटियाँ नोचीं, किसी ने काट खाया, किसी ने इस जोर से चुटकी^२ लौ^२ कि उसका रक्त पीला हो गया। सब प्रार्थना करते थे कि इसको ऐसा दण्ड मिले कि इसकी बोटियाँ उड़ाई जायँ। इसको चील और कौवे खायँ, गाड़ दिया जाय। आज लाश का फड़कना देखकर बहुतों की आँखों^३ में आँसू आ गये^३। तो कारण क्या ? उस समय उसकी विवश अवस्था को देखकर उसका दोष, उसका पाप और उसका अपराध कुछ याद नहीं आता था।

संकेत—अन्त में.....फड़कने लगी = अन्ते स उद्गम्य व्यापादितः ।
 मृतश्चास्य कायो व्यचेष्टत (द्यवर्तत) । मनुष्य के मन की.....तोला =
 विचित्रा हि चित्तवृत्तयो नृणाम् । क्षणे रोषः क्षणे तोषः । किसी ने दाँतों से
 बोटियाँ नोचीं = एको दन्तैः शरीरमांसशकलान्युदलुञ्चत् ।

अभ्यास—२९

लाला चमनलाल का खर्च आय से अधिक था, इसलिये प्रायः उदास^४ रहा करते थे। उनकी स्त्री^५ की हथेली में डेढ़ था। पानी की भँति खर्च करती थी^५। लाला चमनलाल बहुत मितव्ययी थे। उनका खर्च बीस रुपये से अधिक न था। परन्तु उनकी स्त्री बड़े घर की बेटी थी, मखमली सलीपर, रेशमी साड़ी, (कौशेयम्, कौशेयी शाटिका) पहनती, रुपये का घी दूसरे ही दिन खर्च कर देती। दो तीन भाजियों के बिना रोटी का ग्रास उसके कण्ठ से नीचे न उतरता था और रोटी खाकर जब तक वह फल न खा लेती, तब

१—१ विलम्बयोद्गमनम् । २—२ त्वचमस्याग्रहात् । ३—३ अक्षिणी उद्भूषी अभूताम् । ४—चिन्ताकुलः । ५—५ गृहिणी च व्ययेऽतिमात्रमुक्त-
 हस्ता पानीयवद् विन्ययुरुक्कार्थम् ।

तक भोजन हजम^१ न होता था। यही नहीं दस पन्द्रह रुपये मासिक लेस-फीतो में उड़ जाते थे। दोपहर के समय अड़ोस-पड़ोस की स्त्रियाँ उसके पास आ बैठीं, तो उनके लिये मिठाई मँगवाई जाती। लाला चमनलाल यह देखते तो बहुत कुढ़ते^२। प्रायः स्त्री को समझाया करते, “देखो यह चाल अच्छी नहीं है। रुपया पैसा लहू-पसीना एक करके मिलता है। सोच-समझ कर खर्च करो।”

कन्यायें हैं, वे नीम^३ के पेड़ की भांति बढ़ रही हैं। उनके व्याह के लिये अभी से बचाना आरम्भ करोगी तो समय पर पूरा^४ पड़ेगा। नहीं तो भाई-चारे में नाक कट जायगी। इस तरह धन^५ का उड़ाना^६ धनाढ्य लोगों को शोभा देता है। इससे उनकी मान-प्रतिष्ठा को चार चाँद लग जाते हैं। परन्तु निर्धनों के लिये इस प्रकार व्यर्थ खर्च करना हलाहल विष के समान है। उनकी भलाई इसी में है कि फूँक-फूँक कर पाँव धरें। सहेलियों से मिलो, उनसे वरतो, उजले वस्त्र पहनो, मना है ही नहीं, परन्तु रुपये को रुपया समझ कर खर्च करो। दिखावे के लिये सारी आयु का सुख गिरवी न रख दो ॥

संकेत—रुपये का घी.....देती = रूप्यक-क्रीतं घृतमन्येद्युरेव सर्व-मुपायुङ्क्त। दो तीन भाजियों.....उतरता था = द्वित्रा भाजीरन्तरेण न सा कवलमपि प्रसितुमरोचयत्। रुपया-पैसा.....आयश्च महता शरीरायासेन सम्पाद्यते। नहीं तो भाई चारे में=बन्धुतायां वक्तव्यतां (लाघवं) यास्यसि। इससे उनकी मान=एतेन बाढं तायते तद्यशः (उपचीयतेतमां तन्मानः)। सहेलियों से मिलो.....मनाही नहीं = कामं युज्यस्व सखीभिः संव्यवहर-स्व च, समुज्ज्वलं वा नेपथ्यं कुरु। नाहं वारयामि। दिखावे के लिये..... विभव प्रदिदर्शयिषया स्वायुर्भोग्येण सुखेन मा स्मात्मानं विना करोः।

अभ्यास—३०

(क) मैंने जूता उतार^६ दिया, और शनैः-शनैः आगे बढ़ा। वर्कशाप^७ की नोकरी^८ ने मशीनों के खोलने-खालने का ढँग सिखा दिया था। वह इस समय खूब काम आया, अँधेरे में दिये से अधिक काम दिया। मैंने जब से एक

१—नाजीर्यत। २—अखिद्यत, खेदमभजत। ३—निम्ब, पितुमर्द, पवनेष्ट—पुँ। ४—सम्यङ् निर्वह्यसि। ५—५ अतिशयितो वित्तसमुत्सर्गः। ६—अब-मुच्। ७—कर्मान्तः, आवेशनम्, शिल्पिशाला।

हथियार निकाला और ताला तोड़कर अलमारी खोली । उस समय मेरा कलेजा जोर-जोर से धड़क रहा था । एकाएक आशा का चमकता हुआ मुख दिखाई दिया । पाप के वृक्षों में सफलता का फल लग गया था । मैंने नोटों का पुलिन्दा उठाया^१ और कमरे से निकल कर ऐसा भागा, जैसे कोई पिस्तौल लेकर मारने को पीछे दौड़ रहा है । परन्तु अभी मकान की चारदीवारी^२ से बाहर हुआ ही था कि उसने मुझे दौड़ते हुए देखा, तो कड़क कर कहा—“कौन है ?” मेरा लहू सूख^३ गया । कुछ उत्तर न सूझा । हाथ पाँव फूल गये । गिरफ्तारी के विचार ने मुँह बन्द कर दिया । मेरे चुप रहने से मालिक मकान को और भी सन्देह हुआ और वह जरा तेज होकर बोला “तू कौन है ?”

संकेत—अँधेरे में.....काम दिया = तमसि प्रदीपादपि भूय उपाकरोत् । एकाएक आशा का चमकता.....सपद्यवास्फुरत्प्रत्याशा मरीचिः । कुछ उत्तर.....नोत्तरं किमपि प्रत्यभान्माम् । मुँह बन्द कर दिया = मुखम-मुद्रयत् ।

(ख) कोई आदी^३ चोर होता, तो भाग निकलता, वचने के लिये वार करता, और नहीं तो बहाना ही बनाता । पर यहाँ तो पहली ही चोरी थी, फास लिये गये । हाथ उठाने का किसका साहस था, वहाँ तो अपने ही पाँव कांप रहे थे और झूठ बोलना सहज नहीं । इसके लिये अभ्यास की आवश्यकता है । मैं अब भी उत्तर न दे सका । मालिक ने मेरी गर्दन^४ नापी^५, और पकड़ कर उसी कमरे में वापिस ले गया । मेरे हाथों में पुलिन्दा देखकर आग^६ बबूला हो गया^६ । सहसा उसकी दृष्टि अलमारी की ओर गई ॥ जलती आग पर जैसे किसी ने तेल डाल दिया । नोटों का पुलिन्दा मुझ से छीन मेरे हाथ पाँव बांधे और मार मार मेरी वह दुर्गति बनाई कि क्या कहूँ । अधमुआ कर एक कोने में डाल दिया । दूसरे^६ दिन मुकदमा पेश हुआ^६ । मैंने आरम्भ में ही अपराध स्वीकार कर लिया । दो बरस कारावास

१—उदग्रहाम् । २—अशुषमे शोणितम् । ३—चौर, तस्कर—पुं० । यहाँ चौर और तस्कर शब्दों में ‘ताञ्छील्य’ में प्रत्यय हुए हैं । जिसका चोरी करने का स्वभाव नहीं पर कभी-कभी चोरी कर बैठता है उसे ‘चौर’ कहते हैं । ४—४ कण्ठेऽग्रहीन्माम् । ५—५ कोपाटोप भयङ्करः । ६—६ अपरेद्युर्व्यवहारः प्रास्त्यत ।

का दण्ड हुआ । परन्तु मेरे लिये वह दण्डमृत्यु से कम न था । मेरी स्त्री और बच्चे का क्या होगा ? जब यह विचार आता तो जिगर पर आरा चल जाता । वहाँ ऐसे कैदियों की कमी न थी जो दिन रात आनन्द से तानें लगाते रहते थे । वे हँस हँस कर कहा करते थे, हम तो ससुराल आये हुए हैं । अफसरी की गालियां उनके लिये मां के दूध के समान थीं । मेरे लिये उनका संगीत असह्य था । उनकी बातचीत मुझे विष^१ में बुझे हुए बाणों^१ के समान चुभती थीं । मुझे उनकी आंखें देखकर बुखार^२ चढ़ जाता था^२ । ऐसा प्रतीत होता था, जैसे मुझे खा^३ ही जाएँगे, चिड़िया बाजों में फँसी थी ।

संकेत—हाथ उठाने का.....कांप रहे थे=आस्तां तावद्वगुरणसाहसं मम तु पाणिपादमपि प्राकम्पत । मेरी स्त्री और बच्चे का.....मम पत्नी पुत्रकश्च कथं वर्तिष्येते इति चिन्ताशस्य्या कृत्तमिव मे चेतः ।

अभ्यास—३१

बहुत मनुष्य फूट^३ फूटकर रोते थे^३ और अपने दिल से इच्छा करते थे कि जहाज^४ डूबने से बच जाय^४ । परन्तु कई धूर्त इस दुःख को देख देखकर खिल^५ रहे थे^५ कि प्रातःकाल मुँह अंधेरे गहरं हैं, खूब पदार्थ मिलेगा । यह दुष्ट पापी कठोरचित्त प्रसन्नता में तालियां बजाते थे, जामें में फूले नहीं समाते थे और परस्पर इस प्रकार गप्पें उड़ाते थे ।

एक—बस अब जहाज के डूबने में क्या शेष है ।

दूसरा—अजां पौ बारह हैं ।

तीसरा—तड़के ही से लैस होकर आ डटूँगा ।

चौथा—दस^६ बारह वर्ष हुए^६, एक फरांसीसी जहाज इसी स्थान पर डूबा था । कई सौ आदमियों की जानें गईं । परन्तु यारों की खूब हण्डियां चढ़ीं । एक सन्दूक बहता हुआ इधर आ निकला । उसमें^७ जवाहरात भरे थे^२ ।

१—१ विषदिग्धाविशिखः, दिग्घः, लितकः । २—२ ज्वरित, जूर्ण—वि० । ३—ग्रस् आ० । ३—३ मुक्तकण्ठमरुदन् । ४—४ कथं चित्रौ व्यसनं मा भूत् । ५—५ हर्षोत्फुल्लमानसाः । ६—६ इतो दशसु द्वादशसु वा वत्सरेषु । इस रचना के लिये “विषयप्रवेश” देखो । ७—७ मण्यमुक्तादीनां पूर्णः स (समुद्गकः) । इस षष्ठी के लिये “विषय-प्रवेश” में कारक-प्रकरण देखो ।

हम तीनों भाइयों ने बड़े यत्न से निकाला । परन्तु आधा तो छिन गया, आधा हमारे हाथ चढ़ा ।

पान्चवां—अरे हम जानते हैं, जहाज बच जायगा । अफसोस !

छठां—क्या मजाल ! क्या शक्ति ! वह देखो चक्कर खाया ।

सातवां—(मुँहों पर ताव देकर) प्रातः भाग्य की परीक्षा करेंगे ॥

संकेत—प्रातःकाल मुँह अन्धेरे गहरे हैं.....मिलेगा=अथ प्रात-
स्तरामेवोद्देश्यः । प्रभूतार्थलब्धि मवित्रीमुपश्यामि । बस जहाज डूबने
.....इदानीं पोतो न न भ्रंशोन्मुखः । अजी पौ बागह हैं=नन्वबष्टब्धा
(आसन्ना) लब्धिवेला (प्राप्नो लाभप्रस्तावः) । परन्तु यारों की खूब.....
परमस्मांस्त्वदभ्रमुपभोग्यमुपानमेत् । क्या मजाल...नैतच्छक्यम् (इदमसंभवि) ।

अभ्यास—३२

तुमको सदा ख्याल करना चाहिये कि घर के कामों में कौन सा काम तुम्हारे करने योग्य है । निःसन्देह यदि छोटे बहन-भाई रोते हैं तुम^१ उनको, सँभाल सकती हो^१ जिससे माता को कष्ट न दें । मुँह धुलाना, उनके खाने पीने की खबर रखना, वस्त्र पहराना, यह सब कार्य यदि तुम चाहो तो कर सकती हो, किन्तु यदि तुम अपने भाई^२ बहन से लड़ो^२ और हठ^३ करो^३ तब तुम अपना मान गँवाती हो और माता-पिता को कष्ट देती हो । वह घर^४ का धन्धा करें अथवा तुम्हारे मुँकदमों का निपटारा करें ?

घर में जो भोजन पकता है उसको इसी प्रयोजन से नहीं देखना चाहिए कि कब^५ भोजन तैयार होगा^५ और कब मिलेगा । घर में जो कुत्ता बिल्ली तथा अन्यान्य पशु पक्ष हैं वे यदि पेट भरने की आशा से खाने की राह देखें, तब कुछ बात नहीं, परन्तु तुमको प्रत्येक बात में ध्यान देना चाहिए कि साग-भाजी किस प्रकार भूनी जाती है, नमक किस प्रकार अन्दाज से डालते हैं । यदि प्रत्येक भोजन को ध्यावपूर्वक देखा करो तब निश्चय है कि थोड़े ही दिनों में तुम पकाना सीख जाओगी और तुमको वह कला आ जायगी जो दुनियां की सभी कलाओं से अधिक आवश्यक है ॥

१—१तानवेत्तितुमर्हसि । २—२ भ्रातृभिः स्वसृमिश्च कलहायेथाः ।

३—३ अभिनिविशेयाश्च ४—४ गृहतन्त्रम् । ५—५ कदा रात्स्यति (दिवादि) (रत्स्यति, रधिष्यति) भोजनम् ।

अभ्यास—३३

ग्राम में रहने वालों को तुमने देखा होगा, प्रायः ऊँचे^१ कद^१ सुख रंग और व्यायामी^२ शरीर के होते हैं^२, उनके विपरीत नगर के पुरुष छोटे^३ कद के और कमजोर होते हैं^३, और रोगों की शिकायत बहुधा सुनी जाती है। इसका कारण यह है कि प्रथम तो ग्राम के रहने वालों के कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें व्यायाम खूब होता है। दूसरे इनको हर समय ताजा वायु खाने को मिलती है। नगरों और कस्बों में, क्योंकि जनता की अधिकता होती है, वायु प्रायः अशुद्ध हो जाती है अतः शहर में रहकर यदि यह चाहते हो कि ग्राम-वासियों की तरह स्वस्थ^४ रहें तो प्रातः और सायं सड़कों या आबादी से कुछ देर घण्टे दो घण्टे फिर आया करो। खुले-खुले विशाल मैदानों में फिरोगे, लहलहाते खेल, हरे-हरे घृक्ष और बहता हुआ जल देखोगे तो इसमें तुम्हारा हृदय प्रसन्न होगा, तबियत भी खिली रहेगी। ताजा वायु भी सेवन करने को मिलेगा और स्वास्थ्य भी बना रहेगा।

संकेत—खुले २ विशाल मैदानों में.....प्रसन्न होगा = आभोगवत्सु प्रकाशेषु निकर्षणेषु यदा परिक्रमिष्यसि, शाद्वलानि क्षेत्राणि च, हरितः शाखिनश्च (पालाशाश्वलाशिनश्च) स्यन्दमाना अपश्च द्रक्ष्यसि तदा तत्पर्यति (त्रप्स्यति, तर्पिष्यति) तेऽन्तरङ्गम् ।

अभ्यास—३४

एक न एक समय खेलना भी अवश्य चाहिये। इससे चित्त प्रसन्न रहता है। हाथ पाँव खुलते हैं। शरीर में खुस्ती आती है। देखना! बालक पाठ-शाला से पढ़कर निकलते हैं। मैदान में खेल रहे हैं, क्या खुश हैं, कैसे निश्चिन्त हैं। इनके मुख क्या तरो ताजा हैं। माता-पिता के प्यारे हैं। घर के लाड़ले हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। उसे देखो भूमि पर पाँव नहीं लगाता। वह बालक बड़ा चंचल है। यह तो महा है? खूब दौड़ नहीं सकता, फिर भी दौड़ता फिरता है। ये तो गिर पड़ा। क्या हुआ, फिर उठकर दौड़ने लगेगा। बाल्यावस्था बड़ी विचित्र नेमत है। अज्ज्ञा मियां! खेलो, कूदो, उछलो, दौड़ो, परन्तु सातो दिन खेल-कूद के ध्यान में ही न

१-१—महावर्ष्माणः, प्रांशवः। २-२—शरीरेण व्यायामिनः। ३-३—पुश्नयः कृशाश्च। ४—वार्त, कल्प, निरामय—वि०।

रहो । जो बालक दिन भर खेल के ध्यान में रहते हैं, वे जब अध्यापक के सन्मुख पाठ सुनाने जाते हैं, तो मुख देखते रह जाते हैं । अध्यापक अप्रसन्न होता है । माता-पिता स्नेह नहीं करते । विद्या बड़ी सम्पत्ति है । उससे वंचित रहते हैं ।

संकेत—हाथ पांव खुलते हैं = करचरणो परिस्पन्द उपजायते (पाणिपादं परिस्पन्दि भवति) । शरीर में चुस्ती आती है = दक्षते देहः । इनके मुख क्या तरो ताजा हैं = अहो प्रसन्न एषां मुखरागः । उसे देखो भूमि पर पांव नहीं लगाता = पश्य, सोऽस्पृशन्नेव भूमिं गच्छति । यह चंचल है भद्रा है = अरं पारिप्लवोऽयं दुःश्लिष्टवपुः । तो मुख देखते रह जाते हैं = गुहमुखं सम्प्रेक्ष्यैवावाचो भवन्ति ।

अभ्यास - ३५

एक धनी युवक ने दो तीन वर्षों में अपनी सारी सम्पत्ति व्यभिचार और फजूलखर्ची में बरबाद कर दी, और अत्यन्त दीन हो गया । झूठे मित्र मला ऐसे समय कब्र काम आते हैं । सहानुभूति^१ की अपेक्षा उससे घृणा करने लगे । जब वह अधिक दीन हो गया तो अपनी भविष्य^२ के अपमान और मुसीबत का विचार करके^३ यद्यपि जीवन प्यारा होता है, तथापि उसने जीवन त्याग करने का निश्चय किया और हृदय में ठान ली कि चलो पहाड़ से अपने आपको नीचे गिरा दो । सारांश आत्महत्या का निश्चय करके वह एक पर्वत^३ के शिखर पर चढ़ गया^३ । वहाँ से समस्त बस्तियां जो कि एक दिन खास उसी की थीं नजर आने लगीं और उनको देख अनन्तर, विचार शक्ति ने आश्रय दिया । धैर्य और हिम्मत ने जो बाजू पकड़े तो जीवन का किनारा नजर आने लगा । प्रसन्नता के कारण उछल पड़ा और कहने लगा कि मैं अपनी कुल सम्पत्ति फिर लूँगा । यह कहकर नीचे उतर आया और कुछ मजदूरों को कोयला उठाते देखकर स्वयं भी उनका साथी हो गया ।

संकेत—एक धनी युवा अत्यन्त दीन हो गया = कश्चिद् धनिको युवाऽविकलां स्वां सम्पदं स्वैरितया वृथोत्सर्गेण चोपायुक्त, नितरां चोपादास्त । धैर्य और हिम्मत ने आने लगा = यद्वा धैर्यमुत्साहश्च तदवलम्बनायाऽभूतां तदा जीवितरेखामभिमुखीमपश्यत् ।

१—समवेदना—स्त्री० । २—२ आयतौ स्वस्थापमानं व्यापदं च मनसिष्ठर्य । ३—३—शिखरि शिखरमारुहत् ।

अभ्यास—३६

रात्रि समाप्त हुई, प्रभात का दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा । तारागण, जो रात्रि के अन्धेरे में चमक-दमक दिखा रहे थे, अपने प्रकाश को फीका देखकर धीरे-धीरे लोप हो गये । जैसे चोर प्रभात का प्रकाश होते ही अपने-अपने ठिकाने को भागते^१ हैं, ऐसी ही रात्रि की स्याही^२ का रंग उड़ा । पूर्व दिशा में सफेदी प्रकट हुई मानो प्रेमी सुबह ने प्रेमिका रात्रि के स्याह, बिखरे बालों को मुख से समेट लिया और उसका उज्ज्वल मस्तक दीखने लगा । प्रातः की वायु युवकों की तरह अठकेलियां करती हुई चली । कोमल-कोमल शाखाएँ झूमने लगीं । पक्षियों ने चहचहाना आरम्भ किया ; उद्यान में गुँचे खिलने लगे, जैसे नींद से कोई नेत्र खोले । नदी में पतली-पतली लहरें पड़ीं और सब लोग अपना-अपना कार्य करने लगे ।

संकेत—तारागण जो रात्रि के अन्धेरे मेंलोप हो गये = नक्तं तमसि रोचिष्णून्युद्गनि सम्प्रति मन्दरुचीनि सन्ति तिरोहितानि (नैशिके तिमिरे विमान्त्यस्ताराः सम्प्रति हतत्विषोऽदर्शनं गताः) । मानो प्रेमी सुबह समेट लिया = मन्ये प्रियं^३ प्रातः प्रियाया निशाया असितान्पर्याकुलान् मूर्ध-जान्मुखात्प्रति समहार्षीत् । प्रातः की वायु चली = वैभातिको वायुर् युवजनवत् सविभ्रममवात् । जैसे नींद से कोई नेत्र खोले = यथा सुप्तोत्थितः कश्चिन्निमीलिते लोचने समुन्मीलयेत् ।

अभ्यास—३७

प्रातःकाल लाला जी ने आकर दुकान खोली ही थी कि एक सफेद पोश कोट पतलून डांटे, कालर^४ टाई लगाये^५ आ पहुँचे । कई थान सूती (तान्तव) रेशमी (क्षौम, कौशेय) निकलवाकर कोई साठ (६०) रुपये का कपड़ा खरीद कर एक गँठरी में बँधवाया और लाला जी से सौ रुपये के नोट की बाकी निकालने के लिये कहा । दुर्भाग्य से लाला जी पेटी की चाबी घर ही भूल आये थे । बाबू साहिब से कहा—आप बैठें, मैं लपक कर मकान से चाबी ले आऊँ । लाला जी को जाने और आने में कोई पांच ही मिनट लगे

१—विद्वन्ति । २—श्यामिका । ३—प्रातरु अव्यय है इसका विशेषण नपुंसक लिङ्ग में ही हो सकता है । ४—४ गलबद्धी चाबध्य ।

हन्यते हन्यमाने शरीरे—गीता के इस मन्त्र को प्रत्यक्ष करने वाले महात्म का भला शस्त्र द्वारा घात कैसा ? मरण कैसा ?

मुझे तो ऐसा लगा कि बापू उसी ^१ शान्त मुद्रा में ^१ अन्तरिक्ष से मानों हमें अपने हाथ के संकेत से सावधान कर रहे हैं और उनकी मीठी-धीमी आवाज़ रह-रह कर हमारे कानों में गूँज रही है—यह कि,

“खबरदार ! क्रोध में अन्धे न होना । ^२ दण्ड देना ^२ असल में भगवान का या फिर न्यायी शासन का काम है । मेरे जीवन के उपदेशों पर जोश में आकर पानी न फेर देना । जहर का नाश जहर से नहीं होता, आग आग से नहीं भुजेगी ।”

संकेत—यात्रियों की आँखों से.....हुए थे—यात्रिकाणां लोचनाभ्यां प्रावहदस्त्रधारा, असीदस्त्र कण्ठःप्रणतानाम् । यहां यात्रियों के अनेक होने पर भी ‘लोचन’ से द्विवचन हुआ । इस पर वामन का वचन है—स्तनादीनां द्वित्वा विष्टा जातिः प्रायेण । स्वयं बापू ने यह सब लीला रची होगी—राष्ट्रपिता स्वय-मेवेदं प्रयुक्तवान्स्या दिति प्रत्यभान्माम् । उनकी मीठी-धीमी आवाज़..... अन्धे न होना—मन्दा मधुराश्च तस्य वाचोऽसकृत् प्रतिध्वनन्तीव श्रवणयो-रिदं चा दिशान्ति प्रतिजागृत, क्रोधान्धा मा स्म भवत । मेरे जीवन भर केयावज्जीवं कृतान्ममोपदेशान्क्रोधावेक्षेन मा स्म मोघतां नैष्ट ।

अभ्यास—३६

दरिद्र ब्रह्मण का घर ।

आज से ठीक पैंतीस वर्षकी बात है । नव उन्नति का उज्ज्वल सन्देश लाने-वाली बीसवीं शताब्दी का शुभागमन हुए अभी एक डेढ़ मास हुआ था,—हाँ, वह १९०१ ईस्वी की शिवरात्रि का प्रातः काल था, जब कि इटावा के—केवल पाँच छः घरों के—कदम पुरा नाम के एक अतिसामान्य गाँव में ‘कहाँ^३ कहाँ’ की रोदन—ध्वनि^३ से किसी हल बैल विहीन किसान के घर की अशान्ति—वृद्धि करता हुआ एक बालक उत्पन्न हुआ । उसे घर केवल इसलिये कह सकते हैं ।

१—१ शान्ताकार—वि० । २—२ दण्डधारण, दण्ड प्रणयन, शासन—
नपुं० । ३—३ काहं काहमुनीत इत्याक्रोधेन ।

क्योंकि इसमें उस किसान का 'विविध' कुटुम्बी जिमि धन हीना' की सत्यता सिद्ध करने वाला^१ परिवार रहता था। अन्यथा उसकी अवस्था किसी खण्डहर^२ से अधिक अच्छी न थी^३। चारों ओर की दीवारें बरसात के थपड़े खाकर अत्याचार—रीड़ित किसानों की नाईं—कहीं आधी कहीं सारी गिर गई थीं, जिस के द्वारा कुत्ते बिल्ली आदिक जीव-जन्तु अपने आखेट के अनुसन्धानार्थ निर्द्वन्द्व घर में आ जा सकते थे। मुख्य द्वार पर दो तीन अनगढ़ तख्ते अपनी टूटी टाँगें अडाए हुए किवाड़ों का अभिनय कर रहे थे। मीतरी भाग में एक ओर एक फूस^३ की छाना^३ थी और दूसरी एक अधपटा बरोठा^४। प्रथम भाग टूटे फूटे, अन्न-हीन मृत्तिका-पात्रों से, जो आपस में टकरा कर बहुधा अचानक ही कराहने लग जाते थे, भरा हुआ था और दूसरा भाग टूटी खाटों और फटी हुई कथड़ियों का एक असाधारण संग्रहालय था, जिस में दरिद्र-नारायण के प्रतिनिधि, इस आलीशान घर के निवासी अपने अवकाश की घाड़ियाँ बित्तया करते थे! पशु-वन का अभी तक यहाँ सर्वथा अभाव था। हाँ यदि कभी कहीं से कोई मरी टूटी बछिया इम 'बामहन' परिवार में आ जाती थी, तो उसे भी इसी दूसरे भाग में आश्रय मिलता था।

संकेत—आज से ठीक पैंतीस वर्ष की बात है—इन: पूर्णेषु पञ्चत्रिंशति वत्सरेष्वदं वृत्तं नाम। नव उन्नतिका.....मास हुआ था—तदा मासो वा ऽध्यर्धमासो वा ऽभूत्सन्देशमुदात्तमाहरन्त्या विंश्याः शताब्द्याः स्वागतायाः चारों ओर की दीवारें बरसात केगिर गई थीं—प्रतिदिशं प्रावृषेण्यै-रासारै राहतानि कुड्यानिरुणमुपचरितानि कृषीवलकुलानीव कचिद्भ्रष्टानि कचिच्च भ्रष्टकानि। यहाँ 'प्रति दिशम्' में 'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः' इस सूत्र से टच् समासान्त हुआ। 'भ्रष्टकानि' में 'अनत्यन्तगतौ क्त्' से कन् प्रत्यय हुआ। मुख्य द्वार पर.....अभिनय कर रहे थे.....मुखनोरणे-ऽत्तष्ट प्रायाणि कथं चि द्विषक्तभग्नपादानि द्वित्राणि काष्ठ फलकानि कपाटा-न्यनाटयन्।

१ बहु प्रजो निष्कृति माविशति दरिद्र इति वचनमन्वर्थयन्नुवास।
२—२ भग्नावशेषान्न विशिष्यते स्म। ३—३ ङादन, छद्दिस्—नपु०।
पाणिनीय लिङ्गानुशासन के अनुसार छद्दिस् स्त्री लिङ्ग है। ४ प्रघण, प्रघाण,
भिलान्द—पु०।

अभ्यास—४०

प्यारे से मिलन की चाह ।

मनमोहन उस^१ को देखे हुए कितने दिन हो गये^१ । वियोग का दुःख सहते-सहते निर्जीव सी हो गई, किन्तु पापी प्राण नहीं निकलते । जब तुम्हीं दया नहीं करते तो मृत्यु क्यों करने लगी । सुनती हूँ, मरने वाले मृत्यु की राह नहीं दीखते, वे स्वयं मृत्यु के पास चले जाते हैं । मैं क्यों नहीं गई ? पता नहीं । इस दुःख से मृत्यु को भली समझ कर मैं भी जाती हूँ । मछलियों को देखो, जल से विलग होते ही तड़पने लग जाती हैं । उनकी तड़पन भी साधारण नहीं होती । वे तब तक तड़पती रहती हैं जब तक कि प्राण नहीं निकल जाते । यह भी बात नहीं कि तड़प-तड़प कर बहुत लम्बे समय तक जीवन धारण करती हों, कुछ क्षण में उनकी तड़पन इतनी बढ़ जाती है कि बस शान्त हो जाती हैं । जज्ञ का तनिक भी वियोग उनसे सहन नहीं हो सकता ।^२ एक मैं हूँ^२ । तड़पती^३ तो मैं भी हूँ, किन्तु केवल तड़पती भर हूँ^३ । मेरी तड़पन में उतना वेग नहीं जो दुःख से छुटकारा दिला सके । इतने दिनों से व्यर्थ ही जी रही हूँ । तो क्या करूँ ? मृत्यु के पास चली जाऊँ ? आत्महत्या कर लूँ ? नहीं नहीं । आत्महत्या महापाप है । प.प-पुण्य की तो कोई बात नहीं, आत्महत्या करने से मिलेगा क्या ? यदि कोई यह विश्वास दिला दे कि ऐसा करने से कन्हैया मिल जायेंगे तो आत्महत्या करने में क्षण भर की देर न लगेगी ।

संकेत—किन्तु पापी प्राण.....नो र्कामन्ति हतःशाः प्राणाः (न मुञ्चन्ति मां प्राणहताः, नोपरमति हतर्जावितम्) । जब तुम्ही.....क्यों करने लगी—यदा स्वमेव नाभ्युपपद्यसे मां तदा कृतान्तः किन्वभ्युपपस्यते । तड़पने लग जाती हैं—प्रव्यथिता भवन्ति । कुछ क्षणों में.....हो जाती है—कैरपि क्षणैस्तथा प्रकृत्यते तद्दृश्यथा यथा ऽकाल हीनमेवोपशाम्यन्ति । इतनों दिनों से.....इमानि दिवसानि मोघमेव जीवामि । यहां द्वितीया विभक्ति के प्रयोग के लिये विषय प्रवेश में कारक-प्रकरण देखो । इसमें रघुवंश का इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव

१—१ अद्य गयारात्रं गतं तस्य दृष्टस्य । २—२ अहं त्वन्यादृशी ।

३—३ अहमपि उच्यते, परं व्यथ एव केवलम् ।

व्रतमासिधारम् (१३।६७) प्रयोग भी प्रमाण है । तब आत्महत्या करने में...
तदाऽऽमघातो न क्षणमपि व्याक्षेप्यते (न विलम्बयिष्यते) ।

अभ्यास—४१

सरदार वल्लभ भाई पटेल ।

उनका चेहरा देखते ही मालूम होता है कि इस आदमी का दिल फौलादी तख्तों का बना है । चेहरा एक मूर्ति की भांति ठोस, जिस पर दृढ़ता की रेखाएँ हैं और जिसकी लुप्टी भयानक सी लगती है । जीवन^१ के आरम्भसे^१ वह विद्रोही और योद्धा रहे हैं । उन्हें^२ बनावटी बातों से घृणा है^२ । वह कर्तव्य में विश्वास रखते हैं । बोलते बहुत कम हैं और बहुत बोलने वालों के प्रति उनका हृदय घृणा से भर जाता है । हमारे देश के नेताओं में उन जैसा संघटन कर्ता कोई नहीं । जिस काम को हाथ में लिया उसे पूरा करके छोड़ा । फिर इधर उधर वह नहीं देखते । खेड़ा, नागपुर, बोरसद, बारडोली उनकी विजयी जीवन यात्रा के कतिपय पद चिह्न हैं । वह एक वीर पुरुष हैं । उनके जीवन पर निर्भयता की छाप है । युद्ध उनका स्वभाव है—यद्यपि सच्चे नायक की भांति युद्ध वह तभी छेड़ते हैं जब कोई रास्ता नहीं रह जाता । इसके पूर्व वह विरोधी की काफी छूट (कामचार), काफी अवसर देते हैं । युद्ध को देख कर उनमें अद्भुत भावावेश उमड़ता है । मध्ययुगीन राजपूनों की नाईं युद्ध में उनका जीवन^३ हंस उठता है^३ । युद्ध के समय उन्हें देखिये छाती में आंधी का साहस, भुजाएँ फड़कती हुईं, दिल उमंगों के शिखर पर चढ़ा हुआ, वाणी आग उगलने वाली । खतरे^४ और जोखम के प्रति^४ आकर्षण उनका स्वभाव है । बारडोली युद्ध के पूर्व उन्होंने एक बार कहा था “मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता । मैं ऐसे किसी काम में नहीं पड़ता जिसमें खतरा या जोखम न हो । जो आपत्तियों को निमन्त्रण दें, उनकी सहायता को मैं सदा तैयार हूँ ॥

कठोर मुख, दृढ़ जबड़े और शत्रु^५ के प्रति विनोद तथा ललकार से भरी आंखें जिनमें उनके लिये ब्यंग्य और जहर भरा है,^५ यह वल्लभभाई हैं ।

१—१ आ शैशवात् । २—२ जुगुप्सते सोर्धेभ्यः कृत्रिमेभ्यः । बीभत्सते (ऋतीयते) ऽसौ सव्याजेभ्य उपन्यासेभ्यः । ३—३ विषसति जीव कुसुमम् । ४—४ संशयसङ्घटे प्रति । ५—५ प्रत्यरातीनुषहास प्रचुरे (विदम्बनाबहुले, अवधीरगानिभरे) आह्वानपरे उपालम्भं व्यञ्जती विषं बोद्धमन्ती विलोचने ।

उनकी मुख मुद्रा से उनकी आन्तरिक^१ शक्ति^१ का पता चलता है । उनके व्यंग्य अपने विष के लिये अमर हैं । विरोधी के प्रति लोहे की भांति सख्त । इसीलिये उनसे छेड़खानी करने की हिम्मत लोगों को नहीं होती । विरोधी जानते हैं कि वह पीछे पड़ गये तो हमारी खैर नहीं ॥

संकेत—मालूम होता है कि.....तत्त्वों का बना है—अस्य महाजनस्थ हृदयं कालायसेनेव घटितमिति प्रत्ययो जायते । उसका चेहरा.....तदानने प्रतिमानमिव कठिनम् । जिस चीज़ को हाथ में लिया.....यदुपक्रमते न तद्वनवसाय्य विरमति (न तदनिर्वाहोपरमति), न चान्यत्रमना भवति । युद्ध को देखकर.....सम्पार्तं सम्प्रेक्षमायः सोद्भूतेनाविश्रयते भावेन । छाती में.....उगलने वाली—वक्षसि मासतस्येव रंहः, बाह्योः कियानपि परिस्पन्दः, चित्ते कोप्युल्लाससंशोभः, वाचि च ज्वलनज्वालोद्गारः ।

अभ्यास—४२

जगह-जगह सभायें और जलसे हुए और न्यायालय के निश्चय पर असन्तोष प्रकट किया गया । परन्तु सूखे बादलों से पृथिवी की तृप्ति तो नहीं होती । रुपये कहां से आवें और वे भी एक दम से बीस हजार ! आदर्श^१ पालन का यही मूल्य है^२, राष्ट्र सेवा मँहगा^३ सौदा है^३ । २० हजार ! इतने रुपये तो कैलाश ने शायद स्वप्न में भी न देखे हों और अब देने पड़ेंगे । उसे अपने पत्र में रोना रोकर चन्दा एकत्र करने से घृणा थी । मैंने अपने ग्राहकों की अनुमति लेकर शेर से मोर्चा नहीं लिया था । मैंनेजर की वकालत करने के लिये मेरी गर्दन किसी ने नहीं दबाई थी । मैंने अपना कर्तव्य समझ कर ही शासकों को^४ चुनौती दी^४ । जिस काम के लिये मैं अकेला जिम्मेदार^५ हूँ उसका भार अपने ग्राहकों पर क्यों डालूँ ? यह अन्याय है । सम्भव है जनता में आन्दोलन करने से दो चार हजार रुपये हाथ आजावें, पर यह सम्पादकीय^६ आदर्श के विरुद्ध है^६ । इससे मेरी शान में बट्टा लग जाता है । दूसरों को क्यों यह कहने का मौका दूँ कि 'दूसरों के बल पर फुलौड़ियां खाईं' तो कौन बड़ा

१—१ आन्तरी शक्तिः, अन्तः शरः । आन्तरिक व आभ्यन्तरेक कोदं प्रयास नहीं । २—२ निष्कृतिरेषा चरितौदार्यरक्षायाः (.....उदात्तचारित्ररक्षणस्य)

३—३ अति हि मूल्यं (महात्नाम दमः) राष्ट्रसेवायाश्चरितायाः । ४—४ आह्वये ।

४ प्रतिभूः । ६—६ इदं तु सत्तमं सम्पादकाचर्यमाचारं विरुधे ।

जग जीत लिया । जब जानते कि अपने बल बूते पर गरजते !' निर्भीक आलोचना का सेहरा^१ तो मेरे सिर बँधा^२, उसका मूल्य दूसरों से क्यों वसूल करूँ ? मेरा पत्र बन्द हो जाय, मैं पकड़ कर कैद किया जाऊँ, मेरे वरतन भाँडे नीलाम हो जायं, मुझे मंजूर है । जो^३ कुछ सिर पड़ेगी^४ सुगत लूंगा, पर किसी के सामने हाथ न फैलाऊंगा ॥

संकेत—जगह—जगह.....हुए—स्थाने-स्थाने सभा: समवेताः, बृहन्ति चाभिवेशनानि भूतानि । परन्तु सुखे बादलों.....नहि शुष्कघनगर्जितेनैव सन्तृप्यति धरा । मैंने अपने ग्राहकों कीनहीं दवाई थी—नाहमनुमान्य ग्राहकव्रजं प्रभवद्भिः शासितृभिव्यंगुल्लाम् (प्रभवतः प्रशासितन्समासदम्) । नहि कश्चित्संविधातुः पक्षोपं प्रसभमकारयन्माम् (प्रसभेन, प्रसह्य, हठात्, बलात्०) । विग्रह का सकर्मकतया भी प्रयोग हो सकता है । इसके स्थान पर वि-रुध् का भी प्रयोग हो सकता है । दूसरों को कहने का.....बूते पर गरजते = परेभ्य इति वक्तुं, किमित्यवसरं दिशेयम्—यदि परालम्बेनेष्टा अल्पेर्था निर्विष्टास्तर्हि किमतिदुर्जयं जितम् । शूरं त्वाऽगणयिष्याम परं चेदनपेक्ष्यागर्जिष्यः ।

अभ्यास—४३

वौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली^३ गायब^३ ! घबरा कर हूँघर उधर देखा तो कई कनस्तर^४ तेल के ^४ नदारद ! अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़^५ खाने लगा । प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे । सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ^६ देने लगी^६ —निगोड़े^७ ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई ।

अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहु और साहुआइन चढ़ बैठते और अण्ड बण्ड बकने लगते—वाह यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है । मुर्दा बैल दिया था, उस पर

१—१ सस्कारस्य महतो भाजनं जातः । २—२ या काचिदापदापतिष्यति माम् । ३—३ अर्थं भस्माऽनशत् । ४—४ तैलोदक्ताः, कुखः । ५ मोहितुमारब्धः । ६—६ शप्तमारब्ध । ७ लुद्र, हताश, नीच—वि० । ८ साधु, वार्धुषिक । साधुर्वाधुर्षिके चारौ सङ्घने चाभिधेयवत्—विश्वः ।

दाम मांगने चले हैं । आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले^१ बांध दिया^२, हमें निरा^३ पोंगा^३ ही समझ लिया । हम भी बनिये के बच्चे हैं, ऐसे बुद्ध नहीं, और होंगे । पहले^३ किसी गढ़े में मुँह धो आओ^३, तब दाम देना । न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल कर लेजाओ । महीना भर के बदले दो महीना जोत लो । और क्या लोगे ? हमारा सिर^४ ?

संकेत—पौ फटते हीथैली गायब—व्युष्टायामेव निशायां (विभातायामेव त्रिभावयाम्, प्रभातायामेव शर्वयाम्) विनिद्रोऽसौ (सुप्तो-त्थितः सः) ऋटिति हस्तेन कटिमस्पृक्षदर्थभस्त्रां च नष्टामदर्शत् । यहाँ व्युष्टमात्रायां निशायाम् इत्यादि भी कह सकते हैं । मात्रं कास्त्स्यैवधारणे—यह अमर का वचन है । जब मात्र-शब्दान्त विशेष्य हो तो नित्य नपुंस्क लिङ्ग होता है—नहि सम्पाठ मात्रमृगभवति ।वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् इत्यादि । विशेषण होने पर यह विशेष्य के लिङ्ग को ले लेता है, जैसा कि ऊपर के वाक्य में स्पष्ट है । कभी-कभी 'मात्र' शब्द स्वार्थ में भी प्रयुक्त होता है—प्रविष्ट-मात्र एवाश्रमं तत्र भवति निरूपणवानि नः कर्माणि संवृत्तानि—शकुन्तला । तावदेव तावन्मात्रम् । इस लिये प्रकृत में भी व्युष्टमात्रायामेव इत्यादि भी कह सकते हैं । निगोड़े ने लुट गई—अपसदेनानेन (दास्याः पुत्रेण) एवमलक्षण्यो बलीवर्दीर्पितो येन सर्वमायुरर्जितो नो द्रव्यराशिर्विलीनः । तब साहु और साहुआइन चढ़ बैठतेमांगने चले हैं—तदा साहु मन्युमाविक्षताम्, अस्ंबद्धं च बहु प्रालपिष्टाम् । अहो इतस्तु नः सर्वमायुरर्जितोर्धो विनष्टः सर्वस्वं च विध्वस्तम्, अयं तु मूल्यमेवानुबध्नाति (अस्य तु मूल्ये निर्बन्धः) । मृतप्रायो वृषो दत्तस्तत्रापि वस्नं वनुते । अहो धाष्टर्यम् । आंखों में धूल झोंक दी चक्षुष्मन्तोपि वयमन्धा इव कृताः शठेन ।

अभ्यास—४४

पण्डित समाज ने अलग एक निश्चय किया कि पण्डित मोटे राम को राजनीति में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं । हमारा राजनीति से क्या सम्बन्ध ? इसी वाद-विवाद में सारा दिन कट गया । और किसी ने पण्डित जी की खोज^५ खबर न ली^५ । लोग खुल्लम^६ खुल्ला कहते थे कि पण्डित जी ने १

१—१ अस्मासु भारो न्यस्तः । २—२ अत्यन्तबालिश—वि० । ३—३ कृतमाश्मनस्तावद्विद्धि । ४ ४ किमन्यदादातुमिच्छसि, किं शिरो नः कृतमिच्छसि । ५—५ नान्वैषत न चावैक्षत । ६—६ प्रकाशम् ।

हजार रुपये सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। बेचारे पण्डित जी ने रात लोट^१ पोट कर^१ काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे तो आंखें तिलमिलाने लगती थीं, सिर में चक्कर आ जाता था। पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थीं कि कोई मनाने तो नहीं आ रहा। सन्ध्योपासन का समय इसी प्रतीक्षा में कट गया। इस नित्य पूजन के पश्चात् नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुँह में पानी भी न गया था। न जाने वह शुभ घड़ी कब आवेगी। फिर पण्डिताइन पर क्रोध आने लगा। आप तो रात को भर^२ पेट खा कर^२ सोई होगी, पर इधर भूल कर भी न भांका कि मरे हैं या जीते हैं। कुछ^३ बात करने ही के बहाने^३ थोड़ा सा मोहन भोग न बनाकर ला सकती थी ? पर किसको इसकी चिन्ता है ? रुपये लेकर रख लिये, फिर जो कुछ मिलेगा, वह भी रख लेगी। मुझे^४ अच्छा उल्लू बनाया^४ ॥

संकेत—पर उठे तो शरीर मुर्दा-सा जान पड़ता था—उज्जिहानं तं स्व-देहो मृतकल्प एव प्रत्यभात्। खड़े होते.....तिलमिलाने लगती थीं—उत्तिष्ठतस्तस्य चक्षुरुपघातोऽभवत् (चक्षुष्प्रतिघातो भवत्, तैमिर्यमिवाभू-दङ्घोः)। पर इधर.....जीते हैं—इतस्तु प्रमत्तापि न दशमपातयद् भ्रियेऽहं भ्रिये वेति विज्ञातुम्।

अभ्यास—४५

एक सेठ जी एक बार काशी आये थे। वहाँ में भी निमन्त्रण में गया था। वहाँ उनकी और मेरी जान पहिचान हुई। बात^५ करने में मैं^५ पक्का फिकैत हूँ^५। बस, यही समझ लो कि कोई निमन्त्रण भर दे दे, फिर मैं अपनी बातों में ऐसा^६ ज्ञान घोलता हूँ^६, बेद शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करता हूँ कि क्या^७ मजाल कि यजमान उल्लू^७ न हो जाय^७। योगासन, हस्त-रेखा—सभी विद्याएँ जिन पर सेठों महाजनों का पक्का विश्वास है मेरी

१—१ पार्श्वपरिवर्तनैः, शय्यायां लुठनैः। २-२—उदरपूरं भुक्त्वा। ३-३—संकथां कामप्य पदिश्य। ४-४—मुष्टु मोहमापादितोस्मि। ५-५—अतितरां प्रबीणोस्मि वाचो युक्त्वा। ६-६—मदुक्तीर्शनेन संमिथयामि (संसृजामि, सम्पृणामि)। ७-७—कोऽस्य विभवो यजमानस्य यन्मोहं नापद्येतेति।

जिह्वा^१ पर हैं^१ । अगर पूछो कि क्यों पण्डित मोटे राम जी शास्त्री आपने इन विद्याओं को पढ़ा भी है ? इन^२ विद्याओं का तो क्या रोना^२, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा । पूरे लण्ठ हैं, निरक्षर महान्, लेकिन फिर भी किसी बड़े से बड़े पुस्तक चाटू, शास्त्र घोंटू पण्डित का सामना करा दो, चपेट न दूँ तो मोटेराम नहीं । जी हाँ चपेटूँ, ऐसा चपेटूँ, ऐसा रगे दूँ कि पण्डित जी को भागने का रास्ता भी न मिले । पाठक कहेंगे यह असम्भव है । भला एक मूर्ख आदमी पण्डितों को क्या रगेदेगा ? मैं कहता हूँ प्रियवर पुस्तक चाटने से कोई विद्वान् नहीं हो जाता । पण्डितोंके बीच मैं मुझे जीविका का डर नहीं रहता । ऐसा भिगो-भिगो कर लगाता हूँ—कभी दाहिने, कभी बाएँ, चौंधिया देता हूँ, सांस नहीं लेने देता ।

संकेत—वहाँ मैं भी निमन्त्रण में गया था—तत्राहमपि केतितोऽगाम् (केतितो निमन्त्रितः) । वहाँ उनकी और मेरी जान-पहिचान हुई—तत्रावयोर्मिथस्तत्प्रथमः परिचयोऽभूत् । लेकिन फिर भी.....को रास्ता न मिले—तथापि यदि सन्ध्याभ्रवहारिणा ग्रन्थिना धारिणा वा महतो महीयसा पण्डितेन संघर्षो मे जायेत्, तत्र च यद्वि न तन्निरर्जयामि (न तमभिभवामि, न तं बाधे) तदा नाहमस्मि मोटेरामशास्त्राः । बाढं तथा बाधेय तथा परिखिन्देयं (विप्रकुर्याम्) यथाऽसौ पण्डितप्रवेकः पलायितुमपि न लभेत । ऐसा भिगो-भिगो.....सांस नहीं लेने देता—तांश्च कदाचिद्दक्षिणे पार्श्वे कदाचिस्सव्ये तथा तीव्रमाहन्मि यथा निष्प्रतिभानापादयामि दुर्लभोच्छ्वासांश्च ।

अभ्यास—४४

“जी. बस इससे अधिक नहीं । हाँ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसी अनुष्ठान के लिये १० हजार ले लेंगे । लगेगा छद्दाई तीन सौ, शेष^३ अपने पेट में ठूस लेंगे^३ ।” अब भी मुझे उल्लू फंसाने का अच्छा मौका था । कह सकता था सेठ जी, आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से भी निकल^४ सकता है^४ । पर अगर^५ आप कहें^५ तो महा-महा सृष्ट्युब्जय पाठ व ब्रह्म प्रश्नक भी

१-१—इसनाग्रनर्तिन्यः, आस्ये मे लास्यं दधति । २-२—अलमाभिः कीर्तिताभिर्विद्याभिः । ३-३—शेषं स्वयमेव निगलिष्यन्ति (शेषेण स्वमुदरं मरिष्यन्ति) । ४-४—निष्पत्तुमर्हति (सेद्धुमर्हति) । ५-५—यदीच्छसि (यदि कामयसे) ।

कर सकता हूँ । हाँ, यह तो मेरी अबकी सूझ रही न ! उस वक्त अकल पर पत्थर पड़ गया था । मेरी भी विचित्र खोपड़ी है । जब सूझती है अवसर निकल जाने पर । हाँ मैंने निश्चय किया कि पण्डित धोंधा नाथ को बिना दस^१ पांच घिस्से^१ दिये न छाँड़ूंगा । या तो बेटा से आधा खा लूंगा या फिर यहीं बम्बई के मैदान में हमारी^२ उनकी उनेगी^२ । वे विद्वान् होंगे, अपनी बला से । यहाँ सारी जवानी अखाड़े में कटी है । भुरकुस निकाल लूँगा ।”

संकेत—लगेगा अढ़ाई तीन सौ—विनियोगस्तु (व्ययस्तु) सार्धयो रूप्यकशतयोरत्रयाणां वा रूप्यकशतानाम् । अब भी मुझे उल्लू फंसाने का अच्छा मौका था—अद्यापि शोभनोऽवकाशो मेऽन्धप्रायं जनमभिसंधातुम् । कह सकता था—शक्यमेतद्वक्तुम्, इदमिदानीं ब्रूयाम् । यहाँ ‘इदानीम्’ वाक्यालङ्कार में प्रयुक्त हुआ है, इसका कुछ अर्थ नहीं । जैसे—क इदानी-मुष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति—शकुन्तला । ब्रूयाम् = वक्तुं शक्नुयाम् । ‘शकि लिङ् च’ इस सूत्र से लिङ् हुआ है । लिङ् का विधान अर्थ-विशेष में तो किया है, काल-विशेष में नहीं । सभी कालों में प्रयोग हो सकता है । यहाँ लिङ् भूतकाल में होने वाली (जो भूतकाल में हो सकती थी) क्रिया को कहता है । भूतप्राणता चाप्रलिङः । हाँ, यह तो मेरी अबकी..... निकल जाने पर—इयं च मे सद्यः स्फूर्तिः । तत्कालत्पहतेव मे बुद्धिरभूत् । मम च विचित्रं मस्तिष्कम् । अतीत एवासरे प्रतिभाति मामर्थः । वे विद्वान् होंगे.....निकाल लूँगा—भवत्वेव स विद्वान्, किं ममानेन । अहं तु सर्व-मायुरक्षवाट एवात्यवीवहम् । नूनं चूर्णपेषं पेक्ष्यामि ।

अभ्यास—४५

तुमने मेरे^३ मन लेने के लिये^३ कहा । मैं ऐसी भोली नहीं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूँ । तुम्हारे दिल में मेरे आराम का विचार आया ही नहीं । तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी^४ मिल गई । एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है—महज खाने और कपड़े पर । वह भी जब घर भर की जरूरतों से बचे तब न ! पहचत्तर रूपक्लियाँ जाकर मेरे हाथ पर

१-१—पञ्चदशा आघाताः । २-२—आवयोद्धन्दं प्रवत्स्यति ।
३-३—ममाभिप्रात्यमभ्यूहितुम् । ४—दासी, परिचारिका, भुजिष्या ।

रख देते हो और सारी दुनियां^१ का खर्च^१ ! मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर ब्याँत करनी पड़ती है । क्या पहनूँ और क्या ओढ़ूँ तुम्हारे साथ जिन्दगी खराब हो गई । संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिये आसमान^२ के तारे भी तोड़ लाते हैं^२ । गुरुसेवक को ही देखो, तुम्हारे से कम पढ़ा है पर पांच सौ मार लाता है । रामदुलारी रानी बनी रहती है । तुम्हारे लिये ७५) ही बहुत हैं । राँड माँड में ही मगन । नाहक मर्द हुए । तुम्हें तो औरत होना चाहिये था । औरतों के दिल में कैसे-कैसे अरमान^३ होते हैं । पर मैं तो तुम्हारे लिये घर की मुर्गी का बासी साग हूँ । तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं । कपड़े भी चाहियें, खाना भी अच्छा चाहिये क्योंकि तुम पुरुष हो बाहिर से कमा कर लाते हो । मैं चाहे जैसे रहूँ, तुम्हारी^४ बला से^४ ॥

संकेत—तुमतो खुश थे.....जङ्गरतों से बचे तब न—चतुरा परिवारिका लब्धेख्यप्रियथाः । इयं हि विरलमेव भुङ्क्ते तूष्णीकान्वास्ते, केवलस्य कशिपुनः कृते शुश्रूषते । तदपि तदैव लभते यदा गृहे न्यार्थे विनियुक्ताच्छिष्येत । प्रो (ङ्) अकर्मक है, सकर्मक नहीं । माधवीय धातु वृत्ति इसमें प्रमाण है, शिष्टों के प्रयोग भी । 'तूष्णीकाम्' में 'काम्' स्वार्थ में प्रत्यय है । अमर के अनुसार 'कशिपु' नपुंसक है । विश्व के अनुसार पुल्लिङ्ग है और इसका एक साथ ही भोजन और आच्छादन भी अर्थ है—एकोक्तया कशिपुर्भुक्त्या छादने च द्वयोः पृथक् । मेरा दिल ही.....क्या पहनूँ और क्या ओढ़ूँ—हृदयमेव मे विजानाति यथाऽहं व्ययमपकर्षमपकर्षं कथं बिद् व्यवस्थापयामि । किं नु परिदधीय किंवाऽऽप्रावृण्वीय । राँड माँड में मगन—रण्डा मण्डे मिरक्ता । अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की रीति से ऐसा कहने में कोई दोष नहीं । भावानुवाद में ही आग्रह हो तो 'अल्पेनैव तुष्यति क्षुद्रः' ऐसा कह सकते हैं । पर मैं तो तुम्हारे^५ बासी साग हूँ—अहन्तु ते गेहसुलभोर्थ इति बहुवृणं मां मन्यसे । 'बहुवृणम्' में बहुच् प्रत्यय है । बहुवृणम्=वृणकल्पम् ।

अभ्यास—४८

फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो मालूम हुआ कि "उसकी कमर दूट गई है"^५ । पति के मरते ही पेट के लड़के उसके शत्रु हो जावेंगे, इसका उसे

१-१—नानार्थेषु चाति प्रचुरो व्ययः । २—२ अत्यन्तदुर्घटमपि घटयन्ति । ३—३ उत्सर्पिष्य आशाः । ४—४ किं तवानेन, न ते तच्चिन्त्यं मनागपि । ५—५ निरालम्बारिम जातेति ।

स्वप्न में भी गुमान न था । जिन लड़कों को उसने अपना हृदय-रक्त पिला-पिला कर पाला वही आज उसके हृदय पर यों आघात कर रहे हैं ! अब यह घर उसे काँटों की सेज हो रहा था, जहाँ उसका कुछ आदर नहीं, कुछ गिनती नहीं । 'वहाँ अनाथों की भाँति पड़ी-पड़ी रोटियों के टुकड़ों पर तरसे यह उसकी अपनी अभिमानिनी प्रकृति के लिये असह्य था' । पर उपाय ही क्या था । 'नाक भी उसी की ही कटेगी' । संसार उसे थूके तो क्या, लड़कों को थूके तो क्या ? बदनामी तो उसीकी है, दुनिया तो ताली बजायेगी कि चार बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी^३ करके पेट पाल रही है^३ । अब अपना और घर का पर्दा डंका रहने में ही कुशल है । उसे अपने को नई^४ परिस्थितियों के^४ अनुकूल बनाना पड़ेगा । अब तक वह स्वामिनी बनकर रही; अब लौंडी बनकर रहना होगा । अपने बेटों की बातें और लातें गैरों के बातों और लातों से फिर भी लाख गुना अच्छे हैं ॥

संकेत—पति के मरते ही.....गुमान न था—संस्थित एव भर्तारि (प्रमीत एव पत्यौ) औरसा मे सुता मयि शत्रूयिष्यन्त इति न तथा स्वप्नेपि सम्भावितमासीत् । वहाँ अनाथों की भाँति.....असह्य था—तत्रानाथव-त्पतिता रोटिकाशकलेभ्यस्ताभ्येयमिति मानिनी सा नासहिष्ट । संसार उसे थूके.....थूके तो क्या—लोकस्तां धिक्कुर्यात्तदात्मजान्वाधिक्कुर्यात् । दुनिया तो ताली बजायेगी—लोकस्तूहसिष्यति (लोकस्तु विडम्बयिष्यति) । अपने बेटों की बातें और लातें.....अच्छे हैं—तथापि स्वसुतानामाक्षेपाः प्रहाराश्व परकीयेभ्यस्तेभ्यः सुदूरं प्रकृष्यन्ते ।

अभ्यास—४६

प्रातः काल से कलह का आरम्भ हो जाता । समधि न समधि न से और साले बहनोई से गुँथ जाते । कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती । लड़के दूसरों के खेत में जाकर मटर^५ और गन्ने खाते और बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ^६ ठकुर सुहाती^६ करतीं । किसी भाँति घर में नाज आ

१—१ तत्रानाथवदवमता रोटिक शकलेभ्यस्ताभ्येयमिति मानिन्यास्तस्या अविषह्यमासीत् । २—२ संभावयथा तु स एव हास्यते (मानहानिस्तु तस्यैव भविष्यति) । ३—३ विष्ट-योदरं (विष्ट्या उदरं!) विभर्ति । ४—४ परिवृत्ताया अवस्थितेः । ५—सतीनक पुं० । ६—६ चाटु—नपु० ।

जाता तो उसे पीसे कौन ? शीतला की माँ कहती—चार दिन के लिये आई हूँ तो क्या चक्की चलाऊँ सास कहती—खाने के बेर बिल्ली की तरह ^१ लपकेंगी, पीसते तो क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वह महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आजाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती। दोनों ही उसे घुड़क ^२ देतीं। मां यह कहती तूने हमें यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती—मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है ! बेचारी के लिये कोई आश्रय न था।

संकेत—प्रातःकाल.....गुंथ जाते—कल्य एव कलि रारभ्यत वन्धाःश्वश्रुः पुत्रस्य श्वश्रवा श्यालश्च भगिनीपतिना समं दृढमकलहायेताम् । कभी तो अन्न के.....नौबत न आती—कदाचिदन्नाद्यवैकल्यादाहारो न निरवत्तंत कदाचिन्निर्वृत्तो प्यसौ शापप्रतिशापाभ्यां भोक्तुं नापार्यत । भोजन के समय तंग आजाते—भोजनवेलायां च तथोप्रोविग्रहोऽभूद्यथा प्रतिवेशिनो निर्विण्णाः अभूवन् । हमें यहाँ बुलाकर.....लिया—मामिह संनिधाप्य मानो में म्जानिं नीतः (गोरवं मे विग्नापितम्) ।

१-१ अभिरतिष्यन्ति । ३-तर्जयेते । ४-४ (अक्षिगतां) सपरनी मरुषाम्मुख्यमानोय (मया समानाधिकरणां प्राप्य) सम्प्रति व्यपदिशसि—

अनुबन्ध (Appendix)

पुस्तकान्तर्गत तारकाङ्कित (* चिह्न वाले) वाक्यों की मूल संस्कृत ।

अथमोःशः ।

अभ्यास—४

३—सर्वमुत्पादि मङ्गुरम् । १३—बोद्धारो मत्सरप्रस्ताः १५—गुरोरप्यव-
लिसस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथ प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥ १६
पापा ऋतुमती कन्या पापो राजा निरक्षरः । पापं व्याधकुलं हिंस्रं पापो विप्रश्च
स्त्वकः ॥ १७—कला शीघ्रा जरा पुंसां शीघ्रो मृत्युश्च दुस्तरः । यथा गिरिनदी-
स्रोतः शीघ्रं वर्षासमुद्भवम् ॥

अभ्यास—५

९—दिष्ट्या सोऽयं महाबाहुरञ्जनानन्दवर्धनः । यस्य वीर्येण कृतिनो वयं
अ भुवनानि च ॥

अभ्यास—६

६—अविवेकः परमापदां पदम् । ७—पदमापदि माधवः । ८—गुणाः
पूजास्थानं गुणेषु न च लिङ्गं न च वयः १२—मरणं प्रकृतिः शरीरिणां
विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः । १३—कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः । शरासनं
तेषु विकृष्यतामिदम् ॥ १४—सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः
करणं प्रवृत्तयः ।

अभ्यास—७

८—(रामः) क्षात्रो धर्मः श्रित इव तनुं ब्रह्मकोषस्य गुप्त्यै । ९—
कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं श्वापद् चेष्टितम् ।

अभ्यास—८

१—उर्वशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य,
प्रत्यादेशो रूप गर्वितायाः श्रियः । ८—अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं
सुखम् । १०—वरमेको गुणी पुत्रो न चं मूर्खशतान्यपि । एकश्चन्द्रस्तमो
हन्ति न च तारासहस्रकम् ॥ १४—सुवर्षापिण्डः खदिराङ्गारसवर्षे
कुण्डले भवतः ।

(२३७)

अभ्यास—६

७—अपि चेत्सुदुराचारो मज्जते मामनन्यभाक् । क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ।

अभ्यास—११

७—परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः । ११—विस्त्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकित्ता देशागतप्रत्ययाः । १४—दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत माऽपरम् ।

अभ्यास—१३

१—कायः सन्निहितापायः । आगमाः सापगमाः । ५—सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगान्ताः । १३—अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये नराः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ १४—काव्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

अभ्यास—१४

१—काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् । ४ देव, अयमेव मे प्रथमं परिवादकरः, अत्रभवतो मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरमिति । १५—सानुषङ्गाणि कल्याणानि । १७—नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ; नूपुरे स्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥

अभ्यास—१५

४—सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्तु कुलाङ्गनाः । १२ को दुर्जनवागुरासु पतितः क्षमेण यातः पुमान् ।

अभ्यास—१६

२—अपारे काव्यसंसारे कविरिव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विद्वं तथेदं परिवर्तते ॥ ९—व्यायामभ्रुण्णगात्रस्य पद्भ्यामुद्धर्तितस्य च । व्याघ्रयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः ॥ १६—क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति । १७—नाञ्जलिना पयः पिबेत् ।

अभ्यास—१७

११—नेश्वर आहृतयः कदाचित्पुण्यन्ति लोके विपरीतमर्थम् । १२—अत्यारूढिर्भवति महतामप्यपञ्चनिष्ठा ।

(२३८)

अभ्यास—१८

९—कियती पञ्चसहस्री कियती लक्षाऽथ कोटिरपि कियती । औदार्योन्नत-
मनसां रत्नवती वसुमती कियती ॥

अभ्यास—१९

६—अल्पस्यहेतोर्बहु हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् । ९—
(स) हि स्नेहात्मकस्तन्तरन्तर्मर्माणि सीव्यति । १४—दह्यन्ते ध्मायमानानां
धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते मलाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

अभ्यास—२२

१—गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ।

अभ्यास—२३

१—लभेत चा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत् ।

अभ्यास—२४

६—भद्रे, ईदृशी प्राणभृतां लोकयात्रा । न शोच्यस्ते सोदर्योऽसुभिर्भृतरा
मृण्यं गतः । ८ प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताम्यो बलमग्रहीत् । सहस्रगुणमुत्सृष्ट-
मादत्ते हि रसं रविः ॥ १०—जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते । १२—
अपि शक्या गतिर्जातुं पततां खे पतत्रिणाम् । नतु..... । १३—न वारये-
द्दगां धयन्तीम् । १६—गच्छतः-स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति दुर्ज-
नास्तत्र समादधति सज्जनाः । २३—प्रेयो मन्दो (योगक्षेमाद्) वृणीते ।

अभ्यास—२५

१—शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । ३—संगतं
मनीषिभिः सासपदीनमुच्यते ।

अभ्यास—२६

४—अप्रति संख्येयमनिबन्धनं प्रेमाण्यमामनन्ति शास्त्रकाराः । स्नेहश्च
निमित्तसव्यपेक्ष इति विप्रतिषिद्धम् । ६ तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्बन्ध-
क्तिहेतवः । हेम्नः संलक्षयते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकाऽपि वा ॥ ८—ब्रह्म तं
निराकराद्याऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद । १६—अशीतलोपचारहार्यो दर्पदाहज्वरोष्मा ।

अभ्यास—२७

८—पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवावमाने पि देहिन-
स्तद्वरं रजः ॥ ११—इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाह्वयं
उयोतिरासंसारं न दीप्यते ॥

अभ्यास—२८

१—अभिनवं वयोऽसंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेः । ३—भीतानि रक्षांसि दिशो द्रवन्ति । ८—कदा (वाराणस्याम्) अमरतटिनीरोधसि वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽल्लिपुटम् । अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन प्रसीदेत्या-
क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥

अभ्यास—२९

४—स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामप्रणीः । —निरुक्तमेनः कनीयो भवति । ७—महिमानं यदुत्कीर्त्यं तव संहियते वचः । श्रमेण तदश-
क्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ १६—पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भुः ।

अभ्यास—३०

१—उष्णत्वमग्न्यातपसम्प्रयोगाच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य । २—
शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः । नियमस्तु स यत्कर्मानित्यमागन्तु सा-
धनम् ॥ ३—सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः संभावनागुणमवेहि
तमीश्वराणाम् । ४—ऋजीषं वा एतद्यः संस्कारहीनः शब्दः । ५—ऋषयो
राक्षसीमाहुर्वाचमुन्मत्तदृप्तयोः । सा योनिः सर्वं वैराणां सा हि लोकस्य
निर्ऋतिः ॥ ६—अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतो सौ वृषभध्वजेन । ९
हृदयं तद्विविक्तं यद्भावमन्यच्चलं पलम् । शतैकीयाः सहृदया गण्यन्ते कथम-
न्यथा ॥ १०—स सम्बन्धी श्लाघ्यः प्रियसुहृदसौ तच्च हृदयम् ।
महाराजः श्रीमान् किमिव मम नासीद् दशरथः । ११—...तत्पुत्रभाण्डं हि
मे । १२—यो ह्युत्सूत्रं कथयेन्नादो गृह्येत । १३—नास्ति सत्यात्परो धर्मः,
नास्त्यनृतात्पातकं परम् । १६—अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यपोहति ।
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥

द्वितीयोऽशः ।

अभ्यास—१

३—दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः । ६—सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति । १०—
(खलः) सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि न पश्यति । आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न
पश्यति ॥ ११—कुकारुकस्यैकमनुसन्धिस्सतोऽपरं च्यवते । १२—ओदनस्य
पृष्ठाश्छात्रा विकुर्वते । १३—सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिरुधाम् ।
१७—प्रलपत्येष वैधेयः ।

अभ्यास—२

१—अद्यापि नोज्झति हरः किञ्च कालकृतं कूर्मो विभर्त्ति धरणीं खलु पृष्ठकेन । अम्भोनिधिर्वहति दुर्वह वाडवाग्निमङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ।
 ५—पिवन्त्येवोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्स्वपि । ८—य आत्मनापत्रपते भृशं नरः स लोकस्य गुरुर्भवत्युत । १०—स्वं कञ्जुकमेव निन्दति प्रायः शुष्कस्तनी (पीनस्तनी) नारी । १२—अमी भावा यतात्मानमपि स्पृशन्ति । १४—स्फुरति मे सव्येतरो बाहुः, कुतः फलमिहास्य । १६—एकः खलु महान्दोषः ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छद्दनायां शय्यायां निद्रां न लभे ।

अभ्यास—३

१—नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजति । ३—अनपत्ये मूलपुरूपे मृते सति तस्य ऋक्थं राजगामि भवति (तस्य सम्पदो राजानमुपतिष्ठन्ति) । ८—पश्य लक्ष्मण चम्पायां बकः परमधार्मिकः । शनैः शनैः पदं धत्ते जीवानां वधशङ्कया ॥ १०—नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । ११—यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥

अभ्यास—४

१—शब्दं नित्यमातिष्ठन्ते वैयाकरणाः । ४—मिथ्येते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ५—लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । ७—सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । ८—चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः । न शालेः स्तम्ब-करिता वसुर्गुणमपेक्षते ॥ १५—नहि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाव्यो नाधिप्रीयन्ते, नहि मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते ।

अभ्यास—५

१३ यस्य सिध्यत्ययत्नेन शत्रुः स विजयी नरः । य एकतरतां गत्वा विजयी विजित एवसः

१५—अशक्योऽयं व्याधिरस्याः । विनष्टा नामेयमिति मन्तव्यम् नास्याः प्रत्यापत्तिरस्ति ।

अभ्यास—६

१—याञ्जा हि पर्यायो मरणस्य । किमिदानीं परान्नेनात्मानं यापयामि ।
 ७—न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् । कामये दुःखततनां प्राणिना-
 म्मार्तिनाशनम् ॥

अभ्यास—१६

७—उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ।

अभ्यास—१७

५—अपि ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि । ७—उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः । ८—तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् । ९—प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति । १३—उत्परस्यते स्ति मम कोपि समानधर्मा कालो ह्यय निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ।

अभ्यास—२०

१—गृहाय शस्त्रं यदि सर्गं एष ते । २—शिव्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् । ३—शकुन्तले, आचारं तावत्प्रतिपद्यस्व । ८—तद् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया । १५—तीर्थोदकं च समिधः कुसुमानि दर्भान् । स्वैर वनादुपनयन्तु तपोधनानि ॥

अभ्यास—२१

१—स्वं नियोगमशून्यं कुरु । ८—उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा-
स्त्रिबोधत ।

अभ्यास—२२

२— ६—प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती
श्रुतिमहती महीयताम् । ८—मान्यान्मानय रिपूनप्यननुनय । १९—
श्वेतकेतो ! वस ब्रह्मचर्यम् । न वै सोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव
भवति ।

अभ्यास—२४

३—यः प्रीणयेत्सुचरितैः पितरं स पुत्रः । ४—स सुहृद् भ्यसने यः
स्यात् । ५—जालयेत्पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत् । प्राप्ते तु षोडशे
वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥ ६—सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
१७—त्वया वयं मघवस्त्रिन्द्र शत्रून् भिष्याम महतो मन्यमानान् (ऋक्) ।
१८—प्रत्यकशिरा न स्वप्यात् ।

(२४२)

अभ्यास—२५

१—कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेर्धैर्यच्युतिं के मम चन्विनोऽन्ये । ४— न तत्परस्य विदधीत प्रतिक्लृप्तं यदात्मनः । ५—सर्वस्माज्जयमन्विच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम् । ८—एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः । १०—अनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं वैतनेयमप्यासादयेयम् । ११—आहूतो न निवर्तेत घृतादपि रथादपि ।

अभ्यास—२६

५—विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वाविषमीश्वरच्छ्रया । ७—तद् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । ८—अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्थवे ।

अभ्यास—२७

१३—यदि सुरमिमवाप्त्यस्त्वनमुखोच्छ्वासगन्धं तव रतिरभविष्यत्पुण्डरीके किमस्मिन् ।

अभ्यास—२९

२०—वायीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वैयासिकीमन्तस्तन्त्रमरंस्त पञ्चगवीगुण्फेषु चाजागरीत् । वाचामाचकलद्रहस्यमखिलं यश्चाक्षपादस्फुरां लोकेभूषदुपज्ञमेव त्रिदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ मल्लिनाथः कविः सोऽयं दुर्व्याख्याविषमूर्च्छिताः । काक्षिदासकृतीर्व्याचष्टे ।

अभ्यास—३०

१—अपां सोमममृता अभूम (ऋक्) । १४—येयं पौर्णमास्यत्तिक्रान्तास तस्यामग्नीनाधित ।

अभ्यास—३१

११—क्लेश्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्स्वयमुपपद्यते । १२—मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वला (अथर्व०) ।

अभ्यास—३२

१०—अमन्धि मुरवैरिणा पुनरमायि मर्यादया

अहावि मुनिना मुखे वशमनायि लङ्कारिणा ।

(२४३)

अलङ्घि कपिनाप्यसौ सुखमतारि शास्त्रामृगैः

क्व नाम वसुधापते तव यशोनिधिः क्वाग्नुधिः ॥

अभ्यास—३३

५—अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वाऽपि विषयाः, वियोगे को भेदस्त्वञ्जि न जनो यत्स्वयममून ।

अभ्यास—३४

१—जघान कंसं किल वासुदेवः । ८—बहु जगद् पुरस्तात् तस्य मत्ता किलाहम् । १२—व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्टा विनेदुः प्लवंगा दिशः सस्व-
नुश्च । चचालेव चोर्षा पपातेव सा द्यौर्बलं राक्षसानां भयं चाविवेश ॥

अभ्यास—३५

६—अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं शमयति परितापं क्वाचक
संश्रितानाम् । १५—त्रिः पक्षस्य केशश्मश्रुजोमनखान् संहारयेत् ।

अभ्यास—३६

१—व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोपि हेतुर्नहि बहिरुपाचीन् प्रीत्यः
संश्रयन्ते ।

अभ्यास—३७

१—मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चि-
न्मां वेत्ति तत्पतः ॥ १२—अकारणद्विषः कांश्चित्परार्थेनोदरम्भरीन् यो जिगीषति
हादेन स वाचां विषयोस्ति नः ॥ (श्री गान्धिवचरिते) ।

अभ्यास—३८

२—यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः । ३—
विवक्षता दोषमपि द्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम् । ४—हाहा-
हलं खलु पिपासति कौतुकेन काज्जानलं परितुल्लुम्बिषति प्रकामम् । व्यासाखिं
च यतते परिशुभुमद्धा यो दुर्जनं वशयितुं कुहते मनीषाम् ॥ ५—सा निर्मितः
विश्वसृजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्यद्विदक्षयेव । ६—अन्येषुरात्मानुचरस्य यावत्
जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुर्.....गौरी गुरोर्गङ्गारमाविवेश ॥ ७—मच्छिनायः
कविः (सोऽयं) मन्दात्मानुजिघृक्षया । व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रय (मन्दा-

(२४४)

कुलम्) ॥ १२—इयं सा मोक्षमाशानामजिह्वा राजपदतिः । १३—कुर्वन्ने-
वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः) ।

अभ्यास—३६

२—प्रभवति हि तातः स्वस्य कन्यकाजनस्य ; ५—हिमवतो गङ्गा
प्रभवति ।

अभ्यास—४०

१०—ओदनस्य पूर्वादिछात्रा विकुर्वन्ते । ११—विकुर्वन्ते सैन्धवाः = (साधु-
दान्ताः शोभनं वलगन्तीत्यर्थः) । १७—रोहिण्यां छन्दांस्युपाकुर्यात् ।

अभ्यास—४१

२—समिधमाहर सौम्य, उप त्वा नेप्ये । ६—नहि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्र-
क्षाण्डालवेद्मनः । ८—पैतृकमश्वा गतमनुहरन्ते । १९—कथं कार्यविनिमयेन
मयि न्यवहरत्यनात्मज्ञः । २०—तथापि राजपरिग्रहोऽस्य प्रधानत्वमुपहरति ।

अभ्यास—४२

४—संयोगा विप्रयोगान्ताः ।

अभ्यास—४३

२—यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावद्गामायणकथा
ज्ञोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ४—स्थाने सा देवीशब्देनोपचर्यते । १७—तत्र किञ्च
विराघदनुकबन्धादयो भिचरन्ति । १८—पुत्राः पितृनृत्यचरन् नार्यश्चात्यच-
रन्पतीन् ।

अभ्यास—४४

१७—कस्यां कलायामभिविनीते स्थः । १९—सन्मार्गालोकनाय व्यप-
बन्धु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ।

अभ्यास—४६

२—क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणम् । ३—त्रिवेकभ्रष्टानां भवति विनि-
धातः शतमुलः । १४—

(२४५)

अभ्यास—४७

२—प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः । ८—यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वात्स
परमं मम । ९—चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।

अभ्यास—४८

६—यस्त्वद्यु तदुल्लवते यद्गुरु तन्निषीदति । ११—उत्सीदेयुरिमे लोका
न कुर्यां कर्म चेदहम् । १३—

अभ्यास—४९

१२—विनिश्चेतुं शक्ये न सुखमिति वा दुःखमिति वा ।

तृतीयोऽशः ।

अभ्यास—१

१०—अन्वर्जुनं धानुष्काः । उप पाणिनि वैयाकरणाः । १२—विना
वातं विना वर्षं विद्युत्प्रपतनं विना । विना हस्तिकृतान्दोषान्केनेमौ पातितौ
द्रुमौ ॥ १४—अर्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यं न । १५—मामन्तरेण
किंनु चिन्तयति गुरुरिति चिन्ता मां बाधते । १८—नाना नारीं निष्कला
लोकयात्रा । (अन्यत्राप्युक्तम्)—न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।

अभ्यास—२

१—शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । ५—दूरीकृताः
खलु गुणैरुद्यमानता वनजताभिः । ११—सहस्रैरपि मूर्खाणां एकं क्रीणीक
पण्डितम् । १२—हिरण्येनार्थिनो भवन्ति राजानः, न च ते प्रत्येकं दण्डयन्ति ।

अभ्यास—३

१—परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् । धर्मसंस्थापनार्थाय संव-
वामि युगे युगे ॥ ८—उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । १०—अस्म-
मिदमुत्साहभ्रंशाय भविष्यति ।

अभ्यास—४

१—आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्माचरन्नात् । ११—स्वार्थात् सतां गुरुतरा
प्रणयिक्त्वैव । १२—अभिमन्युर्जुनतः प्रति, प्रद्यम्नश्च कृष्णात् प्रति ।

१४—नास्ति सत्यात्परो धर्मो नास्त्यनृतात्पातकं परम् । १७—संशप्तकास्तु
समयात्संप्रामादनिवर्तिनः ।

अभ्यास—५

२—निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम । ३—त्वं लोकस्य वावमीकिः,
नम पुनस्तात एव । ४—तस्मै कोपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणाऽऽत्मनः प्रभव-
िष्यामि । ५—कञ्चिद्भर्तुः स्मरसि सुभगे त्वं हि तस्य प्रियेति । ६—अल्पस्य
हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् । ८—कोतिभारः समर्थानां
किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥
११—तेषामाविरभूद् ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः ।

अभ्यास—६

९—चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् । केशेषु चमरीं हन्ति
श्रीमिन् पुष्कलको हतः ॥

अभ्यास—७

२—अलमुपालम्बेन । पत्तने विद्यमाने ग्रामे रत्नपरीक्षा । ३—हृदमवस्था-
न्तरं गते तारशेऽनुरागे किं वा स्मारितेन । ४—पौरवे वसुमतीं शासति को-
ऽभिनयमाचरति प्रजासु । ५—अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां किं दीपिकापौन-
स्येन । ६—जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । मातृमिश्रिन्त्यमानानां ते
हि नो दिवसा गताः ॥ ८—जतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः । ९—
बिपदि हन्त सुधापि विषायते । १४—हते मीप्से हते द्रोणे कर्णे च विनिपा-
सिते । आशा बलवती राजन् शक्यो जेष्यति पाण्डवान् ॥

अभ्यास—८

१—नन्दाः पशव इव हताः पश्यतो राक्षसस्य । ७—तस्मिन् जीवति
जीवामि मृते तस्मिन्नपि म्रिये । १२—आः कोयं मयि स्थिते चन्द्रगुप्तममि-
बधितुमिच्छति । १६—एष पश्यतामेव व एनं यमसदनं नयामि ।

अभ्यास—९

१—यमेवैष वृष्टुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृष्टुते तनुं स्वाम् । ३—
विषवृक्षोपि संवर्ष्यं स्वयं छेत्तमसाग्रतम् । ७—हन्ति नोपशयस्थोपि शया-
च्छर्ङ्गयुसृङ्गान् ।

अभ्यास—१०

४—सहैव दशभिः पुत्रैर्भारं वहति गर्दभी । ५—अक्षं महीपाल तव अमेघ प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् । २३—अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा ।

अभ्यास—११

३—स्वाध्यायान्मा प्रमदः । ४—विघ्नविहता विरमन्ति ते कर्मणः (प्रारब्धात्) । ५—संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ ६—नेहा भ्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ७—इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि । ९—पाहि नो धूर्त्तराव्णः (ऋक्) । १०—विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरे-दिति । १३—मृत्योर्विभेषि किं मूढ न स भीतं विमुञ्चति । अथ वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः ॥

अभ्यास—१२

१—विचित्रा हि सूत्राणां कृतिः पाणिनेः । ३—लोके गुह्यत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति । ४—न जातु कामः कामानामुपभोगेन शा-म्यति । हविषा कृष्यवस्त्रैव भूय एवाभिवर्धते ॥ ६—गन्तव्या ते वसतिर-लका नाम यक्षेश्वरायाम् । ८—सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः । छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते ज्ञोभमोहिताः ॥ २०—छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम् । प्तानि दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥

अभ्यास—१३

१—विपदि धैर्यमथान्युद्ये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । यशसि चाभिरुचिर्भ्यसनं श्रुतौ ऋतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥ ४—को भूषण-विक्रयं नरपतौ संभावयेत् । ८—देव शास्त्रे प्रयोगे च मां परीक्षितुमर्हसि । १७—न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्मृदुनि मृगशरीरे तूलराशा-द्विवाग्निः । १८—कस्मिंश्चित्पूजार्हेऽपराद्धा शकुन्तला ।

अभ्यास—१४

१—ते च प्रापुरुदन्वन्तं क्षुधे चाद्रिपूरुषः । ७—द्विः शरं नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति नाश्रितान् । (ईर्ददाति न चार्थिभ्यो) रामो द्विर्नाभिभाषते ॥

११—प्रायः समानविद्याः परस्परयशःपुरोभागा भवन्ति । १२—नृषोनापि कार्यं भवतीश्वराणां किमङ्ग वाग्धस्तवता नरेण ।

अभ्यास—१५

१—परुद्धवान्पटुरासीदैषमस्तु पटुतरः । ६—यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्य-
तितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ १०—कोऽद्धा
वेद यच्छ्रुवो भविता (श्रीगान्धिवचरिते) । १६—नोलूको प्यवलोकते यदि
दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् । १९—यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

अभ्यास—१६

१—प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् । ३—क्व सूर्यप्रभवो वंशः
क्व चाल्पत्रिषया मतिः । ४—यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमचिवेकित । एकैकम-
प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥ ५—वैदेशिकोस्मीति पृच्छामि कोऽसौ
राष्ट्रिय इति । ६—न खलु तामभिक्रुद्धो गुरुः । ११—एकमेव वरं पुंसामुत
राज्यमुताश्रमः । १७—ओमित्युच्यताममात्यः ।

अभ्यास—१७

१—जयसेने ! ननु समाप्तकृत्यो गौतमः । अथ किम् । ३—अपि जीवेत्स
ब्राह्मणशिशुः । ८—इन्त ते कीर्तयिष्यामि दिव्या ह्यात्मर्षभूतयः (विभूतीः) ।
९—आर्ये, उरभ्रसम्पातं पश्यामः । मुषा वेतनदानेन किम् । ११—मया नाम
सुगन्धचातकेनेव शुष्कघनगर्जिते गगने जलपानमिष्टम् । १२—निर्धारितेथं लेखेन
खलूक्त्वा खलु वाचिकम् । १९—बाढं ब्रवीषि, अत्रियन्त्रितत्वात्ते तुण्डस्य ।
२०—आशीविषो वा संक्रुद्धः सूर्यो वाऽभ्रविनिर्यतः । भीमोन्तको वा समरे
गदापाणिरदृश्यत ॥

अभ्यास—१८

३—उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भू । १२—तपोधनानां हि
लपो गरीयः ।

अभ्यास—१९

१—सुभगसखिन्नावगाहाः पाटल संसर्गसुरशिवनवाताः । प्रच्छाप सुखम-

निद्रा द्विवसाः परिणामरमणीयाः ॥ १०—बहुवक्त्रभा हि राजानः श्रूयन्ते ।
१५—शरदभ्रचलाश्चलेन्द्रियैरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः ।

अभ्यास—२०

२—क्रीडालोलाः श्रवणपरुषैर्गर्जितैर्भाययेताः । ५—मान्यः स मे स्था-
चरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः । ११—त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया दशपरा च ।
१२—को विचारः स्वोपकरणेषु । किन्त्वरण्यक्षरा वयमनभ्यस्तरथचर्याः ।

अभ्यास—२१

११—चञ्चद्भ्रजभ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य ।
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तं सयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥

अभ्यास—२२

१—वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता । ५—न्याय्यास्पथः प्रविचलन्ति पदं न
धीराः । ७—असुर्यं वा एतत्पात्रं यच्चक्रष्टतं कुलालकृतम् । १२—सौभ्रात्र-
मेषां हि कुलानुसारि । १३—श्वस्त्वया सुखसंवित्तिः स्मर्तव्याऽधुनातनी ।

अभ्यास—२३

१८—निसर्गशालीनः स्त्रीजनः ।

अभ्यास—२४

३—आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽनुप्रष्टा । १४—वेपथुश्च शरीरे मे त्वक्
चैव परिदह्यते । १६—जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । तानि कृत्या-
हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः । १८—भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीवि-
नाम् । अष्टयश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवाण्वः ॥ १९—समानायां शब्देन
चापशब्देन चार्थावमतौ शब्देनैवार्योऽभिधेयो नापशब्दैः ।

अभ्यास—२५

३—त्रिराचामेदपः पूर्वं त्रिः प्रसृज्यात्ततो मुखम् । ११—१२—सुहृदपि
न याव्यः कृशधनः । विपद्युच्चैः स्थेयं पदममनुविधेषं च महताम् ॥ २०—मे-
घोद्गरविनिर्मुक्ताः कर्पूरदलशरीतलाः । शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केत-
कगन्धिनः ॥

(२५०)

चतुर्थोऽंशः ।

अभ्यास—१

४—श्वस्त्वया सुखसंवित्तिः स्मर्तव्याऽधुनातनी । इति स्वप्नोपमान्मत्स्यः
कामान्मा गास्तदङ्गताम् ॥ ५—सुलभा रम्यता लोके दुर्लभं हि गुणार्जनम् ।
६—परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्तु पुरुषः । १०—विप्रकृतः पन्नगः फणां
कुरुते । १२—मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता ।

अभ्यास—२

१२—तीर्थान्मयाऽभिनयविद्या शिक्षिता । दत्तप्रयोगश्चास्मि । १४—
अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीशमहे यावदर्धम् ।

अभ्यास—४

८—भगवते व्यवनाय मां प्रणिपातय ।

अभ्यास—५

३—सुहृज्जन संविभक्तं हि दुःखं विषह्य वेदनं भवति ।

अभ्यास—७

५—क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति । क्षतात् त्रायत इत्यर्थे क्षत्र-
शब्दो भुवनेषु कूटः । ८—भूष्णु वै सत्यम् (काठक) ।

अभ्यास—८

१—यथा गवां सहस्रेषु वसो विन्दति मातरम् । तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारं
प्रतिपद्यते ॥ ६—न ह्युत्पथप्रस्थितः कश्चिद् गन्तव्यं स्थानं गतः ।

अभ्यास—९

१—रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामेहः । ५—अनिर्वेदमाप्थाणि
श्रेयांसीति नात्मानं पूर्वामिरसमृद्धिमिरवमन्येत । ६—अहो परावृत्तभागधे-
वानो दुःखं दुःखानुबन्धि । ८—अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतः ।

विज्ञप्तिः

अद्यत्वे मुद्रण व्यवस्था न साधवी, सीसकाक्षराणि च भूयसा जीर्णानीति-
 क्वचि क्वचिदत्र पुस्तके त्रुटिता मात्राः पतितानि वर्णानि लुप्तानि च इज्जुः-
 स्वारयोश्चिह्नानि । अक्षरसौक्ष्म्याच्च वकारवकारयोर्व्यत्यासोपि बहुको-
 ऽभूत् । अहमाम्नावलेऽवर्तिषि मुद्रणं च वाराणस्यामिति वैयधिकरण्यादन्य-
 त्रापीप्सितं संशोधनं नापार्यत विधातुम् । तेन विदुषः क्षमां याचमानैरस्माभि-
 रक्षरभोजककृतास् तेते प्रमादाः संशोधनसहचरिताः साम्प्रतमिहानुक्रमेणोप-
 न्यस्यन्ते ।

संशोधनम्

पृष्ठे	पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
१	२४	इसी	'राम ने रावण को मारा' इस्
३	२	सवर्योषितां	सर्वैर्योषितां
५	१३	पहले बता	जैसे पहले बता
१४	१	ससाहद्वयं	ससाह द्वयं
११	११	याथवा	अथवा
१७	११	रथान	स्थान
१७	१५	मद्धितीयः	मद्वितीयः
१८	२७	प्रयोगाद् व्यन्ते	प्रयोगाद् व्यन्ते
१९	१८	मी तो	तो मी
२०	१४	उन	इन
११	३०	भूयेत	भूयते
२१	११	मधुरमासा	मधुरमासौ
२२	५	योग	प्रयोग
२२	१०	सेवा	सेवां
२७	७	लृट्	लट्
११	९	आता है	आता
२९	२५	शब्द जोड़	जोड़

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्
३०	७	व्यङ्ग्यार्थ	व्यङ्ग्यार्थ
३१	३	निमम्	निमम् आननम्
३१	८	पूर्वशङ्खान्नायाम्	पूर्वशङ्खान्नायाम्
३१	१६	दीयताम्	दीयन्ताम्
३२	१७	श्रमित	अभित
३४	२	किसी के	किसी वाक्य के
३५	१९	कारिका	कारिका का
३५	३०	अनुगृहाणे मे	अनुगृहाणेमं
३८	१४	चर	चर्
३९	१५	तप	तप्
४०	७	वाह्य	वा ह्य
४३	६	शतुर्दश	चतुर्दश
४५	२८	विधी	विधि
५९	१३	कोटयः	विंशतयः
६०	८	कामप्यपूर्वा	कामप्यपूर्वा
६१	४	उन के	इन्द्रियों के
६८	१३	दृष्ट्यां	द्रष्ट्यां
७१	२६	कृषिन	कृषिर्न
७२	७	स्वर्ग	स्वर्ग
७३	२६	आलपावेन	आप्लावेन
८३	२६	प्रस्	प्रस्
८५	२८	स्त्रम्	स्त्रम्
८७	११	चतस्र	चतुरस्रं
८१	७	आर्यैव	आर्यैष्व०
९५	७	उपायच्छत्	उपायच्छत
९६	२३	व्यजानाद्	व्यजानाद्
११	११	सर्वत्रावाज्ञायता	सर्वत्रावाज्ञायते ।
१०२	२१	दिष्वा०	दिवा० आ०
१०५	२८	अमु	अनु

पृष्ठे	पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
११०	१९	माः	गाः
११३	१२	साहाय्यं	साहाय्यं
११६	१९	ठक्षिणेन	दक्षिणेन
"	२१	गया	नहीं गया
१२०	२५	ईश्वरे	ईश्वरे
१२१	६	प्रागहीद	प्राग्रहीद
"	"	अहमस्ताषिषम्	अहमस्तासिषम्
१२२	१२	शिक्षकरूपाय	शिक्ष करूपाय
१२३	२०	सर्वैर०	सर्वैर०
१२८	१७	स्वलयनि	स्वलयति
१३०	२८	अभ्यास के स्	अभ्यास से परले स्
१३१	२६	शैषकी	शैषिकी
"	२७	सज्जनभाषित	सज्जनभाषितं
"	२८	चतुर्थ	चतुर्थी
१३३	३	नात्मानि	नात्मनि
१३४	१२	रिपन०	रिपून०
१४४	१५	खद्	सद्
"	२१	वश्यतया	वश्यतया
"	२८	नैव	नैष
१४५	२२	सुमनसो	सुमनसो
१४७	१७	तसिनद्योशिव	तसिनद्योश्च
१५४	१९	दशान्ताङ्कु	दशान्ताङ्कुः
१६०	५	प्र + त्रू	प्र + भू
"	११	व्यावसायो	व्यवसायो
१६२	२१	सर्वकर्मा०	सर्वकर्मा०
१६४	१९	देशरूप	देशरूपं
"	२८	प्रत्येष	प्रायेष
१६५	२९	वातत्येव	वात्येव
१६७	१७	जयसेन	जयसेने

पृष्ठे	पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
१६८	१६	विजेष्यते	विजेष्यते
१७१	१७	कुर्वन्शक्यः	कुर्वन्शक्यः
"	२७	श्रवणभैरवेणः	श्रवणभैरवेण
१७२	२६	वातारंहसः	वातारंहसः
"	२७	मतङ्गकः	मतङ्गजः
१७६	१०	ग्रहिल	ग्रहिल
"	२८	अभिरूपक	आभिरूपक
"	"	स्वाभाविक	स्वाभाविक
"	२९	औत्पत्तिक	औत्पत्तिक
१८०	३	प्रभृताः	प्रभृताः
१८४	१७	ब्रह्मचारीभिः	ब्रह्मचारीभिः
१८६	२४	वैद्यतः	वैद्युतः
१९०	२४	जागति	जागति
१९१	३	विजिगीषा	विजिगीषा
१९२	६	निर्वोदुं	निर्वोदुं
१९३	३०	अदूषितो	अदूषिता
१९४	११	सम्पदस्०	सम्पदस्०
"	१३	सेत्स्यति	सेत्स्यति
१९५	१२	°माविलयतोस्ते	°माविलयतस्ते
"	"	ऽजननि	ऽजननिर्
"	"	द्वयोरेव	द्वयोरेष
"	१७	निर्मौक्तुम्	निर्मौक्तुम्
"	२७	जीवेथम्	जीवेथम्
१९६	१६	द्वाःस्थायोपप्रदानं	द्वाःस्थायोपप्रदानं
"	१८	नह	न हि
"	१९	प्रवेष्टुं	प्रवेष्टुं
"	२३	परमसौ	परमसौ
"	२४	भवान्	भवान्
"	२५	°त्रिवोदुमपि	°त्रिवोदुमपि

पृष्ठे	पङ्क्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
१९६	२८	सपीथि०	सपीति०
१९७	२८	ऋये	ऋये
१९८	४	०माभिधत्से	०मभिधत्से
१९८	५	महार्था०	महार्था०
"	"	लमते	लमते
"	२५	०च्छाऽचस्य	०च्छाऽचस्य
१९९	२	बा	बालं
"	"	ऽटहासं	ऽटहासं
"	५	यथात्कृते	यथा तत्कृते
"	६	मन्य०	मन्य०
"	७	कीस धुता	की साधुता
"	२७	दुग्धं	दुग्धं
२००	१	०निष्ठान०	०निष्ठान०
"	२८	किम्	किम्
२०१	२९	शान्त पापम्	शान्तं पापम्
२०२	६	ऽपहिये	ऽपहिये
"	२६	ज्योतीषि	ज्योतीषि
२०३	३	हानिर्भे	हानिर्भे
"	५	मुष्टिमेघं	मुष्टिमेघं
२०५	२४	विलिङ्ग०	लिङ्ग०
"	२५, २६, २८	शक्यं	शक्यं
२०६	२७	भूयिष्ट	भूयिष्ट
२०७	२७	अनुशिष्टेः	अनुशिष्टेः

संस्कृत-व्याकरण-सार

लेखक—

प्रो० रामचन्द्र शर्मा एम० ए०, प्रोफेसर

डी० ए० वी कालिज, जालन्धर ।

द्वितीय संस्करण

मूल्य ६) रु०

कालेज के छात्रों की या साधारण जन को संस्कृत भाषा के प्राचीन ढंग के व्याकरणों (अर्थात् सिद्धान्त कौमुदी आदि) को उपयोग में लाने की बड़ी कठिनाई को देखकर ही उक्त प्रोफेसर जी ने अंग्रेजी ढंग से सरल हिन्दी में संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया है, जिसे साधारण व्यक्ति भी स्वयं उपयोग में लाकर संस्कृत जैसी कठिन भाषा को बड़ी सरलता से सीख लेता है । यही कारण है कि प्रायः कालेजों के छात्र इसे ही अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं ।

मोतीलाल बनारसीदास

चौक, बनारस ।

